

बृहद् हिंदी ग्रंथ-सूची

परिशिष्ट १९६६

(हिंदी वाङ्मय के ग्रंथो तथा ग्रंथकारो की विस्तृत नामावली)

१५५५०



संपादक

यशपाल महाजन तथा कृष्णा महाजन



भारतीय ग्रन्थ निकेतन
दिल्ली-६

महाजन, यशपाल, १९३२- तथा कृष्णा महाजन, १९३३-
बृहद् हिंदी ग्रन्थ-सूची - परिशिष्ट १९६६. प्रथम संस्करण
दिल्ली, भारतीय ग्रन्थ निकेतन, १९६७.

पृ. २८, १४१. २५ खेंची

हिंदी वाङ्मय के ग्रंथों तथा ग्रन्थकारों की विस्तृत नामावली.

१. छास्या. २ हिंदी वाङ्मय.

३ महाजन, यशपाल, १९३२- ४ महाजन, कृष्णा, १९३३-


O15 54 [1]


a14.3152,N67

भा. प्र. नि. १६

१५५५०

प्रथम संस्करण : १९६७



सूची  रचने वाले

© यशपाल महाजन तथा कृष्णा महाजन

प्रकाशक भारतीय ग्रन्थ निकेतन, १३३ वाजपतिया मार्ग, दिल्ली-६

मुद्रक : स्वामी कृष्णानन्द, राठ्ठू भारतीय प्रेस, दरियागञ्ज, दिल्ली-६



भूमिका

इस ग्रंथ-सूची का अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हिन्दी साहित्य में यह अपने ढंग की पहली और अनूठी पुस्तक है, जिसमें यह प्रयत्न किया गया है कि हिन्दी बाङ्गमय के समस्त ग्रंथों तथा ग्रंथकारों की विस्तृत जानकारी मिल सके। सामान्यतः पुरानी पुस्तकें लुप्त होती रहती हैं और नवीन रचनाओं का प्रादुर्भाव होता रहता है, परन्तु जो सदर्थ-ग्रंथ बन जाता है उसका स्थायी महत्व रहता है और वह एक सग्रहणीय वस्तु बन जाती है।

ग्रंथालयी ही नहीं अपितु प्रत्येक विद्वान, शिक्षा-शास्त्री, पुस्तक-विक्रेता तथा प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति यह जानना चाहता है कि।

अमुक लेखक की कौन-कौन-सी पुस्तकें उपलब्ध हैं ?

अमुक पुस्तक का लेखक, अनुवादक अथवा संपादक कौन हैं ?

अमुक पुस्तक का प्रकाशक कौन है ?

अमुक पुस्तक का विषय क्या है ?

अमुक पुस्तक का मूल्य क्या है ?

इस सूची में यथासम्भव हर प्रकार की जानकारी देने का प्रयत्न किया गया है।

ग्रंथ-सूची-जैसे सदर्थ कोषों के निर्माण और उसके सफल-संपादन में बड़े धैर्य एवं लगन की आवश्यकता पड़ती है। हमने यथासम्भव हिन्दी के सभी प्रकाशकों को उपसब्ध सूचियों को एकत्र करके इसका निर्माण किया है। फिर भी कुछ प्रकाशक ऐसे हैं जिन्होंने हमारे बार-बार अनुरोध करने पर भी अपना पुस्तक-सूची नहीं भेजी और इस तरह सूची में उनकी पुस्तकें नहीं आ पाईं। इस ग्रंथ को तैयार करने में जो कठिनाइयाँ आई हैं, वे अनेक प्रकार की हैं। कई एक सूचियों में लेखक का पूरा नाम नहीं था। एक लेखक का नाम विभिन्न सूचियों में विभिन्न प्रकार से दिया हुआ था। अनेक स्थानों में तो एक ही पुस्तक का कई प्रकाशकों की सूचियों में समावेश पाया गया। कुछ प्रकाशकों की सूचियों में प्रचारित साहित्य भी था। आदि-आदि। इन सब बातों के होते हुए भी हमने इसे सब प्रकार से सुट्टि-रहित बनाने का प्रयत्न किया है। इन्हीं अनिवार्य तथा अपरिहार्य विवशताओं के कारण इसके प्रकाशन में अनुमान से कुछ अधिक विलंब हो गया, जिसके लिए हम क्षमा-प्रार्थी हैं।

भारतीय लेखकों के नामों को किस प्रकार क्रमबद्ध किया जाये, हमारे सामने यह भी एक जटिल समस्या थी। उदाहरणतः सिंह, स्वामी, शास्त्री, आचार्य आदि कहीं-कहीं तो कुल-नाम जैसे प्रतीत हुए और कहीं उपाधि-सूचक लगे। हमने इस बात का बखस प्रयत्न किया है कि लेखकों का उल्लेख उनके कुल नाम से ही किया जाय और यथासम्भव उपनाम से निर्देशी संकेत (Cross reference) दिया जाय। इसकी प्रामाणिकता के लिए कितने ही व्यक्तियों एवं संस्थाओं से पूछ-छाछ की गई। इस कार्य में हमने अपना आदर्श 'राष्ट्रीय ग्रंथ-सूची' (Indian National Bibliography) को ही माना है।

हम नहीं कह सकते कि प्रस्तुत ग्रंथ को सर्वोत्तम बनाने में हमें कहां तक सफलता मिली है। हमें तो केवल इसी बात का सन्तोष है कि जितनी सतर्कता इस काम में बरतनी चाटिए, उतनी बरती गई है। आशा है कि भविष्य में विद्वानों के दिशा निर्देशन तथा प्रकाशकों के सहयोग से यह कार्य और भी पूर्ण और सुदृढ़ हो सकेगा। पूरी चेष्टा करने पर भी यदि इसमें मुद्रण आदि की असुविधा रह गई हों तो तो उसके लिए प्रेमी पाठक हमें उदारतापूर्वक

धमा करेंगे। विद्वान् पाठकों से अनुरोध है कि वे इन त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान दिलायें, जिससे उनका सुधार कर भविष्य में इसे धीरे भी सुदूर तथा उपयोगी बना सकें।

हम उन सभी प्रकाशकों को हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस सूची के निर्माण में अपना अनन्य सहयोग दिया। वास्तव में यदि उनका सक्रिय योगदान न मिलता तो हमारा यह अनुष्ठान इस रूप में न था पाता। हमें आशा ही नहीं, प्रत्युत पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी वे अपने नवीन तथा बहुमूल्य प्रकाशनों की जानकारी यथा समय देते रहा करेंगे जिससे इस ग्रन्थ के आगामी परिशिष्टों (Supplements) में उन रचनाओं का समावेश हो सके।

प्रस्तुत खंड हमारी पूर्व प्रकाशित 'बृहद् हिंदी ग्रन्थ सूची' के परिशिष्ट के रूप में तैयार किया गया है। इसमें १९६५ तथा १९६६ में प्रकाशित धीरे पहले खंड से छूटी हुई उन सभी पुस्तकों का सर्वत्र दिया गया है, जिनका विवरण हमें सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सका। इस खंड की तैयारी में यदि हमें श्री दीनानाथ वधवा (यू. एस. लायब्रेरी ऑफ कांप्रेस, नई दिल्ली) का सक्रिय सहयोग उपलब्ध न हुआ होता तो बदाचित्त यह इतना सर्वांगीण धीरे उपयोगी न बन पाता। इसके लिये हम उनके हार्दिक आभारी हैं।

यदि इस व्यवहारोपयोगी सदर्भ-ग्रन्थ से पाठकों को कुछ भी लाभ मिल सका, तो हम अपना परिश्रम सार्थक समझेंगे।

दिल्ली, १ मार्च, १९६७

य. पा. म.
कृ. म.

इस ग्रंथ-सूची का उपयोग कैसे किया जाय

इस बृहद् हिंदी ग्रंथ सूची 'परिशिष्ट १९६६ में ६५० प्रकाशकों की लगभग ५,००० पुस्तकों का विवरण है। इसके दो विभाग हैं (१) लेखक-निर्देशी (२) ग्रंथ निर्देशी।

लेखक-निर्देशी विभाग में लेखक-क्रम से व्यवस्था है : लेखक, ग्रंथ का नाम, प्रकाशक, मूल्य तथा विषय। ग्रंथ-निर्देशी विभाग में ग्रंथ-शीर्षक से अनुक्रम है। ग्रंथ का नाम, लेखक, प्रकाशक तथा मूल्य। साथ ही अनेक तरह के निर्देशी सलेख (Cross references) भी हैं (जैसे—सुमन दे क्षेमचंद्र 'सुमन'; शास्त्री, चतुरसेन दे. चतुरसेन, आचार्य) और यथासम्भव लेखकों की जन्म-तिथिया भी दी गई हैं।

स्यायित्व तथा एकरूपता लाने के लिए निम्नलिखित प्रणाली अपनाई गई है, जिससे पुस्तकों को शीघ्रता से ढूँढा जा सके—

- प्रत्येक विभाग में पुस्तकों को हिंदी अक्षर-क्रम के अनुसार रखा गया है। 'पंचम वर्ण' के स्थान पर प्रायः सर्वत्र 'अनुस्वार' का प्रयोग किया गया है। जैसे—'पन्त' का 'पत'; 'हिन्दी' का 'हिंदी'। यह इसलिए आवश्यक था कि सूची के ग्रंथ को सुगमता तथा स्पष्टता से निभाया जा सके। सख्याएँ इस प्रकार से दी गई हैं जैसे वे शब्दों में लिखी गई हों। जैसे—

भट्ठाईस दिन की कहानी

भठारह वर्ष बाद

भठारहवीं शती के ब्रजभाषा काव्य में प्रेमभावित

१८५७

भठारह सौ सत्तावन

१८५७ का स्वतंत्रता संग्राम

- लेखक निर्देशी में लेखकों को वंश-नाम या कुल-नाम से रखा गया है। जैसे—वाजपेयी, भगवतीप्रसाद, शुक्ल, रामचंद्र, और यथासम्भव उपनाम से निर्देशी सलेख दिये गये हैं। जैसे—अशक दे उर्वेदनाथ 'अशक'; कमलेश. दे. शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश'; हरिमोय दे. उपाध्याय, भयोप्यासिंह 'हरिमोय'।
- लेखक-निर्देशी में, यदि एक लेखक ने एक से अधिक पुस्तकें लिखी हैं तो उस लेखक का नाम एक बार देकर उसकी अन्य कृतिया नीचे दे दी गई हैं। जैसे—

गुदत्त, १८६४- भवतरण. सुबोध या (पा.) २.००

कामना भा सा. सदन १.००

गंगा की धारा २ भा. भा सा. सदन. १८.००. स.

जगत की रचना. भा सा. सदन २.००. चप्र.

- जब दो लेखकों अथवा संपादकों ने एक पुस्तक लिखी है तो पहले लेखक के नीचे पुस्तक की पूरी जानकारी दी गई है तथा दूसरे लेखक अथवा संपादक से पहले के लिए निर्देशी सलेख (cross reference) दे दिया गया है। किसी पुस्तक को दो से अधिक लेखकों अथवा संपादकों ने लिखा है तो पहले लेखक के भागे 'तथा अन्य' जोड़ दिया गया है।

- ५ ग्रथ निर्देशी में यदि केवल पुस्तक का नाम तथा लेखक ही हो तो पूरी जानकारी के लिए लेखक-निर्देशी देखें।
 ६ ग्रथ निर्देशी में ग्रथ शीर्षक का पहला शब्द यदि ऊपर आ चुका है, तो उसे पुन न देकर उनके स्थान पर '—' का प्रयोग किया गया है। जैसे—

भाचार्य केशवदास के तीन ग्रथ केशवदास विश्वेश्वरानन्द ४.००

—चतुरसेन का कथा साहित्य कपूर, शुभकर विवेक २५ ००

—चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में इतिहास का चित्रण

भारद्वाज, विद्याभूषण प्र प्रतिष्ठान

- ७ ग्रथ निर्देशी में जब एक पुस्तक को एक से अधिक लेखकों ने लिखा है तो एक लेखक को देकर भागे '....' दे दिया गया है। जैसे—बूढ़े बच्चे तिवारी रामचन्द्र आत्माराम १ ५०। सहलेखक की जानकारी के लिए भाप लेखक निर्देशी देखें।
- ८ लेखक और ग्रथ निर्देशी दोनों विभागों में एक लेखक के ग्रथ को यदि कई प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है तो लेखक और उसके ग्रथ को बार-बार न देकर '— —' से सूचित किया गया है। जैसे—वृश्चकदर एक गधे की घापसी राजपाल ३ ०० उ, — —हिंदू पा १ ००.
- ९ पुस्तकों का मूल्य प्रकाशक-सूची के अनुसार है।
- १० यदि किसी पुस्तक का मूल्य नहीं दिया गया है तो रूपया प्रकाशक के पत्र-व्यवहार करें।
- ११ प्रकाशकों को अधिकतर सक्षिप्त रूप में दिया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी (पते सहित) पृष्ठ सख्या ११ पर दी गई है।
- १२ यदि एक पुस्तक को एक प्रकाशक ने प्रकाशित किया है तथा दूसरा उसकी बिक्री करता है, तो जिस सूची से हमें जानकारी मिली है, उसी का नाम दिया गया है।
- १३ जहां प्रकाशकों की सूचियों में हमें पुस्तकों का विषय भी मिल गया है, वहां विषय को भी सक्षिप्त रूप में दे दिया गया है। जैसे—'उ' से उपन्यास 'ना' से 'नाटक', 'क' से 'कहानी', 'का' से 'काव्य', 'जी' से 'जीवनी', आदि। (पूरी जानकारी के लिए पृष्ठ सख्या ६ देखें)। जिन पुस्तकों के शीर्षक से उनका विषय स्वतः स्पष्ट है वहां विषय नहीं दिया गया है। जैसे—'अर्थशास्त्र का सिद्धांत', 'प्रारंभिक रसायन' आदि।
- १४ इस सूची में प्रायः पचहत्तर पैसे से कम का कथा-साहित्य नहीं दिया गया है।
- १५ इस सूची में केवल उन्हीं प्रकाशकों को दिया गया है जिनकी पुस्तकें इस पुस्तक में समावेश हुई हैं। कुछ अन्य प्रकाशक भी हैं। उनकी जानकारी के लिये भाप बुहद् हिंदी ग्रथ सूची का १९६५ संस्करण देखें।

संकेत-सूची

धनु	-	धनुवादक
धर्म	-	धर्मशास्त्र
धरा	-	धराप्राप्य
भा	-	भालोचना, समालोचना
इति	-	इतिहास
उ	-	उपन्यास
ए	-	एकाकी
क	-	कहानी
कथा	-	कथा साहित्य
का	-	काव्य, कविता, सायरी
काम	-	काम विज्ञान
स	-	सङ
सङ्कटा	-	सङ्कटाध्य
चि	-	चिकित्सा
जी	-	जीवनी, जीवन चरित्र
टीका	-	टीकाकार
दर्शन	-	दर्शन शास्त्र
दे	-	देखिए
धर्म	-	धर्म, धार्मिक
ना	-	नाटक, प्रहसन
नि	-	निबन्ध

पत्र	-	पत्रकारिता
परि	-	परिवर्द्धित
पा	-	पाकेट
प्र	-	प्रत्येक
बप्र	-	बालोपयोगी, प्रौढोपयोगी
भा	-	भाग
भू	-	भूगोल
महाका	-	महाकाव्य
या	-	यात्रा
लोक	-	लोक-कथा
वि	-	विज्ञान
व्या	-	व्याख्याकार
शोध	-	शोध-ग्रन्थ, शोध प्रबन्ध
स	-	संस्करण
सभा	-	सम्प्रेषकर्ता
सपा	-	संपादक
सरो	-	सरोचित
सस्म.	-	संस्मरण
सा	-	साहित्य
हा	-	हास्य व्यंग्य विनोद

प्रकाशक-सूची*

प्र भा दर्शन	शखिल भारतीय दर्शन परिषद	श्री-१८ (ए) बापूनागर, जयपुर
प्र. भा. सर्वे	शखिल भारतीय सर्व-सेवा-सघ	राजघाट, वाराणसी-१
प्र. वि गृह	प्र. वि गृह प्रकाशन	पूना
प्रजना	प्रजना	१३२ महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-७
प्रबपाली	व्यवहारी प्रकाशन	खम्हा रोड, मुजफ्फरपुर
प्रकादेमी भाफ भाट	प्रकादेमी भाफ भाट, कलकत्ता एंड लाइव्जिज	जम्मु (कश्मीर)
प्रक्षर	प्रक्षर प्रकाशन प्रा. लि	२।३६ असारो रोड, दरियागंज, दिल्ली-६
प्रसंठ	प्रसंठ ज्योति सस्थान	मथुरा
प्रटल प्र	प्रटल प्रकाशन	६१।१४८, बुलानावा, वाराणसी
प्रतरचद	प्रतरचद कपुर	दिल्ली
प्रद्वैत भाथम	प्रद्वैत भाथम	५ डिहि एन्टाली रोड, कलकत्ता-१४
प्रनाथ	प्रनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन	१७८६ सदाशिव, पूना-२
प्रनिल प्र म.	प्रनिल प्रकाशन मंदिर	१५३४ कूचा सेठ, दरीबा कला, दिल्ली-६
प्रनु पुस्तकें	प्रनु पुस्तकें	द्वारा मुद्रक निष्काम प्रेस, मेरठ
प्रनुपम	प्रनुपम प्रकाशन	१००-सी, नई मंडी, मुजफ्फरनगर
प्रनुसधान	प्रनुसधान प्रकाशन	८७।२५६, भाकार्यनगर, कानपुर
प्रनूप सा.	प्रनूप साहित्य सस्थान	जयपुरा, नई दिल्ली
प्रपरा	प्रपरा प्रकाशन	४१ ए ताराचद दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता-१
प्रपूर्व	प्रपूर्व प्रकाशन	प्रजमेर
प्रशोली	प्रशोली एम्ब्लिकेशन	श्रीवा रास्ता, जयपुर
प्रभितान	प्रभितान प्रकाशन	राची. वितरक : पुस्तक भवन, राची
प्रभिनव	प्रभिनव साहित्य प्रकाशन	तीनवत्ती, सागर (म.प्र.)
प्रमरावती	प्रमरावती	मंदार विद्यापीठ, भागलपुर, बिहार
प्रमितान, इ	प्रमितान प्रकाशन	इलाहाबाद
प्रमितान, क	प्रमितान प्रकाशन	२७ बाल भुकुद मक्कर रोड, कलकत्ता-७
प्रमितान, ल	प्रमितान प्रकाशन	लक्ष्मण
प्रमृत	प्रमृत बुक कंपनी	कनाट सर्कस, नई दिल्ली-१
प्ररविद प्र. गृ.	प्ररविद प्रकाशन गृह	प्रटल (राजस्थान)
प्ररुण प्र.	प्ररुण प्रकाशन	१६२ नीमू गोस्वामी लेन, कलकत्ता

*हमारी यह प्रान्तरिक प्रतिष्ठापना थी कि यह सूची सर्वांगपूर्ण हो और अधिक से अधिक उपयोगी बने। यदि आप ऐसे प्रकाशकों के नाम हमारे पास भेजें, जिनका इसमें समावेश नहीं हुआ है, तो हम आपके धामारी होंगे।

अर्चना, क	अर्चना	२१ ए, बी के पाल एवेन्यू, कलकत्ता-६
अर्चना प्र	अर्चना प्रकाशन	४६।१६, पटेल नगर ईस्ट, नई दिल्ली-१२
अर्चना प्र, भा.	अर्चना प्रकाशन	महादेवा रोड, भारा (बिहार)
अलका प्र, रवा	अलका प्रकाशन	झासगी, ग्वालियर-१; वितरक : प्रेरणा प्रकाशन गृह १७।२३६ बुजराबपुरा, कोटा (राज)
अलका प्र, सी	अलका प्रकाशन	सरवही सदन, सीकर (राज)
अलका-बीटा	अलका-बीटा पब्लिकेशन	पो वा २५३६, कलकत्ता-१
अशोक पा	अशोक पावेट बुक्स	४।३६ रूपनगर, दिल्ली-६; वितरक : एन. डी सहगल एड सस, दरौबा कला, दिल्ली
अशोक पु म	अशोक पुस्तक मंदिर	१६३ महात्मा गांधी मार्ग, कलकत्ता ७, शाखा : ज्ञानवापी, वाराणसी-१
अशोक प्र	अशोक प्रकाशन	नई सबक, दिल्ली-६
अशोक प्र, फ	अशोक प्रकाशन	स्टेशन रोड, फर्रुखाबाद
अशोक प्र, ब	अशोक प्रकाशन	बलिया
अशोक प्र म	अशोक प्रकाशन मंदिर	३६ बी, चाहूचंद, इलाहाबाद
अशोक प्रे	अशोक प्रेस	पटना-६
भागरा बुक	भागरा बुक स्टोर	रावतपारा, भागरा
भागरा विश्व	भागरा विश्वविद्यालय	(प्रकाशन विभाग), भागरा
भाप्रहायण	भाप्रहायण	४० कैसरबाग, लखनऊ-१
भाचार्य बुक	भाचार्य बुक डिपो	बरोदा
भात्माराम	भात्माराम एड सस	कादमीरी गेट, दिल्ली ६
भादर्श पु म	भादर्श पुस्तक भंडार	५८ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता-७, डी ५३।८६ लवसा रोड, गुरुबाग, वाराणसी
भादर्श हि	भादर्श हिंदी पुस्तकालय	४१६ अहियापुर, इलाहाबाद
भादिमजाति	भादिमजाति अनुसंधान एवं प्रविष्टान सस्था	छिदवाडा (म प्र)
भाधुनिक कथा	भाधुनिक कथा प्रकाशन	इलाहाबाद
भाधुनिक सा. स	भाधुनिक साहित्य सदन	४८७२ चादनी चौक, दिल्ली-६
भानद पु, वा	भानद पुस्तक भवन	धौसानगज, वाराणसी-१
भानद प्र	भानद प्रकाशन	१३५-ई, कृष्णनगर, इलाहाबाद-३
भापुर्वेद विधा	भापुर्वेद विधा सदन	नई दिल्ली
भाटंस	भाटंस एड सेंटर्स	५७ दरियागज, दिल्ली-६
भार्मी	भार्मी एन्ड्रेशनल स्टोर्स	रामजस रोड, बरौलबाग, नई दिल्ली-५
भार्य बुक	भार्य बुक डिपो	३० नार्ड वाला, बरौलबाग, नई दिल्ली-५
भार्य सा	भार्य साहित्य मंडल लि	धीनगर रोड, धरमेश्वर
भार्यावनं	भार्यावर्त प्रकाशन गृह	६५ ए, चित्तूरजन एवेन्यू, बनबत्ता-१२
भॉल इ ग्लूजपेपर	भॉल इंडिया ग्लूजपेपर एम्पलाइड फैब्रिकेशन	एक २६ बजाट सर्कस, नई दिल्ली
भालोब प्र, दि.	भालोब प्रकाशन	दिल्ली
भालोब प्र, बरेली	भालोब प्रकाशन	शिवाजी मार्ग, बरेली

मालोक प्र , बी
मालोक प्र , मु
मालोक प्र , मो
भासा पब्लि
भासा प्र
भास्था प्र
इ पब्लि
इ पब्लि हर्

मालोक प्रकाशन
मालोक प्रकाशन
मालोक प्रकाशन
भासा पब्लिशिंग हाउस
भासा प्रकाशन गृह
भास्था प्रकाशन
इंडियन पब्लिशिंग्स
इंडिया पब्लिशिंग हाउस

इ प्रे
इंडोलाजिकल
इतिहास प्र म
इन्टर यूनि
इन्टरनेशनल स्टैंडर्ड
उचित प्र
उत्कर्ष प्र
उत्कल प्रा
उदयपुर विश्व
उदयाचल
उपन्यास प्र
उमेदा
एम एल बुक
एमके
एलाइड
एवर प्रीन
एशियन
एशिया पब्लि
एस चाद
एस डी शर्मा
ओरिएटल पब्लि

इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्रा लि
इंडोलाजिकल बुक हाउस
इतिहास प्रकाशन मडल
इन्टर यूनिवर्सिटी प्रेस (प्रा) लि
इन्टरनेशनल स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस
उचित प्रकाशन
उत्कर्ष प्रकाशन
उत्कल प्राचीन राष्ट्रभाषा प्रचार सभा
उदयपुर विश्वविद्यालय
उदयाचल
उपन्यास प्रकाशन
उमेदा प्रकाशन
एम एल बुक डिपो
एमके पब्लिकेशंस
एलाइड पब्लिशर्स प्रा लि.
एवर-मीन प्रकाशन
एशियन पब्लिशर्स
एशिया पब्लिशिंग हाउस
एस चाद एड क
एस डी शर्मा एड कपनी
ओरिएटल पब्लिशिंग हाउस

के ई राम रोड, बीकानेर
मडो बांस, मुरादाबाद
मोतीमल
चौडा रास्ता, जयपुर
करोलबाग नई दिल्ली-५
६१ ब्रह्मसत्रिय सोसायटी, अहमदाबाद-७
हिल रोड अम्बाला कैट
कामदार चैबर, ईस्ट सिमोन, नई-२२, ब्राच :
५-ए प्रह्लाद मार्केट, करोलबाग, नई दिल्ली-५

इलाहाबाद
वाराणसी
१।२८ पञ्जाबी बाग, दिल्ली ३४
एफ १।१६, असाही रोड, दरियागज, दिल्ली
वाराणसी ५
इलाहाबाद
२-१-५२७।३, नन्लाकूटा, हैदराबाद २०
कटक-१
(हिंदी विभाग), उदयपुर
भार्यकुमार रोड, पटना-४
सखनऊ
५, नाथ मार्केट, नई सडक, दिल्ली ६
पो उरवरा (पूर्व रेलवे) प बगाल
जो टी रोड, शाहदरा, दिल्ली ३२
१३।१४, भासक भली रोड, नई दिल्ली १
४ ए।१८ बी राजेंद्र नगर, नई दिल्ली ५
८५-सी, नई मडो, मुजफ्फरनगर
बबई-१
रामनगर, नई दिल्ली-१, फाउन्टेन, दिल्ली ६
५८ जो बी रोड, दिल्ली-२
४०।७८ परेड, कानपुर

क मु हि
कमल प्र
कमल प्र , अ
कमलवीर प्र
कमलेश प्र
कर्नाटक प्रांतीय
कला प्र , इ
कला प्र , दि

क मु हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ
कमल प्रकाशन
कमल प्रकाशन
कमलवीर प्रकाशन
कमलेश प्रकाशन
कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा
कला प्रकाशन
कला प्रकाशन

भाग्यश्रुति, भाग्यश्रुति
हिंद पीठी, मई स्ट्रीट, पो बा ११२, राची
(बिहार)
भनाज मडो, अम्बाला छावनी
२३ बी ४, रोहतक रोड, नई दिल्ली-५
बाजार सोताराम, दिल्ली ६
(रजत जयती समिति) चारबाद
२४० मुट्ठीगज, इलाहाबाद-३
दिल्ली

कला प्रेस
कला भा.

कला म
कलावतार
कल्पना प्र
कल्याण म
कल्याणदास
कल्याणमल
कविता
काटेज

कानूनी
कारोना
काशी पु
काशी हिंदू

क्रि धर, भा
क्रि धर, ग्वा
क्रि धर, जो
क्रि महल
कुमार सन्ध
कृष्ण प्र म
कृष्ण मुरारी
कृष्णा स
केंद्रीय पो परि
केंद्रीय स्वास्थ्य

केंद्रीय हिं
केंसाग पु स
केंसाग स
कौशल

सेमराज
संगहरा प्र
गगा
गयाप्रगाद
गर्भ स.
गिरिध
गीत प्र.

कला प्रेस
कला भारती

कला मंदिर
कलावतार पुस्तक मंदिर
कल्पना प्रकाशन
कल्याण मंदिर
कल्याणदास ए ड ब्रदर्स
कल्याणमल एड सस
कविता प्रकाशन
काटेज इंडस्ट्री

कानूनी पुस्तकालय
कारोना प्रार्ट सप्लायसें
काशी पुस्तक भंडार
काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रकाशन

क्रिताव धर
क्रिताव धर
क्रिताव धर
क्रिताव महल (होतसेल डिजिजन) प्रा लि
कुमार सन्ध
कृष्ण प्रकाशन मंदिर
कृष्ण मुरारी भद्रवाल
कृष्णा ब्रदर्स
केंद्रीय मोसवर्धन परिषद
केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा म्यूरो

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
केंसाग पुस्तक सदन
केंसाग ब्रदर्स
कौशल शाक साइंटिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल
रिसर्च

सेमराज थ्योडोरादास
संगहरा प्रकाशन
गगा पुस्तकमाना कार्यालय
गयाप्रगाद एण्ड सस
गर्भ प्रदने
गिरिध प्रकाशन
गीत प्रकाशन

प्रयाग

कृष्ण गली (सराय सैयद भली), मुजफ्फरपुर
(बिहार)

नई सडक, दिल्ली-६

जोधपुर

कृष्णकुंज, बीकानेर

बटारा, प्रयाग

ज्ञानवापी, वाराणसी-१

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

भलकर (राज)

(एच डब्लू एच ८०) पी बी. १२६२, भर्ती
दफतर के पीछे जमना रोड, दिल्ली-६

गावियाबाद

मेमखाना थियेट क्लब के सामने, मेरठ सिटी

चौक, वाराणसी

वाराणसी-५, चित्तूरक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
बुक डिपो, वाराणसी-५

४ महात्मा गांधी रोड, धागरा-२

हार्डिनी रोड, सरकर, ग्वालियर

सोत्रती द्वार बाह, जोधपुर

५६ ए, जीरो रोड इलाहाबाद

सोहन (हिमाचल प्रदेश)

बस्ती रोड, जालधर राहूर

भजमेर

भजमेर

नई दिल्ली

स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय, स्वास्थ्य मन्त्रा-
लय, भारत सरकार, बीटला रोड, नई दिल्ली-१

१५।१६ फेज बाजार, दरियागढ़, दिल्ली-७

ग्वालियर

१६।१८ विवेकानंद मार्ग, इलाहाबाद-२

हिंदी यूनिट, पो धार्ड की भवन, हिलसाइड रोड,
नई दिल्ली-१२

बवाई

रामो सदन, पुष्पीपुर, पटना-३

ससनऊ

गिटी स्टेशन रोड, धागरा

१ बटारा रोड, इलाहाबाद

दीपनिवास, चणपरपुर

दिसी

गीता	गीता प्रेस	गोरखपुर
गुरुकुल कागड़ी	गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय	(गुरुकुल सप्रहालय), हरिद्वार
गोविंदराम	गोविंदराम हासनद	नई सडक, दिल्ली-६
ग्रय नि, दि	ग्रय निकेतन	कृष्ण नगर, दिल्ली-३१
ग्रय नि, प	ग्रय निकेतन	चौधरी टोला, पटना-६
ग्रयभारती	ग्रयभारती	= ६।४२४, देवनगर, कानपुर-३
ग्रयम	ग्रयम	१०४ ए।२१५, रामबाग, कानपुर
ग्रयमाला	ग्रयमाला-कार्यालय	मिखनापहाड़ी, पटना-४
ग्रयालय, मा.	ग्रयालय	सूजागज, भागलपुर-२, बिहार
चदामामा	चदामामा पब्लिकेशंस	२, ३ भरकाट रोड, वदयलानी, मद्रास-२६
चद्र प्र	चद्र प्रकाशन	झलीगढ़
चद्रलोक	चद्रलोक प्रकाशन	चद्रलोक भवन, १३ दरमगा कालोनी, इलाहाबाद
चद्रातप	चद्रातप प्रकाशन	६२ पार्वती घोष लेन, कलकत्ता-७
चमनलाल	चमनलाल सोनी एण्ड कंपनी	भमूतसर
चित्तरजन प्र.	चित्तरजन प्रकाशन	बबई
चित्रकला सगम	चित्रकला सगम	एन ७७ बावे लाइफ बिल्डिंग, कलाट सरकार, नई दिल्ली
चित्रगुप्त	चित्रगुप्त प्रकाशन	पुरानी मंडी, धजमेर
चित्राधार	चित्राधार	कलकत्ता
चिन्मय	चिन्मय प्रकाशन	घोडा रास्ता, जयपुर, विक्रोटा सी स्टूडेंट्स बुक कें, जयपुर
चैतन्य	चैतन्य प्रकाशन	मदनगोपाल कुलश्रेष्ठ का हाता, वृष्णनगर (दरशनपुरवा) कामपुर
चौसबा	चौसबा विद्या भवन	चौसबा, संस्कृत सीरिज भाफिस, गोपाल मंदिर लेन, पो बा न० ८, वाराणसी-१
चौधरी	चौधरी एंड संस	नीची बाग, वाराणसी
छतीस लोक	छतीसगढ़ी लोक-साहित्य परिषद	दुर्ग (म प्र)
जगजीवन सर्वोदय	जगजीवन सर्वोदय माध्यम ट्रस्ट	श्रीकालायतजी, चौकानेर (राज)
जगतराम	सा० जगतराम जी रिटायर्ड एस डी. श्री	१०० दयानंद नगर, भमूतसर
जगत शशधर	जगत शशधर	कमच्छा, वाराणसी-१
जन कल्याण	जन कल्याण प्रकाशन	गोपाल भवन, माधव नगर उज्जैन (म प्र)
जबलपुर प्र ग.	जबलपुर प्रकाशन गृह	१६, नया बाजार, जबलपुर
जमशेदपुर भोजपुरी	जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद	१, गोल्डमुरी बाजार, जमशेदपुर-३
जयशिव	जयशिव बुक एजेंसी	साकची, जमशेदपुर
जवाहर	जवाहर पुस्तकालय	भसकुडा बाजार, मथुरा
जिज्ञासा	जिज्ञासा प्रकाशन	= ६।३३७, देवनगर, कानपुर-३
जैन म क्षेत्र	दि जैन म क्षेत्र श्रीमहावीर जी	(साहित्य शोध विभाग) महावीर भवन, जयपुर
जैन पृ म	जैन पुस्तक मंदिर	चौडा रास्ता, जयपुर
जैन संस्कृति	जैन संस्कृति सरसक सघ	सोतगपुर

जैन सा जैमिनी प्र ज्ञानदीप प्र. ज्ञानपीठ ज्ञान भारती, दि ज्ञानमंडल ज्ञान मंडल प्र ज्ञान मंदिर ज्ञान सूर्य ज्ञानलोक ज्ञानोदय ज्योत्स्ना प्र	जैन साहित्य घोष सस्थान जैमिनी प्रकाशन ज्ञानदीप प्रकाशन ज्ञानपीठ प्रा लि ज्ञान भारती ज्ञानमंडल लि ज्ञान मंडल प्रकाशन ज्ञान मंदिर ज्ञान सूर्य-साहित्य श्रृंखला ज्ञानलोक प्रकाशन ज्ञानोदय प्रकाशन ज्योत्स्ना प्रकाशन	महावीर भवन, सवाई मानसिंह हाईवे, जयपुर कलकत्ता छिंदवाडा (म प्र) खजाची रोड, पटना ४ ५।१४ रूप नगर, दिल्ली वाराणसी (बनारस)-१ सैदुल लायब्रेरी के पास, लखर, खालियर भानपुरा (म प्र) ३८।खा।१ बनीडीह परियत, जौनपुर १३७, प्रकाशवीथी, ह्योडी धागामीर, लखनऊ बेकापुर, मुगेर (बिहार) २६० शास्त्री नगर, कानपुर
टी धार	टी धार एण्ड कंपनी	८१ एफ, कमलानगर, दिल्ली-६
छरगिणी तारा तारामंडल तुलसी तुलसी स्मारक तेजकुमार त्यागी प्र. त्रिपाठी स दक्षिण भा दत्तबधु दत्त कहानियां दिनेश प्र. कु दि पु ग दिवाकर प्र	छरगिणी प्रकाशन तारा पब्लिकेशस तारामंडल प्रकाशन तुलसी साहित्य सदन तुलसी स्मारक समिति तेजकुमार बुक डिपो त्यागी प्रकाशन त्रिपाठी एण्ड सन्स दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समा दत्तबधु प्रा लि दत्त कहानियां प्रकाशन दिनेश प्रकाशन कुटीर दिल्ली पुरतक सदन दिवाकर प्रकाशन	दलाहाबाद कमच्छा, वाराणसी मुजफ्फरपुर (बिहार) महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर लखनऊ पो बा ८५, लखनऊ भैरठ वाराणसी (प्रकाशन विभाग) त्यागराय नगर, मद्रास-१७ महात्मा गांधी मार्ग, भजमेर १३२७ फसोल रोड, भजमेरी गेट, दिल्ली ६ अलीगढ़ १५, यू बी घगलो रोड, दिल्ली-७ बडीघर घातार बा मकान, महरों बा रागठा रामगज, जयपुर पांडिचेरी-२ विश्वमिन्न भवन, चतरदिपोर पथ, पटना-१ ४०२।२।२, अंबाला राहुर ३३ दुर्बिजयगज, लखनऊ श्रीनगर मेतिया, अंपारन (बिहार) भारतनगर, इलाहाबाद भोगा (पंजाब) धावडी बाजार, दिल्ली-६ बिजयगढ़, असीगढ़ दिल्ली
दिव्य दिव्यलोका प्र दीप प्र, अ दीप प्र, स देवबधु देवभारती प्र देव रामाज देहाती धन्वतरी धर्मभूमि प्र	दिव्य जीवन साहित्य प्रकाशन दिव्यलोक प्रकाशन दीप प्रकाशन दीप प्रकाशन देवबधु देवभारती प्रकाशन देव समाज देहाती पुस्तक भंडार धन्वतरी कार्यालय धर्मभूमि प्रकाशन	

धारा	धारा प्रकाशन	१०६, लूकरगज, इलाहाबाद
नद. व्र	नदकिशोर एड ब्रदर्स	पो बा ११२, वासफाटक, वाराणसी-१
नद स.	नदकिशोर एड सस	पो बा १७, चौक, वाराणसी-१
नई सदी प्र	नई सदी प्रकाशन	ए-२६७ डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली
नगीना प्र	नगीना प्रकाशन	भम्बाला गृह
नया लेखक प्र.	नया लेखक प्रकाशन	हनुमान टोला धारा
नया सा. प्र	नया साहित्य प्रकाशन	२-डी, मिटो रोड, इलाहाबाद
नम्यर प्र.	नम्यर प्रकाशन	११ नार्थ पस्टें पलोर, १२ वी रविंद्र सरणी, कलकत्ता-१
नरेंद्र बक्शी प्र	नरेंद्र बक्शी प्रकाशन	मीठापुर, पटना ?
नर्सरी	नर्सरी पब्लिशिंग होम	कानपुर
नव सा प्र.	नव साहित्य प्रकाशन	बगलो रोड, दिल्ली-६
नव सा म.	नव साहित्य मंदिर	दलीपपुर, साहाबाद
नवचेतना	नवचेतना प्रकाशन	कासिमलॉज, तीसरी मजिल, गुहन रोड, लखनऊ-१
नवज्ञान	नवज्ञान पब्लिकेशन्स	मातेर कोटला (पञ्जाब)
नव ज्योति प्र., भा.	नव ज्योति प्रकाशन	नाथनगर, भातपुर-६ (बिहार)
नवभारती	नवभारती सहकार प्रकाशन प्रतिष्ठान	(सी) ए ८५२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७
नवभारती प्र	नवभारती प्रकाशन	लूकरगज, इलाहाबाद-१
नवगुण थ. कु.	नवगुण थ-कुटीर	बीकानेर
नवगुण थ धागार	नवगुण थधागार	सी ७४७ महानगर, लखनऊ
नवगुण पु अ	नवगुण पुस्तक भंडार	अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ
नवगुण प्र	नवगुण प्रकाशन	३६, यू ए बगलो रोड, दिल्ली-६
नवगुण बुकस्टाल	नवगुण बुकस्टाल	धमरावती
नवगुण सा. स, भा	नवगुण साहित्य सदन	पो बा. ७६, लोहा मंडी, धागरा-२
नवगुण सा स, इ	नवगुण साहित्य सदन	खजूरी बाजार, इन्दौर-२
नवोद्द	नवोद्द प्रकाशन	८३१, वेगम बाजार, हैदराबाद
नवीनतम	नवीनतम प्रकाशन	११५७१, रोहतासनगर, शाहदरा-दिल्ली ३२
ना प्र सभा	नागरी प्रचारिणी सभा	काशी
नारायण प्र	नारायण प्रकाशन मंदिर	कमच्छा, वाराणसी-१
नारायण बुक	नारायण बुक डिपो	परेड, कानपुर
नालदा सा.	नालदा साहित्य सदन	१६३ महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-७
नाबल्टी	नाबल्टी एड क	भशोक राजपथ, पटना-४
निराला नि	निराला निवेदन	मुजफ्फरपुर (बिहार)
निराला सा. स	निराला साहित्य सदन	७५४० रमेरा नगर, नई दिल्ली-१५
निर्माण प्र, प.	निर्माण प्रकाशन	कदमकुम्भा, पटना-३
नीलम स्टोर्स	नीलम स्टोर्स	बरहिया, मुंगेर
नीलाम	नीलाम प्रकाशन	५, खुसरोबाग रोड, इलाहाबाद-१
नेशनल	नेशनल पब्लिशिंग हाउस	घदलोक, २६-ए, जवाहर नगर, दिल्ली-६, नई सड़क, दिल्ली-६

नेहरू सा
नैवेद्य
न्यू स्केच

पंजाब प्रादेशिक
पंजाब यू
पंजाबी
पराग प्र
परिमल
परिमल, ध्र
पहूजा
पारिजात
पारिजात प्र , सा
पादल प्र
पार्यं सा
पार्वती
पीतम प्र म
पु केंद्र
पु जगत
पु म
पु म, इ
पु म, वा
पु स, धा
पु स, वा
पुनीत प्र
पूना विश्व
पूणिमा प्र
पूर्वं ज्योति
पूर्वोदय
पृथिवी प्र
पृथ्वीराज प्र
प्र केंद्र
प्र प्रतिष्ठान
प्र विभाग

प्रकाश बुक
प्रगति पथ
प्रगति प्र
प्रतिभा परि
प्रतिभा प्र

नेहरू साहित्य प्रकाशन गृह
नैवेद्य निवेदन
न्यू स्केच प्रेस

पंजाब प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन
पंजाब यूनिवर्सिटी
पंजाबी पुस्तक भंडार
पराग प्रकाशन
परिमल प्रकाशन
परिमल प्रकाशन
पहूजा अदसं
पारिजात प्रकाशन
पारिजात प्रकाशन
पादल प्रकाशन
पार्यं साहित्य
पार्वती प्रकाशन
पीतम प्रकाशन मंदिर
पुस्तक केंद्र
पुस्तक जगत
पुस्तक भंडार
पुस्तक मंदिर
पुस्तक मंदिर
पुस्तक सदन
पुस्तक सदन
पुनीत प्रकाशन
पूना विश्वविद्यालय
पूणिमा प्रकाशन
पूर्वं ज्योति प्रेस
पूर्वोदय प्रकाशन
पृथिवी प्रकाशन
पृथ्वीराज प्रकाशन
प्रकाशन केंद्र
प्रकाशन प्रतिष्ठान
प्रकाशन विभाग

प्रकाश बुक डिपो
प्रगति पथ प्रकाशन
प्रगति प्रकाशन
प्रतिभा परिपद लिबरिया
प्रतिभा प्रकाशन

वाराणसी
रवोद्विपुरी, वाराणसी-५
पो बा २६, धनबाद (बिहार)

१४ लिक रोड, जालधर
(प्रकाशन विभाग), चंडीगढ़-३
दरीबा कला, दिल्ली-६
पटना-४
१६४, सोहवतिया बाग, इलाहाबाद-६
२१० आशागज, धनमेर
पटना कालेज के सामने, पटना-६
डारु बगला रोड, पटना-१
गोपालगज, सागर
सखनऊ
२१२।५ बडासा, बबई-३१
मदारी गेट, बरेली (उ प्र)
अस्पताल रोड, भागसा-३
सखनऊ
अशोक राजपथ, पटना-४
गोविंद मित्र रोड, पटना-४
११ विवेकानंद मार्ग, इलाहाबाद
डो १६।१८ व्यास भवा, मान मंदिर, वाराणसी
गोला, धारा
ज्ञानवापी, वाराणसी-१
टाडा, वाराणसी
गनेश लिड, पूना ७
सखनऊ
गौहाटी-१
८, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली-६
वाराणसी
सुभाष कुंज, डा मुजे मार्ग, सीताबढ़ी, नागपुर-१
न्यू बिल्डिंग धर्मोनाबाद, सखनऊ
धानदपुरी, मेरठ
(बिजनेस मैनेजर) गूबना धोर प्रसारण मंत्रालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-६
बड़ा बाजार, बरेली (उ प्र)
१४ सिविलवुड गली, बलबत्ता-७
पटिया धात्रमणा रोड, भागसा-३
निङ्गिया, होशंगाबाद (म प्र)
१३ बचैहरी रोड, देहपट्टन

प्रत्युप	प्रत्युप प्रकाशन	रामबाग, कानपुर
प्रभा प्र	प्रभा प्रकाशन	८५ पी डी कृष्णनगर, इलाहाबाद-३
प्रभात पब्लि	प्रभात पब्लिशिंग हाउस	नया गांव, लखनऊ
प्रभात प्र	प्रभात प्रकाशन	२०५, चावडी बाजार, दिल्ली-६
प्रभात बुक	प्रभात बुक डिपो	पवित्रतम हृदय निवास, दीघा घाट, पटना-११
प्रमोद प्र भा	प्रमोद प्रकाशन मंदिर	कान्हू महाजन का बड, पुटानी बस्ती, जयपुर
प्रयाग प्र	प्रयाग प्रकाशन	२१५।६५ चक, इलाहाबाद ३
प्रयाग विद्व	प्रयाग विद्वविद्यालय	प्रयाग
प्रवीर	प्रवीर प्रकाशन	४०।६८, परेड, कानपुर
प्रसाद प्र	प्रसाद प्रकाशन	भागलपुर-२
प्रसाद प्र भा	प्रसाद प्रकाशन मंदिर	ओरियण्टल पब्लिशिंग हाउस, ४०।७८ परेड कानपुर,
प्रसाद बुक	प्रसाद बुक ट्रस्ट	देरो वाली कोठी, पटिया पिन्कोईट, आगरा-३
प्राची	प्राची प्रकाशन	२२४ हरि सदन, खैरनगर गेट, मेरठ
प्राच्य विद्या	प्राच्य विद्या प्रसारन केंद्र	शीश महल, मेरठ
प्रिंटफाण्ट	प्रिंटफाण्ट	डी-१२२ कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
प्रिंटनेड	प्रिंटनेड	७ सतार चद रोड, जयपुर
प्रेम पु म	प्रेम पुस्तक महार	बिहारीपुर, बरेली
प्रेम प्र	प्रेम प्रकाशन	३० १४, चखैवालान, दिल्ली ६
प्रेमी प्र भा	प्रेमी प्रकाशन मंदिर	गडलेखर (प नि) म प्र
फूलचंद	फूलचंद वेदप्रकाश	मुडगावा
बगाल हिं.	बगाल हिंदी मंडल	कलकत्ता
बगीच	बगीच हिंदी परियद	१५, बकिम सटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता-१२
बबई प्र	बबई प्रकाशन प्रा नि	कमानी चौबर्त निकल रोड, बेलाई इस्टेट, बबई १
बसत	बसत एड कंपनी	के-१६, नवीन शाहूदरा, दिल्ली-३२
बारहठ प्र	बारहठ प्रकाशन	फेकाना (धौ गगातागर) राजस्थान
बाल सा म	बाल साहित्य मंदिर	बाग मुज्जफर सा, आगरा-२
बाल हितैपी	बाल-हितैपी पुस्तकमाला	वाराणसी-१
बि प्र कु	बिहार ग्रंथ कुटीर	सजाचो रोड, पटना-४
बि पब्लि	बिहार पब्लिशिंग हाउस	पटना-४
बि. राष्ट्र	बिहार राष्ट्राभाया परियद	पटना-३
बियाणी	बियाणी पथ प्रकाशन समिति	इदौर
बिशनचंद	बिशनचंद	दिल्ली
बीकानेर टाइम्स	बीकानेर टाइम्स प्रकाशन	बीकानेर
बुक हाइव	बुक हाइव	२६।१८ ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-८
बेभास	बेभास प्रकाशन	गरीठा (भांसी)
बेनीपुरी	बेनीपुरी प्रकाशन	मोतीमल, मुजफ्फरपुर (बिहार)
भा प्र नि.	भारतीय ग्रंथ निकेतन	१३३, साचपतराय मार्केट, दिल्ली-६
भा प्र पमाला	भारतीय प्र पमाला	गूगे नवाब का पार्क, अमीनाबाद, लखनऊ
भा चरित्रकोश	भारतीय चरित्रकोश मंडल	१२०६ भा४५ जगदीश महालय पथ, पूना-४
भा. ज्ञानपीठ	भारतीय ज्ञानपीठ	दुर्गाकुंड, वाराणसी-५, प्रधान कार्यालय ६, सलीपुर
		पार्कलेस, कलकत्ता-२७

भा परिषद्	भारतीय परिषद्	बहादुरगंज, इलाहाबाद
भा प्र., दि	भारतीय प्रकाशन	दिल्ली
भा प्र., ब	भारतीय प्रकाशन	११६, सागर भवन भूतेश्वर, बम्बई-२
भा प्र., ल	भारतीय प्रकाशन	सखनऊ
भा. प्र म, ल	भारतीय प्रकाशन मंदिर	सखनऊ
भा प्र महल	भारतीय प्रकाशन महल	१७७, मिसिर पोखरा, वाराणसी-१
भा प्र मंदिर	भारतीय प्रकाशन मंदिर	प्रतीगढ़
भा प्राच्य	भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	३१।१४४ धनवर गेट, अजमेर, ४६४३ रेयरपुरा, गली ४०, करोलबाग, नई दिल्ली-५
भा प्रौढ	भारतीय प्रौढ शिक्षा सघ	१७ बी इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली
भा बुक	भारत बुक डिपो	भागलपुर २
भा भ	भारतीय भंडार	लीडर प्रेस, इलाहाबाद
भा भवन	भारतीय भवन	गोविंदमित्र रोड, पटना-४
भा भा प्र, दि	भारत भारती प्रकाशन	१३।३७ शवितनगर, दिल्ली-६
भा भाषा	भारतीय भाषा प्रकाशन	सी ६।२७४, चित्तगंज, काशी
भा मंदिर	भारती मंदिर	गोविंद भवन, चौबुर्जा, भरतपुर (राज)
भा विद्या प्र	भारतीय विद्या प्रकाशन	पो बा १०८, कचोडी गली, वाराणसी
भा विद्या भवन, व	भारतीय विद्या भवन	चौपाटी, बम्बई ७
भा विद्या म	भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान	बोकानेर (राजस्थान)
भा विश्व	भारतीय विश्व प्रकाशन	फक्वारा, दिल्ली
भा सस्कृत	भारतीय सस्कृत भवन	माई हीरा गेट, जालधर शहर
भा सा प्र	भारतीय साहित्य प्रकाशन	२०४ ए वेस्ट एड रोड, सदर, मेरठ
भा सा म	भारतीय साहित्य मंदिर	फक्वारा, दिल्ली
भा सा सदन	भारती साहित्य सदन	३०।६०, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-१
भा सा सम्मे	भारतीय साहित्य सम्मेलन	विवेकानन्द मार्ग, प्रयाग
भाग्योदय	भाग्योदय प्रकाशन	५०३, माता गली मयुरा
भारतेंदु भवन	भारतेंदु भवन	२८७, सैंक्टर १५ ए, चंडीगढ़ २
भूगोल	भूगोल कार्यालय	बकरहापाट, इलाहाबाद
भोला प्र	भोला प्रकाशन	पियरी ब्ला, वाराणसी
म स पूनि	म स पुनिदासिटी पब्लिकेशन सेल्स युनिट	राजमहन दरवाजे के पास, बहीदा-१
मंगल	मंगल प्रकाशन	गोविंद राजियों का रास्ता, जयपुर
मंगल उदय	मंगल उदय प्रकाशन	राठी मंदिर, धुलापेर, बापू बाजार, जयपुर
मंगल सारा	मंगल सारा	११०।३ नेहरू नगर, वाराणसी
मंगला	मंगला प्रकाशन	नागपुर
मनु	मनु प्रकाशन	श्रीपटिया रोड, शीब, सखनऊ
मगध सा	मगध साहित्य सदन	पटना
मधुर प्र	मधुर प्रकाशन	चार्य सदाज मंदिर, बाजार सीताराम, दिल्ली-६
मध्यप्रदेश साशन	मध्यप्रदेश साशन साहित्य परिषद्	भाषा-यथासनालय, सदर मजिस, भोपास (म प्र)
मनोरमा	मनोरमा प्रकाशन गृह	टी-८४, जगपुरा लेन, नई दिल्ली

मनोविज्ञान	मनोविज्ञान प्रकाशन	५६।२३, गोविन्दपुरा वाराणसी-१
मयूर	मयूर प्रकाशन	मसी
महाकोशल	महाकोशल प्रिंटिंग प्रेस	रायपुर (म प्र)
महाबोधि	महाबोधि बुक एजेंसी	साग्नाथ, वाराणसी
महामना	महामना प्रकाशन मंदिर	७०५, महामना मालवीय नगर, इलाहाबाद
महाराष्ट्र राष्ट्र	महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा	राष्ट्रभाषा भवन ३८७ नारायण पेठ, पुणे २
महासंस्कृत	महासंस्कृत साहित्य मंदिर	वाराणसी १, पुस्तक सदन ज्ञानवापी, वाराणसी-१
महेश प्र	महेश प्रकाशन	भागलपुर-७
माधव	माधव धुस्तबालय	पो ऊन जिला पश्चिम नीमाड (जरागोल) म प्र.
मानकचंद	मानकचंद बुक डिपो	सत्तोदरबाबा, उज्जैन
मानव प्र	मानव प्रकाशन	१६० सेंटर १, चंडीगढ़
मारवाही प्र	मारवाही प्रकाशन	४० ए हनुमान लेन, नई दिल्ली-१
मार्ग दर्शक	मार्ग दर्शक छायालय	१७८, गुसाईपुरा, भासी
मित्र	मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड	मुद्रकीगज, इलाहाबाद
मोरा प्र.	मोरा प्रकाशन	लखनऊ
मुकुल प्र.	मुकुल प्रकाशन	३८।२७६ राजेंद्रनगर पटना-४, वितरक साहित्य केंद्र, ज्ञानवापी, वाराणसी
मुन्या प्र	मुन्या प्रकाशन	बीकानेर
मुरारी	मुरारी बुक डिपो	हरियाण रोड प्रायरा-३
मू मल प्र	मू मल प्रकाशन	साहित्य साधना सदन, केलापाडा, जैसलमेर
मेहरचंद	मेहरचंद लठभनदास	दिल्ली
मोतीलाल	मोतीलाल बनारसीदास	बगली रोड, जवाहरनगर, पी बा १५८६, दिल्ली-७
युगवाणी प्र	युगवाणी प्रकाशन	काठपुर
यूनाइटेड	यूनाइटेड बुक डिपो	१३ यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद २
यूनिटी	यूनिटी पब्लिशर्स	डी १।१२० लालपत नगर, नई दिल्ली-१४
यूनिवर्सल बुक	यूनिवर्सल बुक डिपो	मेजीपुरा, जबलपुर
यूरोशिया	यूरोशिया पब्लिशिंग कंपनी	दिल्ली
योग नि	योग निकेतन ट्रस्ट	आकबर—स्वर्गाक्षम रेलवे स्टेशन, श्रृणिकेश (जि देहरादून)
रघूमि	रघूमि	५-ए।१५, असारो रोड, दरियागज, दिल्ली-६
रजना प्र.	रजना प्रकाशन	जमशेदपुर
रणजीत	रणजीत प्रिंटेर्स एंड पब्लिशर्स	४८७२, चांदनी चौक, दिल्ली-६
रत्न एंड क	रत्न एंड क	दरौबा कला, दिल्ली-६
रवींद्र प्र., रवा	रवींद्र प्रकाशन	पाटनकार बाजार ग्वालियर-१, शाखा : ३६, देहली रोड, भागरा
रस्तोगी	रस्तोगी एंड कंपनी	मेरठ
रा. बेनीप्रसाद	रामनारायणलाल बेनीप्रसाद	इलाहाबाद-२
रा बेनीमाधव	रामनारायणलाल बेनीमाधव	२, बटख रोड, इलाहाबाद-२.
राका पब्लि	राका पब्लिशिंग हाउस	रोड १३, नई मंडी, मुजफ्फरनगर (यू. पी.)

राजेश पु म	राजेश पुस्तक मंदिर	१००३ बेलनगज, भागरा
राज. पु म	राजस्थान पुस्तक मंदिर	जयपुर
राज पुरा म	राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मंदिर	जयपुर
राज प्र, ज.	राजस्थान प्रकाशन	त्रिपोलिया बाजार, जयपुर
राज प्राच्यविद्या	राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान	जोधपुर (राजस्थान)
राज बुक	राजस्थान बुक स्टोर्स	वाणू बाजार उदयपुर (राजस्थान)
राज भासा	राजस्थान भासा-प्रचार समा	जयपुर
राज लेखक	राजस्थान लेखक सहकारी समिति लि	जयपुर
राज सा भक्ता	राजस्थान साहित्य भक्तादमी (सगम)	उदयपुर
राज सा प्र	राजस्थानी साहित्य प्रकाशन	चौडा रास्ता, जयपुर
राज सा समि	राजस्थान साहित्य समिति	बिसाऊ, जिला फुम्फु (राजस्थान)
राज पचायत प्र	राज पचायत प्रकाशन	जयपुर
राज प्र	राज प्रकाशन	चक्रमुसलहपुर, पटना-६
राजकमल	राजकमल प्रकाशन प्रा लि.	८, फेज बाजार, दिल्ली-६
राजकमल पुस्तकमाला	राजकमल पुस्तकमाला	पटना
राजधानी	राजधानी प्रकाशन	५६ एच ५, लाजपतनगर, नई दिल्ली-१४
राजपाल	राजपाल एड सस	कासमीरी गेट, पो बा १०६४, दिल्ली-६
राजहस प्र म.	राजहस प्रकाशन मंदिर	शिबनलाल गैरल एड सस, मेरठ
राजीव, इ	राजीव प्रकाशन	भालोपी बाग, इलाहाबाद-६
राजीव, मे	राजीव प्रकाशन	लाल हूटी, मेरठ कैंट
राज्यश्री	राज्यश्री प्रकाशन	बेधो भवन, तिलक द्वार, मथुरा
राधावृष्ण	राधावृष्ण प्रकाशन	४।१४ रूपनगर, दिल्ली-७
रामचद	रामचद ए ड क	१, अंसारी रोड, दरियागज, दिल्ली-६
रामप्रसाद	रामप्रसाद ए ड सस	अस्पताल रोड, भागरा
रामा प्र	रामा प्रकाशन	नजीराबाद, ससनऊ
राष्ट्र प्र, दि	राष्ट्रभाषा प्रकाशन	५।१।६ वी विद्वाना नगर (कडकटो रोड), गाहदरा, दिल्ली-३२
राष्ट्र प्रचा, इ	राष्ट्रभाषा प्रचारक	इलाहाबाद
राष्ट्र. प्रचा. म	राष्ट्रभाषा प्रचार मंडल	दिल्ली
राष्ट्र प्रचा समि.	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति	हिंदी नगर, बर्धा (महाराष्ट्र)
राष्ट्रधर्म	राष्ट्रधर्म पुस्तक प्रकाशन	भारतीय संस्कृति पुनर्स्थापन समिति, उत्तर प्रदेश, बा २०७, रघुबीर नगर, ससनऊ
राष्ट्रीय दीक्षिण	राष्ट्रीय दीक्षिण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	नई दिल्ली
राष्ट्रीय सचिवालय	राष्ट्रीय सचिवालय	नई दिल्ली
राष्ट्रीय स्मारक	राष्ट्रीय स्मारक/ट्रस्ट	बनारस ग्राम, ददौर
राष्ट्रीय प्र	राष्ट्रीय प्रकाशन	दशासनेश, धारापसी, डिनरघ : हि प्रचा. पु.
राहुन पुस्तकालय	राहुन पुस्तकालय	रतनपुरा, सारण (बिहार)
रीगन	रीगन बुक डिपो	नई सड़क, दिल्ली-६

रूपकमल
रोशननाल

रूपकमल प्रकाशन
रोशननाल जैन एड सस

लक्ष्मी ना
सता प्र, प
सता प्र, सा
सलित कला
सबलीना प्र

लक्ष्मी नारायण भद्रवाल
लता प्रकाशन
लता प्रकाशन
ललित कला, सस्कृति व साहित्य अकादमी
सबलीना प्रकाशन

सहरी
साजपत स्मारक
लायल
लोक चेतना
लोक मंच
लोकप्रिय
लोकभारती
लोकराज
लोकजयल
वर्मा व
बाणी विज्ञान
वातायन
वासुदेव
विद्याचल
विक्रमशिला प्र
विक्रेता
विजय पु म
विजय प्र, मे
विजय बुक
विज्ञान म
विद्या प्र भवन
विद्या प्र म
विद्या भवन, उ
विद्या भवन, ल
विद्या म, वा
विद्या न, हो
विद्यावती प्र
विद्यासागर
विनोद
विप्लव
विषय

सहरी बुक डिपो
साजपत स्मारक साहित्य सदन
लायल बुक डिपो
लोक चेतना प्रकाशन
लोक मंच प्रकाशन
लोकप्रिय प्रकाशन
लोकभारती प्रकाशन
लोकराज प्रकाशन
लोकजयल शोध सत्यान
वर्मा व्रदस
बाणी विज्ञान प्रकाशन
वातायन प्रकाशन
वासुदेव प्रकाशन
विद्याचल प्रकाशन
विक्रमशिला प्रकाशन
विक्रेता प्रकाशन सप
विजय पुस्तक मंदिर
विजय प्रकाशन
विजय बुक डिपो
विज्ञान (प्रेस) मंदिर
विद्या प्रकाशन भवन
विद्या प्रकाशन मंदिर
विद्या भवन
विद्या भवन
विद्या मंदिर
विद्या मंदिर
विद्यावती प्रकाशन
विद्यासागर बुक डिपो
विनोद पुस्तक मंदिर
विप्लव कार्यालय
विषय भारती प्रकाशन

१५, यू बी बगलो रोड, दिल्ली-६
बोरडी ना रास्ता, जयपुर

भ्रस्पताल रोड, आगरा
पटना
मलसाचक, सारन (बिहार)
जम्मु तवी
गोविंद निवास, मरोजिनी रोड, विले पारले
(पश्चिम) बर्बई-५६, वितरक हि प र.
पो बा ३९, रामकटोरा रोड, वाराणसी
मीरजापुर (उ प्र)
पाटनकर बाजार, सस्कर, ग्वालियर
१८४, शहीद स्मारक-पथ, जबलपुर
दिल्ली
३७, दरियागज, दिल्ली ६
१५ ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१
सम्राट गज, वाराणसी
दाता हाउस, जयपुर
२१, न्यू सेंट्रल मार्केट, नई दिल्ली
ब्रह्मलाल, वाराणसी-१
५ हागा बिल्डिंग, चीनानेर
मिनर्वा बुक डिपो, माडल टाउन दिल्ली ६
छतरपुर (म प्र)
कालेज रोड, मुंगेर (बिहार)
दिल्ली
रामप्रसाद मिश्र पार्क, नारियल बाजार, कानपुर
४६।६६ ब्रह्मपुरी, मेरठ
जयपुर
ऋषिकेश (देहरादून)
६१।१५ रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली ५
१६८१ दरियागज, दिल्ली ६
उदयपुर
सखनऊ
ब्रह्मलाल, वाराणसी १
होशियारपुर
ग्राम करंविद्या, पो करंविद्या, वि भ्राजमगढ
कल्याणी, मुन्नरपुर
हास्पिटल रोड, भागरा
२१, सिवानी मार्ग, सखनऊ
११७, गाडीबान टोला, इलाहाबाद-१

विवेक	विवेक प्रकाशन	विकोर बुक डिपो, भमीताबाद, लखनऊ
विश्वभारती	विश्वभारती प्रकाशन	नागपुर
विश्व-भारती प्र	विश्व भारती प्रकाशन	११७८, २२-वी, चडोगढ
विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय प्रकाशन	नखल चौक, गोरखपुर
विश्वविद्यालय प्र	विश्वविद्यालय प्रकाशन गृह	दिल्ली
विश्वविद्यालय हि प्र	विश्वविद्यालय हिंदी प्रकाशन	लखनऊ
विश्वेश्वरानन्द	विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान	साधु आश्रम, होशियारपुर (पंजाब)
वीणा प्र	वीणा प्रकाशन	४६।२७६ नाका हिडोला, लखनऊ-४१
वेद प्रभा मं	वेद प्रचारक मंडल	६०।१३, रोहतक रोड, नई दिल्ली-५
वेद संस्थान	वेद संस्थान	पो बा १५०, वाबू मोहल्ला, अजमेर
वेदात केसरी	वेदात केसरी कार्यालय	श्री योगानन्द आश्रम सततग सभा, लातघाट, यमुनातट, आगरा
वैदिक पुस्तकालय	वैदिक पुस्तकालय	सप्तसागर, वाराणसी
वैदिक प्र म	वैदिक प्रकाशन मंदिर	इलाहाबाद
वैद्यानी प्र	वैद्यानी प्रकाशन	कल्याणी, मुजफ्फरपुर
वोरा	वोरा एड कंपनी पब्लिशर्स प्रा लि	३, राउड विल्डिंग, कालवादेवी रास्ता, बबई-२.
वोहरा प्र	वोहरा प्रकाशन	२६८६।१ कूचा डबगरी, बटरा महासिंह, अमृतसर
व्हीनस	व्हीनस प्रकाशन	'तपस्वर्षा', ३८-१-क, धनवार पेठ, पूर्ण-२
वाङ्मन	वाङ्मन प्रकाशन	११, दरियागज, दिल्ली-६
वाङ्मन प्र	वाङ्मन प्रकाशन	शाहजहांपुर
वाङ्मन-नोक	वाङ्मन-नोक प्रकाशन	४७ लाजपत नगर, बनारस-२
वार्मा प्र	वार्मा प्रकाशन	ताजपुर (जिला दरभंगा) बिहार
वार्मा बुक	वार्मा बुक डिपो	रेलवे बाजार, हल्द्वानी
वाङ्मन	वाङ्मन मालवीय प्रकाशन	वेस्ट नया गांव लखनऊ
वाङ्मन जनरल	वाङ्मन जनरल स्टोर	४१२ मम्पोडेगज, इलाहाबाद
वाङ्मन प्र, ज्वा	वाङ्मन प्रकाशन	ज्वालापुर जिला सहरनपुर
वाङ्मन प्र., दि	वाङ्मन प्रकाशन	ए-४, तिमिया कालेज, करोल बाग, नई दिल्ली-५
वाङ्मन प्र., वा.	वाङ्मन प्रकाशन	वाङ्मन सदन, वाराणसी-५
वाङ्मन पु. म.	वाङ्मन पुस्तक भंडार	१ पोन्पा रोड, इलाहाबाद
वाङ्मन पु म.	वाङ्मन पुस्तक मंदिर	राधोगढ
वाङ्मन प्र, भा	वाङ्मन प्रकाशन	भागलपुर २
वाङ्मन प्र, वा	वाङ्मन मंदिर	वाराणसी
वाङ्मन भा.	वाङ्मन भारती	शाहदरा, दिल्ली-३२
वाङ्मन गा	वाङ्मन माहेश्व प्रकाशन मंडल	पो दयालनगर, धरौरीगढ़ (उ प्र)
वाङ्मन गा स.	वाङ्मन माहेश्व गढ़	२४३२/२ ए, भाषा प्रमुक्तचक्र रोड, कलकत्ता-६
वाङ्मन वा	वाङ्मन मध्यम स एड कंपनी (प्रा.) लि	अस्यनल रोड आगरा
वाङ्मन प्र	वाङ्मन प्रकाशन	जमशदपुर-१, विनरक . जयशिव बुक डिपो, माकपी बाजार, जमशदपुर
वाङ्मन प्र.	वाङ्मन प्रकाशन	प्रेम निवास, मैनपुरी

शेफालिका	शेफालिका प्रकाशन	जयपुर
शोभा प्र.	शोभा प्रकाशन	मालवीय नगर, लखनऊ
श्यामल प्र.	श्यामल प्रकाशन	घोसी, भाजमण्ड
श्यामसुंदर	श्यामसुंदर रसायनशाला	गायघाट, वाराणसी-१
श्रमजीवी	श्रमजीवी साहित्यकार प्रकाशन	२६६/१, पदमनगर, कियानगज, दिल्ली-६
श्रीधरविद	श्री धरविद श्रायम	पाडेचरी-२
श्री भलोढा	श्री भलोढा बुक डिपो	याथी मायें, श्रमोडा
श्रीगणपत	श्रीगणपत प्रकाशन	पटना
श्री गुप्ता	श्री गुप्ता स्टोर्स	पो सिवडक, मुजफ्फरपुर (बिहार)
श्रीगुरुदेव	श्री गुरुदेव प्रकाशन	गुल्कुन, जि अमरावती
श्री दयाल पु मदन	श्रीदयाल पुस्तक मदन	ग्राम पदाहा, डाकघर पधरा (सताल परगना, बिहार)
श्री निकेतन	श्री निकेतन प्रकाशन	निबेंद्रम-४
श्री पीतांबर	श्री पीतांबर पीठ संस्कृत परिषद्	वनलडेदवर, दतिमा (म प्र)
श्री प्रभाकर	श्री प्रभाकर साहित्यलोक	रानीकटरा, लखनऊ
श्री भवानी प्र	श्री भवानी प्रकाशन	लखनऊ
श्री भा भारती	श्री भारत भाग्यी प्रा लि	जैन स्ट्रीट, १ अतसारी रोड, नया दियोगज,
		दिल्ली-६
श्रीमालवीय	श्रीमालवीय अनुसंधान विभाग	रूपिकेश विद्यापीठ, हरिद्वार
श्रीराम मेहरा	श्रीराम मेहरा एन्ड क.	अस्पताल रोड, आगरा-३
श्रीरामकृष्ण	श्रीरामकृष्ण आश्रम	घन्तोली, नागपुर-१
श्री श्री ज्ञानदमयी	श्री श्री ज्ञानदमयी सघ	भदेंती, वाराणसी
शंघीत	संगीत कार्यालय	हृषिकेश
संगीत स्र प्र	संगीत सदन प्रकाशन	५८ साउथ मलाका, हवाहाबाद
सघ शक्ति	सघ शक्ति प्रकाशन	जयपुर
सतोष पब्लिश	सतोष पब्लिशिंग हाउस	इलाहाबाद
सपत्तलाल	सपत्तलाल हेमराज सुराना जैन	१८ इतमारिया बाजार, इन्दौर नगर
सस्कार	सस्कार साहित्य माला	कैलाश भवन, बबई-६०
सखल प्र.	सखल प्रकाशन	बीकानेर, बिलरक : बालोक प्रकाशन, बीकानेर
सतीशकुमार	सतीशकुमार एन्ड ब्रदर्स	जौनपुर
सत्साहित्य	सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट	'विपुल' २५५-ए/१६, रिज रोड, मलबार हिल, बबई-६
सन्मति	सन्मति ज्ञानपीठ	आगरा
सन्मार्ग	सन्मार्ग प्रकाशन	१६ यू बी बगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-६
समसालीन प्र	समसालीन प्रकाशन	१४/१६० सत्याग्रह मार्ग, वाराणसी-२
समय नई	समय नई सिधा	पटपटगज, दिल्ली-३२
समवाय	समवाय प्रकाशन	लखनऊ
समानांतर	समानांतर	१७/७० भाई दान, आगरा-३
समुदय	समुदय प्रकाशन	५६४ उन्नीसवा रास्ता, सार, बबई-५२
सरदार	सरदार बल्लभभाई विद्यापीठ	दत्तम विद्यानगर, जि खेरा
सरस सदन	सरस सदन	गगगौरी बाजार, जयपुर

सरस्व. पब्लि
 सरस्व. पु स
 सरस्व. प्रे
 सरस्व म., वा.
 सरस्व स
 सरस्व स., का
 सरस्व. सवाद
 सरोज प्र
 सर्वना
 सर्वभारतीय
 सस्ता
 सहृगल
 सा. भवादमी
 सा बला भ्र
 सा-कुटीर
 सा केंद्र, दि
 सा. केंद्र, वा
 सा. लि, का
 सा नि, ब
 सा. प्र.
 सा प्र म, स्वा
 सा प्र मंदिर
 सा प्रतिष्ठान
 सा म., मे
 सा. भवन, भा
 सा भवन, इ
 सा. मडल
 सा. रत्न भ
 सा सगम, स्वा
 सा. सगम प्र, स्वा
 सा सगम, भ.
 सा. सगम, लु
 सा. गस्थान, राज
 मा सदन, घ
 सा सदन, चि
 सा. सदन, दे
 सा. सेवा स.
 साकेत
 साधी
 साद्रूप

सरस्वती पब्लिशिंग हाउस
 सरस्वती पुस्तक सदन
 सरस्वती प्रेस
 सरस्वती मंदिर
 सरस्वती सदन
 सरस्वती सदन
 सरस्वती सवाद
 सरोज प्रकाशन
 सर्वना प्रकाशन
 सर्वभारतीय काशिराज न्यास
 सस्ता साहित्य भंडल
 एन. डी. सहृगल एड सज
 साहित्य भकादमी
 साहित्य बला भकादमी
 साहित्य कुटीर
 साहित्य केंद्र प्रकाशन
 साहित्य केंद्र
 साहित्य निवेदन
 साहित्य निवेदन
 साहित्य प्रकाशन
 साहित्य प्रकाशन मंदिर
 साहित्य प्रकाशन मंदिर
 साहित्य प्रतिष्ठान
 साहित्य भंडार
 साहित्य भवन
 साहित्य भवन प्रा लि
 साहित्य मडल
 साहित्य रत्न भंडार
 साहित्य सगम
 साहित्य सगम प्रकाशन
 साहित्य सगम
 साहित्य सगम
 साहित्य-सुस्थान
 साहित्य सदन
 साहित्य सदन
 साहित्य सदन
 साहित्य सेवा सदन
 साकेत साहित्य सदन
 साधी प्रकाशन
 साद्रूप राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट

जाजंटाजन, इलाहाबाद
 मोती बटारा, भागरा
 ५, सरदार पटेल मार्ग, पो वा २४, इलाहाबाद
 जतनपुर, वाराणसी
 मसूरी (उ. प्र.)
 प्रानदवाग, वानपुर
 भागरा
 चौक, लखनऊ-३
 धूप छाँह, अशोक नगर, इलाहाबाद-१
 रामनगर दूर्ग, वाराणसी
 फनाट सरकस, नई दिल्ली
 दरौबा कला, दिल्ली-६
 रवींद्र भवन, ३५, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-१
 ३५/२८ सिविल लाइन्स, बरेली
 लखवा
 दिल्ली
 गानवापी, वाराणसी
 श्रद्धानंद पार्क, गिलिस बाजार, कानपुर
 बरेली
 मालीवाडा, दिल्ली-६
 हाई कोर्ट रोड, लखनऊ, ग्वालियर
 रामपुरा, कोटा (राजस्थान)
 ६ महात्मा गांधी मार्ग, भागरा
 मेरठ
 अस्पताल रोड, भागरा
 इलाहाबाद
 १५५/२६ मटेरा प्रसाद स्ट्रीट, मोतवीगज, लखनऊ
 साहित्य कृत्र, भागरा
 नई सडक, लखनऊ, ग्वालियर
 विवेकानंद मार्ग, ग्वालियर-१.
 माठा गली, मधुरा
 कलाक टावर, लुधियाना
 राजस्थान विद्यापीठ, जयपुर
 भजपगढ़ (त्रिला पन्ना) म प्र.
 चिरगाव (भाघी)
 पलटन बाजार, देहरादून
 वाराणसी-१
 ६२ हलवासिया मार्केट, हजरतगज, लखनऊ
 सागर (म प्र.)
 बीकानेर

साधना प्र.	साधना प्रकाशन
साधना म.	साधना मंदिर
साधना सदन	साधना सदन
सारन	सारन जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन
सांबेदेशिक भार्य	सांबेदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा
साबरकर सन्वज्ञान	
प्रसार केंद्र के लिए पुष्पोराज प्रकाशन	
साहित्यवाणी	साहित्यवाणी
साहित्यायन	साहित्यायन
साहित्यालोक प्र	साहित्यालोक प्रकाशन
साहित्यालोक प्र , प्रा.	साहित्यालोक प्रकाशन
सिधल	सिधल बुक डिपो
सिंहल सा	सिंहल साहित्य निकेतन
सुंदर	सुंदर साहित्य सदन
सुंदर प्र	सुंदर प्रकाशन
सुबोध पा	सुबोध पा बुक्स
सुमन प्र	सुमन प्रकाशन
सुमेर प्र	सुमेर प्रकाशन
सुलभ	सुलभ साहित्य सदन
सुपमा पु	सुपमा पुस्तकालय
सुपमा सा म	सुपमा साहित्य मंदिर
सूर्य प्र	सूर्य प्रकाशन
सूर्य प्र म	सूर्य प्रकाशन मंदिर
सेठ सूरजमल	सेठ सूरजमल ज्ञान पुस्तकालय
सेग्टल बुक	सेग्टल बुक डिपो
सोसायटी	सोसायटी फार पार्लियामेटो स्टडीज
सोहन प्र	सोहन प्रकाशन
स्टार	स्टार पब्लिकेशज
स्टू. बुक. क. ज	स्टूडेंट्स बुक कंपनी
स्वराज्य	स्वराज्य प्रकाशन
स्वाति प्र	स्वाति प्रकाशन
स्वाभ्याय	स्वाभ्याय मंडल
स्वास्थ्य सरिता	स्वास्थ्य सरिता प्रकाशन

हृष	हृष प्रकाशन
हजूरिया डा	हजूरिया श्रद्धा
हरजीबराम	हरजीबराम प्रकाशन
हरपागा	हरपागा साहित्य सस्थान
हरिनामकला	हरिनामकला पुस्तक मंडार
हाडोती	हाडोती लोक साहित्य प्रकाशन

१७/१११ रोहताक रोड, नई दिल्ली
 निखना पहाडी, पटना-४
 लूकरगज, इलाहाबाद-१
 छपरा (बिहार)
 दिल्ली

सुभायकुंज डा मुजे मार्ग, सीताबर्ही, नागपुर-१
 ५, गोसाई टोला, इलाहाबाद-३
 कांनपुर
 भरतपुर
 भाधरा
 गली धर्मशाला, बडौत (मिठ)
 जुमेराती द्वार, भोपाल
 ८८२, गली बेरो वाली, सीताराम बाजार, दिल्ली-६
 ३६ शिवतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता-७
 नई सडक, दिल्ली-६
 चिन्हावा (राजस्थान)
 दिल्ली
 पटना-१
 ए ४/२३, कृष्णनगर, दिल्ली-३१
 जबलपुर
 नई सडक, दिल्ली-६
 बिकसो का चौक, बिकानेर
 १८६ चित्तोजन ऐवेन्यू, कन्नकटा-७
 इलाहाबाद
 १८ राजेंद्रप्रसाद रोड, नई दिल्ली-१
 ७४३ सरदारपुरा, बलतसागर लट, जोधपुर
 २७१५ दरियागज, दिल्ली-६
 जयपुर, जोधपुर
 ३५/२८ सिविल लाइन्स, बरेली
 बुलानासा, वाराणसी
 पारडी (जि सूरत)
 कोटगेट, बीकानेर

६३, जौरो रोड, इलाहाबाद
 भाई हीरा गेट, जालघर
 १ धर्मोक नगर, सल्लनऊ-१
 गुरुकुल भञ्जूर (रोहताक)
 २६०२ नई सडक, दिल्ली
 ३१८ लाटपुरा, कोटा (राजस्थान)

हि प्रकाशनी	हिंदी प्रकाशनी
हि प्र	हिंदी प्र प्रकाशक प्रा लि
हि परि, व	हिंदी-परिषद भासापुर
हि प्र, वा	हिंदी प्रकाशन
हि प्रचा पु	हिंदी प्रचारक पुस्तकालय
हि भवन	हिंदी भवन
हि शिक्षक	हिंदी शिक्षक
हि समि	हिंदी समिति (उ प्र शासन)
हि सा कु	हिंदी साहित्य कुटीर
हि सा केंद्र	हिंदी साहित्य केंद्र
हि सा परि	हिंदी साहित्य परिषद
हि सा परि, पी	हिंदी साहित्य परिषद
हि सा प्र., प्र.	हिंदी साहित्य प्रकाशन
हि सा म.	हिंदी साहित्य मठार
हि सा भवन	हिंदी साहित्य भवन
हि सा मं, जो	हिंदी साहित्य मंदिर
हि सा स	हिंदी साहित्य सभार
हि सा. सम्मे.	हिंदी साहित्य सम्मेलन
हि साहित्यालय	हिंदी साहित्यालय
हिंद पा	हिंद पाकेट बुक्स प्रा लि
हिंदु एकेडेमी	हिंदुस्तानी एकेडेमी
हिंदू धर्म	हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था मठल
हीरा-भैया प्र	हीरा-भैया प्रकाशन
हृदय म	हृदय मंदिर
हेमकूट	हेमकूट प्रेस

मुरलीधर बाग, हैदराबाद (भां प्र.)
हीराबाग, बबई-४
चित्तबड़ा गांव, बलिया (उ प्र)
वाराणसी *
पो बा ७०, सी २१/३०, पिशाचमोचन, वाराणसी-१
मार्ड हीरा गेट, जालधर शहर
१२५ गिरगांव रोड, बबई ४
सूचना-विभाग, प्रदार्नी भवन, बनारसी बाग, लखनऊ
हाथी गली, वाराणसी-१
चावडी बाजार, दिल्ली-६
प्रयाग
प्रकाशन विभाग, गौलीमीत
३ विकास पथ, भलवर
५५, चौपटिया रोड चौक, लखनऊ-३
लखनऊ
गहसोत निवास, मेढती दरवाना, जोधपुर
१३, यू बी, बगली रोड, दिल्ली-६
प्रयाग
रमा निवास (दमोह) म प्र.
जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-३२
इलाहाबाद
गांधी चौक, फुलेरा (जि. जयपुर)
१५ भोपाल कपाठक, स्टेशन रोड, इंदौर-१
१०६/२७४, गांधीनगर, वानपुर
ई १११५, पटेल रोड, नई दिल्ली-१२

बृहद् हिंदी ग्रंथ-सूची : परिशिष्ट १९६६

अ

अक्षर दे शुक्ल, रामेश्वर अक्षर
अवाप्रसाद सुमन, १९१६ हिंदी और उसकी उपभाषाओं
का स्वरूप हि सा सम्मे १०००
हिंदी भाषा अतीत और वर्तमान विनोद ६००
अविक्रप्रसाद दिव्य, १९०७ तीन-पग सा सदन प्र ५००
निर्वाण पत्र सा सदन अ ५००
अकौलकर, व वि सामाजिक मनोविज्ञान विनवविद्यालय
६००
अग्रय, १९१५ १९७५ अग्रय रस सपा चंद्रप्रकाश सिंह म
स प्रुनि
अज्ञानद सरस्वती, स्वामी १९११ ईशावास्य प्रवचन
संग्रह मुद्रार्चनासिंह अर सत्साहित्य
अभिक्रियोग सत्साहित्य
भाङ्गव्यप्रवचन स २ सत्साहित्य
श्री पुरोत्तम योग सत्साहित्य ३००
श्रीमद्भागवत रहस्य सत्साहित्य
साख्ययोग (गीता का द्वितीय अध्याय) सत्साहित्य १००
अखिलेश्वरप्रसाद अर्थशास्त्र भा भवन ६००
आधुनिक निबन्धावली भा भवन ३५०
उच्चतर निबन्धावली भा भवन ४५०
कनिज निबन्धावली भा भवन ४५०
आरंभिक अर्थशास्त्र भा भवन ३२५
वैदिक क सिद्धांत तथा भारतीय वैदिक व्यवस्था भा भवन
४००
—तथा हरिहरप्रसाद राय प्रवेशिका नागरिक शास्त्र तथा अर्थ
शास्त्र भा भवन भा १ ३०० भा २ ३ ३५० (प्र)
—दीना अयोध्याकांड भा भवन ६५०
कवितावली भा भवन १२५
मुद्रामा चरित भा भवन १२५
अक्षर दे जमनादास अक्षर
अभिनव, मर्हट्टि भरतसहिता २ भा चौखवा ३६००
अग्निहोत्री भवषडिहारी पञ्चविष्वक्पाम-वल्पना विज्ञान
चौखवा १३०

अप्य वल्पना विज्ञान चौखवा ५००
अग्निहोत्री, ज्ञानदेव माटी जागी रे आत्माराम २०० ना
वतन की आवरु उमेश २५० ना
अग्निहोत्री डी डी रसायन शास्त्र मे क्या, क्यों, कैसे ?
२ भा राजीव, मे ० ७५ (प्र) संपूर्ण १२५
अग्निहोत्री दिवाकर हिमालय का संदेश साकेत १०० का
अग्निहोत्री सत्यनंद मुझ मे देव जीवन का विकास देव समाज
२५०
अग्र दे जैन, नेमचंद अग्र
अग्रवाल तथा गुप्ता बुक-कीपिंग के आधुनिक सिद्धांत हि
प्रचा पु २७५
मुद्रा तथा बैंक की रूपरेखा हि प्रचा पु २००
वाणिज्य सिद्धांत हि प्रचा पु ३७५
अग्रवाल, अग्रनारायण, १९१७ भारत का वाणिज्य भूगोल
रा वेणीप्रसाद ३००
अग्रवाल, अशोककुमार तथा रामप्रताप त्रिपाठी आत्मदानियों
की प्रेरक कथाएँ अशोक प्र म १२५
अग्रवाल, आर एस सरल प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तदमी ना
६५०
अग्रवाल आर डी भाषा विज्ञान प्रकाश बुक ८००
अग्रवाल आर सी औद्योगिक सन्निधय नवयुग सा
अग्रवाल एच वी दे कीशिव, एच के
अग्रवाल, एल सी भारत का सरल भूगोल मुरारी ३ ३०
अग्रवाल, एस सी कृषि प्राणी शास्त्र सरल अध्ययन राज-
हंस प्र म ४५०
कृषि वनस्पति शास्त्र सरल अध्ययन राजहंस प्र म ४५०
अग्रवाल, एस सी तथा आर के मिश्रा मुद्रा चलन एव
अधिकोपण नवयुग सा ५५०
मुद्रा, वैदिक एव राजस्व नवयुग सा ६००
मौद्रिक अर्थशास्त्र नवयुग सा ७००
अग्रवाल, कंदारनाथ, १९१२- फूल गहरी, रंग चोलवे हैं
परिमल ६५० का
अग्रवाल, कैलासचंद्र सुधियों की रिमभिम प्रालोक प्र, मु.
३०० गीत
अग्रवाल, गोपालचरण मानव समाज वि महून ८५०
अग्रवाल गोविंद राजस्थानी लोक-कथाएँ भा अ

धर्मपाल, धनरयाम धर्मपाल टलक गया धर्मपाल
द्विवेदीजी और बाणभट्ट की धर्मकथा धर्मपाल
धरती गए रे धर्मपाल मुरारी. २५० का
मुगानन धर्मपाल का
हिंदी-उर्दू स्वाध्याय धर्मपाल
—तया मजीठिया साहित्यिक निबन्ध धर्मपाल
धर्मपाल, जे के दे मुकजी, धार एन
धर्मपाल, ज्ञानधर्मपाल पंजाबी साहित्य का नवीन इतिहास
धर्मपाल प्र
धर्मपाल, नीलम, सपा वृहत्कथा कि महल १२५० उ
धर्मपाल, पद्मचन्द्र तथा महावीरचरन जेन सपा विचार,
दृष्टिकोण एव संवेत विनोद १००० ति
धर्मपाल, पद्मा, १९२२- कच्छ नवभारती २२५ लोक
स १२५ इति
प्रतीकवाद मनोविज्ञान
मै मिनिस्टर का बेटा हू कि महल २०० उ
धर्मपाल, पृथ्वीकुमार के धर्मपाल, बासुदेवचरण
धर्मपाल वो एन कपनी सचिबोय कार्य-विधि स २ नवयुग
सा. स, धा ६२५ इति
भारतीय कपनी अधिनियम स ५ नवयुग सा स, धा ३७५
ध्यापारिक सन्निधम सपो स ७ नवयुग सा स, धा
८०० से १०००
धर्मपाल, भारतभूषण, १९१९- धनुपस्थित लोह, कविताए
१९५८-६४ लोकभारती ५००
हमारे पप-प्रदर्शन राधाकृष्ण, ५५० जो
धर्मपाल, माधवदास उन्नति कैसे करें. हिंदू पा (पा) १००
धर्मपाल, राधेदयाम देवालिका. नवयुग धर्मपाल ३००
धर्मपाल, रामचिन्मोर 'मनोज' १९११- मिय विज्ञान-वास
उचित प्र २५०
धर्मपाल, रामनारायण कूर्वी राज्यधी २०० गडका
धर्मपाल, रामप्रकाश वाल्मीकि और तुलसी - साहित्यिक
मूल्यांकन प्र प्रतिष्ठान २०००
होरे मोती मा सा प्र २००
धर्मपाल, रामभरोसे गडगा-मडला के गोड राजा रामभरोसे
धर्मपाल, मडला ५००
धर्मपाल, रामदेवरदयानु मुषयबोध माया विज्ञान प्रकाशमुक
धर्मपाल, रामदेवरदयानु, १९१५- प्राचीन भारतीय लोककथा
मानवीय दृष्टि, धर्मपाल
भारतीय कला मया. पृथ्वीकुमार धर्मपाल पृथिवी प्र.
२५००
वेद-रामि स्वाध्याय ५००
—मया पदमावन. सा सदन. वि १५००
—तया धर्म, सया व० मुरनिनारायण मणि धर्मिनदन धर्म
० मुरनिनारायण मणि निराठी धर्मिनदन मणि, वि
के ५००१८ भैरवाय, वाराणसी २५००
धर्मपाल, पी छन्दबोदाक मोतीबाण. १५०
धर्मपाल, रानि मद्रासि नददाम बैजाग व ० ३/
धर्मपाल, रानिप्रभा. रानि कटिन कता. देहाली. ५५०

धर्मपाल, श्रीकृष्ण स्वाधीनता के सेनानी कृष्णा व ३०० जो.
धर्मपाल, हसराम वैदिक साहित्य की रूपरेखा चौखवा.
२००
संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य की रूपरेखा
सहित सरो स ५. चौखवा ७५०
धर्मपाल राजपूत के माटिया, धर्मपालका 'धर्मपाल राजपूत'.
धर्मपाल मिट्टी का कण नेमानल ५०० क.
धर्मपाल के जनार्दन धर्मपाल
धर्मपाल के पुरोहित, जवरनाथ 'धर्मपाल'.
धर्मपाल, ज्ञानकुमारी के ज्ञानकुमारी धर्मपाल
धर्मपाल गुकन. नयी धरती : नये लोग परिमल ३००. उ.
धर्मपालसिंह भमरा' धर्मपाल स्वास्थ्य सरिता १००
धर्मपाल के बहोरे, रवीन्द्रनाथ 'धर्मपाल'.
धर्मपाल के मिथ, रमेस 'धर्मपाल'
धर्मपाल के वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'धर्मपाल'
धर्मपाल के योगेश धर्मपाल
धर्मपाल के शुक्ल रघुनंदनप्रसाद धर्मपाल
धर्मपाल, ए एस के मजूमदार, धार सी
धर्मपाल विद्यालयकार, १९०२- धर्मपालके गडह मोतीलाल.
५००
धर्मपाल संहिता का सांस्कृतिक धर्मपाल. पाणि प्र, वा
धर्मपाल-संहिता, धर्मपाल और प्रत्यक्ष दृष्टि हि सनि
५५०
योग चिन्ता चौखवा ३५०
वात्स्यायन कामसूत्र देहाली ७५०
धर्मपाल, पी एल भारतीय मनोविज्ञान. मोतीलाल १००
धर्मपालके, महावीर, १९१८- धर्मपालके पहचानिये हिंदू
पा (पा) १००
लालबहादुर शास्त्री हिंदू पा १०० जो
धर्मपाल 'धर्मपाल'. उर्वशी जयप्रिय २००
धर्मपाल जिदगी के घेरे. नवयुग धर्मपाल ५२५ उ
धर्मपाल, ध ध (धर्मपाल धर्मपाल) भाषी हिंदुस्तान की
सामग्य २५०
निर्गुणित परिवार . मुगु का धर्मपाल सुबोध प्र
महान् धार्मिक डॉ. राधाकृष्णन् प्रेम प्र २५०
धर्मपालके दे सोलकी, देवेंद्रप्रतापसिंह 'धर्मपालके'.
धर्मपालके मुद्राध्याय भारतीय. वि महल.
धर्मपालके. दे रवीन्द्रनाथ 'धर्मपाल'.
धर्मपालके, काजी पहला और धर्मपालके रत. विश्वविद्यालय.
५००. उ
सलकी विश्वविद्यालय २००. उ.
धर्मपालके 'धर्मपाल', १९२३- मया से पवित्र सा. केन्द्र, वि.
६०० उ
धर्मपालके, १९२५- काजीके धर्मपाल, राजीव, इ ५००. उ
देग के साय धर्मपालके कथा. क
परार्थि रान का पछी हिंदी पा (पा) १०० उ.
धर्मपालके हिंदी साहित्य परिवर्ष ज्ञानपाल २५०
—मया धर्मपालके स्मृति धर्मपालके

भरतनाथ चचल, रेडियो के लिए कैंडे विछें नवयुग प्र. कु
३००.

भरतनाथ शास्त्री वैदिक स्वर समीक्षा धोमानवीय १०००

भरतवहादुर सिंह 'भरतेश', १६२६- भाति के नगन भा
प्र. ल ८०० उ

बाबा नेहरू बिन्दावाद इ पब्लि १,००

भाषा शास्त्र प्रवेशिका रा वेनीप्रसाद ६००

भरतेश्वर भरत कोश, हिन्दी रूपान्तर रा वेनीमाधव ५५०

भरतेश्वर दे भरतवहादुर सिंह 'भरतेश'
प्रतिभाषा दे वित्तिपय, टेनेमी

भरतेश्वर खुसरो, १२५३-१३२५ खालिक बारी सपा, श्रीराम
सर्मा ना प्र सभा २७५

भरतेश्वर, १६२१- इतिहास सर्जना ३०० क.

कठपरे सर्जना २०० क.

इन्द्रे का एक दिन सर्जना ३०० क

गौली मिट्टी सर्जना ३०० क

विभवलक्ष सर्जना. ३०० क.

जीवन के पहले सर्जना २०० क

नयी समीक्षा सर्जना ६००

नागफली का देश सर्जना १५०. उ

प्रेमचन्द कलम का सिपाही सर्जना. २०००

बीज सर्जना ६०० उ

भोर से पहले सर्जना २०० क

रम्या सर्जना ५००

बाल घरती सर्जना २५० क

सहू चिंतन सर्जना ५००

हाथी के दात सर्जना २५० उ

—मनु अग्निवीक्षा सर्जना ५००

मादिवीक्षी सर्जना ६५०

मौजू की परछाईया सर्जना १५०

नूतन आलोक सर्जना २५०

पगरी के तन्ने से सर्जना ३००

रबोद निवध माला सर्जना १०००

हैमलेट सर्जना ६००

—मया गुप्त धन २ भा सर्जना ८०० (प्र)

त्रिज्जि पथी सर्जना भा १७००, भा २ ८००

प्रमचद स्मृति सर्जना ६००

मालाचरण सर्जना ११००

मज्जा हस ५०० क

बिबिध प्रथम सर्जना भा १७५०, भा २ ३
१२५० (प्र)

शबेनार सर्जना १५०

हय सर्जना ६५०

भमनूराय दे शैक्षतपियर, वित्तिपय

भमनूराय श्रोतम, १६१६- भमनूराय श्रोतम की श्रंष्ट कलादिया
राजपाल २५०

भरती सारधर शोरीनिया राजपाल २५०, (पा) १००

भूष का टुकड़ा. राजकमल ८००. का [उ

नागमणि राजपाल २५० (पा) १०० उ.

भम्नात, अनत सधमी, मनु रहस्यमय विरव केंद्रीय हि
२८०

भयोप्यासिह राज्य की भ्रम व्यवस्था एव का-सिद्धात हि
समि ७५०

भरतेश्वर तथा जोहर प्रायोगिक डेरी रसायन शास्त्र तथा पशु
पोषण तिषल

भरविंद दे घोष, भरविंद

भरविंद दे द्विवेदी रामवचन 'भरविंद'

भरविंद जनक १६३४- भ्रमम को गीद मे धामी ७५०

भरुण बलिदान कुमार सब ३००

भरुण, १६२८- भुरुरमुर्ती दे रेगिस्तान मनु पुस्तकें ३००

भरुण दे प्रचन्दर 'भरुण'

भरुण दे विश्वर 'भरुण'

भरुण दे रामा सरनामसिह 'भरुण'

भरुण दे सर्वेद्रप्रसाद सिंह 'भरुण'

भरुण रदिम तथा भमेशच भानुपुत्र का नया संदेश भाषे बुक.
२५०

भरुणेश दे चतुर्वेदी, सुन्दरलाल 'भरुणेश'

भरोडा प्राय कचहरी नियामावली पहूजा १००

पचावर राज ऐक्ट एव नियमावली, १६६४ पहूजा.
८००

भरोडा, भरतजीत मधुर मिलन चमनलाल. २००. उ

भरोडा, भानुप्रकाश भारत मे नये बाटों का सुाम रेडी
रेक्टर कि पर, जो ३००

भरोडा, भोमप्रकाश धम समस्वार्ण एव समाज कल्याण-सरल
अध्ययन राजहस प्र म ६२५

भरोडा, पूर्णचंद्र, सपा विहार भूमिसुधार अधिनियम, १६५०
पहूजा २२५

भारत का भविष्यन सरो १६६३ पहूजा १०००

भगती फारक अगिया चोवो गाइड देहाती २५०

पोरीज गाइड देहाती ५५०

सेडीज वाडी मेकस देहाती २५०

ग्रनैस्ट, धार में भरतीका की बिदेश नीति धात्काराम ७५०

अपानी सम्पति मगही व्याकरण कोश हि सा स १०५०

अलख मधय नथान देश भौर निवासी हिंद पा (पा)
३००

अलनूराय शास्त्री, १६००- मेरा जीवन सरस्व पब्लि ६००

अमनीदकुमार विद्यालकार राष्ट्रपति राधाकृष्णन राजपाल
५००

राष्ट्रपति राधाकृष्णन हिंद पा (पा) १०० जो

—नया भारत ज्ञानकोश (बाधिनी) हिंद पा (पा) २००

भवस्थी तथा सभेसा मुद्रा एव अधिनीयन कि. महूत
१००

भवस्थी, भरतेश्वर तथा धीराम माहेद्वरी लोक प्रसासन
सदमी ना

भवस्थी, भवर्षाबिहारी प्राचीन भारत का भौगोलिक स्वरूप
भोत्रोत्पल १०००

ध्रुवस्थी, जगमोहननाथ 'आधुनिक', वदन्व्य पु स या ३००.
 वा
 ध्रुवस्थी, देवीरत्न 'वरील' दे बालिदास
 ध्रुवस्थी, देवीदास नई कहानी सदन और प्रवृत्ति अग्रर
 ८००
 —सपा विवेक के रग भा ज्ञानपीठ ७०० आ
 ध्रुवस्थी, नन्दकुमार राष्ट्रीय आन्हा पीरानिक वान से कीनी
 आश्रमण तव स २ थी प्रभावर ३००
 ध्रुवस्थी बच्चूलाल 'ज्ञान' काव्य मे रहस्यवाद प्रथम
 १२५०
 ध्रुवस्थी, राजेंद्र प्रसामयिकी पु केन्द्र नि
 यूगोस्लाविया की कहानी बवई प्र २५० या
 ध्रुवस्थी, राजेंद्र तृपित १९२९ एक प्यास पहेली हि
 प्रचा पु ५०० क
 ध्रुवस्थी, रामुशरण 'ज्ञान' धरती की वेदना हि सा परि,
 पी २०० का
 —सपा दर्द हमारे, अथ तुम्हारे हि सा परि पी २५०
 ध्रुवस्थी, शिवदासर मत्र और मानुआओ का रहस्य, तनानुसार
 चौखवा
 ध्रुवस्थी, सरला बुनियादी शिक्षा की विधिपट्ट पद्धतिया
 जबलपुर प्र मू २७५
 बुनियादी शिक्षा की सामान्य पद्धतिया जबलपुर प्र मू
 २७५
 ध्रुवस्थी, शिवाजीगम्, टी एस, १९०३- स्थोहार और निष्ठा
 राष्ट्रीय दीक्षणिक
 ध्रुवस्थी, अहमद दे अग्रत, अ अ
 अग्रत दे रामेदवर अग्रत
 अग्रत अग्रत के गीत मगता व
 वाद, मुरज और सितारे मगता उ
 तीन इक्के मगला १
 धरती और आकाश मगता उ
 पुनभद्री मगला उ
 सहोदरा मगला उ
 ध्रुवस्थी, अहमद वैज्ञानिक प्राणाग्रम रहस्य ध्रुवस्थी २२५
 व्यापाम और धारीरिक विनास स २ ध्यामगुदर २५०
 ध्रुव दे उपेन्द्रनाथ 'अरु'
 ध्रुव दे बीसलवा अरु
 ध्रुवधोष, आचार्य बख्शूचिउपनिषद् धनु प्रानन्द
 महाबोधि ०५०
 ध्रुवधर धरनाथ, खाडा तथा धय राती जो बाँहा मे
 रापाहृण ३५० नि
 ध्रुवधरवासिया, मुद्रांन दे निगम, निबनाय
 ध्रुवधरजीव प्रेम धोर प्रकाश धनु धनना पाप्नी गस्ता
 २०० उ
 ध्रुवधर, बेनबदेव अटोनिपद नाव्य दिव्य
 थी अरविद पारिभाषिक अरु बीन दिव्य
 —नखलन एव धनु गीता विज्ञान दिव्य १०००
 ध्रुवधर, बेनबदेव दे धोर, अरविद

आचार्य, गोपाल निर्वसना सूर्य प्र म ५१० उ
 आचार्य, निरजननाथ विस्मृति के पस भा सा म ३००
 गय का
 आचार्य श्रीगोपाल, १९१२- छाया पुरुष मुन्ना प्र ३५०
 आजाद दे वृषानसिंह आजाद [उ
 आजाद दे प्रतापचन्द्र 'आजाद'
 आरामदेव, स्वामी ब्रह्मज्ञान अग्रुयं महार विज्ञान म १००
 आरामानंद, स्वामी मनोविज्ञान तथा शिव सन्ध्या हरयाणा
 ३५०
 आरामाराम, आचार्यश्री आचार्यगगनूज हिंदी अनुवाद सहित
 २ भा मोतीलाल १६००
 आरवश्यक सूत्र भा १ मोतीलाल ०७५
 उत्तराध्यायनसूत्र हिंदी टीका सहित भा २ मोतीलाल
 ८००
 उपाशयकदाग सूत्रम् हिंदी टीका सहित मोतीलाल ८००
 तत्त्वार्थ सूत्र जैनागम समन्वय मोतीलाल १२५
 दश वैकालिक सूत्र हिंदी टीका सहित मोतीलाल १०००
 आर्येय, भीखनलाल, १८९७ भारतीय नीति शास्त्र का इति-
 हास हि सति २०००
 आर्येय, शानिप्रकाश योग-मनोविज्ञान इन्टरनेशनल स्टैंडर्ड
 आर्येय भारत परिचय नवमी मे राजकमल ०७५
 आर्येय दे ब्रजभूषण आर्येय
 आर्येय दे अट्ट सोमनाथ 'आर्येय'
 आर्येयकुमारी 'आर्येय', १९३०- पावस आरामाराम २००
 का
 आर्येय दे सोमनाथ 'आर्येय'.
 आर्येय रतीद एक नवकी एक समस्या अरुध पा (पा)
 २०० उ
 अरुधिया स्टार (पा) २०० उ
 आनंद नीरजा जयमाला नवयुग प्रकाश ५ ५ उ
 आनंद पी एन तथा एस एस बसिण्ट हमारा सदैधानि
 इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन बेनल
 आनंद, सुरेन्द्र धा प्रव लीट चर्चे सती स २ आनंद प्र
 ३०० उ
 आनंद कहानीकार आनंद प्र १०००
 आनंद के पुरपमात्र आनंद प्र १५००
 अरुधता दवदास और सोई हुई पारो आनंद प्र ६००
 वे लोग मया. स २ आनंद प्र ५०० उ
 आर्येय रायव और उनका उपायास साहित्य आनंद प्र
 १०००
 आनंदगुमा' पुस्त-गानन एव लेखा प्रकाशी भा भवा
 ९००
 नखलन रामप्रसाद २५०
 हारजीन का भेद सरता २००
 आनंदप्रकाश भारतीय समाज और महाराष्ट्र सरन अग्र्ययन
 राजहम प्र म ५५०
 आनंद वामन सरन अग्र्ययन भा राजहम प्र म ३७५
 (प्र)

सामाजिक कल्याण और सुरक्षा' सरल अध्ययन राजहंस
प्र म ५.५०

आनंद बघु, बोधिसत्व रूपराम २.०० वप्र
आपटे, बी एस आपटेज सस्युन हिंदी कोष मोतीलाल
१०००

आरसोप्रसाद सिंह जननी प्रभात पब्लिशिंग का
सुजीविनी, तारामडल १७५ लड का
सोने का भरवा तारामडल १७५ का

आरिगपूडि दे रमेश चौपरी ए आरिगपूडि'
आरिफ मारवती धन छाव स्टार (पा) २०० उ
भार्य, वेदभानु चुने हुए कवि और लेखक राजहंस प्र म
१५०

भार्य दे बनारसीनाथ 'भार्य'
भार्य दे आदरकुमारो 'भार्य'
भालमशाह था राजस्थानी बचनिकाए राज सा धरा
५०५

भालू बाले बाबा दे योगानंद, परमहंस स्वामी (ज्ञानू दावे
बाबा)

भारिया, सावदान दे मोहनसिंह
भारिया, सावदान दे व्यास, मोहनलाल
भारिया, सावदान दे शर्मा, गिरिधारीलाल
भानुशक्ति दे धवस्थी जगमोहननाथ 'भानुशक्ति'
भामनामी, दशरथराज कविबर मुमिनादन पत ध्वनिद्व
एककृतिद्व नद ब्र ५००

इद दे. इद्रपात सिंह 'इद्र'
इद्र दे शर्मा, देवेन्द्र 'इद्र'
इद्रजितसिंह 'तुलसी' बर्फ बनी धगारे आर्ट्स १.००
इद्रपालसिंह 'इद्र'. रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध-वाच्य, स १७००
१६०० वि विनोद १५००

इकबालनारायण हायर सैन्ट्रि नागरिक शास्त्र शिव शिव
७००

इरविन, वितियम भारतीय मुगलो की सैन्य-व्यवस्था आदर्श
हि १०००

ईडन, मैट्रिक स्टीम इंजन की कहानी नेशनल १५०
ईश्वरचंद्र विद्यासागर सस्युन व्याकरण की उपकर्मिका
सया गोपालचंद्र शास्त्री चौखवा १२५
मस्कृत व्याकरण कोमुदी धनु गोपालचंद्र शास्त्री भा
१-४ चौखवा ८००

ईश्वरदत्त, १८६६- चित्र दुंडा निज पादया. पु जगत नि
उग्र दे शर्मा, पांडेय बेचन 'उग्र'
उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार मना राष्ट्रभाषा रजत-जपती
ग्रथ उत्कल भा २०००

उदय दे राय, उदयनारायण 'उदय'
उदयन नतरणी कृतिका चौखवा १४०
मुना कहानी चौखवा १८०

उदयनारायण सिंह अमर कार्तिकारी परिमल. ५०० जी
उदयभानुसिंह, मया १९१७- तुलसी. राधाकृष्ण. ६.००
उदयभानुसिंह दे बीध, ए बी.

उदयभानु हंस. विहारी की काव्य-कला रींगल.
उदयसिंह 'विहारी' दे श्रीवासुदेव, बी पी
उपाध्याय, श्रविकादत्त हिंदू धर्म ए वसंत मोतीलाल
३००

उपाध्याय अमरमुनि, १९०५- समाज और संस्कृति सया
विजयमुनि कान्ही सम्पति ३२५

उपाध्याय, श्रयोध्यासिंह 'हरिभोग', १८६९-१९१५ इतिवृत्त
पु स, वा १५० सरम

उपाध्याय, काशीनाथ न्यायशास्त्र की रूपरेखा भा भवन
३२५

उपाध्याय, कृष्णदेव निरुध चंद्रिका चौखवा २००

उपाध्याय, के एन दे भार्य, पी एन

उपाध्याय, गंगाप्रसाद १८८१- जीवात्मा कला प्रेस ५००

सध्या, क्या ? क्यों ? कैसे ? वैदिक प्र म

उपाध्याय देवराज साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन एश
चाद ६००

उपाध्याय, नगेंद्रनाथ नाथ और सत साहित्य तुलनात्मक
अध्ययन काशी हिंदू १०००

उपाध्याय बलदेव १८६६- धर्म और दर्शन चौखवा ५००

पुराण विमर्श चौखवा २०००

बोद्ध दर्शन मीमांसा महाबोधि ६००

भारतीय दर्शन चौखवा. १०००

वैदिक साहित्य और संस्कृति चौखवा ८००

मस्कृत वाङ्मय चौखवा १७५

संस्कृत साहित्य का इतिहास परि. स. उ. नागेश म., वा
एव चौखवा १२००

सस्युत सुकवि समीक्षा. चौखवा २०००

उपाध्याय, बाबकृष्ण बाल पवराज प्रथमाला २०० वा
श्रीहर्ष की आत्मकथा प्रथमाला १५० वप्र

उपाध्याय, भगवदशरण, १९१०- अज्ञेय राष्ट्रभावना प्रभात
प्र ३५० नि

कालिदास नयानि रणजीत ७.५०

सवेरा, सपर्य, गर्जन भा ज्ञानचौध ७००

उपाध्याय, भवानीशंकर, सया राजस्थानी चर्चा भा २ सा.
सस्वान, राज १५०

उपाध्याय, मिथिलेशचंद्र भारतीय इतिहास सरल अध्ययन
राजहंस प्र म २२५ से ४५०

उपाध्याय, रणधीर हिंदी और गुजराती नाट्य साहित्य का
तुलनात्मक अध्ययन नेशनल २०००

उपाध्याय, रामजी, १९२०- प्राचीन भारतीय साहित्य की
सांस्कृतिक भूमिका देवभारती प्र एव लोकभारती
३२५०

भारत का सामाजिक प्रगति रा वेनीमायद ३००

मस्कृत व्याकरण, रचना सया निवय बोधभागी
—सया रामगोपाल विध. सस्युत वे महाकवि और वा य
रा वेणीमायद

उपाध्याय, रामनारायण, १९१८- सत सिगानी, एन
अध्ययन. सा कुटीर ३००

उपाध्याय विभवमरणात् १६२५ निराला वा साहित्य भोर
साधना स २ विनो ६००
मन्यवालीन हिन्दी भाष्य का तात्त्विक पञ्चभूमि सा भवन
ह

उपाध्याय गचीन्द्र ठुवरायो हुए सोम कृष्णा घ ०५० उ
उपाध्याय गानिधाम दे हेमचन्द्र भाषाय
उपाध्याय विभवकुमार दे वमा श्रीहृष्णप्रसाद
उपाध्याय विभवनारायण विभव नये नये गीत हि भवन
०५० वप्र

उपाध्याय हरिभाऊ १८६२ गाधी-युग के संस्मरण
नेपाल ७००

मेरे हृदयदेव सस्ता ३०० ससम
उपद्रनाथ धर १६१० एक रात का नरक सुबोध पा
(पा) १००

श्री नील नीलाम १२५ वप्र
श्री हेनरी नीलाम १२५ वप्र
सोपा हृमा प्रमा भवन नीलाम ४०० वा
परता के धारपार नीलाम ५५० ससम
पंतरे नीलाम ४०० वा
वरगद की बेनी नीलाम ४०० वा
माक टवन नीलाम १२५ वप्र
रोकदाव हिंद पा (पा) १००
गहर में प्रमता आईना नीलाम १२०० उ
गिवायतों और गिवायतों नीलाम ४००
हेमिन्ध नीलाम १२५ वप्र
हिंदुमैन नीलाम १०५ वप्र
—तथा कौतल्या अक दो घारा ग ३ नीलाम ४०० व
उमागाकर, १६२८ अनूक सपन भा घ नि ५०० उ
दिल पर एक दाग प्रवीर ५०० उ
नीर भर छाये बदरा स २ भा घ नि ४०० उ
भुवन विजयम् स २ भा घ नि ६०० उ
उमागाकर सताल मरवार की रूपरेखा निर्माण प्र प
१२५०

उमा गाव के वृत्त तोमा प्र २०० वा
भारतीय वाच्य म धर्मांतरण्यस चोखवा ६००
उमिल दे कपुर मंतराम उमिल
ऊमरदान उमर वाच्य हि पर जो ४५०
ऊपारानी उपा धार्मुनिक बर्णाई देवती ३००
शुनुराज मै धार्गिरम हि सा प्र घ वा
शुनिनारायण पावन गोमा की धार नारायण प्र १०० उ
एहमैन इरविन त्रिनि कलाए और मन्य नेपाल ४००
एहविन तथा टील प्रदिनि के वाच धनुभुति क धण
धामाराय ४५०
एलहर इरविन भूल का घण्व हि महन ०५०
एरविन्तन दि सिद्धी धाय इरिया कि महन ०५००
एनिन एम पुनर की बहानी राजपाल ००
एनेरनेरर राक ज धार्विद विनास, एर प्रारमिह विवक
धामाराय ५५०

एसीमोव वास अतरिख मे उपग्रह भात्माराय ४००
भोकार राही खडी बोली का स्वरूप रूपमल ५००
भोकार गद तथा १६२६ पपकात मालवीय व्यवस्तित्व
और कृत्तित्व धारदा पु भ

भोकार सार दे गर्मा जनादन प्रसाद
भोव पु ना ताजमहल राजपूती महल पा धनु जग
मोहनराव भट्ट सूर्य प्र ४००
भोभा कहेयालाल तुनसीदास सा सस्थान, राज १५०
खड का

भोभा, वाग्नीरीलाल दे साधना प्रतापी
भोभा कृष्णदत्त रूप के बादल पेहरासिह चौहान (कु)
भाउवा (पाली) १२५ का

भोभा कलागपति नाटय सिद्धात नैवेद्य
भोभा गौरीगकर हीराचंद भोभा निवच सग्रह सा सस्थान
राज भा १५०० भा २ ६०० भा ३ ६६००
भोभा जयदीप सुंदर भित्तिरिच भगोव प्र म १२५
खड का

भोभा दारय १६०६ तथा नया साहित्य हेमचुट
भा १ ३००, भा २ ३२५ भा ३ ३५०
भोभा दीनदयाल तथा राजस्थान का वास्तविक पर्व गण
गौर भूल प्र

राजस्थान के बहानीकार राज सा धवा ३७५
भोभा रतिकविहारी निर्भीर परिछाहीं जमोदपुर
भोजपुरी १०० ना
सुरनिवा ना बिसरे जमोदपुर भोजपुरी १५० रेखाचित्र
श्री एल व भाषा गिभाण की नवीन विधिया विद्या
भवन उ ३७५

भोमप्रकाश दे गोविंददास
भोमप्रकाश कविराज, १६ ५ पोलियो तथा धायुवेंद
पोलियो धायम धार्यावर्त नई शिल्पी
भोमप्रकाश आदिरय इधर भी गध हैं उधर भी गध हैं
मुबोध पा (पा) १००
भोमप्रकाश धार्निय' सितारों की पाठगता सूय प्र ०५०
वप्र

धामप्रकाश गान्धी तथा धारणश्री गोरवामी ममीशा सत्त्व
हि सा स ३००

धोमीराज इताहाबादी एक विदेशी लखी राट्ट प्रचा
इ २५० उ
बतव्य राट्ट प्रचा इ ३५० उ
कम राट्ट प्रचा इ ३५० उ
पुनव राट्ट प्रचा इ ३२५ उ
दाई गत्र का टुका राट्ट प्रचा इ ५५० उ
तुम उदार करो हम प्यार करो सा कट्ट हि ३०० उ
पति पता राट्ट प्रचा इ ०७५ उ
भायहाल राट्ट प्रचा इ ८०० उ
मा की उमाकी राट्ट प्रचा, इ १५० उ

क

कवनरुमार एक हुए मुकुल प्र
 कपानी, गुणवत्सिंह दे भिन्न नरेंद्रनाथ
 कवल एम एन टूटी जजोंर टा भार उ
 कनल, एम पी विचार का भावविकास प्रा.त्माराम ७५०
 कलिक, मार्कम अमरीकी सहिय का सक्षिप्त इतिहास गर्ग
 व ८००
 कन्हैयासिंह १९३५ सपा व्यक्तित्व और विचार कि
 महल
 कपिल, आचार्य जो भुलाए नहीं भूलत वेनोपुरी ५००
 दिनकर और उनकी काव्यकृतिया वेनोपुरी ३७५
 विचार और मूल्यांकन वि प्र कु ५५०
 सुल्लो और सीरलें वेनोपुरी २२५ सस्म
 कपिलदेवनाथसिंह सिंह मुहद, १९१९- बीती बातें
 वि प्र कु १५००
 मेरे अपने वि प्र कु ७५० उ
 कपूर अमरनाथ भौगोलिक शब्दकोश और परिभाषायें कि
 महल
 कपूर, एच सी स्टीम इन्जीनियर्स गाइड देहाती १२००
 स्टीम इन्जीनियर्स हैंडबुक देहाती २०२५
 कपूर, कन्हैयालाल हास्य बत्तीसी राजकमल ४५० नि
 कपूर, कान्तिदास, १८६२ देश देश के सत्ता सहली
 रामा प्र ३००
 भारतीय भूनीति हि सति ७५०
 कपूर, पृथ्वीराज दीवार हिंद पा (पा) १०० ना
 कपूर, प्रम एन और सब हि प्रचा पु ५०० उ
 कपूर बदरीनाथ, १९३२- हिंदी पर्यायों का भाषागत
 अध्ययन हि सा सम्मे शोध
 —जया अग्रजी हिंदी पर्यायवाची कोश राजकमल ६००
 वैज्ञानिक परिभाषा कोष शब्द-लोच १२००
 कपूर, मन्तराम 'उमिल बच्चों के नाटक नेचनल २५०
 कपूर, रामचंद्र लघुभाषासरी भाष्य मोतीलाल ८००
 कपूर गुप्तनार आचार्य चतुस्तेन का कथा साहित्य विवेक
 २५०० शोध
 विद्यापति और उनका काव्य गण
 कपूर, दशम भरती चरित्र निमाण प्राप कोजिए भायें बुक
 २०० बप्र
 अपना जीवन निर्माण भाप कीजिए भायें बुक २०० बप्र
 अपना स्वास्थ्य भाप बनाइये भायें बुक २००
 कपूर, दशमचंद्र हम कैसे जियें? विद्या प्र म
 कपूर, दशमनारायण भारतीय वैज्ञानिक सचो स ता
 नि, का ६०० जी
 रातेट की कहानी सा नि, का २५०
 कबीर कबीर-पदावली सपा बरसानेवाल चतुर्वेदी सा
 सगम, म

वीरक भूत सपा महाराज राघवदास बाबू वैजनाथ प्रसाद,
 रागादरखाजा, बनारस ७००
 कमठान, गंगाप्रसाद सपा राजस्थानी लोकगीत भा १
 सा सस्थान, राज २५०
 कमलेश दे भा, कमलनारायण 'कमलेश'
 कमलेशकुमारी दे वामुदेवनदन प्रसाद
 कमलेश्वर १९३२ राजा निरवसिया भा ज्ञानपीठ ५००
 क
 सरहदो के बीच हिंद पा (पा) १०० उ
 कर्णोदानजी सुरजप्रकाश सपा सीताराम लालस ३ भा
 राज प्राव्यविद्या
 करील दे अचस्यी देवीरल 'करील
 कण भयकर लोक मज १२५ उ
 कल्या शंकर भारतीय फिल्मों का इतिहास रगभूमि
 कल्पित दे कैलाश कल्पित
 कल्याणसिंह कुंवर कर्मग की एक शाम साकेत २०० ना
 बदी साकेत १५० ना
 कर्मवीरलाल जाकिर सीमा बफ और फूल विद्यानचद १७५
 ए
 कदप प्रेम सोज अभी दिल्ली दूर है और गहराइया सा
 सगम प्र, म्वा ३५०
 कदप, हरवशाल, १९३३ आराका की मृत्यु दस कहा
 निमा ३०० क
 —सपा कथा दसक दस कहानिया ४०० क
 काट, इमंनुयल सीदर्य मीमासा कि महल ७५०
 काता समयालौत नवाहिद ३०० का
 कान्तिमोहन, अनु प्राणा की बाजी हिंद पा (पा) १००
 क
 मशीन युग की कहानी राजपाल २००
 काका हारसी (प्रमलाल गम) १९०६ काकदूत सगीत
 २५० खडवा
 काकदूत हिंद पा (पा) १००
 काका की फुलभडिया हिंद पा (पा) १०० का
 काका के कारदूस सगीत
 काका के प्रहसन सगीत
 दुलसी सुबोध पा (पा) १०० का
 महामूल सम्मेलन सुबोध पा (पा) १००
 कर्नल, जेम्स बी सिद्धा और स्वतन्त्रता आत्माराम २००
 काने, पी की सख्त काव्य गाल्ज का इतिहास मोतीलाल
 १५००
 काम दे कामताप्रसाद सिंह 'काम
 कामताप्रसाद सिंह काम कामता प्रभावली पारिजात नि
 तथा क
 कामेश्वरप्रसाद सिंह प्रसाद की काव्य प्रवृत्ति अनुसंधान
 कालिका मुहद देवा मुवह की चित्ररजन प्र का
 कालिका, मुनीला प्र दलरिय फैशन बुक देहाती ३२५
 कालिकाप्रसाद सिंह, १९३४- हिंदी और गायो सता प्र
 १५०

कालिदास कालिदास प्रयागली सभा सीताराम चतुर्वेदी
 भा प्र मंदिर २०००
 कुमार सम्भवम् शत्रु विघोरीचरण वर्मा सयं १५ भा
 भवन ३००
 मेघदूत राजस्थानी रूपा मनोहर प्रभाकर हिंदी रूपा
 रागय राधय कल्याणमल २००
 रघुवंग शत्रु देवीरत्न श्वरथी करील सा प्रभादमी
 ६५०
 शकुन्तला नाटक शत्रु राजा लक्ष्मणसिंह सभा जयशंकर
 त्रिपाठी लोचभास्ती २५०
 शाकुन्तल रूपा मोहन राखेरा राधाहृष्ण ५०० गा
 वालीचरण एयर कन्वीरनिग गाइड दहाती १५००
 खराद व वक्रशाप ज्ञान देहाती ६००
 परेलू उद्योग घष दहाती २५०
 परमपूजरी मास्टर दहाती २५०
 प्लाम्टर कार्टिग कला दहाती २५०
 वनस्पति पी निर्माण दहाती ८२५
 माडन सोप इन्डस्ट्री दहाती १०५०
 रबड़ इन्डस्ट्री दहाती ६००
 लाट्री इन्डस्ट्री दहाती ६००
 साइड व ड्राइवलागि दहाती ५५०
 बकगाप प्रिन्टिंस दहाती १२००
 विद्युत इंजीनियरिंग दहाती १६००
 शीट मेटल बवम दहाती ८२५
 सदा जवान रहो दहाती १२००
 निनेमा मंगेन प्रापरेटर देहाती १०००
 स्प्र पेंटिंग दहाती १२००
 कानलवर, काका (दहायय कालकृष्ण काजलवर), १८८५
 परमसपा मृत्यु सस्ता ३००
 यात्रा वा प्रानन्द वि राष्ट्र ७५०
 शक्ति-सेना धीर विश्व शांति प्र भा सत्र
 —तथा प्रय सपा रघुवीर श्रद्धाजनि इरनेशन एक्डमी
 काफ टिडियन ब-वर, नई दिल्ली
 कांगीनाय सिंह भारत का राष्ट्रीय प्रादान सरल प्राययन
 कमल प्र ३००
 काश्यप, प्रजुन चौक धमाशत्रु वा इतिहास हि सति
 भा १ २१०० भा २ १३००
 काश्यप, मिश्र जयदीन उदान महाबोधि १२५
 मनुवन निहाय महाबोधि, भा १ ७००, भा २ ६००
 काशीनाथ बन्सूखेद जैन प्रप मण्डारस इन राजस्थान
 जैन सा
 काश्यपानी जैन सती श्री साहित्य साधना जैन सा
 —सपा इंदी पद सखइ जैन सा ३००
 कायलीवान बन्सूखेद दे रात्रिसह
 रिजिता, मिश्र गिगाल-मुल महाबोधि ०५०
 किरण योतुन गिगाप्रद कहांनिवा इन्टर मुनि १२५
 बिगार दे उदयगिह 'विगार'
 विघोरीचरणतान सिलजी वय का इतिहास सदी मा

८००
 कीय, ए बी वैदिक धम एव दर्शन शत्रु सूर्यकांत २ भा
 मोतीलाल ५०००
 सस्कृत नाटक, शत्रु उदयमानु सिंह, मोतीलाल १५००
 बुद्धम दे वमा कातिकीयाल कुजुम
 कुवरनारायण श्रावणजयी, नविकेता के प्रसंग पर प्राचारित
 भा शानवीठ ६५० क
 कुक्करी मोहनलान दूर वी श्रावाज हि सा भवन व
 कुचिमार मुनि कुचिमार सत्र (भाया टीना) घवतरि ०५०
 कुतुवन मृगावती सपा गिषयोगाल मित्र हि सा सम्भे
 कुप्रिन य चकले बालिया सुबोध पा (पा) २००
 कुमारबिमल, १६३२ प्राधुनिक हिंदी काव्य प्रचना प्र,
 भा ५०० नि
 महादेवी वर्मा पराग प्र १५०
 —सपा अत्याधुनिक हिंदी साहित्य पराग प्र ६००
 कुमारेय दे तिवारी हृदयानंद कुमारग
 कुंरी जीमाला रागी छोरे परिमल ३०० ना
 सरगम परिमल २७५ ना
 कुलकर्णी तथा गोवत, भाष्य नाम मालिका—भोग
 मोतीलाल ६००
 कुलधेष्ट एन एन भारत वा प्राथिक वाणिज्य भूपाल
 रामप्रसाद ३००
 भारतीय प्राथिक समस्याए एव पृष्ठभूमि स २
 रामप्रसाद २५०
 कुलधेष्ट के सी नर्वन रसायन शास्त्र जवनपुर प्र गु
 ५००
 कुलधेष्ट बी एन दे रस्तोगी, सुधीरचद
 कुलधेष्ट रघुवीरसहय, १६२१- निगम जित सा भवन, भा
 कुलधेष्ट रमसाचद, १६२१- बुद्ध क साधन धीर साधय रा
 वतीप्रसाद ८००
 —तथा बनवारीजाल गर्मा भारतीय संय विज्ञान
 मगी ग - चद्र प्र ६२५
 कुलधेष्ट रवींद्रप्रसाग श्वर व वाहर सा २ वि मय ५००
 हिमालय प्रावाज दगा है वि मय १२५ एव [उ
 कुलधेष्ट, वद रममेरे प्राग रामप्रसाद ०७५
 कुलधेष्ट सरीजिनी साधना राग्यधी २०० वा
 हिंदी साहित्य म कुष्ण राग्यधी १२५० घोष
 कुलवाहा, गतारानी १६५५- सरोज चौधरी उ
 कुलवाहा तजनारायण शत्रुकार पत्र म एम एल बुक १५०
 कुलवाहा विमल इजनी रात टूना सादे नययुग प्रयागार
 ३५० उ
 कुलवाहा वान उगार साजन रगर (पा) ००० उ
 नागिन मुगोष पा (पा) २०० उ
 मुगुम द वनदा 'बुगुम
 कुन कान्ठन एम मानव श्री कृष्णी प्रायमाराम ७५०
 कुपताय सरस्वती द हरनाशयना स्वामी
 कुपताय प्राजाद नवाचलन श्री कृष्णीया एमक १००
 वर

वृन्तचदर भाषे घटे वा खुदा राजपाल. ३००
 वाग्रज की नाव. राजनमल. ४.५०. उ
 दिल, दौलत और दुनिया राजपाल २५०
 फिल्मी कुलमडिया हिंदू पा (पा.) १००
 बावन परी स्टार (पा) २००. उ
 मिट्टी के सनम. राजपाल. ३००, (पा) १०० सस्म
 हमारा घर राजपाल. २०० बर
 कृष्ण, प्रो० औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी के सिद्धान्त और प्रयोग
 हिं समि ६००
 कृष्णकुमार 'नूतन' पलडिया कुमार सज १५०
 सोना या झाजादी कुमार सज १५०
 कृष्णचंद्र सडक बापस जाती है एमके ५०० उ
 सितारी की सीर. एमके १५० बर
 कृष्णचंद्र विजय. दे. सक्सेना, शिवनारायण
 कृष्ण चैतन्य सस्मृत साहित्य का नवीन इतिहास अनु
 धित्यपुस्तकालय उपर तीर्थकार २०.००
 कृष्ण जनसनी, सपा रेखाए. सूर्य प्र म १२५ क
 कृष्णनारायण प्रसाद 'भाग्य' हिंदी साहित्य युग और धारा
 भा. भवन. ८५०
 —टीका, पद्यामरण. भा. भवन ३५० या
 कृष्णनारायणलाल हमारे साहित्यकार सा भवन, ६ ३००
 कृष्णबहादुर. परमाणु शक्ति की कहानी रा बेनीप्रसाद
 १२५
 कृष्णभूति, के बी नानाशं भवनी—राधव मोतीलाल १५००
 कृष्णमोहन 'प्रिम' कमला नेहरू काय प्रभा प्र
 कृष्णाचार्य, १९१७- सपा. हिंदी के प्रादि मद्रित ग्रथ भा
 ज्ञानपीठ
 हिंदी के स्वीकृत प्रबन्ध आभावित २०.००
 कृष्णादेवी. इंदिरा जो इंटर यूनि १७४ जो
 —तथा गायत्रीदेवी हृदियारो की कहानी इंटर यूनि १५०
 कृष्णानंद कप मोटरकार ट्रेनिंग मंत्रालय मपूर्ण ३ भा
 देहाती. २४७५
 बीजत इजन गाइड. देहाती ८७
 मोटरकार इन्ट्रुक्टर देहाती १४००
 कैंडेल, आई एम बीसवी सतादरी में अमरीकी शिक्षा गर्ग
 ३ १०
 केंद्रीय स्वास्थ्य विभा व्यूरो स्वस्थ भारत केंद्रीय स्वास्थ्य
 केदाभाय लाम भारती भा भवन ३०० का
 लविमा रानी भा भवन २५० का
 केन, फिलिप विन्ड के महान वैमानिक रजपाल १००० जी
 केनेडी, जॉन एक विद्व शानि की और धारभागम ४५०
 केपा, कार्नेल तथा माया पाइन्ड अविनमिन वन्धो की
 सहायता गर्ग २००
 केनकर, र वा हिंदी तथा मराठी कृष्ण वाय्य का तुननात्मक
 भन्धन धदार. २०००
 केवड दे शक्तिमान केवल
 केवडसत, आचार्य केवडदास के हीन ग्रथ. विरसेश्वरानंद
 ४००

प्रिय प्रकाश सपा सला भगवानदीन. स ३-कल्यानदास
 रसिक प्रिया. राष्ट्रीय सप्रहालय १०००
 केवडप्रसाद भारत में स्थानीय स्वशासन का आलोचनात्मक
 ग्रन्थयन. भा भवन ४००
 केवडप्रसाद सिंह, सपा समकालीन प्र २५०.
 केपरीकुमार पत और उनका गुजन मोतीलाल. ३१२
 प्रतिनिधि कहानिया मोतीलाल. ४००
 प्रसाद और उनके नाटक मोतीलाल २१२
 महाकवि हरिऔध का प्रिय प्रवास मोतीलाल २२४
 साहित्य समीक्षा मोतीलाल. ३००
 हिंदी के कहानीकार मोतीलाल २२५
 केहरोसिंह 'मधुकर', सपा देत प्यार के गीत प्रकादेमी प्राफ
 प्राट
 कैपूर, बिला प्रेमिका अनु श्यामू सन्यासी राजपाल
 ५०० उ
 कैपूर के मत, दुर्दिनाथ 'कैपूर'
 कौलाज कल्पित इद्रदेला और नागकनी प्रयाग प्र २०० क
 रास और आग प्रयाग प्र १००. क
 रूप की घुप प्रयाग प्र
 साहित्य के साथी लोक चेतना. २००
 साहित्य साधिकायें. लोक चेतना. २२५
 —अनु श्वींद्र गीताजलि प्रयाग प्र २०० का.
 —सपा. पनाजलि विद्याचल २००
 कोचबा, हनुमारायण. अनुभव के मोती साधना प्र ६००
 क्रायुनिक इन्जैकशन बुक देहाती ८.२५
 क्रायुनिक एलोपैथिक इन्जैकशन बुक देहाती ८.२५
 क्रायुनिक एलोपैथिक गाइड देहाती १५००
 क्रायुनिक टैबलेट गाइड देहाती ८.२५
 एलोपैथिक गाइड देहाती १५००
 एलोपैथिक पेटेंट चिकित्सा नवनीत. साग्रभा प्र. ८.००
 कपाउठमं गाइड देहाती ५.२५
 कृष्ण कपाउठमं देहाती ५००
 कृष्ण चिकित्सा देहाती. ५००
 कृष्ण रत्नाकर देहाती ३००
 तुलसी के गुण तथा उपयोग देहाती ३००
 नपुनक चिकित्सा देहाती ६००
 निदान नवनीत चाट्टन साधना प्र ८००
 पानी के गुण तथा उपयोग देहाती ३००
 पुष्प पुस्त रोग चिकित्सा देहाती ६००
 मिट्टी के गुण तथा उपयोग देहाती ३००
 स्विच परिवार नियोजन देहाती ५.५५
 होम के गुण तथा उपयोग देहाती ३००
 चटाणी टा एन तथा ग्रन्थ, मया गुरदेव श्री रत्न मुनि
 स्मृति ग्रथ गुरदेव स्मृति ग्रथ समिति, जैव भवन, लोहा-
 मंडी, धागरा १५००
 बीमल दे गोड, पुष्पोत्तमदास 'बीमल'
 बोहनी, झांगवीर पराक्रम का पुस्तकार राजकमल. १.५०. बर
 बीर गाबाए. राजकमल १५०. बर

बोहली नरद १६४० प्रमद के साहित्य सिद्धांत
 प्रागोक्त प्र १०००
 कौसिल प्राग साइंटिफिक एंड इन्स्टिटयल रिचरच इन्
 निर्माण म विधान सभा प्रेमप्रकाश नामा कौसिल
 १००
 कपर उद्योग (नारियल की जटाओं का उद्योग) कौसिल
 ४००
 खान से चमड़ा कौसिल ०५०
 घरेलू इंधन कौसिल ७००
 चाय उद्योग कौसिल ६५०
 बिनोला उद्योग कौसिल ६००
 विनोले का ध्वानिक उपयोग कौसिल ०५०
 सखी सरदाण कौसिल ०५०
 कौतुक बनारसी (गिबभूति गिब) १६२३ सविहान जगे
 प्रागोक्त पु म ४००
 कौन कृष्णप्रसाद विरचयेणात्मक अथवास्त्र कि महन
 १२५०
 कौल गोपाकृष्ण आरामी के विकास की कहानी नेगल
 ०५०
 कौल रामकृष्ण चतुती पगडिया अथयके पांच हि प्रचा पु
 ३००
 कौल रामस्वरूप स्वतंत्र भारत के सूरमा कमल प्र अ
 ४००
 कौलान सतोप १६२६ बहली नदिया रोती मगरी नगीना
 प्र
 कौलिक गकरलाल (मोले बाला) धनु उपनियन ५ भा
 १ स २ वेगत केसरी ३५०
 कौलात्मा अथ अथ एव रगीन व्यक्तित्व नीनाम
 १२०० सहम
 कौलात्मा अथ दे उनाथ अथ
 कौलावी धर्मान १८७६ १६४७ विमुक्तिमंगलीकिका महा
 बोधि ३५०
 कौलिक धार एस आधुनिक परिवहन नवयुग सा ७५०
 कौलिक एष के तथा एव की अथवाल शारभिक प्रायोगिक
 मोतिवी बाल या म
 कौलिक अथि जमिनी बरमा १६१६ विरचण पिघल गई
 विरचण निस्तर गई जमिनी प्र
 सट्टे सठरे मोठ सठरे जमिनी प्र ३५०
 दीप चरण दीप विरचण जमिनी प्र ४५
 श्री मूर्त्तमन जलान धनु-यंगन थी सगा राधाकृष्ण
 नेवटिया तथा अथ सठ मूर्त्तमन १२००
 कौलिक पी हो दे अमा एम पी
 कौलिक पीताम्बनाथ गगा कौलिकबी की इन्वोत कर्नागिण
 नेगल ५००
 कौलिक सायबकाण व्यवहारिक मनोविज्ञान राजोव म
 ५००
 व्यवहारिक मनोविज्ञान मरल अथयन राजोव के
 ४७५

कौसल्यायन भदत प्रानद १६०५ अगुतर निकाय महा
 बोधि भा १७०० भा २१०००
 अमिधम्मपयमगहो महाबोधि ३००
 तुलसी के तीन पात महाबोधि १००
 देग की मिट्टी बलावी है सकार
 उद्व बचन महाबोधि ०७५
 सयोजन महाबोधि ०३७
 कौसल्यायन भदत प्रानद दे गीपादाचाय
 ओचे वेनदेतो अन्तो ओच विमय ४०० जी
 अथ ज गडध्वजसमीक्षा मोतीलाल २५०
 अथिया के मातृभाषा गिण विनो ६००
 श्रीरसागर बरगद की छाह विश्व भारती प्र उ
 अथचंद्र सुमन सभा बीन की बुनोती हि पा का
 हिनी कविप्रिया के प्रमगीत हि पा (पा) १००
 धमिद रामायण मजरी (मुदर बाह) टीका अथविहारी
 गुल मगो स ता नि का १७५
 सडलवान कृष्णदात १६२६ सगा आलोव देना प्रानोव
 व बरेती १०० व
 सडलवान मणपतलाल रेडियो गानोप देहाती १२५
 गाबुन उद्योग देहाती २५०
 सडलवान गुलाब १६०२ उपा अचना व महावा
 सडलवान जयकिशनप्रसाद आधुनिक हिनी कविता प्रमुम
 वा राकेण पु म २५०
 महादेवी का वेदना भाव मगो म ७ विनो १००
 सडलवान रामस्वरलाल दे गुल रामचंद्र
 खत्री दुगाप्रसा सगा कच्चा रय नहरी व
 मत्री धनपाल मगा की गो म आलोव प्र वी
 ७०० उ
 मत्री आलाल महाभारत बतत्र राधायाम मगुण २२ भा
 देगती बदा साइज ११००
 श्रीमद्भागवत तत्र राधायाम मगुण २० भा देहाती
 १२००
 सना उदय मगुण रामायण विद्यागार १०० वा
 सना गापायनान आधुनिक नवयन बान सा म
 १२५
 सना जयकृष्ण कृषि प्रायोगिक रसायन शास्त्र राजहम प्र
 म २५०
 कृषि रसायन शास्त्र मरन अथयन राजहम प्र म ७७५
 प्रायोगिक रसायन शास्त्र राजहम प्र म ७७०
 प्रायोगिक रसायन शास्त्र तरल अथयन राजहम प्र म
 १५०
 भौतिक रसायन शास्त्र राजहम प्र म १००
 भौतिक रसायन गणि राजहम प्र म ७१०
 रसायन शास्त्र म कषा घोर वगा राजहम प्र म ११०
 रसायन शास्त्र मरन अथयन ७ भा राजहम प्र म
 ४५ (प्र)
 सना विद्यावनी नहरी की पन्नामा की आवाज
 विद्यागार ०६० वप्र

खन्ना, सिवनाथ, १६०५- एलोपैथिक पब्लिक प्रेसकाइवर
 चौखवा ५००
 बिलानिकल पैथोलोजी (बृहत् मूल सूत्र-कफ रक्तादि परीक्षा)
 चौखवा १०००
 रोग परिचय चौखवा १२७५
 रोगी परीक्षा चौखवा ६००
 सचित्र इन्वेक्शन चौखवा ११००
 खमानी सिंह 'धनगर' हम जाग उठे नवीननम
 २५०
 खरे, एम एस तथा एस एस श्रोवास्तव चुबकत्व एव विद्युत
 आत्माराम १५००
 खान तथा वमा उच्चतर माध्यमिक बहीखाता कि महल
 १०००
 खासोस द रामलाल खासोस
 खेतान, ज्वालाप्रसाद पल और पास विरविद्यालय
 ३०० का
 खेमानी, आनंदप्रकाश तथा वेदप्रकाश सया मनुवाद कला
 कुछ विचार एस चाद
 खरारि, रमेगचद निमाद के सत-कवि खियाजो हि सा
 म ८००
 खियाजी की बाणी नेशनल ४०० का
 गगवाल, मोहनलाल दे जैन, हरिचंद्र
 गगापर, मधुकर फिर स कठो पारिजात उ
 गगाप्रसाद ज्योतिषचक्रिका भाय सा १००
 पचक्रोश और सूदन जगत भाय सा ०८८
 गणनाधसेन, १८७७- हिंदी प्रत्यक्षगारीर चौखवा भा
 ११०००, भा २ १५००
 गग, आनंदस्वरूप अर्थशास्त्र की रूप रेखा स १८ राजहस
 प्र म ७५०
 दिल्ली हायर सेकेंड्री अर्थशास्त्र की रूप रेखा राजहस प्र
 म ६००
 बिहार प्री-यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र की रूप-रेखा (सिद्धांत)
 राजहस प्र म ५००
 बिहार हायर सेकेंड्री अर्थशास्त्र की रूप रेखा राजहस प्र
 म ५००
 मुद्रा तथा बैंकिंग की रूप रेखा ससो स २ राजहस प्र म
 ५५०
 मुद्रा, बैंकिंग विदेशी विनिमय अंतरराष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय,
 भाय तथा राजस्व राजहस प्र म ८५० से ६५०
 राजस्थान प्री यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र की रूप रेखा राजहस
 प्र म ६००
 वाणिज्य अर्थशास्त्र की रूप-रेखा राजहस प्र म
 ६००
 —तथा एस के गर्ग कृषि अर्थशास्त्र की रूप रेखा राजहस
 प्र म ५००
 भारतीय अर्थशास्त्र सगो स ३ राजहस प्र म ८५०
 मध्य प्रदेश हायर सेकेंड्री अर्थशास्त्र की रूप रेखा राजहस
 प्र म ६५०

गर्ग, भार पी कृषि अर्थशास्त्र सरल अध्ययन राजहस प्र
 म ४५०
 गग, एस के दे गर्ग, आनंदस्वरूप
 गग, गगाप्रसाद तथा दयाप्रसाद रस्तोगी राजनीति विज्ञान
 के सिद्धांत सरल अध्ययन राजहस प्र म ३०० से
 ५००
 गग जगदीशचंद्र तथा जयप्रकाश गोयल कृषि भौतिकी एवम
 जलवायु विज्ञान राजहस प्र म ४१०
 माध्यमिक भौतिकी २ भा राजहस प्र म ७०० (प्र)
 गर्ग, डी पी राज्य और उद्योग राजीव, मे ५००
 गग, देवीशरण रस रसायन मुद्रिका गूगल घवतरि ० २५
 गग प्रभुदयाल द काका हापरसो
 गग प्रेमप्रकाश मिट्टी व कुट्टी का काम विद्या भवन, उ
 २५० हस्तकला
 गग, मदनलाल रवग परीक्षा कल्याणमल १२५
 गग महेशचंद्र निबंध सेखर चौखवा ५००
 गग, रतनप्रकाश अर्थशास्त्र के सिद्धांत सरल अध्ययन
 राजहस प्र म ४५०
 बिहार प्री-यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र के सिद्धांत सरल अध्ययन
 राजहस प्र म ३७५
 बणिज्य अर्थशास्त्र राजहस प्र म ४५०
 गग, धातिप्रकाश तथा चमनप्रकाश वैश्य भौतिक शास्त्र
 राजहस प्र म ५२५
 गग, धातिप्रसाद आर्थिक भौतिकी मे हल हुए प्रश्न राजहस
 प्र म १८८
 भौतिक शास्त्र सरल अध्ययन २ भा राजहस प्र म
 ३७५ (प्र)
 गग, शोभा सिंहा के मूल आचार रा बेनीप्रसाद ६५०
 गहलोत, जगदीशसिंह मेवाड़ राज्य व केंद्रीय शक्तियों स
 २ हि सा म, जो ३००
 राजपूताने का इतिहास भा ३ जयपुर व झलवर राज्य
 हि सा म, जो १५००
 गहलोत, महावीरसिंह जमाल दोहावली. पु स, वा
 १०० का
 प्राचीन राजस्थानी वायुसौरभ कि घर, जो २००
 भौरा जीवनी और काव्य पु स, वा १५०
 गहलोत, मुखबोरसिंह, १६२३- राजस्थान के रीतिरिवाज
 रोदानलाल
 गागुली, पी ए दे मनुमदार, ए धार
 गाधो, सी ठी 'सागर', १६२६- कोलाहल राष्ट्र प्र, दि.
 १५०
 गाडरवे, वास्टर आज का वैज्ञानिक. मनु प्रमोद यूरेसिया
 १०० ब्र
 गायत्रीदेवी दे कृष्णादेवी
 गार्गीदेवी दे सावित्रीदेवी
 गिररत, वैजनाथ, १६१६- अर्थ अर्थशास्त्र सत्त्व स
 गिरवरीसह एक दिल दो राह देहाती ६००
 गत्यर और फूस देहाती ३००

गिरिजादयाल गिरीश कालिंदी सा मडल का तरंगिणी सा मडल २०० का बड़ा का बचपन नवयुग प्रयागार ०७५ बरष वासती सा मडल का भारत के रत्न नवयुग प्रयागार ०७५ बरष महिला महत्व सा मडल का माधवी सा मडल का राजा सा मडल का विषया विनाय सा मडल का विषय के धनुषे आदश नवयुग प्रयागार ०७५ बरष वीणा वाहिनी सा मडल ३५० का गिरिराज बिद्यौर १९३७ लोग बोरा ५५० उ —सया तहू पुनारेगा नवभारती प्र ३०० का गिरी राजेंद्र भौतिक शास्त्र मे क्या क्यों, कैसे? राजीव दे १२५

गिरीश दे गिरिजादयाल गिरीश गीतालाल प्रमचद का नारी चित्रण हि सा स ५०० गुप्त अजिदेव भारतीय रस-व्यक्ति चोखवा १५० स्वास्थ्य धीर सद्वृत्त स २ दयामसुदर २०० गुप्त, जिनोरीनाल सया गोसाईं चरित चाणी वितान गुप्त, जिनोरीनाल दे भागरीदास गुप्त, कुजबिहारीनाल सेकं स्कूल नागरिक शास्त्र २ भा रामप्रसाद ३५० गुप्त, गणपतिचंद्र भाषाय हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्तिव एव साहित्य भारतेंदु भवन ३००

भाषुनिक साहित्य धीर साहित्यकार भारतेंदु भवन ७५० बिहारी-सतसई वैज्ञानिक समीक्षा भारतेंदु भवन ५५० शृंगार रस धीर हिंदी-नाय्य भारतेंदु भवन १२५० साहित्यिक निबंध सशो स ३ अग्रणीक प्र ८०० सौंदर्यशास्त्र धीर रस सिद्धांत भारतेंदु भवन ६५० हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भारतेंदु भवन १५००, डी सवस म २२५०

गुप्त, गिरिजादाकर गणित शिक्षण राजीव म ४०० गुप्त, गिरिराजप्रसाद मुद्रा एव राजरव स ३ रामप्रसाद १०००

गुप्त, गोपीनाथ दत्त विज्ञान म २ धवतरि ०३७ गुप्त, गोरीशकर प्रारम्भिक स्वास्थ्य स ६ दयामसुदर ०३७ गुप्त धरोनाल रोशनी के पेरे अज्ञाना ३०० —तया विषय सबक, सया बयापाया अज्ञाना गुप्त, जगदीश, १९२६ हिम बिद्ध भा पानपाठ ३०० का गुप्त, टेकचंद धायन सीमायें क्यों? प्रतिभा प्र १०० नि रींग से दीव जलें प्रतिभा प्र १०० जी क्ये मदमें मय हस्तागर प्रतिभा प्र २०० क पुलना कठ नई हकार प्रतिभा प्र १०० ए मुद्द एक मोर्बे अनेक प्रतिभा प्र १०० क सभ्यु प्रतिभा प्र १०० कथा गोय धरहर जाये प्रतिभा प्र २०० क गुप्त, सनसुगराव विरमृति के भय से शूय प्र. ३०० सत्य

गुप्त, दाऊजी १९५०- भील बोली विवेक ५०० का गुप्त दीनदयाल सया श्री खडभानु गुप्त अभिनदन प्रय एव चाद गुप्त, ध्रुवचंद्रप्रसाद अथसास्त्र के सिद्धांत सरल अध्ययन कमल प्र २२५ प्राथिक सिद्धांत मुद्रा एव योजनाकरण सरल अध्ययन कमल प्र २५० प्राथिक सिद्धांत मुद्रा, वैज्ञिक राजस्व एवं योजनाकरण सरल अध्ययन कमल प्र ३०० गुप्त नीहारजन उत्तर पाल्गुनी बोरा ६०० गुप्त परमलायन, १९३३- गीतावती का काव्योलक्य नवयुग प्रयागार

सियाराम सरण गुप्त का साहित्य नवयुग प्रयागार ५०० गुप्त प्रकाशचंद १९०८- अज्ञा का हिंदी साहित्य नेशनल गुप्त बद्रीविद्यान जयप्रिया सा नि, का १०० का गुप्त वी एन भारतीय उद्योगो का संगठन, प्रवच एव वित्त सा भवन, भा

गुप्त वैजनाथ उपन्यासकार भगवतीप्रसाद बाजपेयी व्यक्तिव एव कृतिव सरस्व पु स ३५० कंचो धीर कुर्सी भा य नि ५५० उ गुप्त भैरवप्रसाद १९१८- अंतिम अध्याय धारा १०००, उ आलो का सवाल धारा ३५० क एक अद्योिन क्या धारा २०० उ गुप्त, ममथनाथ, १९०८ पत्थर की नाव हिंद पा (पा) १०० उ

भारत के शांतिकारी हिंद पा (पा) २०० मानव दानव राजगान ६५० उ धारीफा का कटरा राजपाल उ गुप्त, माताप्रसाद सया चतुभुजदास कृत मधुमालती वाता तथा उसका माधव दर्मा कृत संशोधित रूपांतर ना प्र सया

धुष्कीराज रागउ सा सदन, बि मधुमालती वाता ना प्र सया ८०० गुप्त, मानप्रसाद दे राजसिंह, कवि गुप्त मोतीवाल मत्स्य प्रदेश की हिंदी-साहित्य की दैन राज प्राण्यविद्या

—तया भय निबंध निवत चिन्मय ६०० गुप्त, मोतीवान दे जाकीज जीवण गुप्त युगलविद्यौर कल मरणण विज्ञान चोखवा १०० मदन व्यवहारायुर्दे धीर विविधान चोखवा गुप्त, रघुबगनाथ दे टागुर, रवींद्रनाथ गुप्त, रमणचंद्र, १९५०- भूतवाहिनी का नाट्य शोधन प्रयोग प्र ०००

—तया मनोहर 'गर्भा रिपु' गणदीन भगोब प्र. ५०० का गुप्त राजेश कामरुप देहाती ३५० श्रीराम देहाती ३५० भूषान देहाती ३५० सोह दुर्ग देहाती ३५०

बर्मा की रानी देहाती ३००
 गुप्त, रामचंद्र तथा श्रम्य, सप्ता वियाणीजी मित्रों की नजर
 में वियाणी ७००
 गुप्त, रामनारायण भारतीय सविधान तथा नागरिक जीवन
 (राजनीति) कि महल ६७५
 गुप्ता, रामप्रताप दे नागर विष्णुदत्त
 गुप्त, रामभरोसेलाल पञ्जज्जानी नया भगवान नवयुग
 प्रथागार २०० ना
 गुप्त, विद्याचलप्रसाद राहू का पत्थर प्रभात प्र उ
 गुप्त, विजयकुमार खूब लड मरदाने पजाबी
 गुप्त विद्या १६२५- सुधि के क्षण हूरजीवराम २०० का
 गुप्त विद्यानाथ हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना भा सा
 म १६००
 गुप्त वीरेन्द्रकुमार, अणु हृदयवी राजपाल ५०० उ
 गुप्त गातिस्वरूप १६२५ पारघात्य काव्य साहित्य के
 सिद्धांत अग्रोक प्र १०००
 प्रमचद धीर उनकी राममूमि रीगल
 साहित्यिक निबंध सगो स ४ अग्रोक प्र
 हिंदी तथा मराठी उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन
 १००० १६५० ई० भा सा म १५००
 गुप्त, गातिस्वरूप दे रिवाजी रामसागर
 गुप्त शासित्याम श्रज धीर बदेवी लोकगीतों में कृष्ण कथा
 विनोद १२५०
 गुप्त, श्रीकृष्ण चित्रपट की परियाँ देहाती ४५०
 फिल्म एकिन्य गाइड देहाती ४५०
 फिल्म कोटोश्रान्ती देहाती ८२५
 फिल्म मरुप्रथ गाइड देहाती ८२५
 घिने संगीत बहार देहाती ४५०
 घिने स्टास एलवम देहाती ४५०
 गुप्त सत्या खड़ी बोली का लोक साहित्य हिंदु एकेडमी
 १५००
 गुप्त सुरेंद्रनाथ धारण बच्चे की खुराक साकेत ३ ३७
 बमबती स्त्री साकेत २५०
 नारी की यौन समस्याएँ साकेत २५०
 भोजन कब धीर कैसे साकेत ४००
 यौन मनोविकार, कारण धीर निवारण साकेत २००
 राजा बेटा कैसे बनाएँ साकेत १५०
 विवाहित जीवन में यौन सप्रयोग साकेत ५५०
 वोटाकिन धीर हीनता जनित रोग साकेत ४००
 सर्वात निरोग कब क्या धीर कैसे साकेत ४००
 सुंदर दांत धीर उनकी देख रेख साकेत २५०
 गुप्त, सुरगवद, १६३३ महाकवि की साहित्य-साधना
 रीगल
 समीक्षात्मक निबंध प्राय बुक १२५०
 गुप्त, हरिहरगदास 'हरि' अपने अपने मुह से सुंदर २००
 बर
 चलते पुत्रें सुंदर २०० बर
 जीवन में खेलो सुंदर २०० बर

बन लो हीरे स २ सुंदर १०० बर
 वनो लाल धनमोल सुंदर २०० बर
 गुप्त हुकमचंद महाकवि हरिऔध प्र प्रतिष्ठान
 भारत यह भी दे गुप्ता
 गुप्ता ईश्वरप्रसाद उच्चतर माध्यमिक भूगोल राजहंस प्र
 म ६००
 एशिया राजहंस प्र म ५५० सरल अध्ययन ४१२
 विश्वत्मक भूगोल एव मौलिक परीक्षण सरल अध्ययन
 राजहंस प्र म ४००
 प्रक्रियात्मक भूगोल सरल अध्ययन राजहंस प्र म १८८
 भारत का भूगोल सरल अध्ययन राजहंस प्र म ८००
 भारतीय भूगोल सरल अध्ययन राजहंस प्र म ४५०
 भौतिक भूगोल सरल अध्ययन राजहंस प्र म ४५०
 मानव भूगोल सरल अध्ययन राजहंस प्र म ५००
 यूरोप सरल अध्ययन राजहंस प्र म ५५०
 विश्व तथा भौतिक भूगोल सरल अध्ययन राजहंस प्र म
 ४५०
 गुप्ता एल एन शिक्षा दान कलांग ब्र ८००
 —तथा एल के पाल सिधा के सिद्धांत धीर प्राधार स २
 कैलाश ब्र ८७५
 शिक्षा मनोविज्ञान कैलाश ब्र १२५०
 गुप्ता एस सी आधुनिक भारत का इतिहास सरल
 अध्ययन राजहंस प्र म ३५० से ५००
 प्राचीन भारत सरल अध्ययन राजहंस प्र म ५००
 भारत का इतिहास सरल अध्ययन राजहंस प्र म ५००
 से ७५०
 मध्यकालीन भारत सरल अध्ययन राजहंस प्र म ६५०
 से ६००
 —तथा दयाप्रकाश रस्तोगी भारत का इतिहास सरल
 अध्ययन राजहंस प्र म ३०० से ११००
 गुप्ता, श्री पा हाई स्कूल भौतिकी मुरारी २२५
 हाई स्कूल रसायन मुरारी २५०
 गुप्ता, कालीचरण स्माल खेल इडस्ट्रीज देहाती १२००
 गुप्ता, के पी १६३० नेहरू चित्रों में इ पब्लि १५०,
 आर्ट पेपर ३७५
 नेहरू दूसरों की दृष्टि में इ पब्लि २५०
 —सप्ता नेहरू अतिम यात्रा इ पब्लि १५०, आर्ट पेपर
 ३७५
 गुप्ता, पी डी दे विमल शांति डी
 गुप्ता, पूरनमल गति विज्ञान राजहंस प्र म १५०
 डीस ज्यामिती राजहंस प्र म ११२
 बीजगणित सरल अध्ययन राजहंस प्र म १५०
 स्थिति विज्ञान राजहंस प्र म १५०
 गुप्ता, बंसीलाल डोगरी भाषा धीर व्याकरण तन्त्रिकला
 २८०
 गुप्ता राधेश्याम नवीन त्रिकोणमिति जवलपुर प्र म २००
 नवान बीज गणित जवलपुर प्र म भा १२५०, भा
 २२२५, भा ३ ३५०

गुप्ता रामनगरदास विन्व इतिहास राजहंस प्र म
३ ७५
गुप्ता विजयकुमार कसे सेलें क्रिकेट भाग्योदय ३ ००
कैसे सेलें फुटबाल भाग्योदय ३ ००
कैसे सेलें वालीबाल भाग्योदय ३ ००
कैसे सेलें हाकी भाग्योदय ३ ००
सेल बंद भाग्योदय २ ००
परिवार नियोजन क्या घोर कैसे भाग्योदय ३ ००
गुप्ता गाता प्रदभूत नगर राज सा प्रका ३ ०० बप्र
रंग विरगी नवित ए कल्याणमल १ ०० बप्र
गुप्ता यह भी दे गुप्त
गुप्ता जोहू पशु चिकि सा सिषल
पशु पालन सिद्धांत एव प्रयोग सिषल
मूढ दे राजेश्वर मूर
शरदमार्गसिंह मदी का दीवा राजकमल १ ०० बप्र
शरमुख त्रिहाससिंह फणमण्डलस प्राक पोलिटिकल साइस
एण्ड इकोनोमी कि महल १८ ००
गुरुदत्त १८६४ भवतरण सुबोध पा (पा) २ ००
प्राचिरी विस्त सुबोध पा
कामना भा सा सदन १ ००
गंगा की धारा २ भा भा सा सदन १८ ०० उ
जगत की रचना भा सा सदन २ ०० बप्र
जमाना बदल गया भा ४ भा सा सदन १० ०० उ
जवाहरलाल नेहरू एक विवेचानमक वृत्त भा सा सदन
८ ००
जागृति राजपाल १ ०० उ
जीवन ज्वार भा सा सदन (पा) ३ ०० उ
तब और भय हिं पा (पा) ३ ०० उ
द्वितीय विश्वयुद्ध की कहानी भा सा सदन
नयी मूर्ति भा सा सदन ६ ०० उ
नये विचार नई बात भा सा सदन ४ ५० उ
पतन का माग भा सा सदन ८ ०० उ
पथिक भा सा सदन ७ ५० उ
पुनर्ग्रह भा सा सदन ७ ०० उ
प्रतिगोप राजपाल १ ०० (पा) २ ०० उ
प्रवचना हिं पा (पा) ० ०० उ
बिखरे बिजुत का प्रतिष्ठाक ३ ५० रु
महर्षि दयानं भा सा सदन
यह सब मूठ है उमंग ५ ०० उ
यह सब मूठ है एगार (पा) २ ०० उ
मुग दुराज राम भा सा सदन २ ०० बप्र
सोफ-नरसोक भा सा सदन ५ ०० उ
विवाह म ० भा सा सदन ३ ०० उ
स्वराज्य दान भा सा सदन ७ ५० उ
स्वाधीनता के पथ पर भा सा सदन ७ ५० उ
मुरारिप देवी धारद महायन या थी धानमयी ५ ०
थी थी धानमयी थी थी धानमयी भा १ ३ ६,
६ २ ०० (प्र), भा २, ५ ३ ०० (प्र)

गुट्ट अरविद घपा हिंदी के दस सवधपठ कथात्मक प्रयोग
रणजीत
गुट्ट सबीरानी टूटता घागा इ पब्लि हा ३ ५० व
विश्व की महान महिलाए आधुनिक ता स ४ ००
गुलाटी मदनलाल गोस्वामी हित हरिवराराय एत अधयन
इ पब्लि
गुलाटी यंग सपा निवध पीयूप हि भवन
गुलाम नवी रसलीन सैयद रसलीन ब्रधावती सपा सुपा
कर पांडय हि प्रवा पु
गैरेट हैनरी ई मनोविज्ञान एनाइड ५ ६०
गोपील एत तारास बुल्वा एमके २ ५० उ
गोपाल उपनिषद् बसत १ ६०
गोपालचंद्र गांधी दे ईश्वरचंद्र विद्यासागर
गोपाल जगदेव १८६० १९११ कबिराज गोपवृत्त काव्य
प्रभाकर किवा रुक्मिणी हरण तथा भय भय सपा चद्र
प्रकां सिंह म स मुनि
गोपालदास नौरज १९२६ कारवां गुडर गया हिंद पा
(पा) १ ०० वा
—तया नर्मदा खान सपा बच्चन एत गुगातर पत्रादी पु
४ ००
गोपालप्रसाद दूग मुला चद्रातप १ ०० वा
गोपाल शरनी पाणिनिप्रगर्हित नाटक ज्ञानमन्त्र
गोपीचंद्र गोपेग ये मेरी कविताए हैं तथा भय रचनाए—
बचींद्र रवींद्र कि महल ३ ००
गोपीनाथ कबिराज काशी की सारस्वत साधना वि राष्ट्र
२ ५०
भारतीय सट्टति घोर साधना भा २ वि राष्ट्र ७ ००
गोभिल नदविगोर द राधाकण्ठ सवपत्नी
गोपान उत्तमचंद्र ग्रामीण एव भागरिक भय-न्यवस्था सरल
अध्ययन राजहंस प्र म
गोयल जयप्रकाश द गय जयदीगचद्र
गोयल मूलचं न रतीय समाज एव सट्टति (भारतीय जन
संस्था) सरल अध्ययन राजहंस प्र म ४ ००
भारतीय समाज एव सट्टति (भारतीय जातिवा) सरल
अध्ययन राजहंस प्र म ४ ००
समाज और धराराय सरल अध्ययन राजहंस प्र म ६ २५
समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत सरल अध्ययन भा ३
राजहंस प्र म ३ ५०
समाजशास्त्र के सिद्धांत सरल अध्ययन राजहंस प्र म
६ २५
सामाजिक मानव शास्त्र एव बय जाति कल्याण सरल
अध्ययन राजहंस प्र म ६ २५
सामाजिक मानव शास्त्र सरल अध्ययन राजहंस प्र म
५ ००
सामाजिक विषयन और धराराय सरल अध्ययन राजहंस
प्र म ६ २५
सामाजिक विचारधाराओं का इतिहास राजहंस प्र म
५ ००

सामाजिक सर्वेक्षण एवम् खोज सरल अध्ययन राजहंस प्र.
म ४००

सामाजिक सर्वेक्षण सरल अध्ययन राजहंस प्र म ५००

गोयल, बी पी दे विमल, चाति डी

गोयल, शिवकुमार अमर सेलानी सावरकर भा सा सदन

गोयल, श्रीराम गुप्तकालिन भारत विद्वत्विद्यालय १२५०

गोयल, सीताराम एकाकी भा सा सदन ६००

पक्क और पानी भा सा सदन १७५

पगु की परपरा भा सा सदन ४००

प्रणय और परिग्रह भा सा सदन १७५

नखार ससद भा सा सदन १७५

गारहप्रसाद ज्योतिष की पहचान हि सदि १०००

गोर्की, मैथिलम, १८६८-१९३६- भा हिंद पा (पा) २०० उ

गोवर्द्धन सिंह बहुशी चट्टानें टकरा गईं नय्यर प्र एव दिव
भा स ३५० उ

छाया की छाया नय्यर प्र १५० उ

बादलों के बीच नय्यर प्र १७५ उ

गोविंद चातक धारासादानी द पानी सस्ता २५० का

मानव ससृति के निर्माता रवींद्र प्र, म्वा २००

गोविंददास तथा मोमप्रकाश, अणु और अतत इन्टर यूनि
४००

गोविंददास, सेठ, १८६६- कर्त्तव्य स ३ भा सा म ३००

कुलीनता भा विद्व ०५० भा (ता

चहरे जाने-महचाने एम चाद २५०

देसरल राजेंद्रप्रसाद राजपाल २५०, (पा) १००

युग युग नेहरू राजपाल २००

राजमाया हिंदी हि सा सम्मे

विद्व अमथ हिंद पा (पा) २०० ससम

सिपल द्वीप भा विद्व १५० ना

हिंदी भाषा आंदोलन सभा लक्ष्मीवद हि सा सम्मे

—यथा अन्य, सभा मधुमय सदस्य प्र प्रतिष्ठान ३२००

गोविंदानंद, स्वामी अद्वैत दशन या एक सत्तावाद विज्ञान म
२५०

गोस्वामी, कृष्णदास श्रीश्रीचैत यचरितामृत श्रीहरिनाम प्रेम
सकीर्तन मञ्ज, बु दावन

गोस्वामी, चिन्मनवाज, सभा श्रीकृष्णजन्माष्टमी महोत्सव
गीता ०३०

गोस्वामी, भगवानदत्त शास्त्रिदत्त मूर्ध प्र म १०० ना

गोस्वामी मोहनपुरा ज्ञान की कुंजी देहानी १२५

गोस्वामी, रूप श्रीहरि नत्त रत्नामृतसिधु व्या श्यामनारा
यण पाठ्य ना नि, वा ६५०

गोस्वामी, शरणाविहारी कृष्णभक्ति-नाट्य मे सखी भाव
चौबथा २५००

पापानी सौर्य चेतना का क्या काव्य हि सा म ५००

पछरी की लौटा हि सा स २५ उ

गोस्वामी शरणाविहारी दे मोमप्रकाश शास्त्री

गोस्वामी, श्रीगोपाल क्षमिप हवाहन मदनरे भा विद्या मं
५०० का

गोड, धार. एन राजहंस हिंदी निबंध राजहंस प्र म ३७५

हिंदी साहित्य का सरल इतिहास राजहंस प्र. म २२५-

गोड, ए पी, १९१६- तथा अन्य भारत का आर्थिक

विकास सशो स ७ नवयुग सा स, भा १२५०

गोड, मोमदत्त शर्मा 'विक्ल' लूणिया जाति निगम हिंदू धम

६५०

गोड, कमलेश, १९२६- अनुभूति और चिंतन नवयुग प्रभा

गार ७५०

गोड, कृपाशंकर भारत की भौगोलिक समीक्षा सशो स ५-

हि प्रचा पु १५००

भारतीय अष्टाशस्त्र दशन रा वेनीप्रसाद ३००

गोड, कृष्णदेवप्रसाद, सभा जागरण के लिए जागरण सतीष

पब्लि ३००

गोड, गंगाप्रसाद नाहर डाक्टर भावला साकेत ०५०

डाक्टर नीवू साकेत ०५०

डाक्टर मिट्टी साकेत १५०

गोड, गणेशदत्त आधुनिक हिंदी नाटको का मनोवैज्ञानिक

अध्ययन ससस्य पु स १५००

ससृत्त रचना प्रकाश बुक २००

गोड, जे एन उच्चतर रसायन कल्याणमन ४००

—तथा बी सी बेंद्री प्रारंभिक रसायन कल्याणमल

४००

गोड, पतराम दे सूर्यमल्ल मिथण

गोड, पुरुषोत्तमदास 'कोमल', १९१२- एक गयी की आत्म

कथा सा केंद्र, दि ३५० उ

जन्मोत्सव कि महल २५० उ

गोड, पूर्णानंद ससृत्तानुवाद निबंधादर्शन मोतीवाल. १५०

गोड, प्रतापनारायण गद्य विहार कि महल २००

गोड, राजेंद्रसिंह, १९०५- काव्यांग परिचय अशोक प्र म

१००

चपनिका. अशोक प्र म २०० का

भाषा भूषण अशोक प्र म

हमारे कवि और लेखक स ३ कैलाश अ २२५

हमारे लेखक सशो स १ सा भवन इ ६००

—तथा रामप्रताप निपाठी पुष्करिणी अशोक प्र म १७५

गोड, विश्वनाथ, टीका पृथ्वीराजरासो-पद्मावती समय सा

नि, का १७५

गोड ब्रजेंद्र मजिल एमके २०० उ

गोड अत दे शिवानी

गोडपादाचार्य आंगम आश्व अनु अदत्त आनंद कौसल्यामन

महाबोधि १५०

गीतम, कमला रचनात्मक कहानिया आर्य बुक ४०० बप्र

गीतम, प्रेमप्रकाश हिंदी गद्य का विकास अनुसंधान १६००

गीतम ब्रजेंद्रप्रताप, १९३३- अनीका की राष्ट्रीय जागृति

विद्यामवन, स

गीतम, मनमोहन निबंध भारतीय भा सा म ४५०

सरले भाषा विज्ञान मयो स. ३- हि. सा स ८००

गीतम, लक्ष्मणदत्त प्रिय प्रबल की टीका अशोक प्र ५००

गोतम सुधाकर भारत म यातायात सिद्धांत एव व्यवहार
राजीव मे ३००
गोरीशंकर १८३६ १६०१ दखरानी जेठानी की कहानी प्रथ
नि प २०० उ
गोरीशंकर भास्कर सहकार आंदोलन क्यों ? कि महल
६००
सहकारी भंडार क्यों व क्यों ? कि महल ५००
गोरीशंकर सिंह लघु सिद्धांत कीमुदी विन्वविद्यालय १५०
पई के दल चरित रोगनवास १२५
घाणकर भास्कर गोविंद श्रौपसंगिन रोग सपा नक्षत्रीकर
गुर सगो स ३ चौखवा भा १ १००० भा २
१२००
स्वास्थ्यविज्ञान और सावजनिक आरोग्य चौखवा ७५०
—सपा बागुदव भास्कर घाणकर स्वास्थ्यविज्ञानपाठावली
चौखवा ३५०
घाणकर वागुदव भास्कर द घाणकर भास्कर गोविं
पिल्डियान रमाप्रसाद पहाडी १६१० भारत मेरा दग
रा बेनीप्रसाद २००
—सपा भारतीय लोक कथाए रा बनीप्रसाद ४००
घोष अरवि १८७० १६५० उपनिषद गान धनु केगव
देव आचार्य दिव्य
दिव्यजीवन भा १ अन्ति के १८ अथ श्रीधरविद
२१००
दिव्य जीवन धनु केगवव आचार्य २ भा अन्ति
मुमु और उगपर विजय श्रीधरवि ३००
योग-समवेद्य भा २ स १ श्रीधरवि ५००
श्रीधरवि-नशावती भा २ श्रीधरवि १००
सप्तक श्रीधरविद १५० का
घोष इमामय्यर उपायम का प्रथ भा म म ६००
नयी कविता का स्वल्प विवाम हि सा म १००
घोष न्यायमत्तर १६३४ गाम और उवणी भा कुच
२७५ क

च

चक्र द अमरनाथ कवन
चक्रवर्ती पृथ्वीराजराजो गंगा मो नगिह ४ भा सा
सम्पान राज १००० (प्र) भा १ अथा
पृथ्वीराजराजो की विचरना गंगा मोहनना नान्नी तथा
नाथनाथ व्याम सा सम्पान राज १५००
पृथ्वीराजराजो पचावनी ममय टीरा विचरनाथ गो म
सा नि का १७५
चक्र द गर्मि यात्रा च
चक्र दे पान मुनेगव च
चक्र दे श्रीधरव गमचक्र च
चक्रवती प्रतीक तथा प्रशासना मयन २७०

चक्रदान प्रलक्षिया सप्रदाय नवयुग प्र कु २५०
चक्रपालसिंह मयक परियी का नाव नवयुग प्रयागार ० ७५
क
सर सपाटा नवयुग प्रयागार ० ७५ क
चक्रप्रकाशसिंह १६१० कवि कुन प्रथ भा प्र न ए
जन कवि जगनिक भा प्र स ३००
वा और बापू साकेत ११० वा
—सपा अथय रस म स युनि
—सपा कविराज गोपट्टत काय प्रभाकर किरा रुक्मिणी
हरण तथा प्रथ म स युनि
चक्रवर्ती ब्रह्मानन्द प्लोहा के रोग और उनकी चिकित्सा
चौखवा ० ३५
चक्रवर्त्तरन नायर एन १६०५ करित्र जागता है
श्रीनिवैतन १७५ ए
द्विवेणी श्रीनिवैतन ० ८५ ए
युग-समय श्रीनिवैतन १५० ना
विद्यालय गरज रहा है श्रीनिवैतन १७५ वा
चक्रवर्त्तरनारत्नी राष्ट्रनिर्माता सरदार पटेल स ० सासायटी
१००० जी
चक्रसिंह कवर दे ठाकर रवीन्द्रनाथ
चक्रहासन ए सपा प्राचीन कवि केगवदास लोकभारती
६००
चक्राकर दे धुवन पुस्तकाल चक्राकार
चि वा दे बर्मा नक्षत्रीवी चक्रिका
चक्रप्रसाद प्रारभिन टीस ज्यामिति भा भवन ०००
प्रारभिन न्यायमत्त ज्यामिति भा भवन भा १ ३००
भा ० १५०
बीजगणित भा भवन ५५०
चक्रवर्ती चपा गतक जन सा १०० का
चक्रोद द हनुमाननाथ चक्रो
चक्रधर अतर्गिणी मोनीनाथ
चक्रधारी गकर गीता चमनवाल ० ६०
चक्रधरिण सपा विचित्र जुहवा चक्रामा १००
चक्रवर्ती प्रसाद की दार्शनिक चतना पथम ०००
चक्रवर्ती वी वी प्र योगिक ग्वायन शास्त्र जबलपुर प्र ग
१२५
चक्रवर्ती धार एन तथा धार वी गय धामुनिक प्रायागिक
ग्यायन भा भवन १५०
चक्रवर्ती प्रभाकर ग्वायनिका चौगवा ६००
पट्टाभाष्याय न्नीप्रसाद जान्ने वी सत गजकमन वप्र
भारतीय दान सन्त पन्थिय सत्रमयन ६००
चक्राभाष्य व रुक्मिणी १ १८ १८६६ धानमठ धनु
हृष्णत भट्ट पु स वा ०५० उ
चक्राभाष्याय वगतकुमार महर् अथिन धर्माय प्रभाष पा
(पा) १००
पट्टाभाष्याय गतव १८७६ १६०० धनिम परित्थय हि
पा (पा) १०० उ
मुमुम स्टार (पा) १०० उ

देहाती दुनिया हिंद पा (पा) १०० उ
 ब्राह्मण की बेटी हिंद पा (पा) १०० उ
 लेन देन हिंद पा (पा) १०० उ
 विप्रदास हिंद पा (पा) १०० उ
 स्वामी हिंद पा (पा) १०० उ
 चंद्रदा, भारतभूषण लक्ष्मीनारायण मिश्र के सामाजिक नाटक
 मेघनाल ५००
 चतुरसेन, आचार्य, १८९१-१९६० घनवन सुवोध पा
 (पा) १००
 झालमगीर हि प्रचा पु ६००
 ईदो हि प्रचा पु ६०० उ
 नवाब ननक सुवोध पा (पा) १८० उ
 नियंत्रण हिंद पा (पा) २०० उ
 बुद्ध और बौद्ध धर्म भा प्र, स ५५०
 मोत के पजे मे हि प्रचा पु (पा) १००
 वैशाली की नगरबधू चारदा प्र भा पूर्वदि ६००,
 उत्तराद ६००
 चुबदा हि प्रचा पु ८५०
 सोमनाथ हिंद पा (पा) २०० उ
 चतुरी चाचा हिवानय ना भुतीकबहू हि परि, व १०० का
 चतुरेरा गाव की घोर विध्याचल २००
 रत्नगुला विध्याचल २२५ का
 चतुर्भुज, मामोरिया तथा सत्यनारायण द्वये हापर सैके डी
 भुगोल निवृत्तल ७००
 चतुर्वेदी, कामलेश दे रूपचंद्र, मुनि
 चतुर्वेदी, केशवप्रसाद 'तिरिंशे' उभरती रेखाए समाजातर
 २५० क
 चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा १८८१- गीता प्रवचन गीता
 व्याख्यान माला ३ भा काशी हिंदू ३४५०
 साहित्यिक निबन्ध तथा सिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी मोतीताल.
 २५०
 चतुर्वेदी, गिरिगणुमार दे हार्दो, टामस
 चतुर्वेदी, गोरीशंकर हिंदी कवि बौदुमी काशी पु
 चतुर्वेदी, जगदीश, १९३३- नया प्रारंभ भा भा प्र, दि
 ८००
 चतुर्वेदी, जगदीशचंद्र सम्भव की गंगा नवचेतना ६००
 कला संहति
 चतुर्वेदी, जगदीशप्रसाद विस्तारवादी चीन के दो हजार वर्ष
 नवभारती २२५, लोक स १२५
 चतुर्वेदी, जपानि वैज्ञानिक उद्भाषा का इतिहास हि समि
 ५००
 चतुर्वेदी जवाहरलाल, तथा ब्रजभाषा रीति सारत्र ग्रन्थ-कोण
 हि सा सम्भे
 चतुर्वेदी, जवाहरलाल दे बिपारीदास
 चतुर्वेदी, लोण, तथा भाचल डोल गया प्राणि प्र क
 चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त, १९११- जय नवान, जय
 निसान प्रवरा प्र चा १५० का
 भरोषे तालत धर्म

चतुर्वेदी, नद, तथा, १९२३- राजस्थान के कवि राज सा
 प्रचा १०००
 चतुर्वेदी, परशुराम १८९४- सूफी काव्य संग्रह सजी स ४
 हि सा सम्भे ६००
 —धातुदयाल श्यावली ना प्र सभा
 चतुर्वेदी परशुराम दे भारावाई
 चतुर्वेदी, बनारसोदास तथा भ्रमर, जहीद रामप्रसाद विस्मिल
 नया स आत्मामारम ३००
 —तथा अन्य, तथा नेहरू, व्यक्तित्व और विचार
 स ३ सस्ता २५००
 चतुर्वेदी बरसानेला १९२०- छोटें राज्यश्री २५०
 मिस्टर खोये-खोये' विनोद ३०० क
 व्यय्य की बरसात रामप्रसाद १७५
 हास्य की प्रवृत्तिया राज्यश्री ४५०
 कबीर पदावली सा सगम म
 —सया तुलसी पदावली सा सगम, म
 मूर पदावली सा सगम म
 चतुर्वेदी बरसानेला दे बीरा
 चतुर्वेदी भगवतशरण दस के वीर सिपाही विनोद २००
 स्वाइया विनोद १५० का
 —सया सुरक्षा और सधप विनोद १५०
 चतुर्वेदी भगवतशरण द दोरा भबरताल
 चतुर्वेदी मनोहर घुए के घडो पु स, वा २५० का
 चतुर्वेदी महेद अनु भारतीय परंपरा केंद्रोय हि २५०
 सया निरपच चयनिका नेशनल
 चतुर्वेदी माखनलाल १८८८ चितक की लावारी भा
 जानपीठ
 व्यक्ति और काव्य अनुसंधान १६००
 चतुर्वेदी राजेश्वरप्रसाद १९१८ कविचर रत्नाकर और
 उनका उद्भव सतक रीपल
 कविचर बिहारीलाल भा सा म १५०
 सत कबीर भा सा म १५०
 चतुर्वेदी राजम डोलता हिमालय स २ विमय ४००
 वीर देश के बालक वीर विमय १०५
 —तथा जवाहरलाल नेहरू विमय १०००
 चतुर्वेदी रामस्वरूप, १९३१- भाषा और सवेदना भा
 जानपीठ
 चतुर्वेदी विपिन नागाओ के देश मे विनोद ३००
 चतुर्वेदी, शमुनाथ नया हिंदी काव्य और विवेचना नद स
 १०००
 चतुर्वेदी, निवृत्त शर्मा दे चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा
 चतुर्वेदी निवृत्तहाय हमारी लोण कथाए सस्ता ०५०
 चतुर्वेदी सोनाराम १९०७ देवना पु स, वा १५० ना
 भारतीय तथा पाश्चात्य रम्यच हि समि २०००
 श्रीमद्वल्लभाचार्यजी और उनका पुष्टिमान हि सा कु ५००
 समीक्षा-साहस चौखवा २१००
 सेनापति पुष्पमिथ पु स, वा १५० ना
 —सया कालिदास श्यावली भा प्र म, व २०००

—तथा ध्रुव सभा सांस्कृतिक परिप्रक्ष्य मे भारतीय जीवन
भा प्र म ल १०००
चतुर्वेदी सदरलास ग्रहण गुग्गुदी श्रुति प्र २००
भुनभुना लोकराज
पाँपहरा लोकराज
फुलवारी लोकराज १००
सब कुछ लोकराज १००
—सभा सारावनी लोकराज
मेघमाला लोकराज
चतुर्वेदी सुधागु दे तपोवनम जी महाराज स्वामी
चतुर्वेदी सुधागु द नायर टी एन गोरामाथ
चतुर्वेदी होरादेवी धरती के गीत अलका प्र भा १२०
चमुपति या जीवन ज्योति गोविंदराम (का
चरनीसिंह तथा मिथीलाल गर्ग हाई स्कूल व्यामिति मुरारी
२२५
चादीवाला ब्रजकिंगडम दिल्ली की छोड़ प्र विभाग
पाटव्यां सुनीतिकुमार राजस्थानी भाषा सा सस्थान राज
२५० (संप्रा)
चातक दे गोविंद चातक
चा सी हनरी अमरीकी गिगा के कुछ पहलू गग व २५०
चारण चंद्रदान प्रचलिया संप्रदाय भा विगा म ३००
—सभा गोगाजी चौहान री राजस्थानी भाषा भा विद्या म
५००
चादेव गास्वी व्याकरण महाभाष्य १३ आह्विक हिंदी
सहित भागीगान ४००
चाइला स्वैंग लहर सीमासा बला म ५५०
चित्रराव मिदंबरगास्वी भारतवर्षीय प्राचीन चरित्रकोण
भा चरित्रकोण ६०००
चिदानंद कला और गार्हिय नमन प्र २००
चिमनजी सोडायण सभा गतिगान वरिया राज प्रा-य
विद्या का
चिरजीन डोल की पोट (रेन्थियो भूटिस्वात) सुवाध पा
(पा) १००
चुप सत्यवान भोरकठ नि प म ४०० वा
चुडावन सम्मीठुमारी राजस्थानी वातां भा ६ सा सस्थान
राज ४००
चौध द पांडय काननाथ चाव
चौधदा मुग्गन श्रीरुपण उमर २०० वर
चौधल गिबसिंह सभा राबस्थाना लोकरा गीन भा २ सा
सस्थान राज २५०
चौरपडे कामनराव मराठी हिंदुभागी गीग स्याप्याव २००
चौकृषि पाररग्याव द्विवेदीपुगीन हिंदी गद्य गानिया भा
सा म १५००
चौधरी प्राधुनिक श्रुति विज्ञान प्रभात प्र ६००
चौधरी इन्द्रनाथ निराला क्राय्य पर वपरा का प्रभाव श्री
भा भारती
चौधरी वृष्णमहाय व्यापार निग्गान घागार प्र म भा १
३५०, भा २ ३००

चौधरी गोनोकविहारी प्रवेगिका गरीर विज्ञान एव स्वास्थ्य
भा भवन भा १ गरीर विज्ञान ५२५ भा २ स्वा
स्थ्य विज्ञान ३००
प्रारभिक गरीर विज्ञान भा भवन ३६५
प्रारभिक स्वास्थ्य विज्ञान भा भवन ३००
चौधरी युगलकिपोर अपना इलाज ध्याप करी कल्याणमल
उपनास और फलाहार कल्याणमल ०७५ [०७५
तथाकू जहर है कल्याणमल ०५०
दुग्ध कल्प या दुग्ध विकिरसा कल्याणमल २२५
नाक कान गले के रोग कल्याणमल १००
नेत्र रोगी का इलाज कल्याणमल १००
प्राकृतिक चिकित्सा सागर कल्याणमल १२०
मुटापा और उसका इलाज कल्याणमल १००
व्याध्याम का नारायण कल्याणमल १००
स्वाभाविक भोजन कल्याणमल १००
चौधरी राजकमल १६२६ ककावती १६६५ राजकमल
पुस्तकमाला
देहनाथा पारिजात
महती मरी हुई राजकमल ५०० उ
गहर पा गहर नहीं पा वि प्र कु ३७५ उ
चौधरी रामसेलावन प्रतिभा (प्रमचद) एव अध्ययन हि
सा म २००
रगभूमि (प्रमचद) एक अध्ययन हि सा म २५०
चौधरी रामचंद्र सस्कृत व्याकरण दगान प्रभातय भा
—तथा द्विवेदी सन्विदानद धोस्नेही प्राधुनिक हिंदी व्या
करण और रचना प्रयास भा
चौधरी रामगोपर प्रारभिक वननासात्र भा भवन ३००
चौधरी गचिकितासराय डाक चिकिट की जय कहानी घटु
मनोचम सुखानी घबना ६००
चौधरी गतिवाता गाहस्थ्य विज्ञान भा भवन ३५०
मह विज्ञान-तत्व भा भवन ४५०
प्राथमिक सहायता और ग वरिचया भा भवन ३००
चौधरी सन्विदान १६२५ हिंदी का-य गार्ह म रर
सिद्धान प्रमुमपाल १०००
चौधरी सत्येव सट प्रणीत कायावकार वासुन्ध १०००
चौधरी सत्येव द रट
चौधरी सत्यारायण प्रवर्गिका सस्कृत व्याकरण भा भवन
४५०
चौधरी सनट्यमा १६३५ एकाकी दाने १६६० १६६५
की बचिनायें राजकमल ४००
चौधरी पद्माकर पूर्वी एगिया का प्राधुनिक गतिगा म २
हि मति ५५०
चौधरी प्रियदामार सामाय रोगी की रोरपाय चौधरी
३५०
चौधरी सत्युप्रमा १६१६ भारत क कुछ गिगा कागति
रा वनीमापय ४७५
चौधरीया बेनीप्रसाद १६३० घाताना क प्रतिमान
यूनाइटेड ३०९

घनानन्द. अशोक प्र. म. २.२५
 चुटकी भर चादनी. अमिताभ, इ
 मध्यकालीन हिंदी सतः विचार और साधना हिंदु एकेडेमी
 १५००
 हिंदी के कवि और लेखक अशोक प्र म
 —रूपा. मेघदूत अशोक पु म २५०
 चौहान, धातमाराम तथा सधनगसिंह रणपतिया प्रसार व
 सामुदायिक विकास विद्या म, हीं.
 चौहान, गजानन सिंह 'नरप'. परिवर्तन निमाड दर्शन प्रेमी प्र.
 म. ०.५०
 चौहान, डी वी एस दे. टडन, जे. एन
 चौहान, नवावसिंह सब हैं समान, सत्र हैं महान इन्टर यूनि.
 १५०
 चौहान, प्रतापसिंह. कविता मे प्रयोगवाद की परंपरा नवयुग
 प्रयागर. २००
 विचार और समीक्षा नवयुग प्रयागर ५७५
 हिंदी काव्य और अरविंद-दर्शन युगवाणो प्र १५००
 चौहान, प्रेमसिंह बुद्ध कीर्तन महाबोधि. १.५०.का
 बुद्धार्चन. महाबोधि ०.२५
 चौहान, मनहर प्रसतुलन उमेश.
 कहानिया ही कहानिया. ग्राम्य बुक २५०
 बीस मुखों के बाद. सपा राजीव रन्सेना. उमेश. ३.५०.क.
 साहस और पराक्रम की कहानिया ग्राम्य बुक २.००
 सीमाएं उमेश १२००.उ
 सूर्य का रक्त उमेश. ६.००.उ.
 हाथी का शिकार. उमेश. २०० वप्र
 चौहान, रामगोपालसिंह, १९२५- आपुनिव हिंदी साहित्य,
 १९४७-१९६२ विनोद. १५.००
 स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी-उपन्यास सन् १९४७-१९६२ विनोद
 ३००
 स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी काव्य, सन् १९४७-१९६२. विनोद ३.००
 चौहान, विक्रम, १९३०- धर्मधेने कुलसेने. रणजीत
 चौहान, वीरेंद्रसिंह भारत, भरतव्यप का विलुप्त भूगोल.
 साशो. स. २. रस्तोगी
 चौहान, शिवध्यानसिंह एव एम सी. मितल. मुद्रा एवं वैदिक.
 सा. नवन, भा.
 चौहान, लमर, १९३७- धर्मेना वं पाण. साहित्यालोक प्र,
 भा ३०० का
 चौहान 'प्रेमी'. विरास-गीत प्रेमी प्र म १.००
 जगताराम शास्त्री. वैदिक-प्रवचन. मधुर प्र. २.२५
 जगदीशचंद्र यादो के पहाड. मेघनल ३००
 जगदीशचंद्र. प्रबोधचंद्रिका-नैजल. मोतीलाल. ३.००
 जगदीश विनारद चुनौती अरविंद प्र मू. ०.५०.का.
 दधानद दर्शन. अरविंद प्र. म. १.००
 जगदेवसिंह शास्त्री. छात्रायोगी विचारमाता. हरयाणा.
 ०.६५
 वैदिक धर्म-परिचय हरयाणा. ०.६५
 जगन्नाथ. धमावस महात्म्य. देहाती. १.५०

चतुर्मास महात्म्य भाषा. देहाती १५०
 पञ्चीस पूर्णमासी कथा देहाती. १५०
 प्रदोष वृत्त कथा. देहाती १.२५
 वृहत् सप्तवार कथा देहाती. २००
 जगन्नाथप्रसाद मित्रिद, १९०७- नई किरण. रवीन्द्र प्र,
 स्वा ५.०० का
 स्वतंत्रता की बलिबेदी सा प्र म., स्वा. २.००.खडका
 जगन्नाथ शास्त्री भारतकथा. मोतीलाल. १.२५
 जगन्नाथ सिंह शास्त्री, १९२०- एक घटा देश को. २ भा.
 अशोक प्र, ब ३००
 जग्गी, रत्नसिंह दशम ग्रंथ की पौराणिक पृष्ठभूमि. भा. सा
 म १६००
 जनक अरविंद अक्षय तथा नेफा के धरती-पुत्र प्रामां.
 जनार्दन अक्षय. हिमालय सतरे मे चौधरी
 जमनादास अक्षरत काश्मीर की बेटी अशोक पा. (पा.)
 २०० उ
 जयत वाचस्पति रावो के किनारे. राजपाल. २५० उ.
 जयगोपाल आदर्श वाल्मीकि रामायण देहाती. मोटा टाईप,
 बडा साईज १२००
 महाभारत भाषा देहाती १२००
 जयगोविंद. तपोवन कि, घर, जो २.०० नि.
 जयनाथ 'मलिन', १९१२- भाचार्य रामचंद्र शुक्ल. बसल.
 ६५०
 विखरते साये मेघनल. ४.००
 भक्ति काव्य मे माधुर्य भाव वा स्वरूप बसल. २५.००
 जयप्रकाश नारायण देश की समस्याएं और प्रामदान. स. २.
 अ भा सर्वे.
 जयशंकर, पी महाकवि सुब्रह्मण्य भारती एव महाकवि सूर्ये-
 कात त्रिपाठी निराता के काव्यो वा सुलनात्मक अध्ययन.
 हि सा म २०००
 जयशंकरसिंह कुकट पालन. रा बेनीप्रसाद
 जयवल्लभ सिंह सामान्य मनोविज्ञान : सरल अध्ययन. कपल
 प्र. ३००
 जयसिंह नीरज, १९२६- नीलजल सोई परटाइया. कविता.
 ३०० का.
 जबती, वी. के. स्वतंत्र समाज की दिशाण पद्धति. हिं. सा.
 भ. १०.००
 जवानसिंह, महाराणा. ब्रजराज-काव्य माधुरी. सा. सस्पात,
 राज
 जबानी, के के. कला की परत. धातमाराम ५.००
 जहोर, रजिया सज्जाद नेहरू का भतीजा. एमके. १.५० बप्र.
 जागिड, रामजीलाल इतिहास के स्फुट लेख. सुमेर प्र.
 जाकिर. दे कश्मीरीलाल जाकिर.
 जाचीक जीवन प्रताप-रासो मंया. मोतीलाल मुन्त. राज.
 प्राञ्चविद्या. ६.७५
 जानकीवल्लभ शास्त्री, १९१६- पापाणी. जयसिंह. ३.५०
 सगम जयसिंह. २००
 साहित्य दर्शन. जयसिंह. २.००

—सभा महाकवि निराला जयशिव एव निराला
 नि ८००
 पान्शन, जेराल्ड डब्लू. भ्रमरीना उन्नति के मार्ग पर
 गंगे प्र ३००
 भ्रमरीना कैसे बना गंगे प्र ३००
 भ्रमरीना कैसे बना गंगे प्र ३००
 जायसवाल तथा धर्मा विज्ञा के तात्विक सिद्धांत
 मद प्र ६५०
 जायसवान, प्रयातकुमार गुप्तकालीन उत्तरभारत का राज-
 नीतिक इतिहास पालिका
 जायसवान, बी एस कैमिल इन्स्टीट्यूट देहाती २०००
 शैक्षणिक समाजशास्त्र हि समि ७५०
 जायसवाल, सोताराम, १९२० मनाविज्ञान की ऐतिहासिक
 स्वरूपा हि समि १३००
 विज्ञा मनोविज्ञान विज्ञा प्र म १०००
 विज्ञा विज्ञान विनोद ११००
 शैक्षणिक समाजशास्त्र हि समि ७५०
 जायसी (मलिक मुहम्मद) पद्मावत व्या शायुदेवधारण
 भ्रमवाल स २ सा सदन चि १५००
 बार्न, जेरुब पी, १९३८- धातुनिक हिंदी गद्य और गद्यकार
 प्रथम १५००
 त्रिदल, मदनमाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम,
 १९६० स ३ राजकमल
 विज्ञानु दे ब्रह्मदत्त विज्ञानु
 विज्ञानु दे राजेंद्रपाल 'विज्ञानु'
 जिनेंद्र प्रयात महासागर सा केंद्र वा ३००
 जिनेंद्रचंद्र भारतीय, १९१९- कवि सेनापति समीता
 नवयुग प्रकाशक ५००
 साली विजरा गंगा
 स्नेह के बचन नवयुग प्रकाशक ३५० स
 जिनेंद्रप्रसाद सिंह, १९३७- सपा सालबहादुर शास्त्री
 प्रगति प्र ३०० जी
 जिनेंद्रियाचार्य, जगदीशचंद्र सिद्धांत कोमुदी प्रयोग सूची
 ५ भा मीतीपाल १५०
 जिया अजीमाबारी सर्दीदा हि प्रवा पु (पा) १००
 जीबनप्रकाश 'जीबन' हिमानव धमननाम २१० गीत
 बुद्ध, पील डी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक विकास
 गंगे प्र २००
 जुगनाल जैन धर्म का प्राण सस्ता २००
 ज्युसगी, मोहनी मां और मुना सातेत १०० ब्र
 ज्युसगी, मोहनी दे दोस्तयवर्षी
 ज्युसगी हरी मैं हार गया नवयुग प्रकाशक, ३.०५ उ
 जुयाल, गुगानंद हिंदी भाषा का उद्भव और विकास
 विनोद
 जेम्स, स्काट पश्चिमी साहित्यलोचन के विद्वान्ति नि मूल
 जेम्स, हेनरी हृदय के बधन राजपाल ७०० उ
 जैन तथा कोशरी मुद्रा एव बंकिंग सधमी ना ७५०
 जैन, ध्यापकुमार, १९१३- कुछ निबंध भा. ज्ञानपीठ

जैन, हनु चौधरी कविताएं भा ज्ञानपीठ ३००
 जैन, उजागरमल उत्तर प्रदेश पचापत राज एवट, नियम व
 मनुबल वानुनी ६००
 जैन, कुतलकुमार, १९५०- पहिले के ऊपर हि भवन ३५०
 वा
 जैन, कुंदनलाल हिंदी के रीतिवालीन भ्रमकार प्र पो पर
 सस्वरू का प्रभाव सा नि, ब १९००
 जैन, चिरजीलाल दे भागंवा, गोपाललाल
 जैन, छगनलाल हिंदी भ्रममीया शब्दकोष पूर्वग्योति ६००
 जैन, जगदीशचंद्र जैन श्याम साहित्य के भारतीय समाज.
 योगवा
 सोवियत रूस पिता के पक्षों में नेपनल ५००
 जैन, जवाहरलाल पदावली विध्याचल १००
 जैन, जिनेंद्रकुमार हिंदी गद्य कुसुमाकर कमल प्र १५०
 हिंदी पद्य कुसुमाकर कमल प्र १५०
 जैन, जिनेंद्रकुमार तथा श्रय, सपा श्री तनसुखराय जैन स्मृति
 प्रथ तनसुखराय स्मृति प्रथ समिति, दिल्ली १०००
 जैन, डी सी तथा के सी जैन प्रायोगिक भौतिक विज्ञान
 जवनपुर प्र गु ५५०, सतिष्ठ स ३५०
 जैन, देवेंद्रकुमार, १९३२- धनप्रथ भाषा और साहित्य
 भा ज्ञानपीठ १०००
 जैन, देवेंद्रकुमार, १९३२- निबंधवार : गुलावराय.
 सा रत्न म
 निराला की काव्य साधना कमल प्र
 जैन, धन्यकुमार रवींद्र की श्रेष्ठ कहानियां हिंद पा (पा)
 जैन, नदलाल दे वादरूब, शास्त्र [२००
 जैन, नवीनचंद्र नवीन धर्मशास्त्र स २ रामप्रसाद २७५
 हायर सेकेंड्री धर्मशास्त्र रामप्रसाद ६२५
 जैन, निर्मला प्लेटो के काव्य विद्वान्ति नेपनल ६००
 जैन, नेमचंद्र 'अप्र' भाषावा चीन और हमारा कर्तव्य
 विक्रंता ५००
 जैन, नेमीचंद्र काव्यांग परिवय कमन प्र २५०
 कुमारसमय (पचन संग) कमन प्र
 नील भाषा, साहित्य और संस्कृति हीरा भैया प्र ५००
 जैन, नेमीचंद्र दे राणाचार्य प्राध
 जैन, पवनकुमार धनु उल्काएं बेंद्रीय हि २.९०
 जैन, पी भार, १९३८- भारत और विश्व हि प्र स ७२५
 जैन, पी सी. स्वतंत्र और प्रतिनिधि शासन हि
 समि ११००
 जैन, पुरुषोत्तमलाल धनु अग्रथ्य ध्वनियां बेंद्रीय हि ३१०
 जैन, पुष्पा दे भट्टाचार्य, गुणमग
 जैन, प्रद्युम्नकुमार धामन तर्कशास्त्र कमल प्र
 निगमन तर्कशास्त्र. कमल प्र. ५००
 जैन, पूनचंद्र नवीन व्यापारिक अर्थशास्त्र मुरारी २००
 जैन महावीररंगन दे अग्रवाल, पचन
 जैन, सिधोमन 'तरंगित'. इनत मिनिंग सोहन प्र २७५
 उलटी गंगा सोहन प्र २७५
 पुनीते चुरकुले. सोहन प्र २७५

फुलभंडिया सौहन प्र २७५ कथा
 जैन, ययापति, १९१४ इतिहास की कहानी सस्ता १७५
 पढोसी देवो म सस्ता ६०० सस्म
 जैन, मादवचंद्र, १९२०- धारजू. हिंदू पा (पा) १०० उ
 दीपू सुल्तान प्रभात प्र २५० उ
 जैन, रतनकुमार, १९२४- अर्थ विचार विद्वधभारती,
 नः ६००.लेख
 जैन, रमेशचंद्र, १९३४ कृपि प्रसार सिद्धांत एव प्राम्य
 विकास सिपस
 हिंदी समास रचना का अध्ययन विनोद १०००
 जैन, रवींद्रकुमार, १९२५- कविवर चनारतीदास
 भा ज्ञानपीठ १०००
 जैन, राजेंद्र नैतिक गिणा अनुपम ३५०
 जैन, विमलकुमार, १९१२ वामायनी चित्रन भा सा
 म १२००
 महाकवि दिनकर उर्वशी तथा अन्य कृनिया भा सा
 म ११००
 जैन, विमला सपा जेय अनेम ज्ञानदीप प्र २५० क
 जैन, बोरेंद्रकुमार १९१८- यातना का सूर्य पुरुष सवलीना
 प्र एव हि प्र २५०० का
 जैन, श्रीचंद्र, १९१०- बज्जुर है छाती किसान की
 झाल्याराम ३०० क
 ये लहनुहाते पैड विघ्याचल २००
 ये वन के पपु विघ्याचल १५०
 हिंदी कवियों की कहानिया कल्याणभल १५०
 जैन, मुद्रसनकाल सामाज्य भौतिकी राजीव, मे २७५
 जैन, हरिश्चंद्र तथा मोहनलाल गणवास राजस्थान ट्रेडरी
 मेन्सुभल सपों स राज पचायत प्र
 राजस्थान पचायत न्याय पचायत, पचायत समिति एव
 जिला परिषद् बृहत् बौड राज पचायत प्र
 जैन, हरिलाल, सपा अष्ट प्रवचन विघ्याचल १५०
 जैन, हीरालाल, सपा जैन धर्माभूत भा ज्ञानपीठ
 सुगधदानी कथा भा ज्ञानपीठ
 जैन, बोरेंद्रकुमार, १९०५ अनाम स्वामी पूर्वोदय ५०० उ
 जैन, की बहानिया भा १० पूर्वोदय ५००
 परिप्रेक्ष पूर्वोदय. ८०० नि
 प्रदन धीर प्रदन पूर्वोदय वि
 मुक्ति बोप पूर्वोदय ५५० उ
 राष्ट्र धीर राज्य पूर्वोदय ३००
 मुक्ति सचयन सभा हर्षचंद्र पूर्वोदय ३००
 —तथा अष्टप्रवचरण जैन तपोभूमि सुबोध पा (पा)
 २०० उ
 जैमिनी दे रामकिशोर 'जैमिनी'
 जोगलेश्वर, न वि तथा अन्य, सपा राष्ट्रभाषा विचार-सग्रह
 सपों स ५ अनाप
 जेतवाणी, मोतीलाल सिंधी भाषा, सिपि धीर साहित्य
 धीमती राज जेतवाणी, ५ एल १६४, लाजपत नगर, नई
 दिल्ली-१४ २००

जोशी, इलाचंद्र १९०२- बोरों के सस्मरण पु स, वा
 जिप्सी लोकरभारती ५०० उ [२५०
 डायरी के नीरस पृष्ठ लोकरभारती ३५० सस्म
 दीवानी धीर होती लोकरभारती ४५० क
 बरेठन पु स, वा २०० क
 —अनु दिवध मानवता की धीर हि समि ७००
 जोशी कृष्णवल्लभ नव्य हिंदी समीक्षा अयम १६००
 जोशी, वे सी राज्य की दार्शनिक विचारधारा हि समि
 ६००
 जोशी, केदारदत्त सिद्धांत गिरोमणि ३ भा मोतीलाल
 ४५००
 जोशी, गणेशचंद्र रण जागरण स २ अयम ५००
 जोशी, गोरीसकर गोवधन दे पूगकेतु
 जोशी जगदीशचंद्र हिंदी गद्य साहित्य चिन्मय १०००
 जोशी जनहवीप्रसाद गिलाजीत विधान चौखवा ०७५
 स्टेफिकोप तथा नाडी परीक्षा चौखवा ०७५
 हैशा (विमूषिका) चौखवा ०७५
 जोशी जीवनप्रकाश आपुनिष्ठ प्रतिनिधि कवि धीर उनरा
 काव्य नवयुग प्र ५००
 प्राचीन प्रतिनिधि कवि धीर उनका काव्य नवयुग प्र ३५०
 साहित्यिक निवध नये प्रायाम नवयुग प्र ५००
 जोशी, दिनेशचंद्र दे दीसित, उर्ध्वनाथ
 जोशी, बदीप्रसाद दे श्रीमती नदविशोर
 जोशी, मदनमोहन सगम रामप्रसाद ३००
 जोशी, मुरलीधर आर्थिक पद्धतिया हि समि ६५०
 जोशी रमेश मोतीलाल नेहरू साधना सदन २०० जी
 जोशी, लक्ष्मण दासनी, सपा राजवाड लेख सग्रह शिबलाल
 १२५०
 जोशी, लक्ष्मीलाल सपा मेवाडी कथावर्तें सा सस्थान, राज
 २०० (अप्रा)
 जोशी, शांति मेरा मन बनवास दिया सा साषाहृष्ण उ
 जोशी, श्रीपाद दे नेने, गो प
 जोशी, हरिसकर साध्ययोगदान वा जीर्णोद्धार चौखवा
 १५००
 जोशी, हिमायु १९३५ अतत पूर्वोदय ३५० क
 बर्रात फूलते तो है भा सा म ५०० उ
 जोशी, हेमचंद्र भाषा विज्ञान पर भाषण हि समि ८००
 जोशी, शिवकुमार सुवर्ण रेखा अनु युगजीत नवलपुरी
 नेगल ३०० ना
 जोहूपरकर विद्याधर, १९३५- सपा तीर्थवदनसग्रह
 जैन संस्कृति ५००
 जोहर, सुरेंद्रसिंह भारत मे सामुदायिक विहास युनिटी
 जोहर, सुरेंद्रसिंह रवींद्रनाथ टैगोर जीवन धीर रचना सा
 सगम, सु ५००
 जोहरी, कमलकुमारी हिंदी के स्वछंदतावादी उपयात अयम
 २०००
 ज्ञान दे प्रवस्थी, बन्धूलाल 'ज्ञान'
 ज्ञानकुमारी अजीत रमच परिमल २०० ए

ट

शानमुनि सामयिक सूत्र मोतीलाल १५०
 ज्ञानवती साहित्य बुछ विचार ज्ञानालोक
 ज्वालाप्रसाद, टीका तुलसीवृत्त रामायण नया संस्करण देहाती
 १५००

रामायण तुलसीवृत्त सचित्र संपूर्ण छात्रो वाड दोहो चौपाई
 सहित मोटे अक्षरों में देहाती बहुत बड़ा साइज
 ५५०० दहन एडीशन ३२०० बड़ा साइज १४००
 वहेज एडीशन १६००

भा अनिरुद्ध भारतीय तकबोच ज्ञान भीमासा मोतीलाल
 १२५

भा अयोध्याप्रसाद यह घरती है बलिदान की ग्रथमाला
 २०० वप्र

वे माई के लाल प्रथमाता १२५ वप्र
 भा दानद १६१८ पदाथ सास्त्र हि समि ८००

भा एच के लवण परीक्षा भा भवन
 भा कमनारायण कपलेश विजय के पय पर ग्रथमाला
 १०० वप्र

सिखा के गुर हि सा स
 हमारा वेपा हमारा लहाल हि सा स ०७५
 भा तारिणीय सपा मालविकाग्निमित्रम् रा खेनीप्रसाद
 ३००

मुद्राराक्षसम् रा वनीप्रसाद ५००
 वनीसहार नाटकम् रा वनीप्रसाद ५५०
 भा, दयानंद चमकते नजारे हि भवन १५० वप्र
 भा, दिनेशचंद्र प्रवासा बघन क सेतु परिमन ३००
 का

वतियां गुल है परिमल २१० व्यग्य
 भा, नदकिशोर प्रिय मिलन देवबधु ४०० का
 भेरी सबसे बडी कहानी देवबधु १०० क
 हृदय देवबधु २०० का

भा पणपर भासवसरिष्ट विधान चौबसा ३००
 भा बावगोविंद मैथिली निबन्धवली भा भवन ४००

मैथिली साहित्य का इतिहास भा भवन २५०
 भा बुद्धिनाथ कैरव साहित्य साधना की वृष्टभूमि परि
 स २ ज्ञानपीठ ६५०

भा, रमचंद्र झाझी मृतो कहानी ग्रथमाला ०७५ का
 भौरा नाथी रे नयन प्र ३०० उ
 भा, राजेंद्र, १९२६- अष्टम छा कद्र, दि ७७७ उ

भा श्रीकांत दे राजेंद्रकुमार राजग
 भा, हरिमोहन भारतीय दर्शन परिचय न १ न्याय दान
 स २ वैशेषिक दशन पु भ

भारी कृष्णदेव १६२७ उपयामकार प्रेमचंद और उनका
 मोदान एच नया मूल्यांकन भारतेंदु भवन ६५०
 बीमल रम और हिंदी साहित्य गुप्त प्र २०००

भारत वाच-मुद्र १९६५ कमन प्र अ ८५०
 रस-शास्त्र और साहित्य समीक्षा भारतेंदु भवन ६००

भिमरत्न 'कुमुद' अभिषार. भीरा प्र भा

टडन, गुरुप्रसाद सपा काव्यधारा वि पर, म्वा ३००
 टडन जे एन १६२५ तथा डी वी एस चौहान भारत
 की प्रमुख फसनें रामप्रसाद

टडन प्रतापनारायण १६३२ अभिवापता सा केंद्र दि
 ३५० उ

नवाच कनकौवा विवेक २५० ए
 पथरीले प्रतिरूप विवेक ४०० का

रुपहले पानी की बूदें विवेक ४०० उ
 वासना के अक्षुर सा केंद्र, दि ३५० उ

सूच्य की पूर्ति विवेक ४००
 समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तिया
 २ भा विवेक २५०० (प्र)

हिंदी उपयास कला हि समि ६५०
 टडन प्रेमनारायण १६१५ नेहरू अंतिम भूलक हि सा
 म २५० ना

हिंदी सेवी सत्तार स २ हि सा म २०००
 —सपा सूर बालकृष्ण हि सा म १५० का

—सपा सूर सुधा हि सा म १५० का
 टडन, बी झार के तथा पी झार साहनी भारतीय सैय
 पद्धति का इतिहास प्रकाश युक्त ७५०

स्थल युद्ध कला तथा उत्तरी अफ्रीका का सग्राम प्रकाश युक्त
 ७५०

टडन, महेंद्रप्रसाद अंतर्राष्ट्रीय सभ्य केंद्रीय हि ८८०
 टडन विरवनाथ अन्नी हिंदी २ भा रामा प्र १५०० (प्र)

टडन, श्रीप्रकाश, १६२६ लहरो का सत्तार बाल सा म
 १२५ उ

टडन, सतप्रसाद, १६०६- स्टाव और उसका व्यवसाय हि
 समि ७५०

टॉड, जेम्स १७८२ १८३१ पश्चिमी भारत की यात्रा अनु
 एव सपा गोपाननागयण बहुरा राज प्राच्यविद्या

टील, एडविन व, प्रवृति के बीच अनुभूति क क्षण भारतमारा
 ४५० वा

टेलर, हैरल्ड गिंगन की समस्याएं राजपाल ७००
 टैलीर, रवीन्द्रनाथ के ठाकुर, रवीन्द्रनाथ

टोपा, विद्या सरल हिंदी भा १-६ हेमवृट भा १ १००,
 भा २ १ १५० (प्र), भा ४ १ २५, भा ५ १ ४०,
 भा ६ १ ६०

टोरी दे वदप्रकाश 'टोरी'.
 ठकुर, चंद्रशेखर गांधारी, १६२८- धरेसु इनाज भा
 ज्ञानपीठ २००

ठाकरे कानिकास 'नवनीन' झाझी साध चनें नवयुग सा
 स, ई २५० का

ठाकुर तथा रामा सामा व रमायन भा भवन १०५०
 ठाकुर तथा सिंह सामाय रासायनिक गणना भा भवन ३५०

ठाकुर, श्रीबाराणास्य प्रणव भारती—प्रथम बीणा मोतीलाल
६००

समीताजलि ६ भा मोतीलाल ३२००

ठाकुर देवेश, १९३३ प्रसाद के नारी चरित्र नवयुग प्र
२०००

ठाकुर, प्रेमकुमारी जाग उठा है हिंदुस्तान प्रेमकुमारी ठाकुर,
१२, रामानिवास विधान सभा मार्ग, लखनऊ २०० का
ठाकुर, बसुएलान तथा चंद्रगौर शर्मा प्रवेशिका रसायन भा
भवन भा १ ४००, भा २ ३००

ठाकुर वनवतसिंह प्रारम्भिक उद्भिद्शास्त्र चौखवा ४१०

ठाकुर, बृजमोहनसिंह घाठ भूमिनेय एकात्री सायो ३००

ठाकुर, रवींद्र तथा गोपेश यह मेरी वकिलाए हैं कि महल
२५० का

ठाकुर, रवींद्रनाथ, १८६१ १९४१ अरुण राव प्रभात प्र
२००

वैदी श्रीर जजीरें मजु ३५० उ

गोताजलि अनु रामनाथ व्यास परिकर राज सा

भवा २५०

चतुरंग प्रभात प्र २००

चित्रानश अनु सुवर चंद्रसिंह राज सा भवा १००

वधरी, अनु रावत सारस्वत राज सा भवा १५०

वहूती नदिया जलते तिनारे मजु ३५० उ

यह बस्तो है सहीदो की मजु ३५० उ

योगयोग हि प्रथा पु (पा) १००

रविठावर दी वाता अनु रानी लक्ष्मीकुमारी राज सा
भवा ३३५

रवींद्रनाथ को श्रेष्ठ कहानिया हिंद पा २००

रवींद्र गय तथा अनु मदनगोपाल शर्मा राज सा

भवा १५०

रवींद्र रत्नाकर अनु रघुवशानल गुप्त भा विद्या भवन, व
बदे मातरम् मजु ७०० [भा

स्वतंत्रता का परिणाम प्रभात प्र २००

ठाकुर, राधदयाम दे शर्मा चंद्रशेखर

ठाकुर विविनविहारी, सया हिंदी साहित्य एक मूल्यांकन
बंगाली प्र

ठाकुर मुकुटाश्रमाल श्रीहनुमान ज्ञान-चरित्र देहली ४५०

उफ घाट मराठा का इतिहास (१००० ई० से १७५५ ई०
तक) साधु १२००

दायल, बानन मोत की छाया हिंद पा (पा) १०० उ

दाल्टन सोवित्त के मित्रात एलाइड ६००

दागी गणपतलाल लठे मूरमा प्राज्ञ जी उफ गीने का बापू
भा १ रत्नशु २७५

डिग्न चार्ले दो नगरो की कहानी नेशनल ८००

डूफेन अ दशिमो धुक्त को खोज भाभाराम ३५०

डूरेट विन सभ्यता की कहानी कि महल भा १ १०००,
भा २ ८००

डे, फनिल निराधर, १९३४ दुष्क्रीण दि पु स

४३१ उ

डे, सतीश इसान/मधुवान मया देहाता

बनी गर्म बनी निर्म देहाती १५०

कांटा दामन फूल देहाती १५० ना

नई किरण देहाती १५०

नागेश्वरी देहाती १५०

वधन देहाती १५०

सहस्रपति देहाती १५०

सलकार देहाती १५०

शोला और तूफान देहाती १५० ना

हिमालय ने पुकारा देहानी १५० ना

डविड, एस पी चमड का वाम विद्या भवन, उ २५०

डोपरा भार एम दे खान

डयूमा, प्रलेखकेंद्र तीन तिनगे नववग प्रयागर १००० उ

त

तनलोवाले, सुधीलावाई तथा तिलोचन सेठी बुनिपादी पिशाच

मूलोद्योग जवलपुर प्र मू २०५

तनसुलकी व्यास स्वास्थ्य और भोजन वि फन, जो १००

तपोवनम जी महाराज, स्वामी १८८६ १९५७ हिमगिरि

विहार रूपा सुधासु चतुर्वेदी वासुदेव

तरंगित दे जैन, मिथीमन तरंगित

तरन तारन आवाज दो हम एक हैं नवचेतना २५०

तरल दे सुकर, न्यामविहारी 'तरल'

तर्ह दे रावेडतर्ह

तागडी, प्रमनपूना चूक की हूक विवेक ६५० उ

पक से पकज पूर्णिमा प्र

तात्रिक बृहत् इन्द्रजाल संपुण देहाती २५००

ताजवर मामरी लहरो की दौड नवयुग प्र ४०० उ

ताम्रहृषे, के ग्राधुनिक प्रायोगिक रसायन शास्त्र अनु म

द टोले जबलपुर प्र मू १२५

तायल, जुगमदिर, १९३६ धूप भरी सुजह वकिला

२०० का

डोमरी का रफ हिं ठा म, म २०० का

तारकेश्वरप्रसाद पिशाच कला वि पु स ७५०

हिंदी भाषा पिशाच मनुषा भा भवन ३५०

ताराचंदपाल देवन' जय जय हिंदुस्तान साति प्र, उवा

तालवार निर्मल, १९२८ सया भाचाय द्विवेदी

वगीय ८००

—सया प्रसाद सा प्रतिष्ठान ५१० का

तिलक १९३२ मधुरी मुखान चमनका २५० उ

कनन चोर तथा अय कहानिया कला भा

निर्वाण विक्रमजीला प्र ७००

तिलक दे तिलकधारीसिंह तिलक

मेघदूत विद्यावती प्र एव गानि जनरन ३५० का

तिवारी, प्रविकप्रसाद दे सक्सेना, मुबनेदवीचरण

तिवारी, आर सी हिंदी साहित्य के इतिहास की रूप रेखा
जबलपुर प्र मू १००
—तथा एच पी गोस्वामी आधुनिक विद्वत् इतिहास जबल
पुर प्र मू ४००
तिवारी उदयनारायण जमनी देश श्रीर निकासी हिंद पा
(पा) २००
तिवारी, केदारनाथ आगमन तर्कशास्त्र भा भवन ५५०
तिवारी, गोपीनाथ १९१३ दीप से दीप जने नवयुग
प्रयागार २२५ नि
हरा पीता नवयुग प्रयागार २२५ ए
—तथा रामचंद्र तिवारी सपा विधारा विरवविद्यालय
३०० का
तिवारी, चंद्रशेखर छद अलखार रस जबलपुर प्र मू ०७०
तिवारी, जगन्नाथप्रसाद बुनियादी शिक्षा सिद्धांत जबलपुर
प्र मू २७५
तिवारी, जे एस प्रायोगिक रसायन जबलपुर प्र मू ३५०
तिवारी, भगवानदास पावसगान अ वि गृह
तिवारी, भवानीप्रसाद गद्य निर्मात्य जबलपुर प्र मू २५०
तिवारी, भोतानाथ १९२३- सपा बृहत् पर्यायवाची कोश
सद्यो स २ वि महत्
हिंदी मुहावरा कोश स २ वि महत्
तिवारी, रामाचकर सूर का ७ गार वणन अनुसंधान २०००
तिवारी, रमेश मराठी का उत्कर्ष चौखवा १२००
—तथा सुरेश तिवारी पुराणशास्त्र एव जन वपाए
चौखवा १२००
तिवारी, रामविनायक माधनलाल चतुर्वेदी व्यक्ति श्रीर
वाच्य अनुसंधान, १८००
तिवारी, रामचंद्र, १९१०- नवजीवन साधना सदन ४००० उ
—अनु उचक्के राजगार ५००
कीर्ति-पतये राजगार २४०
तिवारी, रामचंद्र दे तिवारी, गोपीनाथ
तिवारी, रामचंद्र दे नाम, समरसेट
तिवारी, रामचंद्र दे मिश्र, भीरुय
तिवारी, रामचंद्र दे वर्मनाड, टध्नु बी
तिवारी, रामपूजन, १९१५- जायसी राघवहृष्टण ३७५
तिवारी, रामप्यारे हिंदी के आधुनिक कवि हि सा म ३००
हिंदी के प्रतिनिधि कवि हि सा स ६५०
हिंदी क प्राचीन कवि हि मा म ३००
तिवारी, रामगार वाच्य विता चौखवा ६००
प्रयोगवादी वाच्यकारा तथोक्त नई कविता चौखवा १२५०
तिवारी, रामानंद 'भारतीयन', १९१९- पावती महाराज
भा मदिन १५००
भारतीय दंगल का परिचय भा मदिन ३५०
भारतीय दंगल की भूमिका भा मदिन ७००
महानता का मर्म भा मदिन ५०० नि
मरुत पिब मुद्रम् ० भा भा मदिन ६०००
सेनानी भा मदिन ५०० का
स्वतंत्रता का अर्थ भा मदिन ६००

हिमालय भा मदिन ५०० का
तिवारी, रामेश्वरनाथ गजानन शास्त्री ज्ञानपीठ २००
रेल की पटरिया अर्चना प्र भा ३००
तिवारी, रामेश्वरनाथ दे विश्वनाथ सिंह
तिवारी, विश्वनाथ मानचित्र कला प्रकाश हि प्रका
पु १०००
मानचित्र निरूपण अशोक प्र म ५००
मानचित्र प्रवेशिका अशोक प्र म २५०
संन्य मानचित्र दर्पण अशोक प्र म १५०
तिवारी, सच्चिदानंद आधुनिक हिंदी कविता मे गीति-तत्व
हि सा सम्मे
तिवारी सियाराम हलधरदास इत सुदामा चरित्र
भा भवन ५००
तिवारी, हृदयानंद 'कुमारेश' भातिद्वत् सावेत ३०० का
मुस्कुराते आसू, साकेत ४०० का
तीर्थराज फिरोजपुरी आतिवारी रमणी अशोक पा
(पा) २००
तुकुदोजी महाराज अनुभव प्रवाश २ भा श्रीगुरुदेव १५०
(प्र)
आत्म प्रभा भजनावलि श्रीगुरुदेव १००
आति दीप भजनावलि श्रीगुरुदेव ०५०
माधी गीत श्रीगुरुदेव ०१९
जीवन ज्योति श्रीगुरुदेव ०५६
ज्ञानदोष भजनावलि श्रीगुरुदेव ०३७
प्रायंता पद्धति श्रीगुरुदेव ०५०
भजनकुंज श्रीगुरुदेव ०६०
भा सा स सेवा साधना श्रीगुरुदेव १५०
मेरी जगान यात्रा श्रीगुरुदेव १२५
राष्ट्र नोका भजनावलि श्रीगुरुदेव ०७५
राष्ट्रीय भजनावलि श्रीगुरुदेव १५०
सहर की बरखा श्रीगुरुदेव १५०
वाचा कली श्रीगुरुदेव १००
विवेक सरिता भजनावलि श्रीगुरुदेव १५०
सन्धि, प्रायंता पाठ श्रीगुरुदेव ०१०
गुणा सिद्ध भजनावलि श्रीगुरुदेव ०६०
तुगनेव सिता श्रीगुरुदेव हिंद पा (पा) २०० उ
प्रेम प्रपंच सरता २०० उ
तुनहुने, श ग प्राचीन मराठी कौरीय लेख भोनीनाथ
५०००
तुनमी द इतिहासितु तुलमी'
तुनमी आचार्य क्या धर्म बुद्धिगम्य है ? भा ज्ञानपीठ
२००
तुनमी, बलजीन, १९१५- प्रेमार्जुन धारमाराम २५० का
तुनमीदाम श्रम गीतावनी टीना रामचंद्र श्रीवाग्देव 'बद्ध'.
गा प्र म, ग्वा
तुलमी पराबरी ग्वा बरगानेनाल चतुर्वेदी सा ग्वा म, म
रामचरितमानस ग्वा विश्वनाथप्रसाद मिश्र सर्वभारतीय
८००

श्रीरामचरितमानस अथवा रामायण आठोकांड सटीक सपा
सधनप्रसाद भरद्वाज तेजकुमार १५००
तुपित दे अथस्थी, राजेंद्र तुपित
तेजनारायणप्रसाद सिंह तथा अग्र, सपा निराला जीवन
और साहित्य राज प्र
तेला, एस सी तथा अन्य भारतीय अर्थशास्त्र स ५ कृष्णा
ब १३५०
तोमर, अजमेरसिंह, १९३५ ?- मुस्काण का मोल जवाहर
७५० उ.
तोमर, कणिका अजभापा और ब्रजकुलि साहित्य, तुलनात्मक
अध्ययन कागि हिंदू ६००
तोमर, रामबिहारीसिंह ग्रामीण समाजशास्त्र श्रीराम मेहरा
१५००
तुलनात्मक सामाजिक संस्थाएँ श्रीराम मेहरा १०००
प्रगत समाजशास्त्रीय विज्ञान श्रीराम मेहरा १०००
प्रारम्भिक ग्रामीण समाजशास्त्र श्रीराम मेहरा ७५०
भारत की समाज व्यवस्था श्रीराम मेहरा ७५०
भारत की सामाजिक संस्थाएँ श्रीराम मेहरा १०००
भारतीय जनता एवं संस्थाएँ श्रीराम मेहरा १०००
भारतीय समाज एवं संस्कृति श्रीराम मेहरा ८५०
भारतीय समाज, संस्कृति तथा संस्थाएँ श्रीराम मेहरा
१२५०
भारतीय सामाजिक व्यवस्था श्रीराम मेहरा १०००
समाजशास्त्र की प्रकृति एवं आधार श्रीराम मेहरा १०००
समाजशास्त्र के मूलतत्त्व २ भा श्रीराम मेहरा १०००
(प्र)
समाजशास्त्र के मूलाधार मानकचंद्र
समाजशास्त्र के विज्ञान श्रीराम मेहरा १०००
समाज शास्त्रीय निबंध राजीव मे ३५०
सामाजिक मनोविज्ञान परिचय श्रीराम मेहरा १०००
सामाजिक व्यवस्था श्रीराम मेहरा १०००
वोमर, रामसिंह प्राकृत और अथअथ साहित्य तथा उनका
हिंदी साहित्य पर प्रभाव प्रथम विद्व
तोप कवि तोप और सुधाधि सपा सुरेंद्र मायूर ना प्र
समा
त्यागी, पद्मसिंह तथा अन्य रसायन परिचय स २ राजीव,
मे ३२५
सामाय रसायन राजीव मे २७५
त्यागी, महाबोरसिंह ऐतिहासिक निबंध राजीव मे ६००
प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत (प्रारंभ से १५३६ तक)
राजीव मे ८५०
प्राचीन भारत (प्रारंभ से १२०६ तक) राजीव मे ५००
राजनीतिक निबंध राजीव मे ७५०
सरल राजनीति तथा पेट रिटन और अमेरिका की शासन
प्रणालियाँ राजीव, मे ६००
सरल राजनीति शास्त्र २ भा राजीव मे ३५० से ६५०
—ज्या पी भार साहूनी मतराष्ट्रीय कानून राजीव, मे
६५०

यूरोप का इतिहास राजीव मे ५०० से ६५०
राजनीतिक विचारों का इतिहास भा २ राजीव, मे
७००
—तथा सतीसचंद्र मितल मध्यकालीन भारत राजीव, मे
४५० से ८००
राजनीतिक विचारों का इतिहास भा १ राजीव, मे
६५०
—ज्या हरगोबिंद पत विद्व की प्रमुख शासन प्रणालियाँ
परि स २ राजीव, मे ७०० से ८५०
विद्व के प्रमुख सविधान परि स ३ राजीव, मे ७५०
त्यागी, रवींद्रनाथ कल्पवृक्ष राजकमल ४०० का
भिति चित्र राजकमल नि
त्यागी रामावतार १९२५- सपने महक उठे प्रगीत सग्रह
भास्काराम ४००
त्रिगुणायत, गोविंद, १९२४ हिंदी दशरूपक धनजय सशो
स सा नि का ८००
त्रिपाठी, प्रानिलेय प्राचिरी भाषायां आनंद प्र २५० क
स्थाहू लकोरें आनंद प्र ३०० उ
त्रिपाठी कल्याणपति प्राधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियाँ हि
प्रका पु ५००
—सवा लघु हिंदी शब्दसागर ना प्र सभा ६००
—सवा लघु हिंदी शब्दसागर ना प्र सभा १५००
त्रिपाठी कृष्णकांत महाकवि बालिदास और उनका अभिज्ञान
याकुल सा नि, का २७५
त्रिपाठी, कृष्णादेव गुरित्तो की छायामार सडाई इटर यून
१२५
त्रिपाठी चंद्रबनी बुद्ध और बुद्ध धर्म महाबोधि ०७५
त्रिपाठी, छविनाथ चतु काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहा
सिक अध्ययन चौलवा १२००
त्रिपाठी जगदीशनारायण सर सी बी रामन प्रत्युप २००
त्रिपाठी, जयनकर दे कालिदास [जी
त्रिपाठी, तारा धलवट प्राइसटोन प्रत्युप २०० जी
जाज वासिगटन प्रत्युप २०० जी
सर जगदीशचंद्र बनु प्रत्युप २०० जी
त्रिपाठी त्रिगुणीनारायण सुगम गद्य रामप्रसाद १३७
त्रिपाठी देवीदयालु अनुवाद भास्कर रामा प्र ८००
त्रिपाठी नर्मदाप्रसाद चांदनी का जहर हि भवन ३०० का
त्रिपाठी प्रभुनारायण मोठाया कम करने के उपाय स २
दयाभुदर १००
त्रिपाठी प्रम यदों के वातायन आनंद प्र ३०० उ
त्रिपाठी प्रमनाथ डा रामकुमार वर्मा का वा य चंद्रसोह
त्रिपाठी भिकारीभीम विनाय क प्रकाश साकेत १५० का
त्रिपाठी आनंद चित्तारी सी प्र कृष मजु
त्रि पाठी राजकिशोर हिी साहित्य का विवचनात्मक इतिहास
धर्म प्र १४००
त्रिपाठी रामप्रसाद, १९१८- वाचीदास के काव्य हि महल
१२००
वालीदास के नाटक हि प्रका पु ८००

कविदास प्रयागवी कि महल १८००
 पुराणा की अमर कहानिया भा ५ सा भवन इ
 त्रिपाठी रामप्रताप के अग्रवाल अणिकहुमार
 त्रिपाठी रामप्रताप द मोड राजद्रसिह
 त्रिपाठी रामप्रताप गार्खी खेत और खलिहानी म अणोफ
 प्र म १२५ क
 हिंदुधो के बन एव और ल्योहार लोकभारती ७००
 त्रिपाठी रामफेर कवियत्री रामा प्र ८०० आ
 त्रिपाठी राममृत श्रीकव्य विमल भा म
 रस विमल विद्या म वा ८००
 रहस्यवाद रात्रमल ५००
 लक्षणा और उसकी हिंदी काव्य मे प्रसार ना प्र सभा
 साहित्य गार्लर के प्रमुल पक्ष वाणी विज्ञान
 त्रिपाठी रामाकर द दवाई लामा
 त्रिपाठी रामसागर ध्वयालोक लोचक २ भा मोतोलाल
 २५००
 विहारी मीमांसा संगो स २ अणोक प्र १०००
 मक्तक काव्य परंपरा और विहारी संगो स २ अणोक प्र
 १५००
 —तथा गातिस्वरूप गुप्त बृहत् साहित्यिक निबन्ध अणोक
 प्र १२५०
 त्रिपाठी लक्ष्मीपति तुलसी के वैज्ञानिक ३५३ परीणित प्रयोग
 चोखवा ०७५
 त्रिपाठी, बाल्मीकि जय विजय प्रत्युप १००० उ
 त्रिपाठी विजयानंद रामचरित मानस ३ भा मोतोलाल
 ३०००
 त्रिपाठी वैदेहीवदन उच्चतर माध्यमिक विभव भूगोल नद
 व ६५०
 एगिया नद व ५५०
 त्रिपाठी गभुरलन मया मुकवि कुनविहारी वाजपेयी स्मृतिग्रथ
 साहित्यायन १०००
 त्रिपाठी सत्त्वनारायण १६२७ हिंदी भाषा और त्रिपि का
 ऐतिहासिक विनास विभवविद्यालय ५००
 त्रिपाठी मृयवात निरास, १८६६ १८६१ चवना जवनपुर
 प्र मू ५०० का
 चाबुल जवनपुर प्र मू ३०० नि
 देवी जवनपुर प्र मू ५५० क
 नव शत जवनपुर प्र मू ३५५ का
 वना जवनपुर प्र मू ५०० का
 गण्ड जवनपुर प्र मू ५७५ नि
 त्रिपाठी हरिहरनाथ प्राचिन भारत म राज्य और वाय
 पाविना मोतीलाल १०००
 त्रिभुवनसिंह १६२६ हिंदी उपन्यास और मयाधवा मया
 म ५ हि प्रवा मु ६००
 त्रिचीनीन दे नरेन्द्रनाथ वि
 त्रिचोरीनाथ प्रभा, १६३७ चर्चाका नायना भा ३ १०
 नि
 साहित्य-मगम भा प्र मदिट ३००

त्रिवेणी वृष्णप्रसाद इन्दुपुएजा (पतु) धवतरि ०५०
 व पाक सग्रह धवतरि ३५०
 त्रिवेदी चंद्रभूषण रमईवाका नेनाजी साकेत ०५० वा
 पुहार साकेत १२५ का
 बहिर वायन वाका साकेत १२५ ना
 वोछार साकेत १२५ वा
 भिनसार साकेत १२५ वा
 रतोधी साकन १२५ ना
 हर पाठी सलवार साकेत ०७५ का
 त्रिवेदी दुर्गाकर गाये देण प्रम के गात अरविद प्र गु
 ०७० अग्र
 —तथा वृष्णविजय सपा अक्षयाक्षरी दोहावनी अरविद प्र
 गु ०६० अग्र
 त्रिवेणी वृजवाला रामाधम भा १ देवाधम (वानवाड)
 श्री देवी वृजवाला ५००
 त्रिवेदी रघुवीरप्रसाद अभिनव विद्वत्विज्ञान चौखवा
 २२००
 त्रिवेदी रमानंद शास्त्री १६२२ विपकूट विनोद खडका
 त्रिवेदी रामनरेण भारतीय राष्ट्रीय अणोलन एव सर्वपायित
 विकास मोतीलाल
 त्रिवेणी विपिनसिंहारी, १६१५ अक्षनी के हिंदी कवि श्री
 भवानी प्र ६२५
 १५वीराजरासो पाल्ल प्र १००० मा
 विचार और विवचन पाल्ल प्र १००० नि
 त्रिवेदी गति १६३६ भारतीय मैनी नया युग प्रभात
 प्र
 यातवी रामान्त जै रामदेव बाजा की कि घर जो १७५
 का
 यानी योगराज १६३३ मा की ममता धाय मत्र २००
 हिंदी साहित्य एक सर्वेक्षण मुक श्राव्य ८००
 पापर मद्रप्रनाथ के रणेश गयाना
 दन्या दे मुपरसिंह ददया
 दशिय भारत हिंदी प्रचार सभा नमिन साहित्य दशिय भा
 ३०० नि
 दाशिसुनि एन एग महानविमूर्गस और महाकवि पोतना
 हि मा म २०००
 दन तथा चक्रवर्ती रत्न चक्रगणित भा भवन ३००
 दन एन एडमण्डरसिंह मुक मोतीलाल १८००
 दत्तपाणाचाय स्वामा रामचरित भवनीत भा १ विपान म
 ५५०
 एन भारती धारावासी रानी है मुद्रोय पा (दा) २००
 धारावामन रतन एड क (वा) २०० उ
 मानव मणिन और मृमु रना एड क (दा) २०० उ
 न्यान दलीर चंद्रभुन मोती विव गा १००
 गच्छ पुराण रहस्य गिव भा १००
 मानव कल्याण गिव भा भा १ १०० भा २
 १२५
 विपान धम गिव गा भा १ ०७५ भा २ ०५०

दर, निर्मला, १९५१ निर्देशिका और पत्थर नेचनल
५०० रु
दर्शक दे हसरान 'दर्शक'
दशानन्द, स्वामी, टीका मोमासा दशन देहाती ६००
योग दर्शन देहाती ६००
दशमशता बौद्ध सिद्धांत धार तथा रामचकर विपाठी
मोतीनाल ४२०
दवे तथा कार्बडिया प्रायोगिक रसायन कल्याणमन १५०
दशरथराज कविबर डा रामकुमार वर्मा और उनका काव्य
चौलवा
सफर और सपने, प्रभात प्र उ
नूर साहित्य विमर्श प्रभात प्र ५००
दशरथ, भवरत्न तथा भगवतचरण चतुर्वेदी, तथा
राजस्थान प्रगति के पदार्थ वष राज प्र ज = ५०
दादूदास १५४४ १६०३ दादूदास प्रयातनी तथा परशु-
राम चतुर्वेदी ना प्र सभा
दास, जे सी वानिज मास्टर देहाती २५०
दासगुप्ता, रामचरण इंगलैंड का इतिहास सरल मध्यम
राजहंस प्र म ३७५
यूरोप का इतिहास सरल मध्यम राजहंस प्र म ४५०
दिनकर समस्या और समाधान कृष्णा व ५०० उ
दिनकर दे रामधारीसिंह 'दिनकर'
दिनेश दे शर्मा, राधेश्याल 'दिनेश'
दिनेशान और स्नेही तथा गीत गीत प्र ४००
दिलीप अणु-युग और हम प्र भा सर्वे
दिवाकर दे शोधिय शिवप्रसाद दिवाकर'
दिवाकर, कृष्णाजी रणधर, १९३१- महाराष्ट्र का हिंदी-
शोक-काव्य हि सा म ५००
दिवाकर, बलभद्र मै गीत सुनाता जाऊगा प्रगति पत्र ५००
दिवाकर, सिद्धतन रम्यति प्रकरण मोतीनाल ६००
दिव्य दे धविकाप्रसाद दिव्य
दोषिक, लक्ष्मण सिंहनाद साकेत १२५ का
दोषित भास के नाटक का सांख्यिक मध्यमन प्रार्थ बुक
१२००
दोषित, आनंदप्रसाद, १९२३- वैजित्सन लक्ष्मणरी परि
षद विरचविद्यालय ७०० का
दोषित, उषेन्द्रनाथ तथा दिनेशचंद्र बोसो भारतीय शिक्षा की
प्रमुख समस्याएँ राज बुक
दोषित, छोटेनाल तुलसीदास का सौंदर्य बोध नई रु
५००
दोषित, मिलोत्रीना पापण, १९२०- सत कवि मल्लुकास सा
संस्थान राज
टिंडी साहित्य कुष्ठ विचार नवयुग प्रयाग १०००
दोषित, मिलोत्रीनारायण दे गिरिहृद ठाकुर
दोषित, दयाशंकर हिंदी के प्रतिनिधि निबंधकार का साहि-
त्यिक परिचय उषेन्द्र पु म १००
दोषित, प्रताप नव सज्जे का उजावा जयलपुर प्र ग्
१२५ ना

दोषित, मधीरथ, १९१६- वामाशनी विमर्श समुदय
१०५०
समीक्षालोक समुदय २०००
दोषित, भूपनारायण जयल म मंगल प्रथमाला १८०
दोषित, मुहम्मदसिंह जय भारत आनंद पु, वा का
दोषित, राजेश १९२२- पशुओं के घातक रोग देहाती
१२५
दश कनेल (परिवार नियोजन) देहाती ५००
होम्पेदेविक पारिवारिक चिकित्सा दशक देहाती ६००
दोषित, रामस्नेही प्राचीन ब्रह्मज्ञान भजनमाला देहाती
गुडका साइज ४५०
मधु के गुण तथा उपयोग देहाती २५०
दोषित, स्वामिबिहारीलाल धर्मिका के पंतीसवें राष्ट्रपति जौन
फ्रिडसजेरल्ड मैनेडी धर्मभूमि प्र
दोनाशय शरण छायावाद विस्तारण और मूल्यांकन नवयुग
प्रयाग १०००
भारत की त्रिभूतिया स्वयं प्रयाग ०७५ वष
राष्ट्रीय समप्रता मे साहित्य वि प्र कु ३००
सर्वे निराली चीज नवयुग प्रयाग ०७५ वष
दोषित्स ज म हिंदी व्याकरण की रूपरेखा राजकमल
१०००
दुगल, कर्तारसिंह सुवीरा राजपाल २५० उ
द्वे तथा निध देश और समाज रामप्रसाद भा १ १७०,
भा २ २०८, भा ३ २४६
दुबे, अमृततान तुलसी के विरवा जगज्य आदिमजाति
६०० गीत
दुबे कृष्णबिहारी प्रकृति और प्रारम्भ नवयुग प्रयाग
२०० उ
दुबे जयतकृष्ण हरेकृष्ण गुराती साहित्य का इतिहास हि
समि ६५०
दुब, सुगताराम बालबायी अनु काशीराम विवेदी प्र भा
सर्व ३००
दुबे बी पी गणित शिक्षण विधि विनोद २००
दुबे, माधुरी, १९२८- सङ्कति और साहित्य रामप्रसाद,
५००
दुबे, मिलापचंद्र, १९०६- बुनिपाठी शिक्षा और नवीन
समाज व्यवस्था स २ राष्ट्रीय शिक्षा
दुब, रामचरणार करम् प्रधान साकेत २०० ना
धरम् सरपब साकेत १०० ना
पुखों की यात्री साकेत २०० ना
बद हिंद डा लहणम म साकेत ३०० ना
सुर्जन सिंह इन्टर क्लास म साकेत १०० ना
दुबे, रामेश्वरदयाल कोणार्क जील प्र २०० आ
निकनिक जीन प्र १००
दुबे, स्वामिचरण दे शोधेय भट्टल.
दुब, सत्यनारायण दे शोनास्वय, आशीवादीलाल
दुब, सत्यपति मधु जी समाज व्यवस्था कि महल ७००
दुब, सुरेशचंद्र. इपीट एक्सपोर्ट माइक देहाती = २५

घरेलू उद्योग घषे रत्न एड क
 प्रोफेबल होम इडस्ट्रीज देहाती ८ २५
 सु-देव प्रारूपक कंस बने देहाती
 दुर्गादाकरप्रसादसिंह नाम १८६६- कुम्भरसिंह. एक घघ्य-
 यन स २ नव सा म
 गद्य समूह नव सा म १००
 गुनावन नव सा म ३५०
 ज्वालामुखी स ० नव सा म २०० गद्य-का
 तुम राजा में एक नव सा म १२५
 नारी जीवन नव सा म २५०
 'वाय के न्याय भोजपुरी नाटक नव सा म
 फरार की डायरी नव सा म ३५०
 बाबू कुम्भरसिंह नव सा म ३५० ना
 भूख की ज्वाला नव सा म १२५
 भोजपुरी एक समीक्षा नव सा म २००
 भोजपुरी के कवि और काव्य नव सा म ४५०
 भोजपुरी लोकगीत में करण रस स २ नव सा म १०००
 भोज भोजपुर और भोजपुरी प्रदेश नव सा म ३००
 लका काठ नव सा म
 बह शिल्पी या नव सा म १२५
 सामूहिक खेती नव सा म १००
 साहित्य रामायन (स्वतंत्र) नव सा म ६०० महाका
 हृदय की घोर नव सा म २५०
 दुष्यंतकुमार छोटे छोटे सवाल राजकमल उ
 दुमाच, विजेंद्र मूला आचल बिहारे मोती कुमार सज
 ८००
 दूषणाथ सिंह कृषि प्रथशास्त्र रा बेनीप्रसाद २००
 कृषि प्राचीन समाज एव समाज चल्याण नद प्र
 सामुदायिक विवास एव कृषि प्रसार नद प्र
 दूबे, नखछेदनराम सनातन धर्माद्वार ८ भा मोतीलाल
 २०००
 दुब, राधेश्याम शिखा के मूलभूत सिद्धांत दि पु स ३५०
 दुब, विध्याचल रामचबन द्विवेदी 'धरविद' जावनकमणिका
 शुभम ० ५० जी
 दूबे, दाकृतना बाब्यार्यों के मूलस्रोत और उनका विवास
 हि प्रथा पु
 दूब, सत्यनारायण दे सनुभुंज मामोरिया
 देराधी, सयदेव तथा सन्मानारायण नाभूरामका भारतीय
 अर्थशास्त्र गांगे स ८ सन्मी ना १२५०
 देव, गोपालचंद्र सरजा शिखाओं भा भा म ००० ना
 देवकीनन्दन बिनव भारत-पाकिस्तान-चीन समस्या वि घर,
 या ०५०
 देवरा, घरद १६३५- एव प्रालोचक की नोट बुग धपटा
 कथानर धपरा ६०० क
 टूटती इकाइयां धपरा उ
 देवरा, हनुमंतसिंह, मंगा प्राचीन राजस्थानी गीत भा ५
 सा सत्यान, राज २०५
 राजस्थानी लोक गीत भा ३ सा सत्यान, राज २५०

देवदत्त, १६७३-१७४५ ? देव-सुधा टीका मिश्रवधु गंगा
 ३००
 देवदत्त शास्त्री ज्ञानत भारत कि महल
 स्मृतियों की छाँह में प्र प्रतिष्ठान ४०० ससम
 हिंदी काम सूत्र कि महल
 —सया महादेवी बर्मा अभिनदन प्रथ धीधर शास्त्री, प्रयाग-
 देवधर, ज्योरेस्ता अतरा महाराष्ट्र राष्ट्र ३०० क
 देवप्रकाश आर्यसमाज के महापुरुषों के जीवन तथा कार्य
 जगत राम ३००
 देवराज ए टैक्ट ग्रफ सोशियल स्टडीज वि महल १०००
 देवराज (नदकिशोर देवराज), १६१७- प्रतिक्रिया राज-
 कमल ८०० भा
 —सया विश्व के सत महापुरुष कादी हिंदू २५०
 देवराज मुनि वैदिक भारत में यज्ञ और उसका प्राध्यात्मिक
 स्वरूप हरयाणा २००
 देवेंद्रप्रतापसिंह रहीम की राष्ट्रीयता वृष्णा द्र १०००
 प्रवेदिना अर्थशास्त्र भा बवन ६००
 सावजनिक अर्थशास्त्र भा बवन १०००
 देशपांडे भारतीय साहित्य शास्त्र मोतीलाल १२५०
 देशपांडे नरहर गमाधर हिंदी प्राधुलेखन आनंद प्रणाली
 (सहायक एव कुञ्जी) सौ प्रतिभासने, ३२३ नारायण पेठ,
 पुना २ ७५०
 देशपांडे, भी गो, १६११ मराठी का आधुनिक साहित्य,
 इतिहास १८०५ से १६६० नवमुग बुकस्टॉल
 दोशी, देवरदास प्राकृत मागोपदेशिका मोतीलाल
 दोस्तेवेवस्की अणाराध और दह अनु मोहनी जुलूसी सावेठ
 ८०० उ
 द्वारिकानाथ सी बाय चित्ररसा मोतीलाल २०००
 द्वारकाप्रसाद पाव्ठी री वेति राज सा प्र २००
 बालक बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक समस्याएँ नेशनल
 नेशनल ३००
 मम्मो त्रिगडेंगी उपन्यास प्र उ
 रजना एमके २०० उ
 द्विवेदी उमाचकर बुनियादी शिखालय रागटन. जबलपुर प्र
 ग २७५
 द्विवेदी कपिलदेव प्रौढ़ रचनानुवाद-नौमुदी विद्वद्विद्यालय
 १०००
 ससुतु अ्यारण विद्वद्विद्यालय ५००
 द्विवेदी, देदारनाथ १६३०- कबीर और कबीर-पथ हि
 सा ससमे
 द्विवेदी, देदारनाथ 'धर्मांड' कामायनी दिग्दर्शन तं २
 चिन्मय १०००
 द्विवेदी गयाप्रसाद 'प्रगाद' नदिग्राम काव्य लोकाभारती
 द्विवेदी दुर्गाचंकर नई मैनाती भाग्योदय १०० अय
 द्विवेदी, देवीचंकर, १६३१- भागा और भाविकी लवमी ना
 ५००
 द्विवेदी, मन्नुनाल, १६०८- आदर्श कार्यालय गदति प्रभात
 प्र ५००

द्विवेदी, रामनाथ शालाग्रयंत स २ चौखवा
द्विवेदी, रविवंकर नागरिक शास्त्र एव उसके सामान्य सिद्धांत
जबलपुर प्र मु भा १ २२१, भा २ २५०, भा ३
२५०

द्विवेदी, राजकुमार भाग्यवंद प्रदीप सभा गंगासहाय पाडेय

चौखवा १२००

एतौषधिक मिश्रवर्ष चौखवा २५०

तापमापन (थर्मामीटर) चौखवा ० २५

अस्तित्शालाकाप्रवेश चौखवा ० ५०

सूचीवेष विज्ञान सती स ३ चौखवा २५०

द्विवेदी, रामचन्द्र, १९३४- अलंकार मीमांसा मोतीलाल
१६००

अलंकारसर्वस्व सजीविनी मोतीलाल

द्विवेदी, रामनाथ पेटेंट प्रेस्साइडर चौखवा ८००

प्रयुक्तिविज्ञान चौखवा १०००

रोमी रोडविमर्श चौखवा २००

स्त्री रोगविज्ञान चौखवा ३५०

द्विवेदी, रामवचन 'भारविद', १९०५- भारती विद्या

प्रचारक बुक डिपो, कचहरी रोड, गया ० ५० का

स्वप्न सुंदरी राजराजेश्वरी पुस्तकालय, कचहरी रोड, गया
० १० ना

स्वाहा मुद्रम ३०० का

द्विवेदी, रामेश्वरप्रसाद 'रामेश्वर' बात कुछ कहती ज्योत्स्ना
प्र ५०० का

द्विवेदी, विश्वनाथ सचिव क्रियात्मक मौषधि परिचय विज्ञान
चौखवा १२००

द्विवेदी, अक्षिदानंद 'श्रोस्तेही', १९३६ इनाल्ट की सूरत
प्रसाद प्र १७५ ना

द्विवेदी, अक्षिदानंद 'श्रोस्तेही' दे चौधरी, रामचन्द्र

द्विवेदी, हजारीप्रसाद १९०७ कबीर सती स ७ हि प्र
२६००

कालीदास की साहित्य-योजना नैवेद्य २००

कुटज नैवेद्य ३५० नि

नाथ-संप्रदाय लोकराश्री १०००

सहज-साधना मध्यप्रदेश शासन ३५०

साहित्य का साथी राष्ट्र प्रवा सति १५०

साहित्य सहचर नैवेद्य ५०० नि

हिंदी साहित्य अंतराज्य ७५०

—तथा काव्य शास्त्र भा सा म १०००

व्यास अन्नदान यथ एत चाद २०००

हिंदी साहित्य का इतिहास राजकमल

धनराजपुरी, महेश मोत की नाद म हिंद पा (पा) १००

धर्मरत्नय शास्त्री न्याय सिद्धांत मुक्तावली हिंदी व्याख्या

प्रत्येक खंड मोतीलाल, ५, २५

धर्मोरा, सवाईसिंह, सभा पौरु प्रकाश सभ दानित २५० का

सैतान मुद्रम सभ दानित ५०० का

सैतान-मुद्रम सभ दानित का

धमदत्त प्राधुनिक चिकित्सा शास्त्र मोतीलाल

धर्मदेव विद्यामार्तंड महर्षि दयानंद और महात्मा गांधी
हरयाणा २००

धर्मपाल मैत्री कबीर के धार्मिक विद्वत्स. भारतेंदु भवन
३५०

सती के धार्मिक विश्वास मुंबई २२००

धर्मपाल शास्त्री प्यारी, मुम्बई, बहानिया धर्म बुक २००
बप्र

हिंदुस्तान हमारा रामपाल, मुम्बई, १९३३
धर्मरक्षित, मिश्र १९३३ भावाय बुक पाप महाबोधि
१००

इति-चतक महाबोधि ० ७५

कुलीनार का इतिहास. महाबोधि २५०

चरिया पिटक महाबोधि १२५

जातिभेद और बुद्ध, महाबोधि ० ७५

तयागत का प्रथम उपदेश महाबोधि ० ३७

तथागत हृदय महाबोधि ० ७५

तेलकटाह गाथा महाबोधि ० ३७

धम्मपद महाबोधि १५०

धम्मपद (कथा के साथ) ३००, (हिंदी अनुवाद मात्र)
० ५० महाबोधि

पालि-पाठ माला महाबोधि १००

बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय महाबोधि
० ५०

बौद्ध चर्चा विधि महाबोधि ० ५६

बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत महाबोधि ० ७५

बौद्धधर्म दर्शन तथा साहित्य नद ब ६५०

बौद्ध विभूतिया महाबोधि १००

बौद्ध-सत्त्वार पद्धति महाबोधि ० ५०

मत्त्वधु नद ब २००

महायज्ञी महाबोधि ० ७५

विशुद्धिमार्ग २ भा महाबोधि १०००

समुन्नत निकाय महाबोधि भा १ ७००, भा २ ६००

सारनाथ दिग्दर्शन महाबोधि ० ३७

सारनाथ वाराणसी महाबोधि, १५०

—तथा बौद्ध धर्म ही मानव धर्म महाबोधि १००

धर्मरत्न, मिश्र सुदृक पाठ महाबोधि ० ३७

घेर गाथा महाबोधि ३००

मुत्त निपात महाबोधि ५५०

धर्मराज बहादुर दिनकर और उनका कुच्छेधन. कमल प्र

धर्माधिकारी, दादा, १८९९- मानवीय निष्ठा प्र भा सर्व

धर्मद ब्रह्मचारी शास्त्री साहित्यिक निबंध मोतीलाल ५००

धर्मनामा, तर्जुन तारु हिमांत्य के द्वारा म नवयुग प्रया-

गार ५५० छ

धारासिंह पयु रोग चिकित्सा देहाती ० ७५

धीरेंद्र, केवल, १९३८- परिवार नियोजन एमके २००

प्राथमिक चिकित्सा एवं जन प्रविक्षा राजधानी. २००

युद्ध के मोर्चे पर हिंद पा (पा) १००

धीरेंद्र परकज जीवन धीरेंद्र राम दि पु स २५०

धूमकेतु (गौरीदास गौड़वंश जोशी), १८६२- जयपाना.
 बोरा ५० उ
 बवंरक विजेता बोरा ६०० उ
 भारत सफ़ाट समुद्रगुप्त बोरा ६५०. उ
 सोरठ विजेता बोरा ६०० उ
 ध्यानसिंह लोकहितया कुमार सज ३००
 हिमाचन की लोक गाथा कुमार सज ३०० क
 नरविशोर देवराज १६१७ इतिहास पुरुष तथा प्रम्य कवि-
 ताए भा ज्ञानपीठ ३५०
 नदकव्योत्पिपर ऋषिकृमारी अग्रूरे गीत अलफा बीटा ४५०
 का
 नदा, गुलशन, १६२६ एक नदी दो पाठ अशोक पा (पा)
 २००
 बलनिनी स्टार (पा) २०० उ
 नाच की चूडिया अशोक पा (पा) १००
 घाट का पत्थर पञ्जाबी २०० उ
 घाट का पत्थर सुबोध पा (पा) २०० उ
 जलनी चट्टान सुबोध पा (पा) २०० उ
 टरपोक अशोक पा (पा) २००
 देवज्याया स्टार २०० उ
 नीलकमल अशोक पा (पा) २००
 पत्थर के होठ अशोक पा (पा) २००
 माधवी अशोक पा (पा) २००
 मैली चादनी हिंदू पा (पा) १०० उ
 राख भीर अगारे स्टार (पा) २०० उ
 रूपमती अशोक पा (पा) २०० उ
 साऊ की बेला नवयुग प्र ४०० उ
 मुखे पेठ सज्ज पत्ते अशोक पा (पा) २००
 नदा, बी धार महारमा गांधी एक जीवनी सस्ता ५००
 नईना खान दे गोपालदास नीरज
 नगेंद्र, १६१०- धाधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तिया
 स ३ नेशनल ४५०
 धालोवक की यास्या नेशनल ७००
 —सपा भारतीय साहित्य की राजकमल
 मानविधी पारिभाषिक बोरा दर्शन स सपा बी एस
 नरवणे, साहित्य स सपा नगेंद्र राजकमल १२५० प्र
 विद्यारामचरण गुप्त स २ नेशनल ७५० का
 हिंदी सर्पिकी सा सा स स १ ६५०, स ? १०००,
 स ३ १०००
 नयमल, मुनिथी, १६२०- सुम घनत गवित के स्रोत हो
 सक्लन कमने- अनुबंदी भा ज्ञानपीठ
 नाम दे 'हान, गजाननसिंह 'नम'
 नरवणे, विरचनाय धाधुनिक भारतीय चितन राजकमल
 नरसिंह श्याम, पनु श्री श्याम गुणयागर, सपूर्ण गविच, मोटे
 उत्तर देहाती बदा सादर १४००, इहेन एरीशन
 १६००
 नस्ता, रामगोरेसिंह, १६१५- एर पत्थरी की तत्र धार
 राजकमल ५०० उ

नरेंद्रकुमार श्रोड शिपा के नये माध्यम आशा पब्लिश
 ४००
 नरेंद्रनाथ धायल व गैस इजन गाइड देहाती १५००
 आर्मेचर वाइडस गाइड देहाती १५००
 आस्टरोलॉजि करंट देहाती २५ १०
 इलेक्ट्रिक लाइनिंग व वायरमैन गाइड देहाती २५५०
 इलेक्ट्रिक वायरिंग देहाती ६००
 इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर पेपर्स देहाती १०.५०
 ट्रांजिस्टर रिसेपर देहाती ६७५
 प्रकटीकल आर्मेचर वाइडिंग देहाती ८ २५
 मशीनिल्ट देहाती २५ ५०
 रेडियो पाकेट बुक देहाती ६००
 रेडियो फिजिक्स देहाती १६५०
 वर्कशाप टेक्नोलोजी देहाती २५ ५०
 गिगरेट बीबी कैसे छोडें. सुबोध पा (पा) १००
 नरेंद्रपाल सिंह प्रकाश की छाया मे प्रनु त्रिलोकदीप सस्ता
 ४०० उ
 नरेंद्रप्रसाद 'नवीन' भीर चिराग बुभ गया हि सा स
 ० ७५ वप्र
 वाठ का पीठा हि सा स ० ७५ वप्र
 गद्दार दोस्त हि सा स ० ७५ वप्र
 दिल भीर दीवार हि सा स ० ७५ वप्र
 नरेशमोहन कुमार छद-रस-पलवार भा भवन ० ८८
 नरोत्तमदास स्वामी, १६०५- रासो साहित्य भीर पुष्पीराज-
 रासो सभित्त परिचय भा विद्या म ७००
 —सपा चितन रुमगणी री वेलि श्रीराम मेहुता ७ ५०
 राजस्थानी कान्ता भा १ सा सत्यान, राज
 २ ५०
 नर्मदेश्वरप्रसाद जाति-व्यवस्था राजकमल ७ ५०
 नलिन दे जयनाथ 'नलिन'
 नलिनीकांत दिगत की विरप्पें एम एल बुक
 नलिनीका दे ठाकर बातिलान 'नलिनीका
 गवविशोरसिंह भयंसास्त्र के सिद्धांत भा भवन ६००
 धार्मिक सिद्धांत, मुद्रा वैदिक राजस्य तथा योजनाकरण
 भा भवन ७ ५०
 भारतीय भयंसास्त्र भा भवन १६ ५०
 नयाव दे पुरोहित इन्द्रकुमार 'नयाव'
 नवीन दे नरेंद्रप्रसाद 'नवीन'
 नवीन भनाडीराम भीर उत्तरे शापी धात्माराम ५००
 बप्र
 नाग दयागकर काम धया एक व्याज मुद्रा व सिद्धांत हि
 सति ७००
 नागर अकामनार गुजरात के हिंदी गौरव प्रय गगा
 नागर भूमन्ताल, १६१६- भमन्त भीर विष साकभारती
 १५००
 नागर जनार्दनराय धाधार्थ धाधुनिक या सत्यान, राज
 २ ५० ना
 नागर, बातकराम छुब छुब छुब एमक १००. बप्र

नागर, बी डी तथा धार पी गुप्ता भयंदास्त्र का सरल परिचय जबलपुर प्र ५ ७००

नागर, विष्णुदत्त तथा रामप्रताप गुप्ता भारतीय परिवहन की समस्याएँ और सिद्धांत कैलाश पु स

नागर, श्रीराम हिंदी की प्रयोगगील कविता और उसके प्रेरणा स्रोत (१९५३ १९६०), सरदार ८००

नागरीदास १९६६ १७६५ नागरीदास-ब्र पावली सपा किंतोरिलाल गुप्त भा १ पदावली, भा २ पदतर रचनाएँ ना प्र सभा

नागरी प्रचारणी सभा हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण सन् १९००-१९५५ ई० तक ना प्र सभा ६०००

नागार्जुन (बैलनाथ मिश्र) १९११- उपजाता राजपाल चपा हिर पा (पा) १०० उ

नाथ द दुर्गादास्त्रप्रसादसिंह 'नाथ'

नाथ, पी 'मोहन' मामूम निगाहों का सिकार हि प्रचा पु (पा) १००

नाथरसिंह १८६३- उत्पान धीर पठन वीरा ५०० उ एक रहस्य एक सत्य राजपाल २००

दावानल वीरा ५५० उ

प्रतिनिधि रचनाएँ भा ज्ञानपीठ

विप्लवा समूत राजकमल ५५० उ

नाथक, ठा भा दे सेखमुखाव

नाथर, टी एन गोपीनाथ मुधा अनु सुधागुचतुर्वेदी नवभारती ३५० उ

नारण गोदुखचदा गुमाई गुदवानी नेदानल २०००

नारदमुनि विचित्र' राष्ट्र राम हि सा परि, पी ० २५ का नारायण दे ब्रजसिंघोर 'नारायण

नारायण, धार के गाइड राजपाल (पा) ४०० २०० उ

नारायणदत्त सिद्धान्तकार सनराचार्य नवभारती २५० बी

नारायणप्रसाद 'विदु' श्री भरविद साहित्य श्रीमरविद सोमाङ्गो, कलकत्ता

नारायणसिंह भावन धीर गाथी का साम्य दर्शन हि सा सभ्ये

नाथरे, एन डी प्यास विश्वभारती, ना

नाहटा धरतरद, १९११ प्राचीन काव्यों की रूप-परंपरा भा विद्या म ५००

—सपा राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित प्रयोग की खोज भा २ ५ सा सन्धान, राव भा २ ४००, भा ४ ५००

नाहटा, धरतरद दे राधकदास

नाहटा, धरतरद, दे, समयसुंदर

नाहटा, भवरलाल बानगी राज सा सभा ४५०

—सपा पद्मिनी चरित्र चौपदे सारूल ४००

नाहर भक्तिकाव्य एवं मध्ययन कि मट्टन

नाहर दे गौड यगप्रसाद 'नाहर'

नाहर दे रतिभानुसिंह 'नाहर'.

निगम, अनतराम तथा रामेश्वरसहाय मुद्रा, वैकिंग, विनियम धीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सा नि, का

निगम, एस पी तथा अन्य सामान्य विज्ञान एवं गणित जबलपुर प्र ५ भा १ ५५०, प्र २ ३५०

निगम, जगदीशनारायण परिनय प्रत्यूप ३०० १

निगम, बृजबिहारी चापके बालक और मनाविज्ञान सा सभ्य, म्वा ३ २५

निगम विक्रमादित्यसिंह सितार-मुष्ठा हि भवन ५ २५ संगीत

निगम शिवनाथ तथा मुश्तान ब्रह्मकुवेलिया भारत में गिला की वर्तमान मतिविधियाँ जबलपुर प्र ५ २५०

महान शिक्षा शास्त्री जबलपुर प्र ५ ०००

निगम, इयामांकरोर मर्यादा की ध्यान पर सा केंद्र दि २०० ना

निटव, विटर प्राचीन भारतीय साहित्य इतिहास अनु रामचंद्र पाठ्य मोतीलाल १२००

निरयानदप्रसाद काव्य प्रयोगन सरस्व पु स

निरकार देव 'सिक्क', १९१६- दालगीत साहित्य कि महल

निरजननाथ आचार्य राष्ट्र का प्रहरी चिन्मय १५०

निरक्षर, दे डे, अनिल निरक्षर'

निराला, दे त्रिपाठी, सूर्यकांत निराला'

निर्मिक दे श्रीभा, रसिकबिहारी निर्मिक'

निर्मम दे हेमराज 'निगम'

निर्मोही दे मगवानदास 'निर्मोही'

निराक दे दामा, रामनकर 'निराक'

नीरज दे गोपालदास 'नीरज'

नीरज दे जयसिंह 'नीरज'

नीरव सावन की धूप स्वास्थ्य सरिता १६०

नीलकण्ठ शास्त्री नद मीर्यें मुग मोतीलाल

नूतन दे कृष्णकुमार नूतन

नेगी वलवीरसिंह भारत का भोगमिक् मध्ययन हि प्रचा पु १५००

नेने, गोपाल परसुराम, १९१३ दाबरे नीलाम २५० क

राष्ट्रभाषा मादोवन महाराष्ट्र राष्ट्र २५०

—जवा-अरीपाद अरीपादो, तथा दूहल हिंदी मराठी अन्वयनेत महाराष्ट्र राष्ट्र २०००

नेहरू जवाहरलाल, १८८६ १९६४ आजादी के समय वयम प्र विभाग

सहकारिता सस्ता २००

सामुदायिक विश्वास और पचायती रा सस्ता ०५०

म्याती, जानकीलाल माध्यमिक भूगोल भा १० विज्ञानल ६००

न्यादरसिंह 'बैचैन' अखंड त्रिकावन ज्योगिय दहानी ५५०

धमरसिंह राठी देहाती ३५०

दुर्गा पुष्पाचलि देहाती १५०

दुर्गा स्तुति देहाती ११२

धर्मवीर हकीमतराम देहाती ३००

भक्त छत्र देहाती १२५
 भक्त मोरख्वज देहाती १२५ ना
 महाराजा भर्तृहरि नाटक देहाती १५०
 रामायण बतज राधस्याम देहाती ५५०
 लोक धीर परलारु सुधार देहाती १२५
 सरदार भगतसिंह देहाती १२५ ना
 सागीत भ्रमरसिंह राठौर देहाती ४५०
 सागीत कवर निहावदे ना मुल्तान देहाती ५५०
 सागीत गोपीचंद्र तज बालकराम देहाती ५५०
 सागीत नौला मारू तर्ज बालकराम देहाती ५५०
 सागीत पूरनमल तज बालकराम देहाती ५५०
 सागीत भक्त प्रह्लाद देहाती ५५०
 सागीत मारू का मात देहाती ५५०
 सागीत राजा भर्तृहरि देहाती ५५०
 सागीत रूपनमत तर्ज बालकराम देहाती ५५०
 सागीत शकुंतला देहाती ५५०
 सागीत शीला दे तज बालकराम देहाती ५५०
 सागीत सरवर मीर देहाती ५५०
 सागीत हरिश्चंद्र देहाती ५५०
 हस्त सामुद्रिक ज्योतिष देहाती ८२५
 हस्त सामुद्रिक शास्त्र देहाती ५००

प

पकज दे धीरेंद्र पकज
 पञ्जाब भाषा विभाग श्री स्वामी सत्यदेव परिव्राजक भाषा
 वि, पञ्जाब, पटियाला
 पंडित, धीमप्रकाश दे पंडित, प्रकाश
 पंडित, नारायण द्वितीयदेग हिंद पा (पा) १००
 पंडित, प्रकाश (धोमप्रकाश पंडित), १६२४ उर्दू की
 हास्य व्यंग्य भाषरी हिंद पा १००
 बक रहा हूँ जगून मे भा ज्ञानपीठ ३०० हा
 —तथा जकर की शायरी हिंद पा (पा) १००
 पारिस्तान की उर्दू की शायरी हिंद पा (पा) १००
 प्रेम धीर हत्या के रहस्यमय मुकदम हिंद पा (पा) १००
 पंडित, स्वर्ण, मया कहकड़े हिंद पा (पा) १००
 पंडित, स्वर्ण, मया कहकड़े हिंद पा (पा) १००
 पत, सिद्धनाथ दे शिवमूर्तिकामी एत भाग
 पत, मुनिमानदन, १६००- कता धीर मरहटि ति महल
 ५०० नि
 छायावाद - पुनर्मूल्यांकन लोभाभारती ६५०
 मुति पत्र राधाकृष्ण
 —तथा धय, मया मरादेवी धमिनदन प्रथ लोभाभारती
 ३२.००

पत, हरगोविंद लोक प्रकाशन मनो स २ राजीव, मे ६५०
 पत, हरगोविंद दे त्यागी, महावीर सिंह
 पटकर, एम ए अनेकार्य तिलक मोतीलाल ६००
 पटकर एम एम, भाष्य कोष कल्पतरु—विश्वनाथ मोती-
 लाल २०००
 सारदीयाख्यानाममाला—हर्ष कीति मोतीलाल ५००
 पटवर्धन, केजब अनत, १८६२- ऋषियों के विज्ञान की
 श्रेष्ठता स्वाध्याय ६००
 पटवा, सुभकरण, १६४३- उत दिन सूर्य प्र म ३०० उ
 शतरंज का प्यादा सजल प्र एव सूर्य प्र म १५० क
 पटेल, नित्यानंद जीवन की राहें गोविंदराम ५००
 पटेल, पीतांबर, १६१८- तेजरेला भात्माराम ००० उ
 पगतदीप भात्माराम ३०० क
 पंडितार, गिरधारीसिंह मानसो जगजीवा सर्वोदय ५००
 पंथक दे जगन्नाथ ब्रह्मचारी 'पंथक' [खट का
 पद्मा सुधि] अलकनन्दा के साथ साथ नेपथल १६०
 पद्मकार भट्ट, १७५३ १८३३ गगालहरी सपा सुधाकर
 पाठिय ना प्र समा १२५
 पनिकर, रजनी, १६२४- जड की घूष हिंद पा (पा)
 १०० उ
 प्रेम चुनरिया बहुरंगी तथा धन्य बहानिया कल्याणमल,
 ७५० क
 पन्नालाल या ध्यानदमयी श्री श्री ध्यानदमयी २५०
 परदेसी सदेह का सिल्लूर कल्याणमल ३०० क
 —सपा दिव्ययुद्ध की रोमांचकारी कहानिया हिंद पा (पा)
 १००
 परमारभा शरण दिल्ली की कहानी धीर उनके बालतु रमारक
 रणजीत
 भारत का राष्ट्रीय प्रादोशन, सर्वसाधारण विज्ञान एव सवि-
 धान मनो म ३ रस्तोगी
 भारतीय सामन एव राजनीति का विश्वास मनो म २
 रस्तोगी
 मध्ययुगीन भारत, १००० से १७०७ ई रणजीत
 परमानंद, माई मरे अन समय का प्राथम श्रीमद्भगवद्गीता.
 भा सा सुदन ५००
 परमानंद शास्त्री, १६२६- गाथापातयती प्र प्रतिष्ठान
 २०००
 सङ्कल शीतलकाम्य का विश्वास प्र प्रतिष्ठान १५ ००
 परमार, एत एत तथा पी डी हुजेला मुद्रा, बेनिग, अत-
 राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत मर्ग ५ ५०
 परमार, श्याम मानवी का लोभाभारतीय हिंदू एकेडेमी
 परसाई हर्षिकर वेदधानी की परत तथा धय नियम पुनि-
 बर्नल बुक ३२५
 भून के पाव पीछे सिंहल मा ०५० नि
 मुनो माई गांधी भा १ युनिबर्नल बुक ३०५
 —तथा रामचकर मिथ्य छद अचकार एत बोध जयनपुर
 प्र मू ०८०
 व्याकरण-बोध, जयनपुर प्र मू ०८०

- हिंदी साहित्य : विकास कथा. जबलपुर. प्र. गृ. १.५०
 —सपा निबंध-संज्ञक जबलपुर प्र. गृ. २.५०
 परेरा, ए. पी. तीस दिन में सफलता हिंद पा. (पा.) १.००
 पवनकुमार दानवीर मामासाहू कल्याणमल १.२५
 सिंहासद विजय कल्याणमल. १.२५
 पन्ना, जे. सत प्रासिद्ध जेवियर प्रभात बुक २.७५ जी
 पहाड़ी. दे. पिटिङ्गपाल, रामप्रसाद 'पहाड़ी'.
 पाठे, प्रार. सी. दे. दामरि, पी. पी.
 पाठे, गंगाप्रसाद हसन रोना पु. स. वा. ०.०० क.
 पाठे, गोविंदचंद्र. बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास हि. समि.
 १.२००
 पाठे, रामनारायण. भक्ति-काव्य में रहस्यवाद. नेशनल
 पाठे, विशालगढ़, १९२७- विकास और सर्वोदय सा. समग,
 वा. २.५०
 पाठे, सत्यनारायण, सपा. शुक सूक्त समूह. रा. बेनोप्रसाद
 ५.००
 पाठे, सी. डी., प्रभु. शिक्षता कण विद्यालय २.५० नि.
 पाठे यह भी दे पाठेय.
 पाठेय धार्मिक-रसायन सरल अध्ययन कमल प्र. ०.५०
 पाठेय, धर्मचंद्र स्वप्नदोष और बीर्य सजीवन धवतरि.
 २.००
 पाठेय, चमेनचंद्र अलंकार प्रदीप कि. महल ३.००
 वैदिक व्याकरण. चौखवा २.००
 पाठेय, कपिलदेव हिंदी संक्षेपण कथा प्रवीर १.०५
 पाठेय, कालानाम 'चौब', १९१४- ठाकुर देगासिंह पु. स.,
 वा. ३.००
 पाठेय, के. पी. शिशा में क्रियात्मक अनुसंधान विनोद ३.००
 शिशा में सरल साहित्य की विनोद ३.००
 पाठेय, गंगासहाय दे. डिवेदी, राजकुमार
 पाठेय, गंगासहाय दे. भाव मित्र
 पाठेय, गंगाप्रसाद नवजीवन ज्योति प्रवेशिका देहाती १.०५
 पाठेय, गोपालचंद्र. गौरिलवा की खोज में प्रथमाला १.५०
 बर
 पाठेय, चंद्रबती कालिदास मोतीलाल
 तनवुकु प्रथवा सुपीमते नद. ब. ५.००
 पाठेय, जगदीश कर्तवीरार जैनेंद्र. अभिज्ञान और उपलब्धि
 धर्मना प्र. भा. ४.००
 पाठेय, जगदीशचरण भामिनी विलास धन्योक्ति विद्व
 विद्यालय ३.५०
 पाठेय, जे. पी. माध्यमिक रेखागणित कल्याणमल ४.००
 पाठेय, दीनानाथ आचार्य विद्वनाथप्रसाद मिश्र मुगवाणी
 प्र. १.२००
 पाठेय, प्रभुनाथ जीवन और जोष जतु की कहानी. विविध
 १.६२ बर
 पाठेय, पूलवद, सभा भारतीय कान्य दांतन विद्युत् प्र.
 ५.००
 पाठेय, भूवदचंद्र. कामायनी के पाठे नवयुग प्रकाश.
 ४.२५

- पाठेय, मुबनेस्वरप्रसाद. काव्य कदंब चौखवा. २.२० का
 पाठेय, महावीरप्रसाद, १९१३- चिकित्सा तत्व दीपिका
 भा. २. राति प्र. दि. १०.५०
 पाठेय, रत्नाकर, १९३६- सपा. दुनिया की नजरों में नेहरू
 नेहरू सा.
 —सपा. शांति के प्रसर सहोद श्री वास्वी. भोला प्र.
 ५.००
 पाठेय, राजकिशोर, १९२०- हिंदी साहित्य का प्रारम्भिक
 युग नवहिंद ६.००
 पाठेय, राजनाथ, १९०६- नेपाल और नेपाल-नेपाल-ज्ञान-
 पीठ ४.५०
 पाठेय, राजबली, १९०७- प्रसोक के अभिलेख. ज्ञानमंडल
 ६.०० राज स. ७.५०
 भारतीय नीति का विकास वि. राष्ट्र. ५.००
 हिंदू संस्कार सप्तो स. ० चौखवा १६.००
 पाठेय, राजेंद्र भवष की लूट हि. समि. ३.५०
 पाठेय, रामारमण सिद्धांतकौमुदी प्रथमप्रकाशिका. भोतीलाल
 पाठेय, रामशेखरान प्रसाद की नाट्य कला अनुसंधान
 १.२५
 मध्यकालीन सत साहित्य हि. प्रका. पु. १५.००. शोध
 पाठेय, रामचंद्र दे. निट्स, विन्टर
 पाठेय, रामजी, १९१७- हिंदी कहानी, विधान एवं विकास.
 राष्ट्रल पुस्तकालय
 पाठेय, रामजीन हिंदी में स्तैंग प्रयोग एवं अन्य निवध
 अभिज्ञान ३.००
 पाठेय, रामनारायण भक्ति काव्य में रहस्यवाद. नेशनल.
 ०.००
 पाठेय, रामचकर हिंदी-काव्य-मञ्जूषा चौखवा ३.००
 पाठेय, रामचक्र नवीन शिक्षा का सिद्धांत. रामप्रसाद
 ४.००
 मनोवैज्ञानिक संप्रदाय रामप्रसाद ४.००
 संस्कृत चिन्तन विनोद १.५०
 पाठेय, रामेश्वररमेश मुगवाणी (मुमिनादन पत) एक
 अध्ययन हि. सा. भ. ३.५०
 पाठेय, रूपनारायण सध्या नवयुग प्रकाश ४.०० उ.
 पाठेय, विनोदचंद्र कृष्णशर राजकमल ४.०० का.
 पाठेय, विमलचंद्र प्रभो न भारत का राजनीतिक तथा
 माथ्युनिक इतिहास सेन्ट्रल बुक १.२५
 पाठेय, वी. एन. मुसा, मीट्रिक एवं प्रथम व्यवस्था मोतीलाल
 ६.००
 पाठेय, वीरेंद्र मिथु की बेटी प्रभु मा. ४.५० उ.
 पाठेय, शंकरदयाल दुदचरित्र न-मुग प्रकाश ३.००. श.
 बूट के चरण. नवयुग प्रकाश ३.०० उ.
 पाठेय, रामनाथ प्राधुनिक हिंदी कविता की भूमिका. विनोद
 १.००
 पाठेय, श्यामनारायण, १९०७- नाट्यालोचन विजय पु.
 म. ६.००
 साहित्य का उत्तरपं. विजय. पु. म. ६.००

पाठ्य, श्यामलारायण दे गोस्वामी, रूप

पाठ्य, श्यामलाल प्राचीन भारत में राजशास्त्र प्रणेता हि
समि १०००

भारतीय राजशास्त्र प्रणेता हि समि

पाठ्य, रामलाल १९२६- भारतीय दर्शन की कहानी रा
बैनीप्रसाद ५००

पाठ्य, सच्चिदानंद गुमराह नवयुग प्रथागार २७५ उ
मन्मदार नवयुग प्रथागार ३०० उ

पाठ्य, सत्यनारायण संस्कृत साहित्य का धालोचनात्मक
इतिहास सा भ, मे ८००

पाठ्य, सुधाकर प्रसाद की कविताएं हि प्रचा पु ८००

—तथा प्राय मुद्रा धीर वैक-परिचय हि प्रचा पु १६२

—सपा रसलीन प्रथावली हि प्रचा पु

पाठ्य, हृदयनारायण हृदयेश १९०५- इग्लैंड की संर
हृदय म १५०

करणा हृदय म १५० का

बसव म २ हृदय म १३५० का

पत्रप्रबोध हृदय म २००

प्रेमपत्र हृदय म ०५० खडका

प्रम सदेश स २ हृदय म १६२ का

मधुसूता स २ हृदय म १७५ का

मनोव्यथा हृदय म ०५० खडका

दाखनाद हृदय म ०५० का

दीवालिनी हृदय म ४०० का

सकीर्तन हृदय म ०५० का

सुपमा हृदय म १७५ का

पाठ्य यह भी दे पाठे

पाठ्य कपिल (पाठ्य कविदेव नारायण सिन्हा), १९३०-

सपा मारण्य सयोजक नगेंद्रप्रसाद सिंह सारन
३७५

पाठ्य माया दे केया, कानैल

पाठनी, प्रार एल अयशास्त्र के सिद्धांत मा १-१ राजीव,
मे ४०० से ७५० तक

भारत का धार्मिक विकास सगो स २ राजीव, मे
५५०

भारत की धार्मिक समस्याएँ सगो स २ राजीव, मे
५५०

भारतीय अर्थशास्त्र सगो स २ राजीव मे ५५०

मुद्रा बैंकिंग, विदेशी विनिमय राजीव, म ५५०

मुद्रा बैंकिंग, विदेशी विनिमय, राष्ट्रीय प्राय, अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार तथा राजस्व सगो स २ राजीव, मे ६००

मुद्रा बैंकिंग, विदेशी विनिमय, राष्ट्रीय प्राय, अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार, राजस्व एवं मान्यवीथ माध्य विषय मन्तरण
सगो स ३ राजीव, मे ६००

मुद्रा बैंकिंग, विदेशी विनिमय, राष्ट्रीय प्राय तथा अन्त-
राष्ट्रीय व्यापार सगो स ३ राजीव, म ५००

राजस्व एवं राजगार के सिद्धांत सगो स २ राजीव, मे
३००

राजस्व के सिद्धांत राजीव, मे २५०

लोक अर्थशास्त्र राजीव, मे ७००

लोक वित्त राजीव, मे ६००

पाठक, एस पी तेल धीर उनसे बने पदार्थ हि समि
६५०

पाठक, केदारनाथ अनुभूतयोग स ३ मा २ श्यामसुंदर
१००

घारोग्य लेखाजलि स २ श्यामसुंदर १००

आहार सूत्रावली स २ श्यामसुंदर ०५०

ग्राम्य चिकित्सा स ६ श्यामसुंदर ०६२

टोडका विज्ञान स ६ श्यामसुंदर ०३७

देहातिथो की सदुत्पत्ती स ३ श्यामसुंदर ०७५

नीम के उपयोग स ६ श्यामसुंदर १००

प्रयोग रत्नावली श्यामसुंदर, २००

भोजन विधि (पच्यापच्य) स. २ श्यामसुंदर २००

मधु के उपयोग स ४ श्यामसुंदर १००

सिद्ध मृत्युञ्जय योग स २ श्यामसुंदर १००

पाठक, चंद्रहंस तथा वसंतलाल शर्मा भाषा ज्ञान धीर निवम
रचना चिन्मय १५०

पाठक जितेंद्रनाथ कनेर के फूल धीर बट टट्टर भोला प्र
२०० क

पाठक, दानबहादुर 'वर' रत्नाकर की साहित्य साधना
विनोद ६००

विनय कविका नवयुग प्रथागार ६७५

पाठक, नाथूलाल, १९२५- ऐतरेयब्राह्मण मा एन अध्यायन

रोशनलाल १००० स्रोप

हाथोती कहावतें हाथोती २०००

पाठक, पचपथ दे बखतराम साह

पाठक, बचचन सतिल' शेर से फूल जमशेदपुर भोजपुरी
०८०

स्नेह के धाम्पु जयसिंह १५०

पाठक रघुनाथप्रसाद पाठशाला के हीरे सन्मार्ग १००

पाठक, राजकुमार, १९२६- बहुत ही एक स्वयं प्रीत

प्रयोग सता प्र, प का

पाठक, राधरथ कायचिकित्सा चौगवा

मर्म विज्ञान चौलबा ३५०

पाठक, सर्वानंद चार्वाकदर्शन की शास्त्रीय गमीगा चौगवा
१२५०

पाठक, सुरेशप्रसाद तथा एम डी शर्मा भारतीय गिदा की
तत्कालीन समस्याएँ रसतीगी

पारनेरकर, यगवत महादेव गोपालन के मयध म केंद्रीय गो
परि

पारागर एव कुनयेष्ट नवीन व्यापार प्रणाली २ मा
रामप्रसाद ७००

पारागर, इंदुप्रभा कामायनी म लाक्षीय तत्व हि सा भ
७००

पारागर, चिरजीवन, १९२३- यह पतिपति दि प म
५००

पाराशर, रामकृष्ण बुनियादी शाला अभिलेख समग्र नई १००
 बुनियादी शाला संगठन समग्र नई ० ५०
 बुनियादी शाला संगठन और शिक्षण व्यवस्था समग्र नई १००
 समवायी पाठ रचना समग्र नई ० २५
 पारीक, बुद्धिप्रकाश, १९२२- तिरसा प्रमोद प्र न २७५
 का
 पारोक, मूपसकर जामोजी और उनकी वाणी भा विद्या म १००० ?
 पाय बीच की कड़ी पाथ सा ४०० उ
 पाल एस के दे मुक्ता एल एन
 पाल, केसवराम हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों में अर्थ-परि-
 वर्तन प्राची २०००
 पालीवाल, दिनेश पाप और पीवा प्रगति प्र १०० उ
 पानन दे ऋषितापण्य 'पञ्चन
 पितान, विजानंद आदर्श गाव की कहानी कुमार सज १००
 पिल्लाई, मेक्कोल्ला परमेश्वरन गीतानद अनु पी जी वासु
 देव रा वेनीप्रसाद २०० ना
 पीतांबर, व्या पंचदशी रतन एड क २००
 पुरी, सुदर्शन द भटनागर सुरेश
 पुरुषोत्तमदास रनामी, १९१३ रत्न विज्ञान कि महल १५००
 पुरोहित, भार पी दे शर्मा सूरजप्रसाद
 पुरोहित इन्द्रकुमार 'नवाव' एहसासे दर्द भा प्र मडल २५० का
 पुरोहित जवरनाथ 'भ्रजय' बिगुल वज उठा विन्मय ० ७५
 बप्र, का
 पुरोहित, पुरुषोत्तमदास पुंकरणों के सामाजिक गीत कि
 घर जो १००
 पुरोहित रामचंद्र, सपा दस कदम कल्याणमल, १ ५० क
 पुष्प दे राबिन सा 'पुष्प'.
 पुष्प दे लडा, सत्यनारायण 'पुष्प'
 पुष्पराज समानशास्त्र सरल अध्ययन राक्षहय प्र म ५२५
 पूवोरान, राठोड, १५४९-१९०० फ्रिडन स्कमणी री वेली
 सपा नरोत्तमदास स्वामी स २ धीराम मेहरा ७५०
 पंडे, श्री ना रथकर राजपाल ६०० उ
 पेटलीकर, ईश्वर अतर्जवाला चौरा २५० उ
 पेट, पनंबर विख्यात भाविचारक तथा उनके भाविचार
 अनु दीवान राजपाल २००
 पोद्दार, हनुमानप्रसाद श्रीराधा-भाषव चिंतन गीता ५००
 पौराणिक, कालीचरन मांग दशन प्राच्य विद्या
 प्रकाशनारायण कथक नृत्य स २ कला प्र, इ २५०
 कथकनि नृत्य-नाट्य कला प्र इ १००
 पिटार वादन कला प्र, इ २००

तबला प्रवेशिका कला प्र, इ भा १५०, भा २ २००
 नृत्य प्रश्नोत्तरी कला प्र, इ १००
 प्रवीण प्रश्नोत्तर कला प्र, इ ४००
 मणिपुरी नृत्य कला प्र, इ १००
 वायलिन वादन कला प्र, इ २००
 शास्त्र राग परिचय ४ भा कला प्र, इ भा १. १७५,
 भा २ ००, भा ३ ३००, भा ४ ५००
 हमारे संगीतज्ञ कला प्र, इ ३००
 प्रकाश भारती आशा के दीप भा सा सदन २५० उ
 बहुता सागर भा सा सदन ३२५ उ
 प्रचिडिया, महेंद्रसागर प्रसाद और उनकी कामायनी कमल
 प्र
 सूरदास और उनका अमरगीत कमल प्र
 प्रज्ञानंद कालाम सून महाबोधि ० २५
 प्रज्ञानंद दे अश्वघोष, आचार्य
 प्रताप कुंवर सिंह श्यामल प्र १ २५ खडका
 प्रताप दे वीरभानु सिंह 'प्रताप
 प्रतापचंद्र 'भाजाद', १९१५ १८५७ की वाति और स्ट्रैल
 खड स्वराज्य २००
 आमुष्मो के फल स्वराज्य १०० क
 घर का चिराग सा कला एव स्वराज्य ३०० क
 जमाने की झलक स्वराज्य ३०० क
 जमीन के तारे स्वराज्य ३०० क
 दक्षिण भारत की कला संस्कृति सभ्यता का इतिहास
 स्वराज्य ५००
 प्रतापनारायण, पुरोहित नल नरेण परि स २ सरस सदन
 २००० महाका
 प्रतापसिंह भू रूप विज्ञान एव भू स्वरूप विधान हि प्रभा
 पु १०००
 प्रदीप दे रामचंद्र 'प्रदीप'
 प्रभाकर शास्त्री याज्ञवल्क्य-रम्पति रोगनलाल ४००
 प्रभात १९२५- मोरारवाई हि य र शोध
 प्रभात दे विश्वा, केदारनाथ प्रभात'
 प्रभास दे सीताराम 'प्रभास
 प्रमोद दे गाडरले वाल्टर
 प्रमोदराजा बहु फिर घाई राज्यधी २२५ उ
 प्रयाग संगीत समिति नृत्य प्रदन पत्र कला प्र, इ ० ५०
 प्रभाकर प्रदन पत्र कला प्र इ ० ५०
 संगीत प्रयोग प्रदन पत्र कला प्र, इ ० ७५
 प्रवासी दे भा, दिनेशचंद्र 'प्रवासी'
 प्रजातकुमार वेदालकार, १९३७ वैदिक साहित्य म नारी
 वासुदेव ७००
 प्रसाद दे द्विवेदी, गंगाप्रसाद 'प्रसाद
 प्रसाद, बी एन ठोस ज्यामिती भीतीताल २५०
 प्रागन प्रागन कृत भवरागीत सपा हरिमोहन मातवीय हि
 सा सम्मे का
 प्राणेश दे. मूलचंद्र 'प्राणेश'.

प्राणेश दे शर्मा, गणेशालाल 'प्राणेश'
प्रिन्स ई ई इवाल्ड्स सामाजिक मानव विज्ञान राजकमल
६००

प्रिया राजन मोलश्री के फूल नीलाम ३२५ उ
प्रेम के कृष्णमोहन प्रेम
प्रमचद, १८८० १९३६ कमभूमि (सक्षिप्त) हस २५० उ
मनूषा चयन अमृतसाम हस ५०० क
रगभूमि सरस्व प्र सक्षिप्त ६०० उ
शबेदार हस प्र १५०

प्रेमसागर तथा सविता विध्यावल २५० नि
प्रमानदी, कुमारी तीन मूर्ति सप्रहालय चैतय १५०
प्रेमी के बोहान प्रेमी
प्रेमी द तिलोत्तीनाथ प्रेमी
फणीश्वरनाथ 'रेणु', १९२१- जुलूस भा जानपीठ ३५०
उ

फनेहसिंह १९१४ भाभास और सत हि समि ११००
फाकनर विलियम उक्के राजपाल ५०० उ
फिक लौनवी वारट गिरनारी हिंद पा (पा) १०० न्यय
फील्ड ब्लूम भाषा अनु विश्वनाथप्रसाद मोतीलाल
फील्ड, होडन तथा स्टिन्ट अध्यापका की सिंगा भा माराम
६००

फूलचंद्र दे बच्छावल धीरजमल
फेडरीनफेड किरणें धनु रमेण वर्मा २ भा वूरेगिया
१०० ब्र

फेनिग, सिमानाड एम उद्योग के जन्मदाता गर्ग द २५०
फिा छोटी भार माधुनिक परमाणु भौतिकी भास्कराम
५

फेकेल चान्न विरवविद्यालय विद्या की समस्याए गग ब्र
२५०

फगालीसिंह साहित्य सरोवर हि सा स २५०
बदोपाभ्याय, विभूतिभूषण दूरतर हि प्रवा पु (पा)
१००

बपु द 'बुद्ध, गणेशचन्द्र 'बधु'
बशेनारायणलाल धम्मरद महाबोधि ० ३७ का
बमत प्रमोदकुमार रोटी के टुकड़ नयपुण प्र उ
बक, पल एव, १८९२- जमीन प्राप्तमान हिंद पा (पा)
१०० उ

बलराजम साह बुद्धि विज्ञान तथा पद्यपर पाठक राज
प्राच्यविद्या ३७५

बगी रमेण, १९३९- छटारह मूरज के वीध भा जानपीठ
३०० उ

बुहरी जिनगी हिंद पा (पा) १०० क
रकरन सोवनी हू हि प्रवा पु (पा) १००

बकगी, पद्ममाल पुन्नामाल, १९६४- जिहें नहीं भूलूंगा
मोहचैतना ३५० छस
मरा देग दि पु स ३२५ मेल
मेरे प्रिय निबंध मोहचैतना १००
विज्ञान वार्ता जबानपुर प्र गु ३५० नि, क

बकशी, स्वर्णकुपायी, १९१९- कौशिकों का नाच भा
प्रथमाला ३७५ क

झाली की दिनर पार्टी भा प्रथमाला ५०० क
निर्भर कया भा प्रथमाला ३५० क
मेम साहब का बेरा भा प्रथमाला ३७५ ना
बच्चन दे हरिवंशराय 'बच्चन'
बच्छावल, धीरजमल तथा फूलचंद्र धर का ज्योतिष कि घर,
जो १००

बच्छावल, धीरजमल दे मोदी, श्रीनाथ
बजान, रामकृष्ण तथा पत्र व्यवहार भा ५ सस्ता ५००
रचनात्मक राजनीति सस्ता ५००

बडयबाल पीतावरदत्त योग प्रवाह साकेत ३५०
बडगुरु बाह। बनारस भा भाषा १२५ का
बडोला रामरतन कदम कदम पर फूज बीकानेर टाइम्स
१५० का

बदरीदास हिंदी उपन्यास 'पृष्ठभूमि और परंपरा प्रथम
००००

बद्रीप्रसाद भवन निर्माण कला भाग्योदय ३००
बधोतिथा रामजीलाल सकल जीवन मुरारी ० ९६
बनमाली दे भूषण बनमाली

बनर्जी प्रायोगिक जीव विज्ञान भा भवन भा १.८००,
भा २
बनारसीलाल ध्याय 'खडहरो के देग मे प्रेम पु स २५०
पा

बनारसीसिंह देग है धीर जवानो का स २ राजधानी
५००

बनेडा 'कुसुम द भट्ट, एम ए
बब्बर, मुदरान सब चलता है नवयुग प्र २५० ना
बरनवाल, शशीप्रसाद बरनवाल काव्य-संग्रह एम एल बुक
० ५० का

बरनवाल सुखदेवप्रसाद धीरगाथा स्वतंत्र भारत का
धार्मी ५५०

बरता, पैनीसिंह, १९३७- भारत का धार्मिक विरास, एव
विरचण जैन पु म
बरसा दे कौशिक, श्रुति जैमिनी बरसा
बरो, टी महंत भाषा अनु भोलाशंकरध्यास चौधबा
३०००

बर्, एडमंड बारेन हर्टिगस का मुकदमा धारदा हि २०००
बलवीरसिंह रत्न' हिंदी की छायावादी कविता का कला-
विधान नरानल १२५०

बलरामदत्त लिप्ता स्वास्थ्य सरिता ० ६२
बलवर्तासिंह १९२६- मानचित्र धर्म्यपन की शरत्त विधि
प्रवाग बुक ३७५

बाबी पार हिंद पा (पा) १०० उ
बलसुभद्रा सागीत सिंगर कला प्र ३ २००
बसु मनोर भास्करमहिम सस्ता ५००. कथा
मुरती हिंद पा. (पा) १००

बहादुर दे धर्मराज बहादुर

बहुरुरसाह 'जकर' जपर की मायरी. हिंदू पा. (पा.) १.००
का.

बहुगुणा, सुरेन्द्रत व्यापारिक तथा औद्योगिक संगठन एवं
प्रबंध. सती स. ३ सप्तमीना. १.००

बहुरा, गोपालनारायण दे टॉड, जेम्स
बहोरे, रवीन्द्रनाथ 'भ्रमरात', १९४६- बहूती नविया, जलते
किनारे मजु उ
बाबची, जे ए. प्राचोन भारत की दडनीति. मोतीलाल
१०००

बागीन्दर, विद्यालकार भ्रमिज्ञान शाकुतल-सपूर्ण.

मोतीलाल

बाजपेयी धविक्ताप्रसाद, १८८०- निबंध साहित्य की प्रमुख
समस्याएँ. सा. नि. का.

बाजपेयी, भवधप्रसाद दाराशिकोह नवयुग ध धागार. ८ ००
उ.

बाजपेयी, एल डी. पशु-पालन, चिकित्सा एवं दुग्धोत्पादन
एशियन

बाजपेयी, प्रोमप्रभास स्वर्ण दाला मजु १.५०.उ

बाजपेयी, देवकरण निमोनिया प्रकाश स २. धवतरि
० ३७

बाजपेयी यह भी दे बाजपेयी.

बाबुलकर, मोहनलाल, गढवाली लोक-साहित्य का विवेचना-
त्मक ध्ययन. हि. सा सम्प्रे ८ ००

बाम, राकर गुलाब के फूल श्रार्य बुक २ ५०

बगल मे सुगहली तो नाचे धार्य बुक. १ ५० बप्र.

बारहठ करणीदास, १९२५- कलई का धागा. नवयुग प्र
कु. ८००.उ

भर भर कथा. नवयुग प्र. कु. एवं बारहठ प्र ४.५० का.

क्रिडियो. बारहठ प्र १ ५०.ना.

प्रेम-मत्ता. बारहठ प्र ६.००.उ.

बदवानल बारहठ प्र. १.५०.का.

बालकृष्ण 'मुजतर', १९२३- कुक्षेत्र विद्वधविद्यालय प्र. गू.
एवं नगनल १२ ५० इति

बालचंद मुनि बालचंद बत्तीसी. सपा हरिमोहन मालवोय.
हि. सा. सम्प्रे का.

बाली, सुदर्शन, १९२३- साहित्य और समुद्र. प्रिटन्नाफ्ट
१.००.उ.

स्मरियो का स्वर्ग. प्रिटलेंड ३ ०० ७.

बागुदेव, पी जी दे. पिल्लाई, मेवकोला परमेदवरन.

बागुदेव सिंह. भ्रमप्रभ सा मोर हिंदी मे जैन रहस्यवाद. हि. प्रचा.
५

बाहरी, सीवाराम विचार विहान लोकभारती.

बाहरी, हरदेव आभोग हिंदी बोलिया. कि. महल.

बाद हिंदी, लोकभारती २.००

हिंदी : उदमन, विकास और रूप कि महल. ७.५०

हिंदी का विकास. कि. महल

विदेवरीसिंह, १९२८- सामुदायिक विकास योजना. साधना
म २ २५

बिडला, धनश्यामदास, १८९४- कुछ देखा कुछ सुना. सस्ता.
३.२० सप्रम.

जमनालालजी. सस्ता. १ ५०

बिमलराय मुबहू की इतजार नवयुग प्र. ३.००

बियाणी, ब्रजलाल, १८९५- निविधा. नवयुग सा. स. ३
२ ५०

बिरला, लक्ष्मीनवास सुल्तान और निहालदे नेशनल ५ ००.
उ.

बिशि, प्रथमनाथ कैरो साहब वा मुशी बोरा १२.००.उ

बिष्णुस्वरूप कविसमय-मोपासा काशी हिंदू ८ ००

बिहारी बिहारी प्रधाबली भा १ सपा श्रीनिवास सुक्ल.
विध्याचल

बीरेंद्रकुमार सिंह, १९३७- भारतीय शिक्षा : धाधुनिक
काल साधना म ५ ००

बुइलर भारतीय पुरालिपि-शास्त्र अनु मगलनाथ सिंह
मोतीलाल

बुद्धिवत तथा बुद्धिवत ठोस ज्यामिति रामप्रसाद १.५०

बृजमोहन टूटली पगडडिया. धजना. ३.०० उ

बेभ्रास दे व्यास, कृष्णानंद 'बेभ्रास'

बेकल दे. ताराचंदपाल 'बेकल'.

बेचन धामुनिक हिंदी कथा-साहित्य और चरित्र विकास.

सन्मार्ग १६ ००.सोध

चीन के मोर्चे पर सन्मार्ग ३ ००

बेचनप्रसाद सिंह. धाधु गित्प. कि. महल

बेचरदास जीवरज पाइभ-बच्छीनाम माला. मोतीलाल
१ ० ००

बेचन दे न्यादरसिंह 'बेचन'.

बदी, राजेंद्रसिंह अपने दुल मुके दे दो. नीलाम. ५.०० क.

बदी लडकी हिंदू पा. (पा) १ ०० क

बेदी, रामेश. खैर. धारमाराम १.२५

बेनीपुरी. दे रामवृष बेनीपुरी

बेला, आचार्यश्री भेलसहिता संपा गिरिजादयाल मुक्ल.
चौखंबा १ ० ००

बेसुध, बसियादिक गुलछरें हि. परि, ब १ ००.ना

बेचनाथ सिंह, १९२०- गद्य-मुक्ताहार. अशोक प्र मं १.५०

—तथा जनार्दन राय गद्यायन. अशोक प्र. म १ ७५

बेजल, बालकृष्णदास हम और समाज. भा. २. रामप्रसाद.
१.०८

हमारी पृथ्वी रामप्रसाद ३ २५

बेजल, श्यामनारायण, १९१३- बाली देवे चित्र पावंती.
२.५० उ

एक तो एक दद मजु. ३ ५० उ.

कुधनी. पावंती ३.५० क.

दियाभो का पहला भाग्य पावंती ३ ००. का

दुलहिन की वाठ. पावंती. २ ५० व.

बैरठी, बी सी. दे गौड. जे एन.

बोडा, रामचंद. अमर राहीद सागरमल गोपा. लोनायत
१ ० ००

चार्वक ध्वनि एक मानवीय धरोहर नवयुग प्र कु ३५०
 बोस, दीनेशकुमार तथा रामबालकसिंह भारतीय भ्रमशास्त्र
 भा भवन भा १ ६७५, भा २ ६५०
 बोहरा, मगलदत्त सायी' माग का सिद्धर कि धर, जो ३००
 क
 बोस, चेस्टर, १९०१- एक उदारवादी स्वर आत्माराम
 ५००
 ब्रजशिवर नारायण १९१८ खड्गलहवास पारिजात
 ३०० जी
 ब्रजनदन प्रीत का पुरस्कार कमल प्र १०० उ
 ब्रजनदनप्रसाद प्रयोरी काव्यारमक शिब्व ज्ञानालोक
 १०००
 ब्रजनारायणसिंह कविवर पद्माकर और उनका युग
 धनुसगण १०००
 ब्रजभूषण १९३३ अनाज के दाने कृष्णा ब्र ३०० ए
 इडु कृष्णा ब्र ३०० ए
 यदावत कृष्णा ब्र ४५० उ
 ब्रजभूषण आदर्श, महाकीर्ति के तर्ण पारिजात प्र सा
 ३००
 ब्रजमोहन १९०८ गणित का इतिहास हि समि ९५०
 मोहन की दश्री चौखबा ०७५ का
 ब्रजबासीनात काव्योलोक रधीप्र, रवा २००
 ब्रजेस दे रामसिंह ब्रजेस'
 ब्रह्मचारी जगन्नाथ 'पथिक' सध्या योग और ब्रह्म-साक्षात्कार
 एस डी दामो २०००
 ब्रह्मदत्त निशामु भट्टाप्पायी भाष्य भा प्राच्य भा १
 १२००, भा २ १०००
 ब्रमुमफील्ड, एम भ्रमवेदेद एव गोपय ग्राहण धनु सूर्यवात
 चौखबा २५००
 भट्टारी, ए सी दे विमलेद
 भट्टारी, गणपतिचंद्र रत्नदीप कि धर, जो ३५० का
 राजस्थानी एकाकी राज सा अरत
 —सपा राजस्थानी एकाकी राज सा अरत ५७५
 भट्टारी, चंद्रराज सपा, १९०२- विरव इतिहास बोस भा
 ३ ज्ञान मंदिर
 भट्टारी, प्रेम भगवान श्रीकृष्ण लीनामृत श्रमजीवी ३५०
 का
 भट्टारी, मधु भ्रमशास्त्र के सिद्धांत सं. २ राजीव, मे ८००
 भाषिण नियोजन राजीव मे
 भट्टारी, मन्नु बिना दीवारी के घर अरत ३०० ना
 मसाली, मूरजराज पचायती राज का वित्त विधान मगल उदय,
 १०००
 भगवत विश्वर सरल हिंदी नेशनल भा १ ०६५, भा २
 ०६०
 भगवतदास बैकवर्ष एड आईटिटर देहाती ८२५
 रिगचे धाक टापट पाप देहाती १५००
 भगवदत्त, १-९३- निर्दल भाष्य भा प्राच्य १०००
 भाषा का इतिहास स ३ इतिहास प्र म ८००

भगवानदास पुरुषार्थ सती स ३ चौखबा
 विविधार्थ चौखबा ६००
 भगवानदास 'निर्मोही' चाद उतर धरती पर भाओ. भारतेंदु
 भवन ४५० गीत
 भगवानदीन, महात्मा अपनी पहचान पूर्वोदय नि
 भगवानदीन, चाता, सपा प्रिय प्रकाश (नेशवदास) कल्याण-
 दास
 भगवानदेव, आचार्य बलिदान हरयाणा १२००
 ब्रह्मचर्य के साधन भा १-१० हरयाणा ३४५
 वीर भूमि हरयाणा हरयाणा ४००
 वीर हेमू हरयाणा ०७५ जी
 घोरसाह सूरि हरयाणा ०७५
 हरयाणा का इतिहास हरयाणा १६००
 भगवानप्रसाद शिक्षा का महत्त्व सस्ता ३००
 शिक्षा का विकास सस्ता ३००
 भगवान बकासिंह मानवीय ज्ञान के सिद्धांत हि समि ८५०
 भगवानसिंह काले उजले टोले हि प्रवा पु (पा) १००
 रत्नगर्भो भारतभूमि राजपान १५०
 भटनागर, उदयसिंह, सपा, १९१७- राजस्थान मे हिंदी के
 हस्तलिखित प्रयो की खोज भा ३ सा सस्थान, राज
 ४०० (भात्रा)
 भटनागर, कणादचन्द्रि अरु नेशनल ३०० ना
 भटनागर, बाकेबिहारी शांति के पुजारी, मुद्र के विजेता
 दाकुन ६०० जी
 —सपा उदयशकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार
 आत्माराम ७५०
 जैनेंद्र व्यक्ति, कपाकार और चितक नेशनल ५००
 बच्चन, व्यक्ति और कवि नेशनल ४००
 शेवडे व्यक्तित्व, विचार और कृति आत्माराम
 भटनागर, महेंद्र, १९२९- गद्य भारती कल्याणमल
 १५०
 चमनिक कल्याणमल का
 विरुत रेखाए, घुघले चित्र कृष्णा ब्र ३०० क
 भटनागर, रामेंद्रमोहन बाणभट्ट की घातककथा एक अध्ययन
 विनोद ३५०
 भटनागर, रामरतन गूर साहित्य की भूमिका सथी स २
 रा बनीमाधव ५००
 भटनागर, सुरेश तथा सुदर्शन पुरी सामान्य मनोविज्ञान राजीव,
 मे ५५०
 भट्ट, उदयशकर, १८९७ धूमशिक्षा आरमाराम २५० ए
 मुझ म जो शेष है आत्माराम २१० का
 सागर, लहरें और मनुष्य आत्माराम ५०० उ
 भट्ट, एम ए तथा अनेका 'हुमुम'. असामान्य मनोविज्ञान
 सटमी का ५००
 भट्ट, कृष्णदत्त इमानदार बालक बाल हितैपी. ०७५
 उठी घागे बड़ो बाल हितैपी १००
 शरीरकारी बालक बाल हितैपी ०७५
 सद्गुणी बालक बाल हितैपी ०७५

मट्ट, गौरीशंकर भारत में समाजशास्त्र, प्रजाति और संस्कृति सा सदन, दे १५ ००
 भारतीय संस्कृति एक समाजशास्त्रीय समीक्षा सा सदन, दे १७ ५०
 मट्ट चन्द्रसेर हड़ोती लोकगीत कृष्णा व २० ००
 मट्ट जगमोहनराव दे प्रोक पु ना
 मट्ट लक्ष्मणराव मुलावराय 'भावरग' भावरग लहरी मोतीलाल
 मट्ट, सोमनाथ 'भारत' हिंदी साहित्य का इतिहास दिग्दर्शन ध्यान १२ ५०
 मट्ट, हरिवंश शैलेश एवरेस्ट अभिनय नवभारती २ २५, लोक स १ २५
 मट्टाचार्य, कृष्णचंद्र कहानी अस्पताल मार्ग दर्शक ४ ५०
 विचार किशोरियों की सदाचारी शिक्षा मार्ग दर्शक १ ००
 धून की परंपरा मार्ग दर्शक १ २५ उ
 छायालोक की रहस्य नगरी मार्ग दर्शक १ ००
 प नेहरू के उत्तराधिकारियों का रहस्य मार्ग दर्शक १ २५
 भारतीय तत्व दर्शन मार्ग दर्शक ३ ००
 मास्को की रहस्यमयी युवती मार्ग दर्शक ३ २५
 विज्ञान में ब्रह्म दर्शन मार्ग दर्शक २ ५०
 स्वतंत्र भारत की सदाचार संहिता मार्ग दर्शक ४ ००
 मट्टाचार्य, पी सी तथा अन्य रूपरेखा का अवमूल्यन और लक्ष्य प्रभाव नवभारती ८ ००
 मट्टाचार्य, बेवारानी अभिनेत्री की स्वयंवर सभा मार्ग दर्शक १ २५ उ
 भारतीय स्त्री शिक्षा मार्ग दर्शक १ ००
 मट्टाचार्य, रामदास, १९२६- पातजल योगसूत्र-भोजवृत्ति मोतीलाल २ ००
 पातजल योग—सूनव्यास वाचस्पति मोतीलाल १ ० ००
 पाणिनीय व्याकरण का अनुशीलन इडोनाजिवव १२ ००
 पुराणगत वेद विषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन हि सा सम्म
 मट्टाचार्य, वीरेंद्र शतघ्नी नेशनल ५ ०० उ
 मट्टाचार्य, सुखम महाभारतकालीन समाज धनु पुष्पा जैन लोकभारती २५ ००
 महाभारत हृदय तथागत गर्भसूत्र महाबोधि ० ३७
 भशनी, हरीश एक उजली नजर की सुई वातायन ५ ०० का
 गुलमते पिंड वातायन ६ ०० का
 मद्रमेन, भाषा में सत्यमेव जयते राजधानी १ ७५ वप्र
 मनोद, रामानंद सताईस कविताएं आत्मभारम १ ५० का
 मनोद, सरलशम, सपा अक्षरराम यथावती नेशनल ८ ००
 मनरा दे अजीतसिंह 'भयरा'
 मरदान, लक्ष्मणप्रसाद दे तुलसीदास
 मरानोदास एकीकरणल गाइड देहाती १५ ००
 पला की वास्त देहाती ८ २५
 मवानकर, यममाला, १९१४- महाभारत की गीरी, अभिनय २ ० ००

मानवी, चंद्रप्रकाश तथा दयाप्रकाश रस्तोगी आधुनिक राजनीतिक विचारधारायें स. २ राजहंस प्र म ३ ०० से ५ ५०
 भारत का राष्ट्रीय आंदोलन राजहंस प्र म ४ ००
 भारतीय संविधान तथा राष्ट्रीय आंदोलन राजहंस प्र म ७ ५०
 भाईजी मातु दर्शन श्री श्री मानवमयी २ ५०
 सद्वाणी श्री श्री मानवमयी १ ००
 भाटिया, भोमप्रकाश 'अचल राजपूत' अज्ञात चिंता अनिल प्र म २ ५० उ
 सिंजित की खोज अनिल प्र म ० ५० का
 बढते बरण अनिल प्र म २ ०० उ
 हसते रोते श्रापु अनिल प्र म २ ०० का
 भाटिया, पी धार अंतर्राष्ट्रीय संबध स २ राजीव मे १९१९ से आधुनिक समय तक ७ ००, १९३९ से आधुनिक समय तक ३ ५०, १९७१ से आधुनिक समय तक ८ ५०
 आधुनिक भारत का इतिहास (१७७७ से १९५० तक) पार स २ राजीव, मे ६ ००
 राजनीतिक निबन्ध राजहंस प्र म
 लोक प्रशासन सरल अध्ययन राजहंस प्र म
 भाटी, देशराजसिंह चिंतामणी विवेक भा २ अशोक प्र २ ५०
 जयसरी अशोक प्र ३ ००
 निराला और राम की शक्तिपूजा अशोक प्र २ ००
 बिहारी की काव्य सभ्यता अशोक प्र २ ५०
 भुद्राराजस अशोक प्र ३ ००
 भूतनयनी समीक्षा अशोक प्र २ ५०
 रसज्ञान प्रथावली अशोक प्र ५ ००
 हावी के काव्य सिद्धांत कला प्र, दि
 भाटी, नारायणसिंह प्रोल् कलावतर २ ००
 भादानी, हरीश, १९३५- एक उजली नजर की सुई वातायन ५ ०० का
 मुलमते पिंड वातायन का
 —तथा पुनम दर्शना गीतायन सूर्य प्र म ३ ००
 भातावत, नरेंद्र, १९३५- राजस्थानी वेति साहित्य राज सा प्रका २१ ००
 राजस्थानी साहित्य कुंज प्रवृत्तिया नेशनल ६ ००
 भातावत, नरेंद्रकुमार दे श्रीश्रिप, कृष्णचंद्र मातुविजय, गणिवर जैन धर्म का सरल परिचय मोतीलाल २ ००
 भारत सूचना और प्रसारण मन्त्रालय प्रकाशन विभाग ज्योति जले प्र विभाग
 भारत का संविधान परि स ३ प्र विभाग
 मणिमाला प्र विभाग वप्र
 संपूर्ण गांधी वाङ्मय भा १ १८८५ १८९६, भा ७ १८९६-१८९७ भा ३ १८९६ १९०३, भा ४ १९०३-१९०४, भा ५ १९०५-१९०६,

भा ६ १९०६ १९०७ भा ७ जून
दिसंबर १९०७ भा ८ जनवरी अगस्त १९०८ भा ९
सितंबर १९०८ नवंबर १९०९ भा ११ अगस्त १९११
माच १९१३, भा १२ अगस्त १९१३ दिसंबर १९१४
भा १३ जनवरी १९१५-अक्तूबर १ १७ प्र विभाग
भारतीनदन के तिकारी रामानंद भारतीनदन
भारतीय के गौरीगकर भारतीय
भारतीय के जितेंद्र भारतीय
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा सच कानून धीर कामगार भा प्रौढ़
० ३५
कायकर्ता सेमीनार की रिपोर्ट भा प्रौढ़ १००
लोक नाटक भा प्रौढ़ ३००
सामूहिक सौदागिरी भा प्रौढ़ ० ३५
भारतदु हरिश्चंद्र १८५० १८८५ प्रमथापुरी धीर १७८
कविताए सपा भूषण स्वामी हि सा स
भारतदुदगा सपा भूषण स्वामी हि सा स
सय हरिश्चंद्र नाटक सपा लक्ष्मीगकर व्यास चौखवा
० ६५
भारद्वाज दिनेशचंद्र भारतीय शिक्षा की धार्मिक समस्याए
(प्रश्नोत्तर) विनोद ४००
सरल गिनण विधिमा विनोद १००
भारद्वाज रामदत्त रत्नावली धीर उनका काव्य गगा
भारद्वाज विद्याभूषण आचार्य चतुरसेन गार्गी के उपायासो
मे इतिहास का चित्रण प्र प्रातिष्ठान गोष
भारद्वाज गतिज्ञान राकेग ध्याधुनिक राजस्थानी साहित्य
चित्रगुप्त प्र ५००
प्रतिनिधि कहानिया चित्रगुप्त प्र ३००
सूर्यास्त चित्रगुप्त प्र ५०० उ
भास्कर नान निधिया पुकारे चित्रगुप्त प्र ४०० उ
भागवत बाभेवरसहाय दनिव जीवन म जीव विज्ञान हि
समि ३५०
भागवत पी एन तथा के एन उपाध्याय माध्यमिक वृत्ति
रसायन नद व ७००
भागवत भागीरथ तथा धय कविता ११ २००
कविता ६३ २५० कविता ६४ ३०० कविता
भागवत मोनोलाभा भासो की रानी भा प्र मंदिर उ
हसो की तीन वाताय हि समि ४००
भागवत गोपालनाथ दे गर्मा हरिश्चंद्र
—तथा विरभीलास जैन उचरत वहीमाता कल्याणमल
५५०
भास्कर भावप्रकाशनिष्ठ सपा गगनहाय पांडव चौगडा
६००
भास्कर दे भट्ट बनवनराय गुलावराय भास्कर
भास्कर विनोद १८६५ कुछ सामयिक प्रश्न घ भा मव
धामदान प्रश्नोत्तरी घ भा सव
बोरतो कहानिया घ भा मव १५० वन
विनोद व विचार भा ३ सगता ०००
भास्कर दे वैद्य सुनसीराम भास्कर

भिक्षु दे गर्मा कृष्णचंद्र भिक्षु
भिक्षारीदास १७३४ १७५० नाथ्यनिगय सपा जवाहर
लाल चतुर्वेदी सपा स २ कल्याणदास वा
भोमसेन पदाय की रचना राजकमल ० ६०
भील फूलजी भाई सपा राजस्थानी भीलो की वहावतें सा
सत्यान राज २५०
राजस्थानी भीलो के लोकगीत भा १ सा सत्यान राज
२५०
भूपद्रकुमार सनातन भजनमाला देहाती २५०
भूषण बनमालो में धीर तुम नई सदी प्र ५०० का
भूषण स्वामी दे भारतेंदु हरिश्चंद्र
भोले बाबा दे कौशल्य शंकरलाल (भोन बाबा)
अमर दे रवींद्र अमर
अमर दे रामकुमार अमर
अमर दे रामयतनसिंह अमर
मंगलदास स्वामी श्रीमहाराज हरिदासजी की वाणी रोगन
लाल २०००
मंगलनाथ सिंह दे बुद्धर
मंगलप्रति बालदुसहर द सहाय गिवपूजन
मजुला गुदडी का लाल लालबहादुर उमेरा २५० वप्र
मसाराण मुनानी तिन्बका फाम कोषिया मोतीलाल ५००
मजुमदार ए धार स्कूल बीजगणित भा भवन ५००
—तथा पी ए गगुली समतल त्रिकोणमिति भा भवन
५००
मजुमदार धीर सी तथा ए एस अटलेकर वावाटक गुप्त
युग मोतीलाल
मजुमदार पी के यूगेव का ध्याधुनिक इतिहास क्रि महल
७५०
मटहलाल सपूण भाल्ला लड ५२ लडाई देहाती १२००
मठियानी धीरेण १९३१ ईस्वर की मिठाई धारमाराण
१०० वप्र
कोई धनवनी नहीं कि महल २५० उ
दो बुलो वा एक मुम कि महल क
दो बूद जल कि महल २५० उ
माय हुए लोग कि महल ४०० उ
बसुधरा हिंद वा (पा) १००
सात समंदर कि महल उ
मणि क एस भवितीण गुप्त धीर वल्लातोले का
सुखनारमण प्रथम्यन नेगल १०००
मयाद रत्नसिंह ठोम गगामिति जबलपुर प्र गु १२५
नवीन गतिविज्ञान जनवरपुर प्र गु २००
नवीन स्थितिज्ञान जबलपुर प्र गु २००
मधुरासानी माडन एंडाइटो देहाती ५५०
मदन धावाय बनल-कूट धीगुप्ता १७५ क
खजवा टापी धीगुप्ता ० ३० वा
दीप गिस्ता धीगुप्ता २०० ना
प्रम पनावनी धीगुप्ता १५० वा
हम जीने दो धीगुप्ता १५० ना

मदनगोपाल कतम वा मजदूर प्रेमचंद राजकमल ११००
मदान, इन्द्रनाथ, १९१०- आलोचना और साहित्य नोलाभ
५५०

निचम और निचम नेदानल १५००

प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां हिंदू पा (पा) १००

—सपा कहानी और कहानी रामचंद ७५०

कुछ कहानियां ज्ञान भारती दि ४००

तुलसीदास चितन और कला स २ राजपात्र
६००

नव भारती पञ्जाब यू का

महादेवी चितन व नला राधाकृष्ण ५५०

मदारीया, मदनमोहन मिस्रज लाल हि प्रचा पु (पा)
१००

मदारीया, मनमोहन चक्के की कहानी नेदानल १००

मधुकर दे केहरोसिंह 'मधुकर

मधुकर गनाधर यही सब है राजकमल ३०० उ

मधुकर सिंह दे विजयमोहन सिंह

मधुप दे दयामनाल 'मधुप'

मधुर द गिवचरण मधुर

मधुर द हरीश 'मधुर

मधुर भाषिणी भटके राही प्रभात प्र २५०

मधुराय भानक भजना ३००

मधोक, बलराज, १९२०- जीत या हार भा सा सदन
४२५

भारत और सप्ताह भा सा सदन ५००

मनसाराज, कवि रघुनाथ रूपक कि घर, जो १५० का

मनोज दे प्रवाल, रामकिशोर 'मनोज'

मनोहर प्रभाकर भाष वीती कल्याणमल ३५० सत्य

काभोर हमार है कल्याणमल २५० का

—सपा राजस्थानी साहित्य और संस्कृति भाषा पब्लि
५००

मनोहर प्रभाकर दे कासिदास

मनोहर प्रभाकर दे रामेय राघव

मयक दे चंद्रपालसिंह 'मयक'

मलिक, विजय कृषि प्रायोगिक रसायन सिफल

मलिक मोहम्मद आसवार भक्ता का तमिन प्रवधम् और हिंदी
कृष्ण वाच्य विनोद २०००

मलैया के सी तुलनात्मक शिक्षा लोकभारती ७००

मलैया, विद्यावती बुनियादी शिक्षा मनोविज्ञान जबलपुर प्र
५ २५५

—तथा अन्य गृह-व्यवस्था एवं विज्ञान दि पु स ६५०

मलिक, जगदीशानारायण धामनन लक्ष्मण भा भवन
५५०

निगमन लक्ष्मण भा भवन ७५०

हिंदू नीतिशास्त्र भा भवन ३००

मस्त दे चतुर्वेदी, देवीदत्त 'मस्त'

मस्तनाथ मस्तनाथ चरित्र देहाती ४००

महात्मा, पी एम वैद्यकीय मुभाषितावलि चौखटा २००

महात्मा, बनिराम 'हरिचौरा' दो चित्र एम एल बुक १००

महात्मा, बालेराम भविष्यवाणी नवयुग प्रयागर २०० क

महात्मा, श्रीकान्ह मरु मयक कि घर, जो २०० का

महाजन कृष्णा दे महाजन पञ्जाब

महाजन यशपाल तथा कृष्णा महाजन, सपा बृहद् हिंदी ग्रन्थ-

सूची भा प्र नि ३६००

महापात्र दिलीपकुमार धमपद का कोणाक निर्माण लोक-
चेतना १५०

महावीर भीमासक, रामप्रसाद विविधल हरवाणा ० ७५

महाव्यवहार, भदत जी शासन बुद्ध की देन महाबोधि २००

मुद्ध बचनान्त महाबोधि १२५

महाव्यवहार, भदत बोधानंद पचशील और बुद्ध बदना महा-
बोधि ० १३

भगवान गौतमबुद्ध महाबोधि १५०

महोपासक, १९३०- उजाले के उल्लू तथा अन्य कहानियां

हि भवन ३००

गुरु गोविंदसिंह उमेश ४०० जो

महेंद्र, रामचरण, १९१६- प्रतिनिधि एकाकीकार सा सदन,
दे ६५०

संस्कृति की धरोहर अरविंद प्र मृ २२५ ए

हिंदी एकाकी सरस्व पु स ४५०

—सपा राजस्थान के गद्य साव्यकार राज सा प्रका ६००

राजस्थान के नाटककार राज सा प्रका ५७५ ए

—तथा यादवेंद्र शर्मा 'चंद्र', सपा राजस्थान के कहानीकार,
हिंदी राज सा प्रका ६००

महेंद्रनाथ सूर्य रेत और गुनाह एमके ३०० उ

महेंद्रप्रताप, १९३१- ध्वात मानव प्र-५०० का

स्फुलिय मानव प्र ४०० का

महेंद्रप्रसाद सिंह लोभ प्रभासन भा भवन १०००

महेचा, मांगीलाल राजस्थान के राजपूत कि घर, जो ४००

महेचा दे माहेस्वरी सिंह 'महेचा'

महेचाचंद मूल्य और पूजी हि सनि ६००

—तथा रामनारायण लोहरकर भारत में सहकारिता आंदोलन
रा वेनीप्रसाद २००

महेचाचंद्र दंद सो गया हि प्र २ ३५० उ

महेस्वरी, एच पी भाषिक विचारधाराभा का इतिहास

सरल मध्ययन राजहस प्र म ६२५

लोक अर्थशास्त्र सरल मध्ययन राजहस प्र म ७५०

लोकवित सरल मध्ययन राजहस प्र म ६२५

महेसादास राव विद्देयसो राज प्राच्यविद्या का
माचवे, प्रभाकर, १९१७- एक तारा हि प्रचा पु (पा)
१००

एशिया का साहित्य कृष्णा व.

माजीवाल, दे व, १९२६- द्विविदु वर्गीकरण आत्माराम
१०००

माधुर, एम एस सरल शिक्षा मनोविज्ञान विनाद
४००

माधुर, कवर बहादुर कवर एकादशी अमृत २००, क

माधुर रिजिजाकुमार १९१६ नयी कविता सीमाए धोर
समावनाए अधोर ६००
माधुर जगमोहनलाल प्रमोका के राष्ट्रीय नेता नवभारती
२५० लोक स २००
माधुर बहुठनाथ समाजशास्त्रीय निबंध गमा बुक ४५०
माधुर एन पी विन्व सम्भता का इतिहास विन्नगुप्त प्र
५७५
माधुर विन्वताथ सहाय गिथा की समस्याए इ पलि
माधुर मुर प्रमाद धोर ध्रुवस्वामिनी हरिनाम कला २५०
—नया कवि तोप धोर सुधानिधि ना प्र समा
माधुर ह्रस्वहृण भारतीय साधना धोर सत तुलसी सा
ति का २०००
माधव दे कृष्णनारायणप्रसाद माधव
माधव दे मित्र भुवनेश्वरताथ माधव
माधव धान्याय प्रायुवद प्रकाश चौलवा १२५०
माधवन धान्यकार १९१५ खजूर के पत्त धमरावति
५०० नि
चित्रगाला धमरावति ७०० का
दाशराधना धमरावति ७००
प्रथम याम धमरावति ६००
प्रसन्न वेदना धमरावति १५०० उ
प्रमून पय धमरावति ४०० क
वर्षा धमरावति ८००
मानकचंद्र रामपरिया १९३४ उन्वोधन चित्रापार २५०
या
मानपा के बी धमराई का साह नेगल २५० क
चित्रकूट नेगल ३००
माम समरसेट सषय धनु रामचंद्र तिवारी राजपाल ६००
उ
मामोरिया चतुभज भारत वा धार्मिक भूगोल गयाप्रसाद
१०० ५०
मामोरिया मी बी कौप्रारंगन बन्धुनिनी डबनेपेए एड
विनन पचापन इन इडिया कि महल ६००
पारक्षम जैसा इन्नु धमरीनी प्रव-पवस्था धामरायम
७५०
मारिस एन्ता हिरोगिमा के फून धनु मोहन राकेरा राज
कमल ३५० उ
मारुडव सहृद धोर गुम धारा एव नया सा प्र ४०० उ
मानिका मिस्टर सत बनड प्रमात बुक १२५ जी
माइन स्वर १८५० १९२४ धपना लष केते धगा ?
मुबोध पा (पा) १००
पाने धारनी पहुवानिये मुबोध पा (पा) १००
पवधर की पहुवानो मुबोध पा (पा) १००
पाप क्या नहीं कर सकते ? मुबोध पा (पा) १००
उगे ज्ञानो धगोस पा (पा) १००
विना मुषन कमे हा ? मुबोध पा (पा) १००
जो पाह सो कमे पाय ? मुबोध पा (पा) १००
हयउ हसन कके त्रिये ? मुबोध पा (पा) १००

मालवगिया दलसुखभाई धायम युग वा जैन दान समति
५००
मालविका विद्यावती प्रादश बोद्ध महिलायें महावोधि
४५० जी
कामना महावोधि ०३७ का
नारी हृदय महावोधि १५०
पूणिमा महावोधि ०६७ वा
बुद्ध चरितावली महावोधि ०७५
भगवान बुद्ध हि प्रना पु ३५० जी
हिंदी नाहिय पर बोद्ध धम का प्रभाव हि प्रना पु २०००
मालवोय मदनभाहन १८६१ १९५६ महामना थी पडित
मन्मोहनजी मालवोय के लख धोर प्रापण सक्लन धामु
नेवारण भा १ प्रखिल भा जगती समारोह समिति
काशी हिंदू विश्वविद्यालय धारागली
मालवीय लक्ष्मीधर धायरा विमय ५००
मालवीय हरिमोहन भवर गीत हि सा सम्मे
मालवीय हरिमोहन प्र प्रागन
मालवीय हरिमोहन द बालचंद्र मनि
मालवीय हरिमोहन द लोरुमणि मिप
मामूम राजा राही अजरह सो सत्तावन धामरायम ६००
वा
छोटे धाममी की बडी कहानी राजकमल जी
साहेब्वरी इारिकाप्रसात् १९१६ गिथा मे बन्धुयोग पु
स वा २५०
गून की सज रा वेनीमाधव ३५० वा
माह्वरी धीराम दे धवस्थी धमरेधर
माह्वरी सिंह महण बीत्र धोर धणु महण प्र २२५
मिदारोविच चिगेमिर पहना प्यार राजकमल २२५ क
मिधर जेरेल्ड एम अठरोट्टीय ध्यापार धोर धार्मिक विकास
धा माराम ५५०
मिन्ट हरिकृष्ण तया धय सपा हिगावल के लोक गीत
निर्गण लोक मन्गन विभाग हिम चल प्रदेग गिमला ४
३००
मित्तन एम मी धवगात्स के सिदांत मरल धप्यन राज
हय प्र म ७५०
धार्मिक विचार का इतिहास नवयुग मा स धा ८००
एडवाल्ड इकानामिन ध्योरी थी धमोडा
एडवाल्ड मॉनीनी इकानामिनन कलाग पु स
दृधि धवगात्स धोरियल्ल पलि
धामीध एव म्मुनिलल धवगात्स धोरियल्ल पलि
भारत का धार्मिक विधान धोरियल्ल पलि १२५०
भारत म धार्मिक निरोधन एव राष्ट्रीय धाय प्रसाद प्र म
२५०
भारतीय धवगात्स धोरियल्ल पलि
मुद्रा की रूप रेखा मरल धप्यन राजहय प्र म ६३५
चित धवगात्स मरल धप्यन राजहय प्र म ६३५
मित्तन एम मी धीशन गिरध्यानिह
मित्तन जगन्नाथदः माध्यामिक एगिया रा वेनीप्रसाद ५००

मिस्र, जे के दे मिस्रत, सी के
 मिस्रत, नेमिस्रण अतर्राष्ट्रीय सवध राजहस प्र म ७५०
 नापरिक भाष्ण के मूल सिद्धांत सदी स ६ राजहस प्र
 म ४००
 प्रमुख राजनीतिक विचारक राजहस प्र म ५०० से ७५०
 भारतीय लोकजोवन धोर शासन व्यवस्था सदी स ६
 राजहस प्र म ५००
 राजनीतिक विचारो का इतिहास सरल अध्ययन भा १
 राजहस प्र म
 मिस्र, महेंद्र गुगलपूर भा सा म ५०० उ
 मिस्रत, सतीशचंद्र दे स्यागी, महाधीरसिंह
 मिस्रत सी के तथा जे के मिस्रत प्रमुख राजनीतिक
 विचारक सरल अध्ययन राजहस प्र म ३०० स ४५०
 मिस्रत, सुरेंद्र समाज धोर राज्य भारतीय विचार हिंदु
 एकेडेमी
 मित्र दे रघुवीरधारण 'मित्र
 मित्र अजय शास्त्री द मित्रासो, वायुदेव विष्णु
 मित्र, अमित दे मित्र, राम
 मित्र, नरेंद्रनाथ महानगर धनु गुगलवसिंह कपानी प्र जना
 ३०० उ
 मित्र विमल, १९१२- धरीदी चौडियो के मोल २ स
 घात्नारास ४२५० उ
 मित्र, धनु तथा अमित मित्र वाचन रा नेमानत ३००
 मित्रा, उपादेवी मोहिनी नेमानत ४०० उ
 मित्रा, रवीन्द्रनाथ भारत का राष्ट्रीय आशयन तथा मावै
 धानिक विकास लोकाभारती १२००
 मित्रागी, वायुदेव विष्णु १०६३ काकटव राजवंश का
 इतिहास तथा ममिलय धनु अजय मित्र शास्त्री तारा
 मिस्रि दे जगन्नाथप्रसाद मिस्रि
 मिश्र साहित्याचार्य विद्वान् अंगीक प्र ०५०
 सिद्धांत वीमुदी स शाय्या माननीमान
 मिश्र, प्रवर्षविहारी भारत म मुद्रा धोर वैदिक का विकास
 हि सप्त ४००
 मिश्र मानद, १९३४ भाषा की रानी जवलपुर प्र म
 ४०० छड्डक
 मिश्रदर्शी कंचन पु स का
 मिश्र, उग्रनारायण, १९०७ तथा अय सथा सनुवध
 भा १ ज्ञानोदय ५०० का
 मिश्र, उषेंद्र, सथा वादवरी कथामुसम रा वी प्रपाद
 ४००
 मिश्र, उमेश प्रपनिवासी काव्य प्रथम १००
 भारतीय दशन सदी स ० हि सप्त
 मिश्र, एम एल द राठी, एन एस
 मिश्र कृष्णविहारी तथा अजयमिहारी मिश्र सथा पतिगम
 प्र पावती ना प्र सभा ८००
 मिश्र केशवनाथ 'प्रसात', १९०७- समुद्रत राष्ट्र वि
 पतिन १५० का
 मिश्र केशवप्रसाद कौह्वर की दाईं राजवदन ५०० उ.

मिश्र, गंगाधर भारतीय काव्य मे छायावाद पु स, वा
 २५० धा
 मिश्र, गंगाप्रसाद, १९१७ तस्वीरें और तामे सा भवन,
 इ उ
 मिश्र चंद्रशेखर, १९२९- कृष्णसिंह स्वाति प्र १०००
 महाका
 देता के सच्चे सपूत भा १-३ हि प्रभा पु भा १ १००,
 भा २ ११६, भा ३ १२५ वप्र
 मिश्र, जगदीशविहारी अग्नेयी साहित्य का इतिहास हि
 सप्त ३००
 मिश्र, जगन्नाथप्रसाद श्रुति का देवता कृष्णसिंह सन्मार्ग
 १२० वप्र
 श्रुति का देवता चंद्रशेखर झाजाद सन्मार्ग १५० वप्र
 श्रुति का देवता सरदार भगतसिंह सन्मार्ग १५० वप्र
 साहित्य की प्राथमिक प्रवृत्तियां प्रथमाला ३००
 मिश्र, जयमत काव्यात्म सोमासा चौखवा १६००
 मिश्र जयशकरनाथ सरोज, १९२३- कल्पना सरोज प्र
 का
 मिश्र, दुर्गाशंकर अनुभूति और अध्ययन नवयुग प्रधागार
 ४५०
 कहानी जला की आधार मिलाए नवयुग प्रधागार
 ६५०
 वामना (प्रसाद) एक अध्ययन हि सा म ०५०
 गीतिका (विराहा) एक अध्ययन हि सा म ३५०
 प्रसाद की काव्य प्रतिभा नवयुग प्रधागार ६००
 भक्ति काव्य के मूल श्रोत नवयुग प्रधागार ५७५
 रसज्ञान का धर्म काव्य नवयुग प्रधागार २००
 विचार वीथिका नवयुग प्रधागार ४००
 सेनापति और उनका काय नवयुग प्रधागार ३५०
 —सथा प्रभात के प्रभूत नवयुग प्रधागार ८५० उ
 मिश्र नरेंद्र हठी रानी तरंगिणी ३५ उ
 मिश्र नरेश सहायिणी की वेणी तरंगिणी २०० उ
 मिश्र नवलविहारी १९०१ आकाश का आकाश हि प्रचा
 पु (पा) १००
 मिश्र प्रकाशानारायण एशिया रामप्रसाद ६-४
 पृष्ठी की परिक्रमा रामप्रसाद भा. १. ०६१ भा २
 ११५, भा ३ १२०
 हृत्वर विक्रुषी भूषोम भा १ म. ३ रामप्रसाद ४००
 मिश्र बटुकदव काल की गति प्रथमाला ३०० क
 मिश्र, वनवादीमान सुमन दत्ताकीर्तिनी सुमन प्र ५०० का
 मिश्र व वृन्नाम निवर्ष सोरभ चौखवा १२५
 मिश्र भगवतजनन सन दादु धोर उनका काय दिनेश प्र कु
 मिश्र भगवतस्वल्प, १९२०- तथा विरवध 'अश्वत्थ
 की साहित्य साधना निवर्षान १०००
 मिश्र, भगवतीकरण, १९३१- रैतत हुमा नाज राज प्र
 २०० क,
 मिश्र, भगीरथ, १९१४- नाव्यसायन सदी स ३ विन्व-
 विद्यालय १०००

- तथा राजनारायण मौर्य, सपा. सत नामदेव की हिंदी पदावली पूना विश्व १५००
- तथा रामचंद्र तिवारी साहित्य निबन्ध विश्वविद्यालय ७००
- मिथ, भुवनेश्वरनाथ 'माधव' जीवन के चार अध्याय लोकभारती ७०० सस्म
- मिथ, भुवनेश्वरनाथ माधव, १९१२ मीरा की प्रेम-साधना सशो स राजकमल १०००
- तथा विक्रमादित्य मिथ सपा कहावत-कोस बि राष्ट्र १५००
- मिथ, मदनमोहन सजुराहो की श्रमर ज्यति कि महल मरहूत का रगस्थन कि महल
- मिथ, भाषानंद माटी के लोग—सोने की नैया राजकमल उ
- मिथ मिसना पूर्वी एशिया का आधुनिक इतिहास स १ हि सस्म = ५०
- मिथ मृदु जयप्रसाद स्थानीय शासन भा भवन १०००
- मिथ रमावत जीवन के मोड़ नवयुग प्रयागर ४५०
- मिथ रमेश 'अज्ञात' हिंदी भाषा का इतिहास अशोक प्र ३५०
- मिथ, राधबेद, १९२७ पानी बिच मोन पिवासी नेदानल ५०० उ
- मिथ, राजेंद्रकुमार आधुनिक हिंदी काव्य अथम २०००
- मिथ रामगोपाल रूपकी की भाषा हि सा सस्म ३००
- मिथ, रामगोपाल दे उपाध्याय रामजी
- मिथ, रामचंद्र वादररी (उत्तर भाग) चौखवा १० १०
- मिथ रामचन्द्र १९२४ इतिहासिक उपन्यासकार व्दानलाल वर्मा एत चद ३५०
- वैराग बेनाम चिन्टिया आस्था प्र २५० का
- हिंदी का आनाचनात्मक इतिहास मोतीदान ६००
- मिथ, रामनारायण तथा सूर्यनारायण मिथ विश्व का ध्यापारिक भूगोल भूगोल २००
- तथा दण्डान पुस्तकमाना १ लरा २ इराक ३ पिनित्सीन भूगोल
- भारतवय का भूगोल भूगोल ३००
- मिथ रामप्रसाद मठी शोरो कविता म विरह वणन सरस्वत पु स १६००
- दरा, दिल्ली और अहमद अनिल प्र म ४०० का
- बौद्धिक रत्न अनिल प्र म का
- मिथ, रामप्रिय 'दानधुपा' बाल सर्प भा भवन ०७५
- मडवा
- मिथ, रामचंद्र १९४१- नयी कविता गस्कार और गित्य साथी ५००
- मिथ, रामचंद्र द परसाई, हरिश्चकर
- मिथ रामानंदर नागरिक मुग्गा सोचप्रिय प्राथमिक महादत्ता धारमारास २५०
- मिथ, सधमीनारायण नारी का रग टि प्रचा पु ३०० ना

- स्वर्ग मे विप्लव हि प्रचा पु ३०० ना
- मिथ, लोकमणि दे लोकमणि मिथ
- मिथ, विनमादित्य द मिथ, भुवनेश्वरनाथ 'माधव'
- मिथ, विद्यानिवास, १९२६- मेन तिल पट्टाचाई राजकमल ५०० नि
- व्या अमरकसतक राजकमल २५० प्रा
- मिथ विद्यावती १९१८- युग वीणा सपा शिवशर मिथ अलह भोत
- मिथ विश्वनाथ भटके राही नवयुग प्र ६०० उ
- हिंदी नाटक पर पाश्चात्य प्रभाव लोकभारती १६००
- मिथ विश्वनाथप्रसाद नीला कठ, उजले बोल बाधो वितान क
- मिथ, विश्वनाथप्रसाद दे तुलसोदास
- मिथ वीरेंद्र गीतम् विध्याचल २५०
- मिथ वचनाथ दे नागार्जुन (वचनाथ मिथ).
- मिथ, शम्भुनाथ १९३६- स्वप्नविद अभिज्ञान ३००
- मिथ, शिबकुमार आधुनिक कविता और युग दृष्टि विद्या म, वा १०००
- अग्रविवाद राजकमल ५००
- बालवीरो के खेल प्रभात पब्लि १२५ ब्र
- हिंदी निबन्ध सशो स ६ नारायण बुक एव प्रवीर ५००
- मिथ, शिवगोपाल सपा मुगावती (कृतुवन) हि सा सस्मे
- मिथ, शिवशरकर आनन के फूल प्रभात पब्लि १२५ ना
- धरती हरी भारी प्रभात पब्लि १५ ना
- सपा तुलसी साहित्य दशन तुलसी स्मारक एव प्रभात पब्लि ५०० नि
- मिथ, शिवशरकरलाल मन के गीत अभिज्ञान, ल का
- मिथ, शिवशरकर सोपदवरजत मानसोत्सास धीगशा
- मिथ शिवशरकर, १९२७ ब सहेग हजार सान दातुन
- मिथ, श्याम जायसी और उनका काव्य असाक प्र
- मिथ, श्याममुंदर हिंदुस्तान की भाँची शानेत १०० का
- मिथ श्यामचरण समाजवादी वमा नवभारती १००
- मिथ, सत्यनारायण जीती जागती बहानिया मस्वा
- अथिभ सुरेंद्रनाथ विरहाभुमि पौर नाव्य कत्वाणदात ४५०
- मिथ, सूर्यनारायण द मिथ, रामनारायण
- मिथ, सूर्यनारायण 'सरस', १९०७- उपासना जात सूर्य जागरण के स्वर ज्ञान मूय एव सतीनागरम २०० का
- मनुरान की धरती ज्ञान मूर्ध उ
- गाथना के स्वर ज्ञान-मूय का
- निबन्धधु द दवदत
- मिथा भार के द अग्रवाद सम गी
- मिथा, के अभिनव हिंदी निबन्ध जवानपुर प्र म १२५
- मिथा, धारदा रतमदरी नवयुग प्रयागर १७५ ना
- मिन्शी, सधमीनारायण 'रमा' बागुारा शनिय वरा दिवाकर हि साहित्यमास ५०
- श्री 'रमा' धीग उनका काव्य हि साहित्यमास ०७५

मीतल, प्रमुदयाल, १९०२- ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास
राजकमल ३२००

मीतल, मुनावाल, १८३५- भारतीय सिधा की समस्याए
काका पब्लि

मीमासक दे महावीर मीमासक
मीमासक दे मुषिण्ठिर मीमासक

मीराबाई भोरा पदावली सपा बरसानेलाल चतुर्वेदी सा
सगम, म

मीराबाई की पदावली सपा परशुराम चतुर्वेदी स १३
हि सा सम्मे ५००

मुदी, कन्हैयालाल यादिकचंद, १८८७- बसो की छुन राज-
कमल ७०० उ

लोपापुरा सुबोध पा (पा) १००

मशीवाल समाजशास्त्र मोतीलाल ५००

मुकंद, ललिता धी गृह परिचर्या तथा प्राथमिक उपचार
विद्या प्र भवन

मुकंद सिंह स्वतंत्रता सप्राभ के विस्मृत पृष्ठ १५ नि, दि
३००

मुकर्जी, धार एन तथा जी के अग्रवाल भारतीय सामाजिक
संगठन स ३ प्रकाश बुक ३५०

समाजशास्त्र की रूपरेखा स २ प्रकाश बुक ३५०

मुकर्जी, धार के अथोक मोतीलाल
हय मोतीलाल

मुकर्जी, रवींद्रनाथ भारतीय जनता तथा स्वप्नाए ससो एव
परि स ३ सरस्व स

मुकर्जी, राधाकमल भारत की संस्कृति और कला राजपाल
१२००

मुकर्जी, श्रीधरनाथ १९०६ राष्ट्रभाषा की सिधा स २
आचार्य बुक ८००

मुकंदस्वरूप मानव शरीर रचना मोतीलाल
मुक्तिबोध, गजानन माधव, १९१७-१९६४ एव माहिरियक
की ठापुरी स २ भा ज्ञानपीठ २५०

कामायनी एव पुनर्विचार युनिवर्सल बुक ५००

चांद का मुह देवा दे भा ज्ञानपीठ १००० का
नयी कविता का धात्यसथप तथा अन्य विषय विश्वभारती प्र
भारत इतिहास धीर संस्कृति जखलपुर प्र नू ३५०

मुकर्जी, एस एन प्रायोगिक रसायन शास्त्र ससो स ३
राजहस प्र म १२५

मुकर्जी, राधाकमुद प्राचीन भारतीय सिधा मोतीलाल
मुजतर दे बालकृष्ण 'मुजतर'

मुनेस्वरप्रसाद प्रवीणा इतिहास भा भवन भा १ ३००,
२, ३ ४५० (प्र)

प्रवीणा समाज अध्ययन भा भवन भा १ ३००, भा
२ ३५०, भा ३ ५००

मुत्तोषर सिंह विहारी दोहावली देहाती ०७५

रसवान दोहावली देहाती ०७५

मुत्ती मनोहर कुछ विचार कुछ समीचार्य नययुग रघागार
४५०

मुत्तीमनोहरप्रसाद सिंह भलकार मीमासा भा भवन ६००

मुत्त, गुणाकर महान वैज्ञानिक राजकमल ३०० जी

मूडर, जान, १८१०-१८८२ मूल संस्कृत उद्धरण अनु तथा
सपा रामकुमार राय चौखटा भा १-३ ६०००, भा
४-५

मूर, वैदिक पृथ्वी की सचवी कहानी नेशनल ३००

मूर, रय एलन जीवन की कुडली पात्थाराम ७५०

मूलचंद 'प्राणेश' नामदमण सा विद्या म ५००

परदेसी की गोरडी स्वास्थ्य सरिता १००

रणमल छद भा विद्या म ५०० ?

हिये तथा उपाय स्वास्थ्य सरिता १००

भुगेंद्रप्रताप सिंह हल्फे जमशेदपुर भोजपुरी १०० का

मेघावी भवेरचंद, १८६७-१९४७ मानवता के दीये सरता
३५०

मेघाव्रत, मुनि, टीका छद शास्त्र हरयाणा २५०

मेनारिया, पूरपोत्तमलाल दे सायाजी भूला

मेनारिया, मोतीलाल, सपा राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित
ग्रंथों की खोज भा १ सा सखान, राज. ३०० (अप्र)

मेरी, मार्गरेट प्रेम कथा अनु रेमीरोल साह प्रभात बुक
२०० जी

मेहता, बोधसंह भाद्रिनिवासी भोल सा सखान, राज २५०

मेहता, नरेश, १९२४- डूबते मस्तूल सधना सदन ४००
उ

मेहता, रतनलाल, सपा मालवी कहावतें भा १ सा सखान,
राज २०० (अप्र)

मेहताव, हरेकृष्ण प्रतिभा हि प्रभा पु (पा) १००

मेहरोत्रा, एस के तथा अन्य भीतिको परिचय स २ राजीव,
मे ३५०

मेहरोत्रा, पी सी तथा चेतनस्वरूप दामा हार्ड स्कूल स्मृति
चित्रण राजीव, मे ० ७५

मेहरोत्रा, बलदेवप्रसाद हिंदी प्रबोध धी मन्मोडा ४५०

मैकडोनेल वैदिक व्याकरण अनु सत्यवत मोतीलाल

मैकेंजी, जे एस समाज दर्शन की रूपरेखा राजकमल ७००

मैक्समूलर प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास कि महल
हम भारत से क्या सीखें भारतस हि १०००

मैटिल राजनीति चिंतन का इतिहास लक्ष्मी भा १५००

मैना, अतिलचंद्र कथु या प्रियतमा पारिजात प्र, सा उ

मैप्यूल, ब्रैंडर नाटक साहित्य का अध्ययन भारतभाराम ७५०

मैनी दे धर्मपाल मैनी

मोदी, दीपशिखा, सपा नैपथ्योचरित्रम स वनीप्रसाद

मोदी श्रीनाथ तथा धीरजमल बच्चावत गुम गीत वि घर,
जो १५०

मोपासा एक शीरत की डिदगी हिंद पा (पा) २०० उ

मोहन दे नाथ, पी 'मोहन'

मोहन रावेरा भाईके के सामने अंगर ४५०

मुज्ञानिने हिंद पा १०० क

मोहन रावेरा दे नालिदास

मोहन रावेरा, दे मास्सि, एदिता

मोहनलाल बड़ा मन्त्रि सागर देहाती ४००
 भारवाडी गीत सग्रह देहाती ४५०
 सोवन कला विद्यापी कि घर जो २५०
 मोहनलाल गार्हो तथा नाथूलान व्यास सपा पृथ्वीराजरासो
 की विवेचना सा सस्थान राज १५००
 मोहनसिंह सपा पृथ्वीराजरासा ४ भा सा सस्थान राज
 १००० (प्र) भा १ स्रप्र
 प्राचीन राजस्थानी गीत भा ३ ४ ३ ८ सा सस्थान,
 राज भा ३ २५० भा ८ २७५ भा ७ २७५
 भा ८ २७५
 —तया सावलदास आदिपा सपा प्राचीन राजस्थानी गीत
 भा १० १२ सा सस्थान राज २७५ (प्र)
 मोहना सिंह महाबरे कहावन हि गिभक ०५०
 सन्ति हिंदी व्याकरण हि गिभक ०५०
 मोहसिन एस एम प्रारम्भिक मनोविज्ञान लोकराजती
 ५००
 मोटफोड लूइस ड सच्ची भक्ति प्रभात बुक २५०
 मोय राजनारायण ने मिश्र भगीरथ

य

यतीन्द्रनाथ राही, १९२६ तथा राजा भैया सपा सासो के
 स्वर प्रतिभा परि
 यापान १९०३ स्रप्रवा का थाप विपन ४०० उ
 मन्चर और आदमी किलव ३०० व
 तारा हिंद पा (पा) १०० उ
 दिव्या हिंद पा (पा) २०० उ
 पार्ति कामरेड स ५ विपन ३०० उ
 बारह पते किलव २०० उ
 बारह घट हिंद पा (पा) १००
 यापाल हा गिगु पानन प्रिन्लेड ३००
 यापाल वालीया अघी सुबह निराला सा स ३०० उ
 याज्ञिक भवानोपहर मरा रमखान रक्षोवली हि सा सम्म
 यादव ए एम तथा एम गी यादव भारत की सन्निधा
 केंद्राग पु स
 यास्य विज्ञान केंद्राग पु स
 यास्य जयगीत मन्त्रीकरण भा भवन ३००
 यादव की मम मास्विही मिज्ञान एवं व्यवहार मरन
 ध्ययन मन्त्रम प्र म ६२५
 यादव राजेंद्र १९०६- एक दुनिया ममानातर स्रप्र
 १०००
 —तया कमन्धर की श्रुत कानियां राजपास २५०
 नये कानियांकार राजपास
 पनीकरनाथ रेणु श्रुत कानियां राजपास २५०
 राजेंद्र यास्य श्रुत कानियां राजपास २५०
 यादव, रामप्रसाद विज्ञानय ध्यवस्था श्रीराम महेश

यास्क निरुक्त भाष्य आचाय विरेश्वर पानमडन १६००
 युगगत नवलपुरी दे जोगी, गिवकुमार
 युधिष्ठिर भीमासक १९ ९ वाग्वृत्तन व्याकरण भा
 प्राच्य ४००
 देवम् पुरुषकार कालिकोपेतम भा प्राच्य ६००
 वैदिक वाडमय म प्रयुक्त विविध स्वरान्न प्रकार भा
 प्राच्य १५०
 काशकृष्ण धातु व्याख्यान भा प्राच्य १०००
 —तया भागवृत्ति सकलनम भा प्राच्य ३००
 युधिष्ठिर भीमासक द वररुधि
 योगानंद परमहंस स्वामी (मालू चाले दादा) गपा चर्चट
 पत्रिका स २ वेदांत केसरी १,५०
 योगी दे युवच भगीरथ 'योगी'
 योगी दे सत्यभूषण योगी
 योगेंद्रजीत भाई कन्धाव्यापन पाठ संकेत निर्माण एवं विगिण्ट
 विधिपा विनोद ५००
 यौतिक एवं विद्यालय प्रशासन विनाद ६००
 हिंदी भाषा शिक्षण संगी तथा परि स ४ विनोद
 ६००
 योगेश अटल आदिवासी भारत तथा श्यामाचरण दुबे राज
 कमल ३००
 योगेश्वरनंद सरस्वती स्वामी ब्रह्म विज्ञान योग नि
 १५००
 योधेय दे अन्नमकुमार योधय
 रगनाय कुंजी पृथ्वी की कहानी रा यनीप्रसाद १५०
 रतवाल सुरेण दिनकर और जका कवि व स्रप्र
 रसा भूकरतन सपा जननायक जवाहरलाल नेहरू मूय प्र
 म १५०
 रपाचाय आय सुनी जनमत्रय स्रनु नमीषद्र जैन नगनल
 ३००
 रघुनाथप्रसाद, सपा नेहरू और का पी भा प्र महल १००
 रघन दमिह नागरिय गारत्र व सिद्धान्त और भारतीय
 सविधान ज्ञानालोक - ५०
 रघुनाथसिंह १९१६ नेहरू जी का महाप्रस्थान नेगनम
 १०००
 रघुवीरसिंह पूव साधुनिक राजस्थान सा गस्थान राज
 ७००
 रघुवाग्दयाल सावन सावन की बचा नवयुग प्रवागार
 ३७७
 रघुवी जी राजेंद्र दगा व बीर जवान विनोद
 रघुवीजी बीरेंद्रसिंह भारत की सशाम पठति पूनव
 रघुवीरकरण मवाड गोवद माया नहानी ३००
 रघुवीरकरण मित्र, १९१९ सासो भमें सासो गाँव भा
 सा प्र २०० वप्र
 योग के स्रमु भा सा प्र ६०० उ
 कर मला हा भला भा सा प्र १५० वप्र
 लप का तत्र रूप के जाल भा सा प्र ३०० उ
 दिन रोपा रात हृषी भा सा प्र ३५० उ

प्यास और सोने. भा सा प्र. २०० प.
 भारत गौरव भा सा प्र २.०० बप्र.
 मानवेंद्र भा सा प्र २५०० महाका
 रघुवीरसिंह, १६००- सोप स्मृतिया ना. प्र. मभा.
 रजनीक दे शर्मा, गोविंद रजनीक'.
 रजिया मुल्ताना रजिया का शाही दस्तर खाह देहाती.
 २५०
 रजनीक, १६३७- ये सपने, य प्रेत नवयुग प्र कु ४००
 का.
 रणदिने, एम. बी. युग युग की कहानी सद्यो स २ विविध
 १२५ बप्र
 रणदेव, सरयपाल तथा महेंद्रप्रताप यापर, सया गद्यकार
 बाण पञ्जाब प्रादेशिक एव भा सस्त्रुत ६००
 रणपतिमा सधमणसिंह दे चौहान, आत्माराम
 रतिमानु सिंह 'नाहर' दिल्ली सल्तनत कि महल
 १८००
 भारतवर्ष का इतिहास. कि महल ६००
 रतीराम शास्त्री भ्रमर औरबल विनोद. देहाती. ०५० क.
 बापू राष्ट्रीय जन्म देहाती. ११०
 व्यापार अर्थ मार्गद १०.००
 शिवमहापुराण देहाती १४००
 श्री बापू राष्ट्रीय जन्म देहाती ०६०
 रतुबी, बीरेंद्रमोहन हमारे बहादुर जवान उमेग.
 हमारे बहादुर हवावाज उमेग
 रत्ना, हरिचंद स्टोम लीकोगाइड. आत्माराम १५.००
 रत्न दे बलबीरसिंह रत्न
 रत्नप्रकाश 'शोस. फनीचर डिजाइन बुक देहाती १२.००
 सिनेमा मशीन मापरेटर देहाती १०.००
 हिंदी इंग्लिश शरमर. देहाती ३००
 हिंदी इंग्लिश बोधचास देहाती ३००
 हिंदी इंग्लिश लेटर राईटिंग. देहाती ३००
 रत्नवीर सिंह तथा दयाराम शर्मा लाद एव उर्वरक एशियन.
 रमई बाबा. दे विवेक, चंद्रमधय रमई बाका'.
 रमण बिहार में जिला परिषद प्रापिनियमावली पट्टा
 २००
 रमा. दे भिस्को, लक्ष्मीप्रसाद 'रमा'.
 रमेगचंद्र हिंदी साहित्य का सविष्य इतिहास मुसारी. ०.७५
 रमेगचंद्र विजय ट्राजिस्टर गाइड देहाती ००५०
 प्रथीकल ट्राजिस्टर सकिट्स देहाती ०५०
 रेडियो की प्रथम पुस्तक देहाती प्रथम पुस्तक ४५०,
 द्वितीय पुस्तक ६५०, तृतीय पुस्तक. ४५०; चतुर्थ
 पुस्तक ६५०, पंचम पुस्तक ४५०
 रेडियो सर्विसिंग हि. लमि. ८५०
 लोबल ट्राजिस्टर देहाती ४५०
 रमेगचंद्र शास्त्री. भारत में पचायती राज. कृष्ण अ.
 ७००
 रमेगचंद्र 'सत्रल'. सुषिबा सोप रह गयी. दिवाकर प्र. १.००
 का.

रमेग चौधरी, ए. 'भारिगपूडि', १६२२- चरित्रवान वि.
 प्र कु ६.०० उ
 निलंज हि. प्रचा पु. (पा.) १०० उ
 रमेग भाई पन्नी का मुकुट आय्य बुक २०० बप्र
 रमेग भारती अवेरी बास्तिया नवयुग प्र ५००.उ
 रवींद्रप्रकाश 'भवरोल' नये निबंध हजरिया द्रा
 रवींद्र भ्रमर, १६३५- हिंदी के आधुनिक कवि, व्यक्तित्व
 और कृतित्व भा सा म १२५०
 हिंदी भक्ति-साहित्य मे लोक तत्त्व भा. सा. म १२.५०
 गोध
 रसखान रसखान-रत्नावली सया भवानीचकर याज्ञिक. हि.
 सा सभ्मे
 रसल. ब्रूड १८७२- आपेक्षिकता की मूल सकल्पनाए.
 राजकमल ६००
 रसाल दे युक्ल, रामचकर 'रसाल'
 रसिक दे रामकृष्णदास रसिक
 रस्क आर आर महान शिक्षा शास्त्रियों के सिद्धांत. विरव-
 विद्यालय
 रस्तोगी, आर बी रसायनशास्त्र मे कयो और कैसे. राजहस
 प्र म १२५
 रसायनिक गणित पर हल हुए प्ररल. राजहस प्र. म.
 १२५
 रस्तोगी, उमेगप्रसाद नारवि काव्य मे अर्थातरन्यास चौखवा.
 ६००
 सस्त्रुत साहित्य मे मौलिकता एव अनुहरण. चौखवा
 ८०० शोध
 रस्तोगी, दयाप्रकाश अ तराष्ट्रीय सवध . सरल अध्ययन
 राजहस प्र म २६५ से ६.२५
 आधुनिक भारत राजहस प्र म १७०७ से अब तक
 ४५०, १८०८ से अब तक. ५००
 आधुनिक राजनीतिक विचारधाराए : सरल अध्ययन
 राजहस प्र म ४००
 नागरिकशास्त्र : सरल अध्ययन. राजहस प्र म. ४.५०
 प्रमुख देशों की शासन प्रणालिया : सरल अध्ययन राजहस
 प्र म ४०० से ६.५०
 भारत का इतिहास सद्यो स ७. राजहस प्र. म प्रारम से
 १५२६ तक ६५०, १५२६ से अब तक. ७.५०, प्रारम
 से १७०७ तक ८.००, १७०७ से अब तक ५.५०
 भारत का इतिहास (पूर्व ऐतिहासिक काल से अब तक).
 राजहस प्र म ६२५
 भारतीय सविधान तथा राष्ट्रीय आंदोलन : सरल अध्ययन.
 राजहस प्र. म ६००
 भारतीय सविधान : सरल अध्ययन राजहस प्र. म
 ३००
 भारतीय सस्त्रुत का इतिहास : सरल अध्ययन. राजहस
 प्र म. ६.००
 मध्यकालीन भारत (१०००-१७६१). स. २. राजहस
 प्र. म. १०.००

मुगलकालीन भारत सभ्यो स २ राजहस प्र म १५२६-
१७६१ ६०० ५२६ १८१८ ८००
राजनीति म विभिन्न वाद सरल अध्ययन राजहस प्र म
३००
राजनीति शास्त्र राजहस प्र म ७५०
विश्व के प्रमुख सविज्ञान सरल अध्ययन राजहस प्र म
८५०
रस्तोगी दयाप्रकाश गुप्ता एस सी
रस्तोगी दयाप्रकाश दे भारती चंद्रप्रकाश
रस्तोगी फकीरबं सरल प्रक्रमित कि महल २३८
रस्तोगी विनोद १९२३ सूरी मध्यविद्या उमेश ३५० ए
भनीरथ के धेते प्रा माराम १०० नाटिका
रस्तोगी, मूलचंद तथा मय वृषि जनु विज्ञान राजीव मे
६५०
रस्तोगी सुधीरचंद तथा वी एन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक गण
नाथे राजीव म १२५
रहवर दे हसराम रहवर
राका रिपभ्यास धन कमले की कला संस्कार
रागेय राषव १९०३ १९६२ कब तक पुकारु हिंदू पा (पा)
२०० उ
काका हिं दिगम २०० उ
काव्य बना और शास्त्र सभ्यो स २ विनोद
पापी हिंदू पा (पा) १०० उ
पूण कला राज सा भका २७५
महावाक्ता गाथा (रैन और चंदा) कि महल १८०० उ
राई और पवत राजपाल उ
राणा की पत्नी हिं शिक्षक १५० उ
रामानुज स २ वि महल ५५०
विश्व के २० अमर उपवास हिंदू पा (पा) २००
—तथा मनोहर प्रभाकर मेघदूत (राजस्थानी अनुवाद)
कल्याणमर २००
—सपा विश्व क २० अमर उपवास हिंदू पा (पा) २००
रागेय राषव द बालिदास
रागा, रागवीर १९२४ साहित्य साधना और सचप भा
सा म १००
हमारे प्रेरणा योत एष चाद ३००
—सपा डा नगेंद्र श्यक्तिवत् और वृत्तित्व भा सा म
८००
रागेय कवि और लेखक राजीव म १२५
निवप दशन कि पर र्था ५००
रागेय दे भारद्वाज शांतिनाथ 'राकग'
रागेय दे विष्णुनाथ रागेय
रागेय तर्क गंगा किनारे वृष्ण प्र म २०० का
रागेय बरम, १९४१- मर्यादा इ पन्नि उ
राषव, रागेय द रागेय राषव
राषवनाथ भक्तनाथ चतुरंगम वृत्त टीका सहित तथा अमर
चंद नाग्या गन प्राच्यविद्या ६७५
राषवनाथ महाराज दे कबीर

राजकवर तथा अन्य चीनी चित्रकला सा नि वा ३५०
राजकिरीण भारतीय अर्थशास्त्र सरल अध्ययन कमल प्र
२२५
राजकुमार देश के लिए हिं प्रचा पु १५०
हाजी पीर का दर्रा हिं प्रचा पु २०० ना
राजगोपालन, एन वी, अनु कब रामायण स २ वि राष्ट्र
१०७५
राजगोपालन न वी तमिल साहित्य वा नवीन इतिहास
आचा प्र
राजगोपालन, न वी दे वर्मा अजेस्वर
राजगोपालन, एन राष्ट्रभाषा शिक्षण हिं सा न ३००
राजमन्गार पी वी मनोरमा अनु वादशीर रेड्डी नेदानल
२५० ना
राजलक्ष्मी कानून का प्यार कल्याणदास क
राजवती आनंदकुमार हृदयारवद हमले से निहत्थे बचाव
इन्टर युनि १५०
राजसिंह कवि जिणदत्त परित सपा माताप्रसाद गुप्त तथा
चतुरचंद कासलीवाल मंत्री दि जैन अ क्षेत्र श्री
महावीरजी, जयपुर एव जैन सा ५००
राजा भंया दे मतींद्रनाथ 'राही'
राजाराम शास्त्री, १९०४- भाडू फिरी लोक मच ३००
उ
समाज विज्ञान सिद्धांत और प्रयोग सभ्यो स प्र विभाग
राजीवनाथ प्रसाद मानव सभ्यता का विकास भा भवन
७५०
राजू पी टी बीड विज्ञानवाद अथवा बौद्ध दशन तथा उसका
विकास मोतीलाल १५०
राजेंद्र अध्ययन कौन हो सा केंद्र, दि ३५० उ
राजेंद्रकुमार जयी पैमाइश चौब (मोल लकड़ी) देहाती
३००
जयी पैमाइश चौब (चिरी लकड़ी) देहाती ३००
राजेंद्रकुमार राजेण तथा श्रीकांत भा तीन मुटठी घूप रापा
राबिन दाँ पुष्प आनोदय
राजेंद्रपाल जिज्ञानु १९३१ चौर सयागी श्री स्वामी
सर्वानंद जी दयानंद मठ, दीना नगर (पंजाब) ४००
राजेंद्रपाल सिंह १९३२ अनुसंधान की रूपरेखा गंगाप्रसाद
५००
भटमैले पुष्ट राज्यधी २५० उ
राजेंद्रप्रसाद चणारन म महात्मा गांधी परि स नि राष्ट्र
—तथा रामा बाल सामान्य विज्ञान भा १ रामप्रसाद
०८५
राजेंद्रप्रसाद सिंह सजीवन कहा ? बेनीपुरी ३५० वा
राजेंद्र मित्रन वाच के तन मोम के मन समानांतर २५०
उ
नागपनी और घुर्घा प्रगति प्र १०० उ
नागपनी और घुर्घा समानांतर २५०, (पा) १०० उ
मिलन के गीत समानांतर ३०० वा
—सपा बभार एक हल्की-सी समानांतर १०० वा.

सतुप्तन स १ समानातर ३७५
 राजेश्वरसिंह १६१४ चण्डत धार्मी क
 राजेश्वर दे राजेंद्रकुमार राजेश
 राजेश्वर गुरु १६१८ जीवन रेखा नेगल ५०५ का
 राजेश्वरदयाल कम्प्युटिरी डबलपमेथ प्रोग्राम इन इण्डिया
 कि महल १२५०
 राजेश्वरव्या एम द सन्निधानदन जी
 राजेश्वरव्या मे तथा प्रधान गुरुदत्त जमिना धौतरेय विर
 हिणो हि सा न १००
 राठी एस एस तथा एम एल मिश्र द्रव्य विनिमय तथा
 बैंक प्रया मुरारी ५००
 राठीर विजयबहादुरसिंह विजय कामायनी रहस्य इ प्र
 राधाकृष्ण दे विद्यार्थी गणगणकर
 राधाकृष्णन् सवपत्नी १८८८ प्राध्य धम श्रीर पाश्चात्य
 विचार राजपाल
 भारतीय दण्ड श्नु नरसिंहोर गोभिल राजपाल पूर्वीध
 २५०० उत्तराध
 राधाकृष्ण सिंह सत पल्लूदास श्रीर पल्लूदय सूर्य प्र
 राधाबल्लभ चंद्रोदय मङ्गरुच स ३ धवतरि ०२५
 प्राकृतिक ज्वर धवतरि ०३७
 रक्त धवतरि ०२५
 वेदो मे वदिक पान धवतरि ०२६
 राधिकारमप्रसाद सिंह भाडन कौन—सर्कर कौन ? अगोक
 प्रे १५० उ
 माया मिली न राम अगोक प्र १७५ उ
 रानाडे जस्टिस मराठो का उत्कष मोतीलाल १२००
 रानी लक्ष्मीकुमारी टावरा की बातां (राज भाषा) राज
 सा भक्ता २२५ (वय)
 रानी लक्ष्मीकुमारी दे ठाकुर रवीन्द्रनाथ
 राबिन नाँ पुष्प १६२६ बिरतो दीवार बापती घास
 प्रभात प्र उ
 जागी झालो का सपना हिंद पा (पा) १०० उ
 राबिन सा पन् की बहानिया नरद वकी प्र ३५०
 हिंदी की लोकप्रिय हास्य कविताए हिं पा (पा) १००
 राबिन नाँ पुष्प दे राजेंद्रकुमार राजेश
 राम दे नामा श्रीराम राम
 रामप्रवतार श्रीर डिजाइन प्रट प्रित देहाती ६००
 मारवल विष्णु के डिजाइन देहाती ६००
 हैड बुक प्राक विरिडिंग कस्ट्रक्शन देहाती ६५०
 रामसिंहोर जमिनी १६३५ पय ग घणालिका ०५०
 क
 रामकुमार भारत का राजनीतिज्ञ इतिहास १७५७ १६६०
 गणो स २ हि प्रवा पु
 रामकुमार धमर १६३६ गिरमितन विभवभारती ना
 क
 चबल का घागिया विभवभारता ना उ
 श्रीपाल चर्चा जलपुर प्र गु १००
 गाव सिपाही जलपुर प्र गु १५० क

रामकुमार सिंह आधुनिक हिंदी काव्य भाषा प्रथम २५००
 बाध

रामकृष्णदास रसिक कृष्ण उपासना देहाती ५५०

दुर्गा उपासना देहाती ५५०

देवी चन्दना (देवी स्तुति) देहाती १५०

बारहू माह के त्योहार देहाती ५५०

राम उपासना देहाती ५५०

विष्णु उपासना देहाती ५५०

गिब उपासना देहाती ५५०

भुक्कार व्रतकथा देहाती ०७५

हनुमान उपासना देहाती ५५०

शुद्धो के व्रत श्रीर त्योहार देहाती ५५०

रामबालावन चंद्रगुप्त मीय कि महल ७५० महाका

रामनोपाल १६२५ वदिक व्याकरण भाषा १ नेगल

११००

मन्त्रशाला पूर्व हिणो के सपथ का इतिहास हिं सा सम्मे

रामनोपाल परदेसी १६३७ सवा भावल डोल गया

प्रगति प्र ५०० क

उदगम प्रगति प्र ५०० का

गजना प्रगति प्र ५०० का

गजलाजलि प्रगति प्र १०० का

गीताङ्कुर प्रगति प्र ५०० का

जूनेतेश्वर प्रगति प्र ५०० का

चहरो से घिरा दणप प्रगति प्र ५०० क

तीन सौ गीत प्रगति प्र २०० का

प्रतिनिधि हस्ताक्षर प्रगति प्र ५०० क

युगवनि प्रगति प्र ५०० का

लोकप्रिय स्वाइया प्रगति प्र ५०० का

सदाबहार गुलाब प्रगति प्र ३०० का

साहित्यलोक प्रगति प्र १०००

रामचन्द्र प्रदीप साहित्य श्रीर उपयोगिता चिन्मय १५०

रामचन्द्रलाल बुद्ध चरितवाचनी महाबोधि १००

रामचन्द्र शास्त्री बालकांड—रामचरितमानस मोतीलाल

३००

रामचरितमानस—अयोध्याकांड मोतीलाल ५५०

रामदेव चिर कथा के मोड विद्या म हो ८००

रामधारीसिंह दिनकर, १६८८ कोयला श्रीर कवि व

उदयावल ३५० का

लोकप्रिय नेहरू उदयावल ५०० सम्म

शुद्ध कविता की लोज उदयावल १०००

रामनाथ सुधन साता साजपतराय साधना सदन ५५०

रामनाथन सरस्वती कव रामायण कि महल

रामनारायण तयासिया की पुष्प वृद्धिया देहाती ७५०

रामप्रनाथ सिंह धनुर्विगीनी तथा अरिन्द्र अभिजनन कि

महल

रामबालक सिंह दे बोस गैलेगुमार

रामबालेश्वर सिंह विकासत्मक बाल मनोविज्ञान मोतीलाल

५५०

रामयतनासह 'भ्रमर' आधुनिक हिंदी कविता में चित्र-
 चिपान नेरानल २०००
 रामयतन क्षामोर्न शर्मा आने तक एवर ग्रीन २५० उ
 रामयतन बेनीपुरी १६०० धनोबा ससार बेनीपुरी २००
 वप्र
 भ्रमर कथाए ४ भा वनीपुरी १०० (प्र) वप्र
 भ्रमर ज्योति और रामयतन बेनीपुरी २०० ना
 उहते चलो उहने चलो बेनीपुरी १ २५ यात्रा
 कुछ मैं कुछ बे बेनीपुरी ५००
 बंदी की पत्नी बेनीपुरी ३०० उ
 गेहूँ और गुलाब दि पु स ३०० शब्द चित्र
 कविता के फूल बेनीपुरी ३०० क
 दुर्लभ बेनीपुरी ५००
 तथागत बेनीपुरी २२५ ना
 नई नारी सदा स बेनीपुरी २५०
 नया समाज और गांव के देवता बेनीपुरी १५० ना
 पत्नी के दश मे बेनीपुरी ३०० उ
 पृथ्वी पर विजय २ भा बेनीपुरी २०० (प्र) वप्र
 प्रकृति पर विजय २ भा बेनीपुरी १०० (प्र) वप्र
 चटिया हो तो ऐसी बेनीपुरी १०० वप्र
 बेटे हा तो ऐसे बेनीपुरी १०० वप्र
 बेनीपुरी बाग प्रथावती मा १ बेनीपुरी १५००
 रवींद्र भारती बेनीपुरी ५००
 साल तरा दि पु स ३००
 शक्तिका बेनीपुरी १ २५ ना
 सधामिदा और मिथल विजय बेनीपुरी २०० मा
 गहार की मनोरम कहानिया बेनीपुरी २०० वप्र
 मादर के पुत्रे ३ भा बेनीपुरी २०० (प्र) वप्र
 मोना की मा बेनीपुरी १५० ना
 हम इनकी गना है २ भा बेनीपुरी २०० (प्र) वप्र
 —सगा विद्यापति और जनकी पदावती परि स बेनीपुरी
 १०००
 रामानंदर शास्त्री हिंदी निर्यादातं चौखवा २२५
 रामानंदरशास्त्र तथा मूवभूषणप्रसाद यशशास्त्र भा
 भवन
 स्कूल ज्यामिति भा भवन
 रामासह तथा श्रम्य, यसा हो रामाकाग दूहा स ३ ना प्र
 सभा ६०० लोचनील
 रामसिंह 'ब्रजेन' मोर की जमुहादवा नव ज्योति प्र, भा
 २ २५ का
 रामस्वरूप शास्त्री आदर्श हिंदी सरहन कोण चौखवा
 १२५०
 रामायणीप्रसाद जिला प्रशासन वि महल
 रामयतनारसिंह 'गिरीदिया', समाज के समोर्न आनद पु,
 वा हा
 रामायण 'गविना', १६३२- टीजि बीणा प्र १५०
 का
 रामस्वर, द डिबरी, रामस्वरप्रसाद 'रामस्वर'.

रामस्वर प्रसाद किसानी लोच कथाए देहाती ४५०
 तिलहन की सेबी देहाती ४५०
 राम, भ्रमरनाथ बकार कुछ नहीं सस्ता ०७५
 राम, आर ही दे चक्रवर्ती आर एन
 राम, उदयनारायण 'उदय' प्राचीन भारत मे नगर तथा नगर
 जीवन हिंदु एकेडेमी २२००
 राम, लखेन्द्रनाथ नई ममीदा पुराना साहित्य नवयुग प्रथा-
 गार ३०० नि
 राम, कृष्णा राजनय के सिद्धांत और व्यवहार चौखवा
 ५००
 राम, नौशलकुमार भयराज और दस्ताएन चौखवा ६००
 राम, गंगासागर महाकवि भवभूति चौखवा ५००
 वैदिक शास्त्रान चौखवा २००
 राम गोपाल, १६३२- मोदान अध्ययन की समस्याए
 ग्रथ नि, प ६७५
 हिंदी कथा साहित्य और उसके विकास पर पाठको की रुची
 का प्रभाव ग्रथ नि, प २५००
 राम जनाईन दे बैजनाथ सिंह
 राम, बैजनाथ आधुनिकतम निवय हि प्रभा पु ६००
 राम, ब्रह्मदेव भयना देस भयना राज राजीव, इ १५०
 भारत के नवरत्न राजीव, इ १२५
 स्वामी विवेकानंद राजीव, इ १५०
 राम, रामकुमार बाल्मीकीय रामायण बीण चौखवा २०००
 महाभारत-बीण चौखवा २०००
 व्यावहारिक मनोविज्ञान चौखवा ६००
 व्यावहारिक मनोविज्ञान की रूपरेखा चौखवा ५००
 राम, रामकुमार द मुद्र जन
 राम शावभ्यप्रभा शरतचंद्र चौखवा, २०० जी
 राम विनयकुमार दे कृष्ण चैनय
 राम, विवेकी अध्ययन आलोच आदर्श पु भ २००
 रजनीमथा आदर्श पु भ २०० वा
 राम गिब्रानत १६१५- काविज्ञान के शोदर्य सिद्धांत और
 मयदून श्रवेंता प्र, धा ६००
 राम, सुभुजा नूतन की रात आलोच प्र, दि ३७ उ
 राम सिंहासन 'गिडेन' हिंदी साहित्य का इतिहास आदर्श
 पु भ ५००
 राम, सुशीति बहार श्रव घागी है भारतेंदु भवा २५० व
 राम हरिहरदेसाई आधुनिक भारत का इतिहास भा भवन
 ३२५
 ग्रेट ब्रिटेन का गविज्ञान भा भवन ६००
 नागरिक शासन के सिद्धांत भा भवन ६५०
 नैदान का सविधान भा भवन
 प्रवर्धिका नागरिक शासन भा भवन ६००
 प्रारंभिक नागरिक शासन भा भवन ३१०
 भारतीय प्रशासन तथा नागरिकता भा भवन ६७५
 भारतीय राष्ट्रीय प्रशासन भा भवन ६००
 भारतीय शासन भा भवन ६५०
 भारतीय शासन और जनता विकास भा भवन

रामनीति विज्ञान सरल ग्रन्थयन कमल प्र ३००
समाज ग्रन्थयन की रूपरेखा भा भवन ३००
राम, हरिहरप्रसाद दे श्रित्तिवेश्वरप्रसाद
रायचरणदास १८६२- भारत की चित्रकला भा भ
रायगोविन्दचन्द्र, १९०६- प्राचीन भारत में लक्ष्मी-प्रतिमा,
एक ग्रन्थयन हि प्रचा पु ७००
वैदिक युग के भारतीय आभूषण चौखटा १५००
रायचौबरी, डी, १९३७- तथा अन्य संग्रहालय अनुशीलन
एमके २५००
राव, नरेंद्र धुमें के बादल जबलपुर प्र गू २५० उ
राव, मोहितो हसी की कहानियाँ एमके १०० बप्र
राव रवीन्द्रप्रताप वैज्ञानिक अनुसंधान और श्राविकार
जबलपुर प्र गू १५०
राव, विजयबहादुर उत्तर-वैदिक समाज एवं सङ्घर्ष भा
विद्या प्र १२००
राव सुय्यनारायण बुनियादी शिक्षा सिद्धांत कल्याणमल
३००
रावल, चंद्रमान भाषा विज्ञान विकास और विस्लेषण
सरस्व पु स १२५०
रावल, डी एस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सरो स २ विनोद
५००
रावल, नारायणदास साधन-सुषदा विज्ञान म २००
रावी तथा हतीशचन्द्र, सया माध्यम समानांतर १०० क,
का
रावी दे विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी'
राष्ट्रबन्धु फलत जसिया बाले बाग की तसरी २०० बप्र
वे महान कैसे बने राजपाल १००
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति शासकीय एवं कार्यालयीन प्रालयन,
टिप्पण और सक्षय-लेखन राष्ट्र प्रचा समि
राष्ट्रीय भासा दे युक्त्र, राकाराम 'राष्ट्रीय आत्मा'
रासिटर क्लिन्टन भ्रमरीकी राजनीति और भ्रमरीका के
राजनैतिक दल आत्माराम ५००
राहगीर राहगीर के गीत राहगीर प्र ३५०
राही दे मामूम रजा राही
राही दे यतीन्द्रनाथ 'राही'
राहुन साङ्गुत्पान, १८६३ १९६३ अवच्छिन्न महाबोधि
० ५०
धम्मपद महाबोधि १५०
नवदीप्ति बोध महाबोधि ० १३
पालि साहित्य का इतिहास हि समि ५००
मुद्गल्यय्या, महाबोधि १०००
महामानवबुद्ध २५०
विनय पित्र महाबोधि १२००
शादी हि प्रचा पु ६०० उ
सूत्रप्रमं महाबोधि ६००
रिग्विज सुनदुब सामा श्रायं अगुलिमाल भूत महाबोधि
० ५०
बापिपथ प्रदीपम् महाबोधि ० ५०

रिपु दे शर्मा, मनोहर रिपु'
द्वद काव्यालकार टीका सत्यदेव चौबरी वासुदेव २१००
रूप तथा प्रागस्टस गेट्ज वारिस धनु राजेंद्रकुमार शर्मा
आत्माराम १५० ना
रूपवद, मुनि, १९३६- अथा चाद सकलन कमलेश चतुर्वेदी
भा जानपीठ ३०० वा
रे, मनोहर तथा हरस्वरूप शर्मा सेकेंड्री स्कूल बीजगणित
रामप्रसाद ४००
रेड, विद्वेश्वरनाथ, १८६० ऋग्वेद का सामाजिक सास्त्-
तिक और ऐतिहासिक सार राज सा अका ६००
रेड्डी, बालगौरि, १९२८ तेलुगु की श्रेष्ठ कहानियाँ हिद
पा (पा) १०० क
तेलुगु साहित्य का इतिहास हि समि ६००
भान सीमाए राजकमल ४०० उ
रेड्डी बालगौरि दे राममन्नार, पी बो
रेणु दे फणीश्वरनाथ रेणु'
रेवतदान शैत मानसा कि घर जो ३०० का
रेवतीरमण, तथा बिहार भूमि हदबदी कानून, १९६१
पहजा १७५
रेशीन पाप का फल धनु शार एम डोगरा हि. भवन.
० ७५ ना
रैना, विमला लडहर राजपाल ३०० ना
प्यासा पानी, आत्माराम ८०० उ

ली

सदमणसिंह राजा, धनु दकुतला नाटक लोकभारती
२ १०
लक्ष्मी 'साधना' जन जन मे जागा नेहू सुंदर प्र ४००
का
लक्ष्मीजात शारोम्य विज्ञान तथा जन-स्वास्थ्य कि महल
लक्ष्मीचंद दे गोविन्ददास, सेठ
लक्ष्मीनारायण सेवस की विचित्रताएँ हिद पा (पा)
१००
लक्ष्मीनारायण नायूरामका दे देराश्री, सरयदव
लक्ष्मीनारायणलाल, १९२५- एक और कहानी नवभारती
प्र ४०० क
एक बूद जल बोरा ३००
मनवू दायन नेशनल ५०० उ
रममच और नाटक की भूमिका नयनल १०००
—सया सात प्रतिनिधि एकाकी बोरा ३५०
लक्ष्मीनारायण 'सुधासु', १९०८- जीवन के हरद और
काव्य के सिद्धांत सरो स जानपीठ ६००
विद्योय, करण रस का गद्य काव्य वि प्र कु नि
सपकं भाषा हिंदी राजकमल २५०
साहित्यिक निधम राजकमल ३५०

लक्ष्मीराम शास्त्री हमारे सत्कार मूक सस्ता ३००
लक्ष्मीराम गुरु दे घणिकर, भास्कर गोविंद
सदा, सत्यनारायण पुष्प' अतीत नवयुग प्रयागार २२५

उ
लखलाल श्री प्रेमसागर देहावी ५००
लखानिया, मुरारीलाल भारत मे फल तथा फूलों की बेटी
स ३ सिधल १०६२
लहर कभी नहीं कभी भी नहीं प्रगति प्र ४०० उ
भूठ वचन प्रगति प्र १०० उ
तासन, ईगन आदिप्यारों की सच्ची कहानी नेदानल
३५०

लाल, एम वी प्राणि विज्ञान दीपिका केंद्रीय हि ६००
लालचंद, वेंच अष्टांग हृदय सपूर्ण मोतीलाल १५००
लालधुमा दे मिश्र रामप्रिय लालधुमा
बालरामा यदुपालसिंह मेघदूतम (उत्तर मेघ) लोकभारती
६००

लालस, सीताराम राजस्थानी ब्याकरण कि घर, जो
३००

लालस, सीताराम दे करणीदानजी
लास्की, हेरोल्ड जे राजनीति के मूल तत्व एलाइड ११००
लिन, केनेथ एस प्रमरीकी समाज आत्माराम ७५०
लीलापर 'विद्योती' रसदान की काव्य-कला दीप प्र
२५०

लुवा, राममूर्ति मनोविज्ञान के क्षेत्र हि समि ७५०
लुई, थियरे योवन की आधी हिंद वा (पा) २०० उ
लूथरा हरीसिंह, १६००- श्री अनुभूति प्रकाश हरिसिंह
लूथरा, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, जे ६ राजरी गाडन, नई
दिल्ली १५ ६००

लूनिया, बनबारीलाल नयूराम, १६१७- प्राचीन भारत का
राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, पुरातन प्रस्तरकाल से
सन् १२०० तक मानकचंद

प्राचीन भारतीय सत्कृति लक्ष्मी ना १५००
लखेरवारसिंह सांख्यनिक परिभाषायें तथा आशिक समीकरण
भा भवन १७५

लेवी तथा राधा प्रमरीकी राजनैतिक प्रक्रिया आत्माराम
७५०

लोकमणि मिश्र नवरस रंग सपा हरिमोहन मालवीय
हि सा सम्मे

लोडा, बल्ल्याणमल तथा विष्णुकांत शास्त्री बाब भुवद गुप्त
एक सन्धानन बाबू बाल मुकूंद गुप्त धनवाचिकी ममारोह
समिति, बनबत्ता बिनरक. स्रमिताम, क २०००

लोन धनी मुहम्मद परती का स्वर्ग एकके १०० बर
लोहर, रामनारायण दे महेशाचंद

लो, भास्करानंद भारतीय ऋतुविज्ञान हि समि
४५०

लाहिया राममनोहर, १६१०- जतिवरण नवहिंद १००
धर्म पर एक दृष्टि नवहिंद ०४०

नरम और गरम पप नवहिंद ०६०

निजी और सांख्यनिक क्षेत्र नवहिंद ०६०

निराशा के नक्षत्रिय नवहिंद ०७०

भारत, चीन और उत्तरी सीमाएं, नवहिंद २०००

भापा नवहिंद १०००

सर्वकारी, मंडी और कुजात गांधीवादी नवहिंद ०८०

हिंदू और मुसलमान नवहिंद ०७५

वगाली सिंह दस एकाकी मोतीलाल ३००

वद्योपाध्याय प्रणवजुमार नरक की प्राति म में पार्वती
३०० वा

वद्योपाध्याय, मार्गिक स्वयंसिद्धा गुणोष वा (पा) १००
उ

वद्योपाध्याय, विभूतिभूषण दूरतर हि प्रचा पु १००

वचनदेवकुमार १६३८- ईहामूग जयसिंह ३५०

चितन के धागे नावट्टी ४००

वट्टक द वेदप्रकाश 'वट्टक'

वत्स द राकेय वत्स.

वत्स्य, मतराम अच्छा नागरिक नेदानल १२५

अच्छी कहानिया रामप्रसाद ०८६

ज्ञानभारती २ भा रामप्रसाद भा १ १२१, भा २
१५१

यालभारती भा २ रामप्रसाद ०७५

वर दे पाठक, दानवहादुर 'वर'.

वररवि निररत समुच्चय सपा मुधिठिर मोमासक भा
प्राप्य ५००

वररकर, मामा अनागिन का भाग्य विद्या प्र. म ४५०
उ

बुलदेवी विद्या प्र. म ८०० उ

द्वदासी विद्या प्र म ४५० उ

धरती की धूल विद्या प्र म ५०० उ

नाश का विनाश सस्ता ३०० ना

सत्यासी का विवाह विद्या प्र म ०० ना

वर्णवाल, एम एल होमोपैथिक म इस्सन एम एल बुक

वर्णवाल, एम एल दे हैनिमन गहाराभा

वर्मा, प्रतोत्रजुमार प्रारभिक समाज दर्शन मोतीलाल

४००

भारतीय तर्कशास्त्र तथा ज्ञानशास्त्र मोतीलाल २००

वर्मा, ईश्वरप्रसाद वाघरी इतिज्ञान अनिल प्र म

वर्मा, रमिला पढ़ो, हसी और शांती आत्माराम १००

अथ

वर्मा, उषा माध्य एशिया के सरोट्टी अभिनेत्रों में जीवन.

मोतीलाल ३००

मिठी की दीवार धार्मी क

वर्मा, ए के सशिल सामान्य दर्शन मोतीलाल ४५०

वर्मा, ए वी भारतीय चित्रकला का इतिहास प्रकाश बुक

१४००

वर्मा, शानि स्वातन्त्र्योत्तर हिंदी उगण्यात रामचंद

१०००

वर्मा, कातिक्रीडाल 'बकुम' जाग जाग सैनिक महान, वर्मा व
२०० का
वर्मा, क्रिकेटोररण दे कालिदास
वर्मा, कृष्णचन्द्र रीनियुगीन काव्य पु म, इ १५००
—तथा पनधानद (सटीक) रवींद्र प्र ग्वा १०००
वर्मा के एन राजनीतिक निबंध सशो स २ रस्तोपी
—तथा एन सी तिन्हा भारतवर्ष का भूगोल जबलपुर प्र
गु २५०
—तथा यू के सक्सेना प्रायोगिक भूगोल के मूल तत्व
जबलपुर प्र गु १५०
साधारण एव प्राकृतिक भूगोल जबलपुर प्र गु २५०
वर्मा, केसवचन्द्र, तथा प्राधुनिक हिंदी हास्य व्याय स २ भा
ज्ञानपीठ
वर्मा, गजानन बारहमासा कि घर, जो ४०० का
सोनी निपजं रेल मे कि घर, जो ४०० का
वर्मा गोपीचंद्र तथा कृष्णमुरारीलाल श्रीवास्तव विश्व का
इतिहास, कल्याणमल ३००
वर्मा, ताराचंद्र जय जवान विन्मय २५०
महान नेहरू विन्मय २५०
वर्मा, दोनानाथ विश्व राजनीति का इतिहास, १८७१
१६१८ दि पु स = ००
वर्मा, देवधरोप्रसाद भारतीय दंड संहिता पहूज १२००
वर्मा, धनजय, १६३५- निराला, काव्य और व्यक्तित्व स
र विद्या प्र म १०००
वर्मा, धीरेंद्र, १८६७- तथा (प्रधान) तथा अन्य हिंदी
साहित्य कोण भा १ पारिभाषिक शब्दावली स २
२५००, भा २ नामवाचो सन्दावली स. १ २०००
ज्ञानमंडल
वर्मा, नरेंद्र प्राधुनिक निबंध समीक्षा सशो २७५
वर्मा निर्बंधस्वरूप, १६३३- युग युगो मे दिल्ती मार्य मुक
वर्मा निर्मल १६२६- जलती भाडी राजकमल क
वे दिन राजकमान उ
वर्मा, निहालचंद्र बनते बिगडन सदभ हि प्रचा पु = ००
उ
वर्मा, परमेश्वरदीन तथा बन्नीविमान विद्यार्थी महाकवि
जायसी, व्यक्तित्व एव कृतित्व नवयुग पु म
महाकवि मूरदास, कृतिया और भक्ता नवयुग पु म
वर्मा, परिपूर्णानंद, १६०७- भारतहत्या और वासना के
प्रपराय सा नि, का ६०० शोध
प्रतीक शासन हि समि १०००
मरुपट का मुर्दा सा नि, का १५० उ
वर्मा, प्रबालीलाल मट्टा या छाछ के उपयोग स २
दयामनुर १००
वर्मा, फ़ारदबसहान कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोसाइड
केंद्रीय हि
भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था केंद्रीय हि ४८५
वर्मा, भगवतीचरण, १६०३- भूने बिसरे चिन राजकमल
१३००. उ

ये सात और हम राधाकृष्ण
साहित्य की मान्यतामें हिंदू एकेडेमी ४५०
वर्मा, मनोहर डा चम्पक और मचलू राज सा मका
२५० वष
साली साहित्य की शारी कृष्णा व ३५० क
हम सब एक हैं प्रभात पत्रि १२५ वष
वर्मा मनोहर दे वोहरा, जगदीश
वर्मा माहूदेवी सप्तवण लोभभारती ६०० का
वर्मा मुकुंदस्वरूप नय्य चिकित्सा विज्ञान २ भा चौखवा
१६००
वीसवी शताब्दी की औपनिवेश्य चोखवा ८००
सचित्र गभरसा तथा शिशुपरिपालन चौखवा ४५०
वर्मा मुकुटबिहारी पत्राव कसरी लाला साजपतराय सस्ता
१०० जी
वर्मा गुन्डाला प्रसिद्धन विद्यालयो म अग्नेजी सिक्षण विवि
चिनोर ४००
वर्मा, रजन मिस डडा ज्ञानपीठ २०० का
वर्मा, रमेश कफ परीक्षा मोतीलाल १२५
वर्मा, रमेश दे फेडरीनके उ
वर्मा रविशेखर, १६३१- मजिल दूर नहीं प्रपोलो ४००
उ
वर्मा, रवींद्रसहाय पार्वत्य साहित्यलोचन और हिंदी पर
उत्तका प्रभाव विश्वविद्यालय ७५०
वर्मा, राजनारायण राही के सपने राज प्र उ
वर्मा, रामकुमार, १६०५- कृतिका चद्रलोक ६०० का
गजरे तारो वाले कि महल = ०० का
साहित्य चिंतन वि महल ६५०
वर्मा, रामचंद्र, १८८६ ?- दांड और धर्म शब्द लोक
३००
वर्मा लक्ष्मीकांत एक कर्ण हुई त्रिदगी एक बटा हुमा बागज
नेशनल ४५०
नये प्रतिमान, पुराने निरूप भा ज्ञानपीठ
—तथा हिंदी सादोलन हि सा अग्ने
वर्मा, लक्ष्मीदेवी 'चंद्रिका' टूटते सपने गगला क
सिंदूर की लाज गाला क
वर्मा, लक्ष्मीविहारीलाल शिक्षा-मनोविज्ञान अशोक प्र म
३००
शिक्षा सिद्धांत अशोक प्र म ३००
वर्मा, विश्वनाथप्रसाद, १६२५- पार्वत्य राजनीतिक विचार-
धारा का इतिहास हि समि १४००
वर्मा, वृंदावनलाल, १८८८- महारानी दुगावती मयूर. उ
वर्मा, वृंदावन, १६२५- सत कवि रजनव सम्प्रदाय और
साहित्य राज प्राच्यविद्या ७२५
वर्मा व्रजेश्वर, प्रधान तथा भारतीय साहित्य, सुजनात्मक
अध्ययन विनोद
—तथा न की राजयोगतन, तथा भारतीय
शाखा का भाषातत्वीय अध्ययन भा १ विनोद = ००
वर्मा, चारदाप्रसाद शिक्षा मनोविज्ञान एव वात बुनियादी

मनाविज्ञान लोचनेतरा
 वमा गुमा हसा ताक कथाए हि भवन २०० वप्र
 वर्मा, क्यामलाकान भविनर निवधावनी चोतवा ८५०
 वमा श्रीहृत्पन्नप्रसाद तथा विवेकुमार उपाध्याय धामुनिक
 हिरो निवध जवनपुर प्र गु २५०
 वमा धीराम फिटर मकैनिक देहाती ८२५
 फिन्गि शाप पन्चिम देहाती १०००
 वमा शतीशवहादुर १८८२ सहर शीर लपटें शशोक प्र,
 फ ३०० का
 वमा रम्यकाम १८२६ जनकवि दिनकर भा प्र दि
 महाकवि पन भा प्र दि
 महाकवि प्रसाद भा प्र, दि
 युगशक्ति तुलसी भा प्र दि
 वमा सत्रदानद अत्रय कहानी हि प्रचा पु २०० उ
 वमा, सावित्रीदेवी एक पापपट वट के पन आत्माराम
 ३००
 घर की सहोती हि प्रचा पु (पा) १००
 वर्मा, मुनन प्रारम्भिक भूगोल चौखवा २५०
 वर्मा, सुरेन्द्रनाथ वदिना नयामल ४०० का
 वमा सुरेशकुमार रामकुमार वमा की नाटयकला साक्षरतेना
 ५००
 वर्मा, हुकुमचन्द्र दुग्ग मदिन नवयुग प्रभागा १०० ए.
 वर्मफोल्ड, ट्यू बी साहित्य का मूल्याकन अनु रामचन्द्र
 तिवारी विश्वविद्यालय ३००
 वशिष्ठ, एस एस द भानद पी एन
 वशिष्ठ रामस्वरूप मानव भूगोल वि घर, स्वा १०००
 वसु, विवेन्द्रनाथ मंगेठ प्रबन्धिका २ भा मानीलात ३००
 बहूपी द गोवर्द्धन सिद्ध बहूपी
 वाइल्ड आस्कर १८८१ १६०० मुन्शी राजकुमार शीर अन्व
 कहानिया अनु नदनाल जैन विध्यावत १०० वप्र
 वागीप, वदानद वद आत्मानद जोवन ज्योति हूरयाणा
 १०००
 वाचस्पति जवन अन्तरिदा हिंद पा (पा) १०० उ
 वाचाल बालनर पदावली मनु ०५०
 वाजपेयी, प्रबन्धप्रसाद टैपौर शीर निराला धनुषधान १२००
 वाजपेयी, त्रिगोरीशाय १८६८- आचाय द्विवेदी शीर उनक
 सुगी-मायी जिन्मा ३००
 वाजपेयी, कैलाश मन्दात भा ज्ञानगोठ ३०० का
 वाजपेयी नन्दकुमार, १६०६- कवि निराला वाणी वितान
 १०००
 प्रकीर्णता धनुषधान ७५० नि
 राष्ट्रिय साहित्य तथा मय निवध विद्या म, वा १०००
 शक्ति शीर साहित्य सपा रामाधार गर्मी धनुषधान
 ३०००
 —तथा मय साहित्यिक निवध साक्षरतेना
 —तथा शूरमाय २ भा म ४ भा प्र गमा १२५०
 (प्र)
 वाजपेयी, निमना गाम्भीर्य भायें मुक क

वाजपेयी, पुरोधतम मुरदास भ्रमर-गीत तार हि प्र, वा
 ४००
 वाजपेयी, प्रकाश हिंदी के साहित्यिक उपन्यास नद स ५००
 वाजपेयी, मगवतीप्रसाद, १८६६- अधिकार का प्रश्न भा
 सा म ३००
 अमृत स्वर्ण भा य नि ६०० उ
 एच स्वर धामु का प्रभात प्र ५०० उ
 छलना प्रभात प्र ३०० भा
 छाटे साहब समाग ६०० उ
 दूटे वधन हिंद पा (पा) १०० उ
 मुन्ने मालूम न पा सुवोष पा (पा) १०० उ
 मेरी श्रेष्ठ कहानिया प्रत्युष ५५०
 लोकप्रिय कहानिया प्रवीर ४००
 विवधनी बाल सा म ४५० उ
 स्वप्ना की गोद भा य नि ६०० उ
 होटल का बमरा भा य नि ३५० व
 वाजपेयी राघवेंद्र वाहस्पत्य राज्य व्यवस्था चोतवा
 वाजपेयी, विद्यानास्कर देहरी के बाहर प्रगति प्र ११०
 नि
 साहित्य प्रगति प्र ३०० उ
 वाजपेयी, विगिनविहारी मेवाड परिचय सा सस्थान, राज
 ०५०
 वाजपेयी, घातिकुमारी व्यवधान, विलरी भास निहारी प्रीठ.
 लोचभारती उ
 वाजपेयी, हूरनामप्रसाद एक धोर प्रवीर ६०० उ
 जिदगी एक पाव, एक फूल प्रभात प्र १०००
 कवन परियों का नाच प्रवीर ४०० व
 वाजपेयी, हरिवृत्त प्रश्न धोर गृय नवयुग प्रदाया २००
 वाजपेयी यह भी दे वाजपेयी (उ
 वा-स्वायन, सच्चिदानन्द हीरानन्द 'भ्रमर', १९११- प्रहृत
 फूल धोर प्रत्य कहानिया सरस्व प्रे ३५०
 जिन्मा भा शीर अन्व कहानिया सरस्व प्रे
 पूर्वा राजपाल ७०० का
 सुनहने बीवाल अन्तर १२०० का
 हिंदी साहित्य एक धामुनिक परिदृश्य साधकृष्ण
 —सपा तार सप्तक भा ज्ञानपीठ ७०० का
 —तथा मय, सपा भारतीय साहित्य के स्थायी स्वर राज-
 भमल
 वाजपेयी, प्राणनाथ, १९१८- भारत के महान् शक्ति म २
 राजनाथ
 वाजपेयी, प्रकाश भाया शीर साहित्य हि प्रचा पु ५००
 वाष्पेंय सप्तमीशाय, १९१८ धामुनिक कहानी का परि-
 पायें भा भवन, ६ ४५०
 धामुनिक हिंदी साहित्य की मूर्धन्य साभारती १२००
 पत्थिमी धातीवना सास्त्र हि मति ८५०
 भारतीय धायें भारायें हि. मति १०५०
 भारतेंदु हस्तिचन्द्र मगा म ३ भा भवा, ६ ७५०
 —तथा निवध-नवनीत स ४ विश्वविद्यालय ४००

वालीया दे मशपात 'वालीया'
 वाद, एस एन तथा झर पी साह धर्म प्रथ, प्राचीन तथा
 नवीन व्यवस्थान के प्रथो का हिंदी अनुवाद सत पोलुध
 प्रकाशन, इनाहावाद
 वाशिष्ठ, राम देव विदेश की सचिय कहानिया आत्मराम
 १५० वप्र
 वासुदेवता, पो भाचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और
 कृतिव्य युगवाणी प्र १२००
 वासुदेव तथा विश्वनाथप्रसाद साहित्य के विश्लेषण भा
 भवन
 —टीका सत्यहरिचन्द्र नाटक भा भवन १६०
 वासुदेवनन्दन प्रसाद भाषानिक हिंदी व्याकरण और रचना
 भा भवन ५५०
 नई कविता कल्याणमल ६००
 यशोधरा एक समोसा भा भवन ४५०
 साहित्य का विश्लेषण भा भवन ६००
 —तथा कर्मलेश कुमारी, सया नई कविता कल्याणमल
 ६००
 वासुदेवधारण, अनु भगवद्गीता मूल तथा हिंदी टीका मोती
 माल ६००
 वासुदेवधारण दे मालवीय, मदनमोहन
 वासुदेवा, सी एस भवनमाल रत्न भार्मी १७५
 विन्दु दे नारायणप्रसाद विन्दु
 विकल दे गौड, भोगदत्त शर्मा 'विकल'
 विकल दे दिण्णदत्त 'विकल'
 विकल दे शर्मा, ब्रह्मनारायण 'विकल'
 विचित्र दे नारदमुनि 'विचित्र'
 विचित्र पुष्पमालाल, १६४३- 'प्रसाद' और उनकी लहर
 रीगल
 प्रसाद वा स्वदगुप्त, विवेचनात्मक तथा व्याख्यात्मक
 अध्ययन रीगल
 विजय दे रमदाचंद्र विजय
 विजय दे राठीर विजयबहादुरसिंह विजय'
 विजय, भारसी रेडियो ट्रांजिस्टर गाइड दहाती
 १०५०
 रेडियो व ट्रांजिस्टर सर्किट्स देहली १२७५
 विजयकुमार माहिलामालाचन अशोक प्र ३०० भा
 —तथा कल्याणदत्त शर्मा अशोक निवध सागर अशोक प्र.
 ५००
 विजय निर्वाण मेरा भारत दत्त महान कल्याणमल १२५
 का
 विजयपाल सिंह अर्थशास्त्र सरल अध्ययन राजहंस प्र. म
 ४५०
 बुध-जीविग सरल अध्ययन राजहंस प्र म
 ६७५
 मुद्रा तथा बैंकिंग राजहंस प्र म ३७५
 विजयप्रसाद सायरी टी रीनीनिया हि प्रचा पु (पा)
 १००

विजयप्रताप सिंह भारत मे सामुदायिक विकास रा बेनी-
 प्रसाद १०००
 विजयबहादुर सिंह काम कुज महासक्ति ५००
 विजयमोहन सिंह, १६४२- तथा मधुकरसिंह सया '६० के
 बाद को कहानियाँ नया लेखक प्र ७०० व
 विजयलक्ष्मी दत्त के प्रहरी हिंद पा (पा) १००
 विजयवर्गीय, रामगोपाल अमिसार निशा राज सा यवा
 २२५
 विजय सेवक दे गुप्त छेदीमाल
 विजयेंद्रपाल सिंह अर्थशास्त्र के सिद्धान्त ससो स ६ नवयुग
 सा स, भा ५६२ से १०००
 वृहत् आर्थिक विश्लेषण नवयुग सा स, भा १४००
 राजकीय अर्थ प्रबंध के सिद्धान्त नवयुग सा स, भा
 ७५०
 लोक अर्थशास्त्र नवयुग सा स, भा ११३५
 —तथा एस एम शुक्ल मुद्रा चलन एवं अधिकीकरण ससो
 स १२ नवयुग सा स, भा ६३७
 मुद्रा बैंकिंग एवं राजस्व ससो स १२ नवयुग सा स,
 भा १०००
 विजयेंद्र स्नातक, १६१४- चिंतन के क्षण नेशनल
 ७००
 —सया कवीर राधाकृष्ण ६२५ भा
 विजयनारायण सिंह, १६३६- उर्वशी उपलब्धि और
 सीमा ज्ञानालोक
 दिनकर एक पुनर्मूल्यांकन परिमल ४००
 विद्यानंद विदेह, स्वामी उत्तम स्वभाव वेद सत्यान ०२०
 जीवन पायेय वेद सत्यान ०५०
 योग-सुरा वेद सत्यान ०२०
 विदेह गीतावती वेद सत्यान ०४०
 वेद व्याख्या ग्रंथ सप्तम पुष्प वेद सत्यान १५०
 वैदिक सायना वेद सत्यान ०५०
 शिव सक्त्प वेद सत्यान ०३०
 विद्याप्रकाश प्रयागमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री, एक
 जीवनी प्रमिल प्र म
 विद्याभूषण 'विभु' कोवाचली परिमल १५० वप्र
 गयन तथा परिमल २०० वप्र
 विद्यार्थी अनंतप्रसाद छपाग और छाड्या सूचना विभाग,
 उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
 विद्यार्थी गणेशदाकर कर्मवीर आत्मराम ३००
 नि
 गणेश शंकर विद्यार्थी के श्रेष्ठ निवध सया राधाकृष्ण
 आत्मराम
 विद्यार्थी, जगदीश विद्यापियो को दिन चया गोविंदराम
 वेद सोरम गोविंदराम
 हास्य क्लोद गोविंदराम
 विद्यार्थी, कट्टीविगल दे कर्मा, परमेश्वरदीन
 विद्यार्थी, भारतीय तथा अर्थ नीन बाल एकाकी नेशनल
 २००

विद्यार्थी, रामप्रसाद रावी १९११- नये नगर की बहानी
 कल्याणमन ३०० उ
 प्रबुद्ध सिद्धार्थ रामप्रसाद १६५
 विद्यार्थी, ललितप्रसाद भारतीय नगर राजकमल ३५०
 विद्यासागर शास्त्री अष्टोत्तरशतनाम मालिका भा प्राच्य
 ६००
 विष्णु, रामगोपाल अंतर्राष्ट्रीय कानून सरल अध्ययन
 राजहंस प्र म
 विनय महाभारत का आधुनिक हिंदी प्रबंध काल्यों पर
 प्रभाव समागं २०००
 विनयकुमार महाभारत पर आधुनिक हिंदी प्रबंध काव्यों पर
 प्रभाव समागं २०००
 —तथा मुखलीपर श्रौतारतक सपा मध्यकापीन काव्य भा
 भवन ५२५
 विनोबा दे भावे विनोबा
 विभव दे देवकीनदन विभव
 विभु दे विद्याभूषण विभु
 विमल, धर्मि डी प्रयोगात्मक वनस्पति विज्ञान राजहंस प्र
 म ४००
 प्राणी शास्त्र सरल अध्ययन राजहंस प्र म ८५०
 प्रायोगिक जंतु विज्ञान राजहंस प्र म ४००
 वनस्पति शास्त्र सरल अध्ययन राजहंस प्र म ५२५
 —तथा बी पी गोयल प्राणी शास्त्र राजहंस प्र म
 ३७५
 —तथा पी डी गुप्ता वनस्पति शास्त्र राजहंस प्र म
 ३७५
 विमलर एक बीमार लड़की विश्वविद्यालय २०० उ
 विमलकुमार कामायनी चिंतन भा सा म १२००
 विमल तथा ए गो महारो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
 और सामुदायिक विरासत लक्ष्मी ना ८५०
 विद्योगी दे सोनापर विद्योगी
 विद्योगी हरि गांधीजी और उनके सपने मरना १००
 —टीना विनय पत्रिका पु स, भा १५०
 विष्णु दे सुवल परशुराम विष्णु
 विरागी तथा राजसभा हिंदी व्याकरण व अर्पणित म ३
 रामप्रसाद २००
 विरागी, क्यामविगी निबंध प्रकाश अमोज प्र म २००
 नि
 विनयगण टेनेगी काब के विनोने अनु अमिताम. राजपाव
 ६०० ना
 विवेकानंद स्वामी १८६३ १९०२ आत्मनरव थीगम-
 कृष्ण १३०
 ज्ञानयोग पर प्रवचन श्रीरामकृष्ण ०६०
 धर्मनरव श्रीरामकृष्ण १७०
 नारद भक्तिगूत्र एवं भक्तिविषयक प्रवचन और आश्यान
 श्रीरामकृष्ण १००
 भगवान बुद्ध का गगार की गंगा एवं अन्य ध्यास्यान और
 प्रवचन श्रीरामकृष्ण

भगवान श्रीकृष्ण और भगवद्गीता श्रीरामकृष्ण.
 १७०
 भारत का ऐतिहासिक रूप विकास एवं अन्य प्रबंध श्रीराम-
 कृष्ण १३०
 विवेकानंद सचयन श्रीरामकृष्ण ७५०
 विवेकानंद साहित्य १० ख अर्द्धत आश्रम ६०० (प्र)
 वेदात श्रीरामकृष्ण २००
 सूत्रिया एवं सुभाषित श्रीरामकृष्ण (पा) १००
 विद्या दे गौड पतराम विद्याद
 विद्वाने, हरसरनसिंह मोती का पेठ एमके १०० बप्र
 विद्वानर धरण, १९३६- कविवर पत और उनका टापर
 अमोज प्र २५०
 रासपचाचार्या और भगवद्गीता (नदरास) अमोज प्र
 ३५०
 विद्वानर 'अरुण' दे मिथ, भगवत्स्वरूप
 विद्वानर 'अरुण'. दे चर्मा अत्रिकापरण
 विद्वानर 'मानव' साकेत की टीना लोकभारती
 १२५०
 विद्वानाथ गीतापन नवयुग प्र कु ३००
 —तथा हिंदी साहित्य पिछला दशक, १९५२-६२ मूर्ध
 प्र म ७००
 विद्वानाथ प्रसाद दे वासुदेव
 विद्वानाथ सिंह तथा रामदेवरनाथ तिवारी, मया ललित
 निबंध स ३ अर्चना प्र, भा ३००
 विद्वानेहनकुमार सिंह १९०२- मुक्ता की लड़ी भा भवन
 २०० क
 विद्वानेवर, आचार्य द यास्क
 विद्वानेवरदयाल देवार परिचय हि समि ५५०
 श्री रामलीला नाटक देहाती ७५०
 विष्णुनाथ शास्त्री दे लोहा, कल्याणमल
 विष्णुतीर्थ स्वामी अध्यात्म विरासत विज्ञान म १५०
 धारम प्रबोध विज्ञान म १००
 उपनिषद-परिचय विज्ञान म ६००
 पानजल योग दर्शन विज्ञान म १५०
 प्राणतत्व विज्ञान म १००
 वैदिक योग परिचय विज्ञान म ३५०
 अक्षिपान म ३ विज्ञान म १५०
 साधन-मनेन स २ विज्ञान म ७५०
 विष्णुतीर्थ, स्वामी दे दण्डाचार्य
 विष्णुदत्त बरिगल एनीमन हसब्रिहरी दहाती १२००
 विष्णुदत्त राणे, १९६१- तुलनात्मक साहि पसासन या
 मदन, दे
 विष्णुदत्त बिहान' अनापी बहानिया प्रारमाराम १२५ बप्र
 इमान बना प्रारमाराम १०० बप्र
 राग निररी की बहानिया भा मारगम १५० बप्र
 विष्णु प्रसाकर, १९१२- कृष्ण कण्ड कृष्ण रसाए साना
 ३५० सत्य
 स्वप्नमयी हिंद पा (पा) १००. द.

हृदय निर्भर दहकती भट्टी नेनातल ५५० या
 —सपा अभियान और याथाएं विद्वविद्यालय २५०
 नीलो मील सरता ३५०
 विष्णुस्वरूप अन्न तन् उत्पन्न प्र ४०० क तथा का
 नया साहित्य कुछ पहले उत्पन्न प्र ३५०
 बीर दे रामप्रवरा 'बीर'
 बीरकेरवप्रसाद सिंह नागरिक शास्त्र के सिद्धांत सरल ग्रन्थ
 यन कमल प्र २२५
 भारत का सचिवालय सरल ग्रन्थयन कमल प्र १५०
 २२५
 भारतीय सचिवालय और नागरिक जीवन, सरल ग्रन्थयन
 कमल प्र २२५
 राजनीति विज्ञान सरल ग्रन्थयन कमल प्र ३००
 विद्व के सचिवालय सरल ग्रन्थयन कमल प्र ३००
 बीरदेव 'बीर' हलचल भा भवन १५० ना
 बीरभानु सिंह प्रताप अतर्द्ध नवयुग प्रयागार ३५०
 उ
 सभा के प्रांशु नवयुग प्रयागार ४०० उ
 बीरदेवभारत कागज के पुन हिंद पा (पा) १०० हा
 बीरदेव सिंह, १९३४- हिंदी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास
 १६००-१६५० हि सा परि
 बृहस्पति, जेरी अमरीका में सहायिता मग प्र ३००
 वृत्तवन्दना, १९३३-१९३३ वृत्त सतसई टीका श्रीकृष्ण
 मुक्त स ४ पु स, वा का
 वैकटेश्वरन, एन कौशल वैभव रा वैनीप्रसाद २००
 वैभव, कान एल आधुनिक लीकतय नागल ३००
 वद विमल, १९३३ तुफान और किनासा हि प्रचा पु
 (पा) १००
 वदप्रकाश दे खेमाणी, आनदप्रकाश
 वदप्रकाश टोरी महापुत्र्य नवीनतम १००० उ
 वदप्रकाश 'वदुक', १९३२- विविधा विद्वविद्यालय ४००
 का
 वेदप्रकाश सिंह हिंद चीन दि पु स ११००
 वेदराजप्रसाद बुद्ध तीवती महाबोध ०७५
 वेदवाणीक, वदानद महर्षि दयानंद का जीवन हरयाणा
 १२०
 वेदव्रत शास्त्री आशादा के व्यापार हरयाणा ०६०
 वद विमल हरयाणा २००
 वदानद स्वामी विरजानंद चरित हरयाणा १५
 येनिश एन ज प्रविष्टान प्रनात बुक १०० धम
 वेवर, मत्स्य भारतीय साहित्य का इतिहास वि महल
 मत्स्य, एच जो डा भाषा का द्वीप नागल ३५०
 वेंच दे शमा हनुमानप्रसाद वेंच
 वेंच, हरिवरण १९२४ स्वप्न-सागर भा सा. सदन
 ६०० उ
 वेंचन प्रभूत सागर देहाती १०००
 रसरज मजोराधि, सपुण ५ मा देहाती १०००
 वेंचनाय वद सनम अमरावति १५०

वेंचनाय शास्त्री, १९१५- दयानंद सिद्धांत प्रकाश सार्व-
 देशिक ग्रंथ
 वैदिक विज्ञान विमर्श सार्वदेशिक ग्रंथ
 वेंरागी वनजय रजनीयभा अनु प्रतिभा प्रशवाल नेशनल
 २०० ना
 वेंरागी बालकवि ललकार सुबोध पा (पा) १०० का
 वेंसापायन, विद्वनाय अमर राहीद अद्वैतेश्वर आजाद लाजपत
 स्मारक
 वैश्य, उमेदीनाल श्रुतुए और स्वास्थ्य ध्यामसुंदर ०६२
 वैश्य, गापत्री नयी कविता में सौंदर्य बोध रोशनलाल ४५०
 वैश्य चमनप्रकाश कृषि भौतिकी तथा जलवायु विज्ञान सरल
 ग्रन्थयन राजहंस प्र म ५२५
 भौतिक शास्त्र में नयी और कैसे राजहंस प्र म १८८
 वैश्य चमनप्रकाश दे गर्ग, शांतिप्रकाश
 वैश्य तुलसीराम भास्कर, १९०२- कृष्ण कारे हैं साकेत
 ४०० का
 तुलसी के दल साकेत ६०० खड का
 वैश्य रूपलाल दशमूख (सचित्र) धवतरि ०५०
 वोहरा जगदीश डेस्को पर खुदे नाम छुप्या प्र ३०० क
 —तथा मनोहर वर्मा सपा आनासागर की सीढियों पर
 कृष्णा प्र ५००
 वोहरा जगदीश सिंह तुफान के दिवे वोहरा प्र उ
 व्यक्तित्व हृदय, १९०८ नये जान की नयी कथाएं ग्रंथ बुक
 २००
 पाक हमलावरो से भारत की सलकार कल्याणमल ४००
 प्राण दे गये नाम कर गये ना सा म १५० बप्र
 यज्ञ का घोडा व अयो की आल जबलपुर प्र मू १०० ना
 राण वाकुरा मा सा म १५० बप्र
 ताल बहादुर शास्त्री रामप्रसाद ३५०
 शास्त्री जो दूसरी बी नजर में आये बुक ३५०
 हमारे नाट्यकार रामप्रसाद
 व्यास चुनाव कानून १९६२ नृना १००
 प्राहुत पैगमर २ भा मोतीलाल १००
 व्यास, कृष्णानंद वेदाम' गरीठा के गदीउद वधाम ०५० गात
 तरागा हृषा दित वेमास १०० गीत
 प्राय वार वेधाम (पा) १००
 डा बीर विमल्य पर वेधाम
 बुन्नी फान वि भा १५५
 उम स की फा १ भा वधान ६०० (प्र) ५
 वधाम बीन वधाम १० गात
 भीनी भीना भाय गधि वधाम १०० गात
 सम्मोहन राजन वधाम १००
 हरदोल वधाम १०० ना
 शास्त्र व्याकरण वधाम (पा) १०० गीत
 व्यास गोसातप्रसाद १९१६ पत्नी की परमदर माने
 सुबोध पा (पा) १०० का
 राण जग और व्यास भा सा म ५०० का
 सलवार चली, सलवार चली सुबोध पा का

—सपा हास्य कवि सम्मेलन सुबोध पा (पा) १०० का
हिंदी व्यास विनोद भा सा म ८०० का
व्यास, भेषालाभ साक सचारे विद्याचल १२५
व्यास, भोलासकर १६२५ गद्यबलनरी चोलवा २५०
भारतीय साहित्य शास्त्र श्रीर काव्यालकार चोलदा ८००
व्यास, मुरलीधर तथा मोहनलाल पुरोहित जूना जीवता चित्र-
राम राज सा शका ३७५
व्यास, मोहनलाल सपा राजस्थानी लोकगीत भा ६ सा
सस्थान राज २५०
—सपा सावलदान प्राशिया सपा राजस्थानी लोक गीत
भा ४ सा सस्थान, राज २५०
व्यास मोहनलाल दे सोलावत सौभाग्यसिंह
व्यास, रामनाथ परिकर दे अक्षर, रवीन्द्रनाथ
व्यास, रामनारायण समाज दशन तुलसी
व्यास, लक्ष्मीशंकर दे भारतेंदु हरिश्चंद्र
व्यास, लखनप्रसाद एक मुसाफिर एक दुनिया हि प्रचा पु
३००
भारत के महान प्रातिवारी गंगा जी
व्यास, विनोदशंकर उसमी स्मृतिया पु म वा २०० सस्म
दिन रात पु म वा २००
नक्षत्र लोक पु म वा २०० क
योरोपीय उपन्यास साहित्य पु म, वा २००
योरोपीय साहित्य पु म, वा २००
योरोपीय साहित्यार पु म वा ५००
—सपा मधुकर भा ३५ पु म वा ३०० (प्र) क
व्यास, प्रातिसुमार नानुराम, १६२१ सपायणकान्तिन
सरदृति सस्ता ०००
व्यास, शिवकुमार १६३६ प्रापुर्वेदीय द्रव्यगुण विज्ञान
मधुर प्र
व्यास, श्रीकांत धनु भादमी वी कहाती राजवान २५०
हमारी पृथ्वी सिंगा भा २५०
हवाई जहाज के आविष्कार राजपाल १५०
व्यास, शोभेश्वर रामा पुनाव बानन हिंदी म सारदा पु म
व्यास देव हिमालय का योगी योग नि ८०० जी
श्वेतरा, धारारानी तचिन प्रह विज्ञान भारतमाराम ८००

श

शंकर चौरंगी राजरमल ११००. उ
ये धनजाने राधागुण ७०० उ
योग वियोग राजरमल ६०० उ
शंकर राम कीरागना शंभुनाम उमग २५० वप्र
शंकर गुल्लानपुरी १६३८- धार्या की धार्यो गा बेंद्र,
दि ६५० उ
पंचर न मनस मुखोद पा उ
मै चापा नरु भा प्रथमाना वप्र.

मोती चमके धूल मे सा केंद्र, दि २५० का
यही हमारे गाव हैं नवचेतना १५०
लहू का रग एक है सा बेंद्र दि ३५० उ
विज्ञान और वैज्ञानिक अनुपम ०७५
संस्करणों के बीच निराला भा प्रथमाना ३००
सरल रामायण भा सा म २५० वप्र
सावरचाच्य सौंदर्य लहरी व्या स्वामी विष्णु तीर्थ ससो
२ व विज्ञान म ५००
शकरानंद स्वामी प्राकृतिक चिकित्सा बयो और वैसे
भाग्योदय ३००
स्वास्थ्य एव प्राणायाम भाग्योदय ३००
शमु दे अक्षय्यी शमुगण शमु'
शमुनाथ सिंह १६१७ लडित सेतु समकालीन प्र ५००
छायावाद-युग सरस्व म वा ७०० (वा
प्रयोगवाद और नयी कविता समकालीन प्र ६००
मूल्य और उपलब्धि मोतीलाल ५२५०
समान सेवा का क्षेत्र हि समि भा १ ८५०, भा २
६००
शर्मासिंह मनोहर, सपा डोला मारू रा दूहा म २
चिन्मय १०००
शक्तिदान कविता दे चिन्मयी
शक्तिपाल केवन, सपा पच्चीस श्रेष्ठ बहानिया सहस्र
समसाद हुसेन मनोविज्ञान म प्राथमिनी साक्ष्यकी
मोतीलाल ३५०
शरण बूढ़ी की बनी दिपाठी स २७५ उ
शरण दे दीनानाथ शरण'
शरण, भार एष कानाडा का शविषा नद अ २५०
शरण पी दे परमात्मा शरण
शरणप्रसाद उपवास घ भा सर्वे १२५ वि
शरत विद्या और लकीरे प्रा.नाराम ३०० क
शरद दे शोकार 'शरद'
शमा मानस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन नि महन
१०००
शर्मा, श्रविकाचरण तथा निरुधर शरण' विन्गी सनसई
सार प्राद वृ २७५
शर्मा भानदनारायण, १६३०- गुणविन्मयीभा भा
भवन ४००
शर्मा, भानदशाकर दिव्य पुष्प नेहू भगवती शर्मा, ८ मोहन
करली नई सिंगी २ ६००
शर्मा, उदितकुमार धनु धर्म चानक और उनर उपयो
वैदीय हि ३७५
शर्मा, एन एन कृष्णाभ्युदय—तात्रनाथ मोतीलाल ३००
शैरव विज्ञान—वैद्यनाथ मोतीलाल ३००
शर्मा, एम पी तथा पी डी कीर्ति हासर मेरुडी नागरिक
शास्त्र स ३ राधप्रसाद भा १ ३०० भा २ ५००
शर्मा एम डी दे पाठन, मुरारिनाद
शर्मा, एन भार मानव इतिहास की स्परेगा लक्ष्मी ना
८००

धर्मा, एस के बाल-नाटक सग्रह सा नि, व
 में चुनाव लड़ना सा नि, व
 धर्मा, मोनारबद्र खडो बोली का स्वरूप रूपकमल ५००
 धर्मा, मोनारनाथ हिंदी निबंध का विकास अनुसंधान १६००
 धर्मा, बोमप्रकाश एक हृदय हो भारतवामी इंटर
 यूनि ४००
 रोमिकालोनी भलकार-साहित्य का शास्त्रीय विवेचन हि
 सा स २५०० बोध
 सत साहित्य को लौकिक पृष्ठभूमि हिंदु एकेडेमी
 संस्कृत भलकारकोश वामुदेव
 सरल निबंध और रचना हि सा स १७५
 सेना की गौरव गाथा इंटर यूनि १२५
 —सारा ईट निमाण मे विज्ञान कौंसिल १००
 धर्मा, कन्द्यानाल सात एकाकी इच्छा व ३००
 धर्मा, कामेश्वर, १९२६- हिंदी की समस्याएँ नाबल्दी
 धर्मा, कृष्णवद 'भिक्षु', १९२४- अस्तंगता भा ज्ञानपीठ
 ६०० उ
 देवती. हि प्रवा पु ५००. उ
 धर्मा, वृष्णदेव रस छंद भलकार अशोक प्र १५०
 विद्यापति पदावली सटीक अशोक प्र ५००
 विश्वास का बल, एक अध्ययन हि सा स ३५०
 धर्मा, वेदार उपन्यासकार अनेप, शैलर एक जीवनी के सदमं
 मे रोचनता ४००
 धर्मा, केदारनाथ काशी दर्शन चौखवा ०३५
 राष्ट्रमाया सरल हिंदी व्याकरण चौखवा १२५
 —सपा श्रीकोप, हिंदी-संस्कृत-कोप चौखवा १२५
 धर्मा, कैनासनाथ तथा शम्भुरतन त्रिपाठी पारिवारिक समाज-
 शास्त्र कि महल ५००
 धर्मा, गजानंद रूप रसिभ रा देवीप्रसाद ३००. ए
 धर्मा, गणेशप्रसाद राय प्रवीण कला प्र, ६ ५००
 धर्मा, गोपालनाथ 'प्राणेश' प्राणेश पुष्पाञ्जलि शारदादेवी
 धर्मा, फीरोजाबाद जि धाररा
 धर्मा, गिरिधारीलाल, सपा राजस्थानी दोहावली भा १
 सा. सस्थान, राज २५०
 —सपा राजस्थानी भील गीत. भा २-३ सा सस्थान, राज
 ३-५० (प्र)
 —सपा सावजनान धारिया, सपा प्राचीन राजस्थानी गीत
 भा १-२ सा सस्थान, राज २५० (प्र)
 धर्मा, गदरत प्रायोगिक भौतिक विज्ञान सगी स ०. राजहस
 प्र म ३७५ से ४५०
 धर्मा, गेंदालाल ब्रजभाषा एव लडो बोली क व्याकरण का
 तुलनात्मक अध्ययन प्र प्रतिष्ठान १०००
 धर्मा, गोनीनाथ भारत का संपूर्ण इतिहास शिवलाल ७००
 धर्मा, गोवर्द्धन प्राकृत और भ्रमप्र रा का डिगल-साहित्य पर
 प्रभाव अनुसंधान. १६००
 —सपा प्राचीन राजस्थानी गीत. भा ६ ८ सा सस्थान,
 राज भा ६ २७५, भा ६ २७५
 धर्मा, गोविंद 'रजनीक'. हिंदी काव्य, पिछला दशक. मंगल

धर्मा, गोविंदराम विद्यापति की काव्य प्रतीमा नवयुग प्र ७५०
 धर्मा चंद्रशेखर प्रायोगिक रसायन भा भवन २५०
 समुच्चयता, समीकरण एव आकसोकरण लघ्वीकरण
 भा भवन १२५
 सरल प्रायोगिक रसायन भा भवन २००
 सरल सामान्य विज्ञान भा भवन ५००
 धर्मा, चंद्रशेखर तथा राधेश्याम ठाकुर प्रवेसिका सामान्य
 विज्ञान भा भवन भा १ ३२५, भा २ ३५०, भा
 ३ २५० संपूर्ण ७५०
 धर्मा, चंद्रशेखर दे ठाकुर, बब्रुएलान
 धर्मा चक्रधर, सपा हिंदी साहित्य सरोवर चौखवा २५०
 धर्मा, चेतनस्वरूप द मेहरोत्रा, पी सी
 धर्मा छोग्लाल जाति प्रवृत्त, सगी स हिंदू धर्म ८२५
 नोमुस्लिम जाति निर्णय हिंदू धर्म ८२५
 ब्राह्मण निर्णय हिंदू धर्म १५००
 सत्त्वलडो जाति निर्णय हिंदू धर्म भा १, भा २ ८२५
 धर्मा जगदीश नल दमयती देहाती १२५ ना
 नारद मोह नाटक देहाती १२५
 बाली वध देहाती १२५
 रामजन्म देहाती १२५
 राम बनवास देहाती १२५
 राम लवकुश युद्ध देहाती १२५
 लक्ष्मण मूर्छा देहाती १२५
 श्रवण कुमार देहाती १२५ भा
 श्रीराम लीला नाटक देहाती १०००
 सीता बनवास देहाती १-२५
 सीता स्वयंवर देहाती १२५
 सीता हरण देहाती १२५
 धर्मा, जगदीशप्रसाद, १९३५- रामचरितमानस का मनो-
 वैज्ञानिक अध्ययन कि महल
 धर्मा जयनाथ भसीज माहात्म्य दहानी १५०
 आसाड माहात्म्य देहाती १५०
 एकादशी माहात्म्य १५०
 कार्तिक माहात्म्य देहाती १५०
 चैत्र माहात्म्य देहाती १५०
 ज्येष्ठ माहात्म्य देहाती १५०
 पुरपोत्तम मास माहात्म्य देहाती १५०
 पीप माहात्म्य देहाती १५०
 फाल्गुन माहात्म्य देहाती १५०
 वारह मास माहात्म्य देहाती १५०
 आश्रव मास माहात्म्य देहाती १५०
 भागतिर माहात्म्य देहाती १५०
 माघ माहात्म्य. देहाती १५०
 वैशाख माहात्म्य देहाती १५०
 यावण माहात्म्य देहाती १५०
 प्रसाद के नाटको का शास्त्रीय अध्ययन नद व ८२५
 धर्मा, जनादेवप्रसाद तथा मोनार 'सरद'. गल्प-दीप अशोक
 प्र म १८१ व

धर्मा, ज्ञानस्वरूप, १९३१- मंगल युग, एक भादशं समाज व्यवस्था मंगल तारा १००
 धर्मा, टेकचंद भाकाशादीप वसंत ४०० क
 धर्मा, श्यबकनाथ १९१८ रसमित्र, क्रियात्मक रसदास्त्र प रमेशनाथ धर्मा जी १७, निजाम कालोनी, का हि वि वि, चाराणसी ५००
 धर्मा, दशराम दे रत्नवीर सिंह
 धर्मा दानेश्वर १९३१ सपा छत्तीसगढ़ के लोक गीत छत्तीस लोक २००
 धर्मा दिनेशचंद्र भन्तु मातामो भौर सिधुमो के रोगो की रोक-धाम केंद्रीय हि ४००
 धर्मा दीपचंद्र संस्कृत काव्य मंदात्रुन सा भ म १२५०
 धर्मा, देवेंद्र 'इंद्र महाकवि बिहारी की भ्रमर कृति बिहारी सतसई सद्यो स ३ विनोद
 राम की शक्ति पूजा तथा निराला विनोद २५०
 धर्मा, देवेंद्रदत्त कृषि अभियन्त्रणा एवम् भू माप सरल प्रथम्यन राजहंस प्र म ५२५
 धनुषास्त्र एव चिकित्सा सरल प्रथम्यन राजहंस प्र स ४५०
 शस्य विज्ञान सरल प्रथम्यन २ सा राजहंस प्र म ३७५ (प्र)
 धर्मा देवेंद्रनाथ १९१८ भलकार मुक्तावली भा भवन ३७५
 धार्इना बोल उठा राजपाल २२५ नि
 पञ्चभाषा की विभूतिया मोतीलाल ३७५
 भाषा विज्ञान राधाकृष्ण
 राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याए धोर समाधान राजकमल ६५०
 पाहजहा के भासू हि सा स ३००
 धर्मा धर्मेश बकर रत्नाए नवयुग स कु ४००
 धर्मा नरेंद्र १९१६- अघजनी चिंता नव्यर प्र ३५०
 उत्तर जय, गाथा-श्रव्य रामचंद्र २७५
 ज्वाला परचूनी समुद्रय २५० क
 व्यासा निर्भर समुद्रय ८०० का
 धर्मा नलिनविशोचन विप के दात मोतीलाल २००
 मानदह झालोबना धोर भन्तुसंधान मोतीलाल ५००
 —सपा भारत की प्रतिनिधि कहानियां पु म
 हरिचरित स १ बि राष्ट्र ३२५
 धर्मा भाष्यनाथ मीरा की नाभ्यकला धौर जीवनी सरस्व
 पु स ३७५
 धर्मा, नित्यानंद सपा घाठ एकांकी ६ प्रे
 धर्मा, निरञ्जनाल भारतवर्ष की खनिजसम्पत्ति (घाटें सहित) भूगोल २२५
 धर्मा परमारमा पृथ्वी की बातें रामा प्र १५० बप्र
 धर्मा, पंडित बेचन उप, १९०१- गालिब उप. १पत्रीत ३५००
 फागुन के दिन चार हिंद वा (पा) १०० उ
 सुषुभा की बेटी हिंद वा (पा) १०० उ
 मुक्ता भारमाराम २५० क

धर्मा पी पी, १९२९- सदा धार सी पाडे शाकोत्पादन के सिद्धांत एवम विधिया एशियम
 धर्मा प्रसिद्धनारायण प्रौढ शिक्षा विधि धोर सामग्री दि पु स ४००
 धर्मा, प्रियव्रत धर्मनवसारीरक्षियाविज्ञान चौखवा १०००
 आयुर्वेद की कुछ प्राचीन पुस्तकें चौखवा १००
 दीपकारणत्वमीमासा चौखवा १००
 द्रव्यगुणविज्ञान २ भा चौखवा १८००
 योगी परीक्षा विधि चौखवा ६००
 धर्मा प्रमत्ता सगीतराज—दशम मोतीलाल ४०००
 धर्मा प्रमिला हिंदी व्याकरण तथा रचना कुमार सज ४८०
 धर्मा बदरीनाथ ध्वन्यालोक चौखवा १००
 धर्मा बनवारीलाल दे कुलशुद्ध, रमचंद्र
 धर्मा बिमला कमल कुज भ्रमृत ३५० उ
 विभा भ्रमृत १०० उ
 सीमा भ्रमृत ३०० उ
 धर्मा श्री भार नाताप रत्नमात्रा बडाधिनाथ मोतीलाल १५००
 धर्मा, बी एन प्रमुल शासन प्रणाविया कि महल १२५०
 धर्मा, बसुमोहन राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत हि समि. ७००
 सधवाद धोर सधवाद शासन हि समि ८५०
 धर्मा, ब्रह्मनारायण 'विकल चाद की पुन नवयुग प्रयागार ३२५ उ
 हिंदी उपन्यासो का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन नवयुग प्रयागार ४२५
 धर्मा ब्रह्मानंद संस्कृत साहित्य मे सादृश्यमूलक धनकारों वा विकास ब्रह्मानंद धर्मा, गवर्नमेंट कालेज अजमेर १२०० चौप
 धर्मा, भगवतीदेवी १९१७ सपा दोहा सात्याधारी अरुध
 धर्मा, भगवतीलाल स्वराज्य सू प्रागे वि पर, जो १०० का
 धर्मा, भवभूति छंदोलकार दीपिका सा नि, का ०६०
 धर्मा मोलानाथ शुद्ध-मुष्टि मीमासा हि समि ६००
 धर्मा, भस्करनाथ हिंदी उपन्यास सिद्धांत धौर समीक्षा प्रभात प्र १२००
 धर्मा भदनगोपाल गोरवं ऊनी गौरदी राज सत्क ३००
 धर्मा, भदनगीपाल दे ठापुर, रवींद्रनाथ (का
 धर्मा, भदनमोहन १९१८- साहित्य परिषद राष्ट्र प्रवा समि
 धर्मा भनमोहनलाल जगन्नाथ साहित्यिक निबंध कृष्णा व १२६५
 धर्मा मनोहर धरावसी की घात्मा राज सा समि का
 गीतकथा राज सा समि
 बाता बी भूमलो २ भा राज सा समि
 रसगिद्ध रामनाथ श्रविषा राज सा समि
 राजस्थानी लोक संस्कृति की रूपरेखा राज सा समि
 —भन्तु राजस्थानी उमरसंधान राज भाषा

राजस्थानी मेघदूत राज भाषा
 राजस्थानी रवींद्र बापी राज सा समि
 —सपा. मोदीचंद्र राज सा समि का
 धर्मा, मनोहर 'रिपु' दे युक्त, रमेराचंद्र 'रिपु'
 धर्मा, मिश्रीलाल दे चरमसिंह
 धर्मा मुत्तीराम 'सोम', १९०१- विरहिणी प्रत्युप १२००
 महाका
 वैदिक निवधावली चौववा ४००
 मूरदास का काव्य-संभव प्रथम १२५०
 गंगा, मुकुंद लिंगानुशासनवग मोतीलाल १२००
 धर्मा, यज्ञरत्न, १९१६- कुमुद हिंद पा (पा) १०० उ
 चरण चिह्न सा प्र
 तुफान के बाद सा प्र ५०० उ
 पाचाली सा प्र उ
 धर्मा, मादवेंद्र 'चंद्र', १९३२- अग्नि वध कल्याणमल ३०० उ
 एक देवता की कथा कल्याणमल २५० क
 बेसरिया पागड़ी कल्पना प्र ३५० उ
 चंद्र की पीढा नेशनल ५५०
 ये कथा रूप सूर्य प्र म ५०० क
 राह प्रलय प्रलय राष्ट्र. प्र, दि ५५० उ
 सत्यासी और सुंदरी कल्याणमल ३०० उ
 सावन भावों में सूर्य प्र म ३०० उ
 धर्मा, मादवेंद्र 'चंद्र' दे महेंद्र, रामचरण
 धर्मा योगेन्द्रनाथ परचुराम की प्रतीक्षा (दिनकर) एक
 अध्ययन हि सा म १७५
 रत्निरयी (दिनकर) एक अध्ययन हि सा म संपूर्ण
 ५००, संपिप्त २००
 धर्मा, रवबोरररण चरकसहिता का निर्माणकाल तथा काश्यप
 सहिता का निर्माणकाल चौखवा २००
 धर्मा, रतीराम, अनु योग वासिष्ठ संपूर्ण, १ जिल्द में ६ प्रक
 रण सहित, सरल भाषा म, देहाती बडा साइज, मोटे
 प्रसर २२००, दहेज एडीशन २५००
 शिव महापुराण सरल भाषा सचित्र, मोटे प्रसरों में देहाती
 बडा साइज १४००, दहेज एडीशन १६००
 धर्मा, रतनलाल दाप और वर बसल ३०० ए
 धर्मा, रमेराचंद्र धार्मिक विचारों का इतिहास ७५०
 धार्मिक धर्मशास्त्र राजीव, मे ८५०
 वैदिक व्यवस्था राजीव, मे
 सामान्य विज्ञान शिक्षण कुमार सज ३२५
 धर्मा, राजनाथ, १९२२- जयगकर प्रसाद और 'तितली
 विनोद ३५०
 महादेवी वर्मा और 'स्मृति की रेखाएँ विनोद ३००
 विश्वास का बल आलोचनात्मक अध्ययन विनोद ३५०
 साहित्यिक निबंध सरो स ८ विनोद ८००
 —सपा जयपी प्रधावली विनोद ८००
 भ्रमरगीत-सार विनोद
 धर्मा राजेंद्र, १९२३- निवधालोक तस्मो ना ६०० नि
 समीक्षा के मान-रुद्ध श्री भा भारतीय

धर्मा, राजेंद्रकुमार दे रूप
 धर्मा, राजेंद्रप्रसाद आधुनिक पाश्चात्य दर्शन भा भवन
 ६००
 धर्मा, रावेरा गुरु गोविंदसिंह उमेश २०० वप्र
 धर्मा, रामकुमार निशक, १९३५- ताजमहल हि प्र र
 सडका
 धर्मा, रामकृष्ण प्रेरक प्रसंग आय बुक १५० वप्र
 बटुक बहोदुर धार्य बुक २००
 सौरो का सत आय बुक २००
 धर्मा, रामगोपाल दिनेश', १९२७- अध्ययन और अध्येण
 उदयपुर विश्व ५०० आ
 उत्सर्ग राज प्र ज १५०
 बदलती रेखाएँ राज प्र, ज ७५० उ
 मधुरजनी राज सा अका ४०० गीत
 मीमांसा और मूल्यांकन साहित्यालोक प्र ६००
 सदासीरा पीतम प्र म २०० ना
 हिंदी-काव्य म नियतिवाद, सबूत १०५० वि से २००० तक
 कि महल १५००
 —सपा अध्ययन और अध्येण उदयपुर विश्व १००
 तुलसी की काव्य कला और दर्शन सरस्वत सवाद ८५०
 धर्मा, रामनाथ, १९३१- भारतीय धार्मिक समाजशास्त्र
 औरियन्टल पब्लि १२५०
 श्री भरविद का सर्वांग दर्शन औरियन्टल पब्लि १०००
 धर्मा, राममूर्ति, १९३२- शंकराचार्य उनके मायावाद तथा
 धर्म सिद्धांतों का फालोचनार्थक अध्ययन सा म, मे
 धर्मा, रामविलास भारतेन्दु हृदित्चंद्र राजकमल ५००
 राष्ट्रभाषा की समस्या प्रसर १२००
 धर्मा, रामचकर 'निशक' ताजमहल हि प्र र ४०० का
 धर्मा, रामसत्करराय द्विवेदी युग का हिंदी काव्य अनुसंधान.
 १८००
 धर्मा रामाधार, सपा आचार्य नन्दुतारे वाजपेयी व्यक्ति
 और साहित्य अनुसंधान २०००
 धर्मा, लक्ष्मीनारायण नया समाज राजपाल १००
 फूट एड तथा नागरिक सुरक्षा हिंद पा १००
 स्वल्प रहने के सरल उपाय हिंद पा (पा) १००
 धर्मा, बसंतलाल दे पाठक, चंद्रहव
 धर्मा, बापुदेव हिंदी साहित्य का विकास सूर्य प्र ५००
 धर्मा, विनयमोहन कवि प्रसाद, धारू तथा ग्रन्थ कृतिया परि
 स ४ विश्वविद्यालय १००
 —सपा ग्रन्थ नदी निबंध कैलाश पु स ६००
 धर्मा, विष्णुचंद्र धाराच विभाजित है जगत शलधर
 ६०० का
 इन लोगों के मध्य सा केंद्र, वा ५००
 साबमेव सा केंद्र, वा ३०० उ
 धर्मा, वीणा, १९४६- निराशा की काव्य-साधना हि सा
 स ६०० मोघ
 धर्मा, वीरेंद्र १९६८- मुद्र के गीत विषय प्र, मे
 ३००

धर्मा, बैकट साभान्य व्याकरण और रचना चिन्मय २००
 धर्मा, बैकट दे सारस्वत, गोगलवत
 धर्मा वेदवती, सषा कामनीय लिंगानुशासनम् भा प्राच्य
 २००
 धर्मा वैद्यनाथ ज्यामितीय वनावट दामा प्र
 प्राचिन ज्यामिति धर्मा प्र
 भवन प्रह्लाद दामा प्र ना
 धायर धार सपुन धर्मा प्र
 धर्मा, शम्भुदयाल स्वस्व कंस रहु महाकवि १००
 धर्मा शिवकुमार १६२६- हिंदी साहित्य युग और प्रवृ-
 त्तिया सरो एव पर्ण स २ अशोक प्र ८००
 धर्मा शिवधर कविनाए अभिज्ञान का
 धर्मा शनिवास शानोचना, एक परिचय अशोक प्र
 तुनमीदाग जीवनी और काव्य अशोक प्र ३ ५०
 रामनरस शिवपट्टी और उनका स्वप्न अशोक प्र २००
 मूर्त्तिस और उनका भ्रमरगीत अशोक प्र ७००
 धर्मा श्रीराम गालिब के पत्र हिंदु एकेडेमी ८००
 दक्षिणती हिंदी का उदभव और विकास हि सा सम्म
 भारत की विदेश नीति कि घर, म्वा ८००
 धर्मा, श्रीराम राम, १६०६- कच्चे घासे सम्मार्ग ६००
 उ
 जहागीर शम्भार्ग उ
 दीया, बागी और तूफान नवयुग प्र ५०० उ
 धूप और शकल सन्मार्ग ४५० उ
 समभोता सूर्य प्र ५०० उ
 धर्मा, सत्येंद्र उमनाथार शानोच प्र दि उ
 धर्मा, मरनामसिंह नोच प्रथिया एव विवरणिका शानोचप्रम
 धर्मा, मरनामसिंह अरण, १६२७ धार्य श्याप्राभो के विकास-
 क्रम मे अण्यश तथा धार्य निवध स २ चिन्मय ७५०
 काय चयनिका कल्याणमल २५०
 कृति और कृतिहार श्याप्राभु की प्रात्मकथा के सदर्भ में
 विजय युव
 मोन के मुहम कल्याणमल ३५० मरम
 हिंदी भाषा की प्राचिनिक समस्थाए तथा अन्य निवध चिन्मय
 ७५०
 धर्मा, गुपुन, १८८७ प्राचीन भारतीय अनेमोन रत्न गग-
 ह्य प्र
 प्राचीन भारतीय धार्य राजयस गगह्य प्र ११००
 धर्मा, गुपुन प्राचीन भारतीय ब्रह्मसम्प्र सगह्य प्र
 धर्मा, मूरजप्रसाद, १६२४ तथा धार पो पुरोहित भारत
 मे रात्रस्व क पिडात एव व्यवहार मानरकद
 धर्मा, मूर्पेंदेव महामानव धार्य गा १००
 हिंदी धोर धार्य ममान धार्य गा १००
 धर्मा, स्नेहन्ता मणाल के उपाध्याय प्र प्रातिष्ठान ४००
 नि
 धर्मा, हनुमानप्रसाद 'द्वैत गुप्ता गृणिगी महानाचिन २५०
 धर्मा, हरप्रसाद, धनु दूरवोक्षण क पिडात हि गमि
 ६५०

धर्मा, हरस्वरूप धादरी अकगणित भा १ रामप्रसाद
 ११०
 धायर सेकेंद्री अकगणित स ३ रामप्रसाद ३००
 धायर सेकेंद्री अविवाय गणित स ३ रामप्रसाद ४००
 धायर सेकेंद्री बीजगणित २ भा. स ३ रामप्रसाद
 भा १ ३५०, भा. २ २५०
 धर्मा, हरस्वरूप दे रे, मनोहर
 धर्मा, हरिचरण निराला और राम की शक्ति पूजा चिन्मय
 २५०
 समीधा और मूल्याकन चिन्मय. १०००
 धर्मा हरिमोहन भारतीय क्रिकेट के नवरत्न बोरा २५०
 धर्मा हरिवंशराय, धनु आईई अक्षवरी महामना १५००
 धर्मा, हरिश्चकर, १८६३- पयाजली रामप्रसाद १०३७
 धर्मा, हरिचन्द्र बैरिंग विधि एव व्यवहार सा भवन, धा
 धर्मा, हरिचन्द्र तथा धार एन सिंह भारतीय अर्थशास्त्र
 सा भवन, धा
 धर्मा, हरिचन्द्र तथा गोपाललाल भार्गवा उच्चतर मुद्रा तथा
 बैकिंग कल्याणमल १७५
 शल्य, यशदेव, १६२८- अनुभववाद मोतीलाल ५५०
 दार्शनिक विद्वलपण मोतीलाल १२००
 नृतत्व तथा समाज दर्शन मोतीलाल ८००
 —सषा, समकालीन दार्शनिक समस्याए ध्र भा दर्शन
 १३००
 शक्तिकर दीभक गिरिक ११२ वा
 पदगपा गिरिक १२५ खडका
 रो पडे तुम गिरिक १०७ वा
 शक्तिर, सषा नेहरू की काभ्याजनि गिरिक १२५
 शाताकुमार हिमालय पर लाल छाया भा सा शरन
 १२००
 शानि भिनु शास्त्री बोधिचवावतार महाबोधि १०००
 शाक्य, जयजयराम विश्व के महान शिक्षा शास्त्री राजपाल
 ३५०
 शाक्य, यगतकुमार बुद्धत्व की धोर महाबोधि ६०० उ
 शानी, १६३३- बालाजल शरर ८०० उ
 शास्त्री, एन सी प्राचार्य हेमचन्द्र और उनका शानुगासन :
 एन अचयन चोलका १५००
 शास्त्री, चतुरसेन दे चतुरसेन धाचार्य
 शाह, भरतकुमार सवित्र जिज्ञान अमरावति ८००
 शाह, हनुमुल गीत प्रिया. मणरा क
 शाही, राममालर शिक्षाको का देन. इनमार्ग भा भवन
 १००
 शाही, श्रीरंग अकिल की बात अवधानी २००
 कवि कौतिल विद्यापति अवधानी ०००
 पुस्तकालय दर्शन अवधानी ०००
 बंजिरका भाषा और साहित्य अवधानी. २००.
 बेंगाली, एव परिचय अवधानी २००
 निरीप, १६३६- क से कमता स भा. गर्व १००. बर
 खेल खेल में सीसना. ध मा सर्व १५०. बर

नयना नीर भरि-जवाहर. उ.
 गृहद का छत्ता अ भा. सर्वे १.००. वप्र
 सिव. दे. उपाध्याय, सिवनारायण 'सिव'
 सिव. दे सिवकुमार 'सिव'
 सिवनारायण सिंह स्वच्छन्दावाद एव छायावाद का तुलनात्मक
 अध्ययन नारायण १३.००
 सिवकुमार नारायण. छंद शास्त्र की भूमिका सिवानी प्र
 ३.००
 सिवकुमार 'सिव'. वद करो सहनार्थ सिव-सा स १५०
 सिवकुमार 'सैल'. छत्तीसगढ़ी गाथाएँ राष्ट्र प्रचार म १००
 वप्र.
 सिवनदनप्रसाद भात्रिक छरो का विकास वि. राष्ट्र ८५०
 सिवनय, १९१७- रवीन्द्रनाथ चंद. व १००० आ
 सिवप्रसादसिंह, १९२६- मुस्ता सराय भा ज्ञानपीठ
 ३.००. क.
 सिकन्दरसिंह 'सुमन'. विष्णु-हनुमान् अल्पसंख्य ५०० का
 सिवमूर्ति सिव दे कौतुक बनारसी (सिवमूर्ति सिव)
 सिवमूर्तिसवामी, गुप्त. भार. तथा सिद्धनाथ पत्र, सपा
 रवतीसव-ग्रथ कर्नाटक प्रांतीय ८००
 सिवप्रबन्धाल कबीर गूढ़ शब्द व्याख्या सिव सा १.००
 कबीर योग. भा २ सिव सा. १७५
 धीवन मुधार सिव सा १.२५
 भन्नरु हार मोती सिव सा. २००
 तावदार मोती सिव सा १५०
 नानक योग. ३ भा. सिव सा. ४.००
 मयूगं महारामायण सिव सा ६.००
 सिवदाकर काव्यनीचं वैदिक इतिहासार्थं निर्णय. स २
 वैदिक पुस्तकालय ८५०
 सिवदाकरप्रसाद. दे मुद्रासनप्रसाद सिंह
 सिवसिंह, ठाकुर. सिवसिंह सरोज तथा तिलोकी नारायण
 दीक्षित त्रिजकुमार १००. का
 सिवसिंह 'सरोज'. अनेक कठ एक पुकार. भा प्र, ल. २.००.
 का
 सिवानी (गोड पत्र), १९२३- चौदह फेरि विश्वविद्यालय
 ६००
 साल हवेली विश्वविद्यालय ४.८०. क.
 स्पेन की लोककथायें कि महल.
 सिवोभ्रमनाथ. ब्रह्मचारी. श्री नारायण उपदेवामृत विज्ञान
 म १७५
 सायन-ग्रथ विज्ञान म. १००
 सोन सुभा, भाग और श्रीसु नवयुग ग्रथानार ३०० उ.
 अजदी सहर और जिन्नाह नवयुग प्रकाशक ४.७५ उ
 सोल दे रत्नप्रकाश 'सोव'.
 सोलावार, मिथु. बुद्ध गया महावीधि ०.७५.
 सिवचरण मयूर भादरं हिंदी निबंध राजीव. मे १२५
 सुन्दरसिंह कबीर की साधियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन.
 सरस्व पु स ८००
 सुन, भयल्लव, १९२६- चन्द्रगूह विद्या प्र म. ६.००. उ.

मानवता के पुजारी विद्या प्र. म २५०.
 हमारे सत हम री एकता विद्या प्र. म २.५०.
 हमारे साधक हमारी सिद्ध्या. विद्या प्र म २५०.
 सुनल, उमादाकर दे सुनल, रामदाकर 'रसाव'
 सुनल, एस एम अकेलण सरो स. ६ नवयुग सा स, आ.
 ८.००
 अकेलण दिग्दर्शन सरो स ३ नवयुग सा स, आ ५००
 आप-कर विधान तथा खाता सरो स ११ नवयुग सा.
 स., मा ७५०
 लागत लेखा सरो स २ नवयुग सा स, आ ८००
 सुनल, एस एम. दे विजेंद्र गलसिंह
 सुनल, कमल, १९२६- चला हुस का जोडा मुयमा पु
 ४२५ उ
 चादी की रात भा प्रथमात्ता ४७५ उ
 दर्द की तसवीरें अनुपम २५०
 भरती और आकाश भा प्रथमात्ता ६.५० उ.
 निजा की गोद सन्मार्ग. २५० उ
 पाप और पुण्य. सन्मार्ग १०० उ.
 माटी की गुडिया प्रेम प्र ६००.
 रोती राह सितकते लारे नय्यर प्र ४.३० उ.
 स्वर्ण कमल सा कंद, दि ३५०. उ
 सुनल, कृष्ण, टीका पाथ और भडूरी की कहावतें पु स., वा.
 १५० का
 उद सतनई सटीक पु स, वा. २५०.
 सुनल, कृष्णदाकर. केसव की काव्य कला पु स, वा. ३.२०.
 सुनल, केसरीनारायण, १९१६- हसी साहित्य ना इतिहास.
 हि समि ७००
 सुनल, गणेशदाकर 'बसु'. पीलीभीत का साहित्यिक इतिहास.
 हि सा परि, पी. २.००
 प्यार कर मुझे भनुव हि. सा परि, पी १०० वा
 सुनल, चडिकाप्रसाद मुस्ताफत असोक प्र म १००
 सुनल, जगन्नाथप्रसाद. परिभाषा प्रवध चौलवा ७५०.
 सुनल, देवीदत्त. कुछ पारी खरी कल्याण म २००.
 प्राचीन भारत में जनतत्व हि. समि. ५५०
 सपरक के पच्चीस वर्ष कल्याण म. ४.००.
 सुनल, द्विजेंद्रनाथ, अनु समतागण-सूत्रधार-वास्तु-शास्त्रीय
 भवन निवेश. महारत्नद.
 सुनल, नृसिंहनाथ अछीर सरोई माग्गोदय. ५.००.
 सुनल, परसुराम 'विरही', १९३१- आधुनिक हिंदी काव्य में
 मयार्थवाद. प्रथम. १५००.
 सुनल, पुस्ताल 'पद्मावर'. मातृगाही. विवेक का.
 सुनल, प्रभाकर जायसी की भाषा विश्वविद्यालय हि. प्र.
 १६००.
 सुनल, प्रयाग अनेली आहृतिया परिमत. ३५० क.
 सुनल, प्रेमनाथगण सत साहित्य प्रथम १८०० गोध.
 सुनल, बालकरान. उपदेव विज्ञान म ७ धवतरि. १.००
 सुनल, भगीरथ 'योगी' मनावत और पूनम ज्ञानमहल प्र.
 ५००. उ

मुक्ता मनुदेव सपा चित्रा विध्याचल ३०० ए
 मुक्ता रघुनन्दन प्रसाद अटल श्रीमद भागवत अटल प्र
 १५००
 मुक्ता रमेशचन्द्र ध्यायाम गिष्ठा पु स बा ०७५
 मुक्ता राजाराम राष्ट्रीय आत्मा १८६८ १९६२ अन्वेली
 भास्व सरस्व स का ४०० का
 मुक्ता रामकुमार मंगल जल उडी सुयमा सा म ना
 मुक्ता रामगोविन्द सिद्धात कौमुदी प्रश्नोत्तरी २ भा
 मोतीलाल ३००
 मुक्ता रामचन्द्र १९२५ कला और आधुनिक प्रवृत्तिया हि
 सति ३५०
 कला का दान कारोना १०५०
 कला प्रसंग कारोना ७०० नि
 चित्रकला व रसास्वादन हि प्रवा पु ६००
 नवीन चित्रकला शिक्षा पद्धति कि महल ५००
 नवीन भारतीय चित्रकला शिक्षा पद्धति कि महल
 ५००
 मुक्ता रामचन्द्र सपा अमरलीत-सार संगीत स १३
 सा सेवा स ५००
 हिन्दी आलोचना के आधार सत्रम सपा रामस्वरलाल
 खडकवाल तथा गुरेशचन्द्र मुक्ता राधाकृष्ण
 मुक्ता रामचरणमण नह मुद्दे वीर सिपाही साहित्यवाणी
 १००
 मुक्ता रामाकर रसाय १८६८ आलोचना लोचन सपा
 उमागकर मुक्ता रा बेनीमाधव
 भाषा गुरु कोष मणी गिरिजादत्त मुक्ता गिरिग स ४
 रा बेनीमाधव
 श्री भीम विजय परिमल अ २५० खडका
 मुक्ता रामेश्वर अचन १८१५ नई इमारत हि प्रवा पु
 ७०० उ
 हिन्दी साहित्य अनुगोचन जबलपुर प्र मू ४००
 मुक्ता वागेश्वर पंगव विनानम चौखाम ८००
 मुक्ता बिनयप्रभु हिन्दी साहित्य का संपिप्त इतिहास
 जवाहर प्र मू ०८०
 हिन्दी साहित्य व इतिहास पर चर्चे हूण प्रदन और उनके
 उत्तर जवाहर प्र मू ०७५
 —तथा गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव सपा सेठ गोविन्ददास
 व्यक्तित्व एवं साहित्य सा भवन इ १०५०
 मुक्ता विजयनाथ हिन्दी कृष्ण भक्ति-नाय पर श्रीमद्भागवत
 का प्रभाव भा प्र मंदिर १०००
 मुक्ता गनुष्णनाथ देसायार पणी का गिहार उमग ०००
 बप्र
 मुद्रा की मीना गी उमग ००० बप्र
 विजय की साहित्यिक यात्राएं उमग ०५० बप्र
 मप्रसाद गुणालय प्रवीर ५०० उ
 —रुपा रोमियो जयिच उमग ००० बप्र
 मुक्ता गिबकुमार १९०८ रामचरितमानस का तुलना
 त्मक अध्ययन अनुसंधान १५००

मुक्ता गिबदत्त द्रव्यगुणमञ्जूषा चौखाम २००
 मुक्ता श्यामबिहारी तरल सरल सस्कृत व्याकरण सा
 नि का २००
 —टीका रामायण मञ्जूरी (मदर काइ) संगीत स सा
 नि का १७५
 मुक्ता श्यामसुन्दर हिन्दी काव्य की निगूण धारा मे भक्ति
 कागी हिल्ल ८००
 मुक्ता श्रीकण्ठ दे वृदावनगस
 मुक्ता श्रीनिवास सपा त्रिहारी प्रभावधो भा १ विध्याचल
 २००
 मुक्ता सुखदेव हिन्दी उष्यास का विकास और नैतिकता अनु
 संधान १५००
 मुक्ता सुरेशचन्द्र प्रतापनारायण मिश्र जीवन और
 साहित्य अनुसंधान १५००
 गैलनरिपर विलियम १५६४ १६१६ जगुलियम मीजर
 बोरा २०० ना
 भूल पर भूल उमेश २०० बप्र
 रोमियो जूलियट उमेश २०० बप्र
 हैमनेट अनु प्रमत्तराय हस ६००
 गैलनरिपर सपा गोडवानी सपा ठा भा नायक आदिम
 जाति ७५० लोकगीत
 गडवानी सपा ठा भा नायक २ भा आदिमजाति ६००
 (प्र) गीत
 रामायणी नछमन की सत परीक्षा आदिमजाति ६००
 गीत
 गैलनरिपर भाषा प्रमत्तर सपा उदयगकर गारुणी व मु
 हि
 गैलनरिपर सोभाग्यनिह मया राजस्थानी लोकगीत (राजस्थानी
 पद्धत) भा ५ सा सस्थान राज २५०
 राजस्थानी वार्ता भा ३ ४ ७ गा सस्थान राज २५०
 (प्र)
 —तथा मोहननाथ ग्यास सपा राजस्थानी वार्ता भा ५
 सा सस्थान राज २५०
 गैलनरिपर प्रमत्तराय १९११ द्रव्यगुण बोरा ४५० उ
 ज्वालाशुधी सस्ता ३५० उ
 सतरो की डाली हि प्रवा पु (पा) १००
 गैलनरिपर दे सतीनुषारी गलजा
 गलवाला सामा वस्वर हि भूरादमी २०० का
 सैना दे भट्ट हरिदत्त गंगा
 गौरीगोवि भिस्वाइल दान के विनारे हि पा (पा) २००
 उ
 धीरे वह दोन रे ४ भा राजमन ३५०० उ
 गौरीत धानवी १९०३ १९६३ काटन अगोरा पा (पा)
 २००
 पुस्तिया अगोरा पा (पा) २००
 पर व बट्ट अगोरा पा (पा) १००
 चार मो बाग अगोरा पा (पा) २०० उ
 सांच की गांच अगोरा पा (पा) २००

श्यामनदन किशोर, १९२३ सूरन नया, पुरानी धरती रा
 बेनीप्रसाद का
 श्यामनदनप्रसाद सिंह निबंध संग्रह हि सा स २००
 हिंदी साहित्य सर्वेक्षण और समीक्षा हि सा स ७००
 श्यामनदन शास्त्री काव्यसारत्रयी रूपदेता भा भवन
 ६५०
 —टाका मधुदत्त मोमासा भा भवन
 श्यामप्रकाश भारतीय कला एव सस्कृति रवीन्द्र प्र ग्वा
 ३५०
 हिन्दू सस्कृति के मूल सत्व रवीन्द्र प्र, ग्वा ११०
 श्यामलाल मधुष क्रांति का नाहर मनोरमा ना
 जय जवान जय किसान नवीनतम २००
 परम वीर भारत नवीनतम ३२५
 विमल की बहुर मनोरमा २०० ना
 विहार का गर मनोरमा ना
 श्यामसुन्दर चट्टान नवयुग प्रयागार ४०० उ
 भारत भूमि जिद्दावाद दक्षिण प्र १७५
 श्यामसुन्दरलाल शमर नेहरू इ पब्लि १००
 क्या विवक जबलपुर प्र मू ३००
 —सया क्या माधवो जवतपुर प्र मू ३००
 श्यामसुन्दरराज्य अनुपान विधि स ६ श्यामसुन्दर ०५०
 अनुभूतयोग स ७ भा १ श्यामसुन्दर १००
 रसायनसार स ४ श्यामसुन्दर ८००
 श्यामू सन्यासी दे कैयूर, विला
 श्यामराम किन्नीरी, १८३७ १८८१ श्यामराम प्रयागली
 सया सनदास भनोत् नवनत
 श्री १००० श्री स्वामी जी महाराज व्या वैदिक उपदेश भा
 १ नी पीताम्बर १२५
 श्रीकृष्णदास, अनु रगमच हि समि ११५०
 श्रीकृष्णलाल कल्याण भारती दहाती १२५
 श्रीकृष्णलाल, १९१२- मानस दशन सशो स प्रानद पु
 बा ४००
 श्रीकृष्ण 'सरल' प्रदभूत कवि सम्मेलन जबलपुर प्र. मू
 ४०० वा
 गद्य-नुसुभाजिन जबलपुर प्र मू २२५
 महाराणी महिल्यावादी जबलपुर प्र मू २०० खडका
 बदन हमारा जन कल्याण २००
 सरदार भगतसिंह जन कल्याण का
 हिंदी पान प्रभाकर जबलपुर प्र मू १७५
 थोसडे, मालती दो अभिनय नाटक साथी ३००
 शान्तिचन्द्रदास श्रीविचारसार खेमराज
 श्रीमन्नारायण, १९१२ भारतीय संयोजन मे समाजवाद
 सस्ता ३५०
 श्रीमाताजी चतुर्विध रूपस्या और चतुर्विध मुक्ति श्रीधरविद
 १००
 पुरानी बातें श्रीधरविद १५०
 प्रश्न और उत्तर भा ४ श्रीधरविद ४००
 मातृवाणी भा ४. श्रीधरविद ०३७


मानव एकता का स्वरूप श्रीधरविद २५०
 श्रीमाता जी के वचन श्रीधरविद २५०
 सफ़द गुलाब श्रीधरविद २५०
 श्रीमाली बालूचाल बच्चो की कुछ समस्याए स ३ विद्या-
 भवन उ ३२५
 शिक्षा और भारतीय लोकतन्त्र विद्या भवन, उ ३००
 श्रीमाली नदकिशोर तथा बन्दीप्रसाद जोशी सामाज्य विज्ञान
 विद्या भवन, उ ०७५ ब्र
 श्रीमाली पनालाल प्रजनन विद्या भवन, उ २५०
 श्रीराम सिंह शलभ मुबह मेरी है बजना २०० का
 श्रीवास्तव प्राम कचहरी पहूजा १६०
 मुखिया के अधिकार और कतव्य पहूजा २५०
 श्रीवास्तव तथा अन्य भौतिक एव रासायनिक गणनाए
 कल्याणमल २२५
 श्रीवास्तव अनंतकुमार सिद्धांतिक एव भारतीय कृषि रसायन
 शास्त्र कि महल ७५०
 श्रीवास्तव आशीवादीलाल तथा सत्यनारायण दुवे भारतवर्ष
 का राजनैतिक तथा साम्कृतिक इतिहास २ भा सिवलाल
 १०००
 श्रीवास्तव एस पी बुनियादी शिक्षण सामाज्य विज्ञान
 जबलपुर प्र मू ३००
 श्रीवास्तव, कर्मानिनी चतुय वषं प्रश्नोत्तर संगीत स प्र
 २००
 श्रीवास्तव, कृष्णकिशोर, १९२५ आदर्श की हत्या राम-
 प्रसाद २७५ ए
 आर्स्टीन के साप साथी
 श्रीवास्तव, कृष्णमुरारीलाल दे वर्मा, गोपीचद
 श्रीवास्तव के एन बालक घर और स्कूल के बाहर विद्या
 भवन, उ ४५०
 श्रीवास्तव, गणधरप्रसाद दो रास्ते नवयुग प्रयागार ४५० उ
 सिद्धाय का गृह त्याग नवयुग प्रयागार २५० ना
 श्रीवास्तव गिरिगचन्द्र तबला वादन संगीत स प्र २५०
 ताल परिचय संगीत स प्र भा १ २००, भा २ ३००
 श्रीवास्तव गोविंदप्रसाद दे शुक्ल, विजयकुमार
 श्रीवास्तव जयदीनप्रसाद तथा हरेद्रप्रताप सिहा हिंदी
 साहित्य का इतिहास पु म, इ १२५०
 श्रीवास्तव, जगदीशप्रसाद दे सिन्हा, हरेद्रप्रताप
 श्रीवास्तव जी पी, १८६१- बीरबल जिदा है हिंद पा
 (पा) १००
 श्रीवास्तव, दयानंद हिंदी साहित्य का इतिहास अग्रिताम क
 श्रीवास्तव घनेश्वरनाथ वैदिक शिक्षा क्या और कैसे ?
 पु स, बा १५०
 श्रीवास्तव, परमानंद हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया प्रथम
 १२५० शोध
 श्रीवास्तव, पी एन हंसिपे जरा कि घर, जो भा १
 २२५, भा २ १०० का
 श्रीवास्तव, पूरनचंद्र तथा प्रभातचंद्र श्रीवास्तव सामाजिक
 अध्ययन जबलपुर प्र मू ५००

श्रीवास्तव, प्रतापनारायण, १९०४- विजय का ध्यामोह
प्रस्तुत ३०० ना
श्रीवास्तव प्रभातचंद्र दे श्रीवास्तव पूरनचंद्र
श्रीवास्तव, प्रमप्रकाश इतिहास शिक्षण पद्धति सा नि, का
३००
श्रीवास्तव, प्रमस्वरूप मंदिर का कलरा रा वेनीप्रसाद १२०
ना
श्रीवास्तव बलराम. भारतीय इतिहास की रूपरेखा चौखवा
२५०
रूप मंडन स तथा हिंदी मोतीलाल ६००
श्रीवास्तव बी पी तथा उदयसिंह किशोर 'सपा नये नये
चहरे रजना प्र १०० क
श्रीवास्तव श्रीरा मध्ययुगीन हिंदी कृष्णभक्ति धारा और चैतन्य
संप्रदाय हिंदु एकेडमी
श्रीवास्तव, मुरलीधर परीक्षार्थी व्याकरण भा भवन १५०
युगकवि दिनकर वि प्र कु १०००
श्रीवास्तव मुरलीधर दे विनयकुमार
श्रीवास्तव मोतीलाल सधप के पथ पर नवयुग ग्रथालार
४२५ उ
श्रीवास्तव, रामादरक जातिवर्गी का विवास हि समि
१२५०
श्रीवास्तव राजमणिलाल तथा जगदीशचंद्र सिंहल धम
समस्याएँ श्रीरियटल पब्लि १२५०
श्रीवास्तव रामचंद्र चंद्र, टीका वृष्णा गीतावली सा प्र
म, ना
श्रीवास्तव रामपुनोत विषय-नरेश (देवी दमयंती) पुनीत प्र
७५० महाका
श्रीवास्तव, रामानुजलाल, सपा प्रतिनिधि सोक गीत लोक
चेतना ५००
श्रीवास्तव, विजय कपिलवस्तु-सुविनी दिग्दर्शन महाबोधि
०७५
श्रीवास्तव, वीरेंद्र धपग्रय भाषा का अध्ययन भा सा म
१२०० शोध
—तथा मय सपा साप्रतिकी वि प्र कु
श्रीवास्तव साति छायावादी काव्य और निराला ग्रथम
१५००
श्रीवास्तव सिद्धनारायण १९१३ हिंदी उपन्यास नद प्र
१०००
श्रीवास्तव गिषप्रसाद निबंध-माला जबलपुर प्र म २७५
श्रीवास्तव चिंतनराज सिफाफा देखकर, वैयक्तिक निबंध वि
प्र कु ३००
श्रीवास्तव श्रीनाथप्रसाद बिहार ग्राम पंचायत के मुस्लिम
समा स पट्टका
बिहार पंचायत दद विधान पट्टका ३००
श्रीवास्तव मनीषचंद्र सितार वादन भा १ संगीत स प्र
२००
श्रीवास्तव हरिमोहनलाल स्वतंत्रता के सेनानी हि प्रथा पु
(पा) १००

हसाने वाली लोककथाएँ धारमाराम १५० बप्र
श्रीवास्तव, हरिनाकर हुमायू श्रीराम मेहरा १५०० इति
श्रीवास्तव हरिचंद्र बंधक नृत्य परिचय संगीत स प्र
२००
प्रभाकर प्रश्नोत्तर संगीत स प्र ४५०
राग परिचय संगीत स प्र भा १ १७५, भा २
२५०, भा ३ ३५०, भा ४ ५००
वाद्य शास्त्र संगीत स प्र २५०
संगीत प्रश्नोत्तर भा १ संगीत स प्र १६०
संगीतज्ञों की विनायली संगीत स प्र ५००
—सपा संगीत निबंध सग्रह संगीत स प्र ३००
श्रीवास्तव, हिमागु कथा मूप की नई यात्रा हि प्रचा पु उ
नागाराव पेशवा वि प्र कु ३७५ उ
पुष्प और महापुरुष हि सा स ३५० उ
यह अविस्मरणीय लोग दि पु स ४००
यात्री का परिचय राजधानी ५०० उ
रप से गिरी बामुरी भा प्र नि ४५० उ
श्रीवास्तव, भगवतीप्रसाद अविष्कार जगत बाल सा म
३००
श्रीधरकुमार रामचरितमानस का तत्व-दर्शन लोक चेतना
श्रीस्नेही दे द्विवेदी, सच्चिदानंद 'श्रीस्नेही'
श्रीधिय कृष्णचंद्र, १९०८- तथा नरेंद्रकुमार भानावात
अतभारती रामप्रसाद २७५
श्रीधिया, सितप्रसाद 'दिवाकर' मनेददशी निराला नवयुग
प्रथाधार
शिवतोपदास विद्वद की प्रादिकाली जन जातिया, मानव-जाति
विज्ञान या भौगोलिक परिचय रामप्रसाद ४००

स

सगर, संयप्रकाश, १९१७ वाफा हाउस की लकड़ी
प्रिंटनेड ना
घर की धान स २ प्रिंटलेट एव राजकमल ४५० उ.
परिचयसत्ता राजकमल ४५० उ
मिनिस्टर की हाथरी राजकमल ४०० उ
मुझे टिक्ट दो राजकमल ५०० क
सधवी, मुसलमान जैनधम का प्राण सत्ता २००
दर्शन और चिंतन मोतीलाल ७००
भारतीय तत्व विद्या मोतीलाल ३००
सतोपकुमार जरासंध दि पु स १२५
दिल्ली से बलिन धाल इ न्यूजपपर १५०
सतोपकुमारी 'दीनजा' जोहर के अंधार नेगल ३००
सपूर्णनंद १८९१ पहलुनाथ हिंदु एकेडमी १५२५
सपूर्णनंद योग दर्शन हि समि ६००
बद गाँवों के प्रकाश म सरता १५० क
हिंदू देव परिवार का विवास मित्र



समारम्भ, १९१७- छदोपचारमजरी मोतीलाल २००
 सशिक्षित बिहारी रामचंद्र ४००
 संहिता, सभा विजय हमारी है नवयुग प्र. कु. का
 सञ्जना, बीरद रेखायें मिल गई सा. नि. व
 सञ्जना, शम्भुदयाल चरणोदक नवयुग प्र. कु. ६००
 सञ्जना तथा सञ्जना. व्यापारिक सनियम की रूपरेखा. हि
 प्रचा पु ७५०
 सञ्जना, अध्यापिकाशर धर्मशास्त्र राजहंस प्र म ४०० से
 ८००
 यातायात सिद्धांत एवं व्यवहार सरल ग्रन्थमय. राजहंस
 प्र म ८००
 सञ्जना, एत सी धार्मिक एत धार्मिक नवयुग सरो स
 ६ नवयुग सा स, भा ५००
 धार्मिक सगठन सरो सा ४ नवयुग सा स, भा
 ५००
 धार्मिक सगठन एवं प्रवच सरो सं ८ नवयुग सा स,
 भा ८००
 भारत एवं विदेशों में सङ्गठिता सरल ग्रन्थमय राजहंस
 प्र म ६२५
 भारत का धार्मिक विकास सरो. स ३ नवयुग सा स,
 भा ७००
 भारत में नियम-वित्त : सिद्धांत एवं व्यवहार आगरा युक्त
 १०००
 भारतीय धर्मशास्त्र सरो स ३. नवयुग सा स, भा ७००
 यातायात के सिद्धांत एवं सम्प्रदाय. सरो स रतोगी
 १००
 व्यावसायिक सगठन सरो स ८ नवयुग सा. स, भा
 ७५० से १३७५
 सञ्जना, कमला. जय घोष कमला प्र ४०० व
 सञ्जना के. बी व्यापारिक सनियम की रूपरेखा हि प्रचा
 पु. १०००
 सञ्जना, गोपालदास दे. नीरज (गोपालदास सञ्जना)
 सञ्जना, ज्योतिषप्रकाश कल्पनाओं की पुरी विध्याचल
 ३०० का.
 सञ्जना, दारिद्र्यप्रसाद, १९२१- कामायनी में वाक्य, सङ्कृत
 धोर दर्शन. सरो स ७ विनोद.
 हिंदी के प्राचीन प्रतिनिधि नवि विनोद १०००
 सञ्जना, शम्भुदास सञ्जना का विवरण हिंदु एस्टेटकी
 सामान्य भाषाविज्ञान हि सा सम्मे ३००
 सञ्जना, भुवनेश्वरीचरण तथा सञ्जनाप्रसाद तिवारी राजीव
 में हिंदी निबंध राजीव, मे ४००
 सञ्जना, राजीव आर्य निर्वाहन तथा ग्रन्थ वविताएँ राज-
 नमल ३२०
 सञ्जना, राजेंद्र. मरुत कृष्णा प्र २५० उ
 सञ्जना, शम्भुदास नैपाल : भोजी धोर वर्तमान नवयुग
 प्र कु १०००
 सञ्जना, शिवनारायण तथा कृष्णचंद्र विजय, सभा साक्षात् नेहरू
 जिज्ञासाद धर्मविद प्र म ० ३० वर

सञ्जना, सञ्जनादयाल. मास का मुल समन्वय का
 सञ्जना, मुधा जायसी की विष योजना असोक प्र. १२००
 शोध
 नीरज, व्यक्तित्व और कृतित्व प्रगति प्र ३००
 सञ्जना, सुरेशचंद्र प्रारंभिक अध्यापन कि महल ३५०
 सञ्जना, के. के प्रारंभिक मनोविज्ञान राजहंस प्र म ३७५
 व्यवहारिक मनोविज्ञान राजहंस प्र. म ४५०
 शिक्षा मनोविज्ञान सरल ग्रन्थमय राजहंस प्र. म ४५०
 सामान्य मनोविज्ञान सरल ग्रन्थमय राजहंस प्र म ३७५
 सञ्चिदानन्द, जो तथा एम राजेश्वरया. कथा-पोडती
 नैपाल के
 सञ्चिदानन्द मूर्ति, के समकालीन भारतीय दर्शन मोतीलाल
 १२००
 राजेंद्र दे रमेशचंद्र 'सञ्जना'
 सञ्जना जवान. कि घर, जो ३०० ना
 सतीराहुमार, १९३६- पथ के दर्शन में सतरार
 विना पैसे दुनिया का पैदल सफर स २ म. भा सर्व
 विना पैसे दुनिया का पैदल सफर हिंद पा. (पा)
 २००
 सत्यकाम विद्यासंसार चैतन्य मैन हिंद पा (पा) १०० उ.
 सत्यकाम शास्त्री काविक महात्म्य धर्मशरी देहाती ६००
 पंचतंत्र देहाती ३५०
 बड़ा योगसूत्र. देहाती. ५००
 हितोपदेश देहाती २५०
 सत्यदेव नारायण जानने की कहानिया. राजपास. १.५०
 सत्यदेव विद्यासंसार, १८६८-१९६५ जीवन सपने
 राजपास. जी
 दीदी सुशीला मोहन. मारवाले प्र ३५०
 सत्यदेव शक्तिप्रिय दायरे दि. पु स ३००
 बरतद की छाव दि पु स ३५०
 सत्यदेव शास्त्री ईशावस्य रहस्य. हि समि २५०
 सत्यनारायणसिंह तुलसी के राम प्र विभाग
 —सभा ऐसे दे साक्षात् नेहरू वि स कु २००. वर
 सत्यभूषण, योगी १९१०- योगी का मोक्षकाम्य गोविंदराम
 ५२५
 योगी की सधुसाता. गोविंदराम का
 सत्यवत दे मरुतनेल
 सत्यवत, रत्नाभी धर्म सामाजिक धर्म हरयाणा ० ७५
 योगसूत्रमय प्रकाश वेद प्रका म ३०५ जी
 सत्यवतप्रसाद सिंह 'धरण' मरुत की राख. नीलम एटीमें
 १५० उ
 सदानंद वेदान्तसार स तथा हिंदी मोतीलाल ०००
 सदानंदसिंह आधुनिक हिंदी निबंध कमल प्र २००.
 गद्य सौरभ एवं समीक्षा कमल प्र १५५
 देवेंद्रनाथ शर्मा धोर उनका सद्य-मोक्ष कमल प्र १२५
 प्रि. निबन्धनाल राम धोर उनका गद्य सौरभ कमल प्र.
 १२५
 बी ए हिंदी रचना का सरल ग्रन्थमय कमल प्र ४००

साहित्य प्रवेश एक समीक्षा कमल प्र. २००
सनावथा, विष्णुराम 'सुमनाकर'. प्रवृत्त आराधना. माधव.
गायत्री भवन बाबुरावजी परगाई माधव जी.
गुरुदेव गौरीनाकरजी नागर माधव जी
महासती खुनीबाई मडलोई माधव जी.
विनम्र-आरती माधव
श्रीगलागिरि पूजन माधव
सगूर-परिचय माधव
सदुपदेश सुधा माधव
सम्बरवाल, कचगलता १६१८- फूलों की मुग्ध, काटो की
चुमन परिमल ८०० उ
समयसुंदर भीताराम चौगाई सपा अग्ररचद नाहटा तथा
भवरताल नाहटा माहूल का
समीर दे साहू दोमन 'समीर'
सम्भनलाल अन्नवर औरवल विनोद देहाती ४००
सरल दे श्रीदृष्य सरल'
सरस दे मिथ सूर्यनारायण 'सरस'
सरस्वतीदेवी सहकारिता, क्या, क्यों, कैसे ? पु स, वा
१२५
सराक, गोपालराण, १६२६- रिमभिम हि प्रवा पु का
सरावगी, धर्मचंद पचास साल बाद हि प्रवा पु (पा)
१००
सरोज, आर आर एल तथा श्रम्य सरल अकण्ठित राजीव,
मे ३००
सरोज. दे. मिथ, जयसकरनाथ 'सरोज'
सरोज दे निर्वसिंह 'सरोज'
सर्देव नारायण हिंदी यू इगलिन ज्ञानपीठ ६००
सलाहउद्दीन, गांधी ताले का पून विश्वविद्यालय ३०० उ
सलिन द पाठक बच्चन सलिन'
सविता. दे रामाशय सविता'
सहजल, प्रसिन्नी १८२६- गुरु गोविंदसिंह और उनका
काव्य हि सा भ १५.०० नोच.
सहजल. मनमोहन, १६३२- जिदगी और जिदगी दि पु स
७००
सनावाथ का दार्शनिक विद्वेषण भारतेंदु भवन १२००.
शोध
सहजल सलित बागध की दीवार धार्य खुब २००
सहज, नन्देयालान, १६११- गद्य विविधा कल्याणमल
१.४०
मान सरोवर. कल्याणमल २५०
मूल्यावन राज पु म ३०० आ
सोना-नवाधी के कुच रुद ततु नि मदन. ५०० सोन
कथाए
विमर्श और व्युत्पत्ति विमर्श १२००. नि
सहज, कल्याणमल, मना इदिस गांधी विमर्श १५००
सालबहादुर पाम्नी विमर्श २५००
सहाय, श्री विमर्श कता : सरल अकण्ठित कमल प्र
१.२५


सहाय, शिवपूजन, १८६३- वे दिन, वे लोग. सपा. बालेंदु-
पेखर मंगलमूर्ति राजकमल ५५० सक्ष
हिंदी साहित्य और बिहार स. २ नि सप्ट ८००
सहाय, शिवरवह्य भारतीय सस्कृति गण प्र ३००
सहाय, शिवस्वरूप. दे सि-हा, विधेस्वरीप्रसाद
साहूत्यायन, राहुण दे राहुण साहूत्यायन
साकरिया, वदरीप्रसाद, सपा मुहता नैणसी विरचित मुहता
नैणसीरीस्वात राज प्राच्यविद्या
सागर दे गांधी, सी डी 'सागर'
सातवलेकर श्री दा अथर्ववेद का सुबोध प्रनुवाद. ५ आ
स्वाध्याय १००० (प्र)
श्रीमद्भगवद्गीता-पुराणार्थबोधिनी स्वाध्याय २०००
—सपा देवत सहिता स्वाध्याय ३०००
सातोस्कर वा द परछाई विद्या प्र म. ५.०० उ
साथी दे बोहरा, मंगलरत्न 'साथी'.
साधना, दे लक्ष्मी 'साधना'.
साधना प्रतापी (कादमीरीताल छोभा), १६३८- मोली
भाली नवयुग प्र ४५०
सान्याल भूषंडनाथ केंन साहित्य का इतिहास हि समि
७००
भारत मे पचावती राज नेशनल २००
मनुष्य की उत्पत्ति और मानव जातिया नेशनल ३.५०
सामर, देवीसाज धा-ना की राज विद्या मवन, उ
२५० ए
सायाजी भुला रममणी-हरण सपा पुरुषोत्तमलाल मेनारिया.
राज प्राच्यविद्या. ३५०
साया, कृष्णगोपाल नई बहानी सकलन नवयुग प्रयागार.
२५० ब
सारस्वत, एच सी रसायन शास्त्र नियन्त्राल ५००
सारस्वत, गोपालरत्न तथा बेंकट शर्मा निवध शिक्षा. सशो
स ७ विमर्श ३००
सारस्वत, रावन, सपा राजस्वान के कवि भा २. राज सा
अवा. ३७५
सारस्वत, रावन. दे ठाकुर, रवीन्द्रनाथ.
सारस्वत, रावन दे मिवजी
सारस्वत, शिवनाथर मूरदास अशोक प्र २५० आ
सायाभाई, मृणालिनी नन्दी नर्तकी राजकमल अग्र
सावत दे रपुत्रनरयाल 'सावत'.
सावरकर, वीरविनायक समोदर प्राज्ञ-म कारावात पृथ्वीराज
प्र भा १.५००, भा २ ५००, भा ३ ५००
बासावानी पृथ्वीराज प्र उ
नानिवारी विद्विग्य राजपानी २५०
मुरयुजय सावरकर, पृथ्वीराज प्र २.००. जी
वीर बाणी. पृथ्वीराज प्र १२५
सम्भस्तयहृग पृथ्वीराज प्र ना
स्वानश्रीवीर सावरकर : व्यक्त और सरयमान. पृथ्वीराज
प्र १५०
हिदुष. राजपानी. ३.५०

सावित्रीदेवी तथा गार्ग्यदेवी. सप्त रश्मि. विष्णुचल. १.००.
जी.
सावित्रीदेवी प्रभाकर. भारती कुंज. देहाली. १.५०
साहू, मार. पी. टी. जयती नाटक. प्रभात बुक. ०-२५
रौस्तानुकरण. प्रभात बुक. धर्म.
जीवन निर्माण. प्रभात बुक. भा. १. १.२७; भा. २. २.००;
भा. ३. १.५०
त्यागभूति डेमियन प्रभात बुक. १.५०. ना.
प्रेम की विजय. प्रभात बुक. १.५० ना.
प्रेम दान. २ भा. प्रभात बुक. १.००. (प्र.) वप्र.
बाल नीति शिक्षा. प्रभात बुक. भा. १. १.००; भा. २.
१.२५
भक्ति मार्ग. प्रभात बुक. २.००. धर्म.
द्वितीयमासिका. प्रभात बुक. ०.६५. धर्म.
संत पीडस दसवें. प्रभात बुक. २.७५. जी.
—भन्नु. नया व्यवस्थान. प्रभात बुक. ३.५०. जी.
साहू, मार. पी. दे. वाट्ट, एस. एन.
साहू, जे. डी. माध्यमिक जीव-विज्ञान. भा. भवन.
साहू, रेमी पील. जीवन के छोटें. प्रभात बुक. ५.२५. कथा.
बोधती तस्वीरें. प्रभात बुक. २.२५. कथा.
—तथा के. वा. साहू. सतों के साथी. प्रभात बुक. ३.२५. जी.
साहूनी, पी. धार. दे. टंडन, बी. धार. के.
साहूनी, पी. धार. दे. त्यागी, महावीर सिंह.
साहूनी, बंसरीलाल. भनुभूत योग चर्चा. आयुर्वेद शिक्षा.
साहूनी, बसराम. पारिस्त्वान का सफर. हिंदू पा. (पा.)
१.००
साहूनी, भीष्म, १६१५- भट्टानी राख राजकमल. ५००.
क.
साहू, केरविम बारनो जनवरी के संत प्रभात बुक. जी.
तपस्वी माटिन. प्रभात बुक. १.२५. जी.
मृत्युजयी पथ प्रभात बुक. ०.७५. जी.
यूरोप के निर्माण. प्रभात बुक. २.५०. जी.
बन के फूल प्रभात बुक. ३.००. कथा.
संत झनोइस. प्रभात बुक. २.००. जी.
संत वेनेदिक. प्रभात बुक. १.३७. जी.
सुतो की भाकियां प्रभात बुक. ३००. जी.
शही रास्ता. प्रभात बुक. २.२५. कथा.
उन्होंने कहा था. प्रभात बुक. ५.५० कथा
साहू, जगदीश. प्रवेगिका प्रायोगिक रसायन. मोतीवाल. १.५०
प्रवेगिका रसायन मोतीवाल. ५.५०
प्राक कार्मिक रसायन मोतीवाल ३.००
साहू, जगदीश तथा धन्व. प्रथम वर्णों के स्नातक कार्बनिक रसा-
यन. मोतीवाल. ५.७५
साहू, डोमन 'समीर'. संताली-प्रशासिक. श्री दयाल पु.
भवन. २५०.
साहू, नरामनदास. कथा-चराम. जबलपुर प्र. गु. २.५०. क.
सिंह, मार. एन. भात का सार्वभौतिक इतिहास तथा राष्ट्रीय
भांशोत्पत्ति. प्र. केंद्र. ६-७५

सिंह, मार. एन. दे. शर्मा, हरिचंद्र.
सिंह, श्री. पी. धार्मिक नीट वास्तु. सिधल.
सिंह, सी. पी. मोवरमैन की पाठ्यपुस्तक. न्यू स्केच. ६.००
सिंहल, जगदीशचंद्र. दे. श्रीवास्तव, राजमणिलाल.
सिंहल, महावीर. हमारे चौपाये. राज. सा. मजरा. २.००.
वप्र.
सिंहल, दांति. झलका. भा. सा. सदन. २.७५
सिंहल, सावित्री. तुला और तारे. नेशनल. ८.००
सिंकद, प्रेमचंद. प्रकियात्मक भूगोल के सिद्धांत. प्रोरिपण्टल.
पब्लि.
सिद्धगोपाल, काव्यतीर्थ. कन्नड साहित्य का नवीन इतिहास.
आचा प्र.
सिद्धनाथकुमार, १६२७- हिंदी एकांकी की सित्य-विधि का
विकास. ग्रंथम. २०.००
सिद्धेकी, ललमा. सिंकर नामा. भा. ज्ञानपीठ. उ.
सिद्धेदा. दे. चतुर्वेदी, केचवप्रसाद 'सिद्धेदा'.
सिद्धेय, दे. राय, सिंहासन 'सिद्धेय'.
सिद्धे स्वस्वसाद. छायावादोत्तर काव्य. नेशनल. ८.००
सिन्हा, बदरीनारायण. प्राथमिकी. श्रौणणपत्त. १०.००
सिन्हा, सद्मीकान्त. हिंदी उपन्यास-साहित्य का उद्भव और
विकास. अनुसंधान एवं ग्रंथमाला. २०.००
सिन्हा, सुरेश, १६५०- उपन्यास सिंध और प्रवृत्तियां.
रामा प्र. ८.००
उपन्यासों में नायिका की परिचलना. अयोध प्र. १२.५०
शोभन; एक विवेचन. रीमल.
नई कहानी की मूल संवेदना. भा. ग्रं. नि. ५.००
प्रेमचंद; एक विवेचन. रीमल.
वापू. उमेश. २.००. वप्र.
हिंदी उपन्यास; उद्भव और विकास. यमोक्त प्र.
२०.००
सिन्हा, हरेद्रप्रताप. रस-मलकार-छंद. कैलाश व. २००
—तथा जगदीशचंद्रकाय श्रीवास्तव. विहारी; कवि और काव्य.
रा. बेनीमाधव.
सिन्हा, प्रमरनाथ हिंदी गद्य. भा. भवन. २.५०
सिन्हा, प्ररविद्वनारायण. विद्यापति युग और साहित्य. विनोद.
१२५०
सिन्हा, काशीनाथ ग्रेट ब्रिटेन का मक्खान; सरल अध्ययन.
कमल प्र. १.७५
सिन्हा, देवेन्द्रप्रसाद तथा धन्व. सामान्य विज्ञान भा. भवन.
५.५०
सिन्हा, पांडेय सतितदेव नारायण. दे. पांडेय सतित (पांडेय
सतितदेव नारायण सिन्हा)
सिन्हा, बी. के. कोशपरिचिंतन ईदलपमेठ इन नेपाल कि.
महल. १०००
सिन्हा, राम, धनु. समीकरण सिद्धांत. केंद्रीय हि. ३.२५
सिन्हा, रामचंद्रप्रसाद. दर्शन की भवन का. भवन. ३.००
भारतीय दर्शन की कलक. भा. भवन ३.००
सनाज दर्शन. भा. भवन. २.२५

सिन्हा, विधेस्वरीप्रसाद तथा शिवस्वरूप सहाय प्राचीन भारत का इतिहास तारा १२५०
 सिन्हा सत्यनारायण देग विदेश की मनोस्वी प्रथाएँ हिंदू पा (पा) १००
 सिन्हा हरीश चर्चों के फूल नवयुग द्रव्यागार ४०० उ
 सिन्हा हरीश्वरप्रसाद अनु शुद्ध धन ज्यामिति प्रवेसिका केंद्रिय हिं ४ १५
 सिन्हा, हर्षप्रताप दे श्रीवास्तव, जगदीशप्रसाद सियारामचरण प्रसाद १९३३- कालजयी भरता कला भा २५० का
 गद्यकार राजा राधिकारमण पु स भा ३००
 भेदिये की बारात कला भा ० ६२
 भ्रम की दीवार सा प्र २०० ए
 —सपा डा० रामकुमार वर्मा —व्यक्तित्व और कृतित्व विदलेषण कला भा ४००
 प्रतिनिधि साहित्य कला भा १९६३ २५० १९६४ २५०
 सिवजी राजस्थान रा लोकगीत सपा रावल सारस्वत राज भासा ५००
 सिस्सोदिया दे रामावतारसिंह 'सिसोदिया सीता निर्भरिणी कि महल २००
 सीताराम प्रौढ मनोरमा सटीक मोतीलाल ३०००
 सीताराम 'प्रभास' तुलसीदास और उनका अयोध्यावास कमल प्र
 राष्ट्रिय वि मीथिलीतरण गुप्त और उनकी यगोधरा कमल प्र
 सीताराम शास्त्री चारुमित्रा चन्द्रलोक बीसलदेव रास एक गवेषणा हिंदु एनेडेमी २००
 सदर दे घोसा, जगदीश 'सुदर'
 सुलरामदास हनुमान जीवन चरित्र देहाती ४५०
 सुखनालजी, १८८०- समदर्शी धानाय हरिभद्र राज प्राच्यविद्या
 सुयानी मनीषद दे चौधरी, सचिविनासराय मुनिया, एस पी विशानय प्रसासन एन गगटन विनोद ६००
 सुदर्शन, १८९६- बान महाभारत बोरा २५० बप्र
 बाल रामायण बोरा २०० बप्र
 सुदर्शनप्रसाद सिंह तथा निवदाकरप्रसाद सरल प्रायोगिक भौतिकी भा भवन ३७५
 सुदर्शनप्रसाद सिंह तथा धन्य प्रायोगिक भौतिकी भा प्रवा ६००, ७००
 सुदर्शनसिंह कृष्णचरित भोतीनाल १०००
 सुदर्शनसिंह चक्र दे धरदास सरस्वती, स्वामी गुणागु दे लक्ष्मीनारायण 'गुणागु'
 गुणाकर, ने एम मजूपा विवेक २५० क
 मुधि दे पपा 'मुधि'
 मुधीर, वेददान, १९३८- भारत की विदग नीति जैन गु म. ७५०

मुनीता, १९४१- बोज्य कमलवीर प्र २००. उ
 सफर के साथी कमलवीर प्र २५० उ
 सुमन दे अवाप्रसाद सुमन'
 सुअक्षयम सी मेरे देखें कुछ देसा की भ्रनक नदामामा १५०
 सुमगलप्रकाश वह नन्हा सा आदमी भा जानेपीठ ६०० जी
 सुमन भाषा विज्ञान के सिद्धांत नवचेतना ६५०
 सुमन दे अवाप्रसाद 'सुमन'
 सुमन दे क्षेमचन्द्र सुमन'
 सुमन दे मित्र, बनवारीलाल 'सुमन'
 सुमन दे रामनाथ सुमन'
 सुमन दे शिवममलसिंह 'सुमन'
 'सुमन', आचार्य बृद्धावस्था कैसे रोके भाग्योदय २००
 स्पन्दोप कैसे रोके भाग्योदय ३००
 सुमनाकर दे सनावदा विष्णुनाम 'सुमनाकर'
 सुमेरसिंह 'दइया' प्यास की प्यास सूय प्र म ४०० क
 सुयोगी मिलन, सपा सतुवन सा २ समानातर ३५०
 सुराणा प्रतापसिंह माता पिता और बच्चे पिया भवन, उ ४००
 सुरेंद्र, १९३६- नई कहानी दसा, दिशा, सम्भाना भगवतो १५००
 सुरेंद्रपाल सिंह अनोखा विवाह जवनपुर प्र गु १०० ना
 सुरेंद्रमोहन सचिव अयुर्वेदीय यत्रसत्परिचय चौपवा १७५
 सुरेंद्रप्रसाद प्रवेसिका भूगोल भा भवन ५५०
 भूगोल भा भवन ६५०
 वाणिज्य भूगोल भा भवन ५००
 सुरेन्द्रारण्य हिंदी साहित्य का इतिहास राजीव, मे १००
 सुरेंद्रसिंह १९१०- रंगे वाले जीव सस्ता ३०० क
 हमारी चिहिया स ५ नेदानल ७००
 सुरेंद्रसिंह, १९१२- हमारे जानवर नेदानन ३००
 सुनीरनुमार महात्तवि कालिदास उमेग २०० बप्र
 सुनीलकुमार सिंह भाषाशास्त्र, तृहतर संस्करण धालो प्र, मो
 सुनीलचंद्र सिंह, १९१३- भारतीय शासन और राजनीति के सो वर्ष साथी १०००
 महत्वपूर्ण शासन प्रणालियाँ साथी १०००
 राजनय के सिद्धांत साथी ५००
 राजनीति साथी १०००
 राजनीति के निबंध साथी
 रचनन राष्ट्रों के सम्बन्ध रयागी प्र १५००
 गृह दे कविलदेवनारायण सिंह 'गृह'
 गुरजप्रसाद सिंह, सपा निबंध मन्वय मगध सा.
 गुरती, उर्वरी आधुनिक कविता में मनोविज्ञान अनुगणान १६००
 गुरदास अमरगीत-सार सपा राजनाथ धर्मा विनोद



—सपा रामचन्द्र शुक्ल सभा स १३ सा सेवा ५
५००

सूरसागर सपा नन्ददुलारे वाजपेयी १५०० ना प्र
सभा १२५० (प्र)

सूरी ललितमोहन कुलदीर्घसिंह माध्यमिक प्रयोगिक रसायन
रामप्रसाद २००

सूयवात दे कीप ए बी

सूयवात दे ब्रुनफील्ड एम

सूयकात गास्त्री नदिक कोण मोतीलाल २२५०

सूयनारायण मूर्ति चावलि १९२१ हिंदी और तेलुगु के
मध्यकालीन राम साहित्यो वा तुलनात्मक प्रतुगीलन हि
सा भ १५००

सूयभूषणप्रसाद दे राधाराधप्रसाद

सूयमल्ल मिश्रण १८१५ १८६८ वीर सतसई स्रुण सपा
पतराम गौड़ विष्णु तथा श्रय दगाव हि ६००

सेलावत सुमेरुसिंह मेघमात रितु काव्य श्रलका प्र सी
३०० का

सह एम एल हायर सैकेंडो वाणिज्य प्रथमालय गिवलाल
६००

सेठिया मूलचंद सकलित कल्याणम २५०

सेठी त्रिलोचन द तनखीवाने सुचोलाशई

सेठी निहालकरन प्रारंभिक भौतिकी चौखवा ५५०

सत्तक द निरकार देव सेवक

सलिसबरी रोहित शी प्राकृतिक भूवृत्त सभो ना ३०००

सोज दे कल्प्य प्रस सोज

सोनवलकर दिनकर १९३३ अकुर की कृतज्ञता लोक
चेतना का

प्रतिनिधि तत्कवन कविता मराठी भा ज्ञानपीठ ४००

सोना कुलदीर्घसिंह दीप द्वारंगी दीप प्र ल ३००

सोनी जगदीशचंद्र समस्थानिकों के ससार में केंद्रीय हि
२६०

सोप्टाग पो जे जीवन दाता प्रभात बुक ३०० जो

सोम दे शर्मा मंगीराम सोम

सोम सुभाष अल्पकृत कुमार सज १५०

सोमावीरा तिल्ली कि महल ४०० उ

सोलकी कोमलसिंह १९२७ खाली मवान खुले जमरे लोक
चेतना ३५० उ

नाम पत धीर निगुण सत काव्य विनोद

सोलकी देवेन्द्रप्रतापसिंह अनुजानुन रहीम की राष्ट्रीयता
कृष्णा व

सोलकी सूरज सपा देवरी री पड नवयुग प्र कु २५०
गीत

स्पदिर सट्टमावाय छायावर्ण तथागत वा उपदेश महाबोधि
०५०

स्नातक दे विजयेंद्र स्नातक

सनेही कुछ मुक्तक कुछ गजत अगोके पा (वा) १००

स्थाल की एस प्रोड गिणा हस्तामलक पु स वा १२५

स्वतंत्रज्ञानद स्वामी विन्पों में एक साख हरयाणा २२५

स्वामी मंगलदास सपा श्रीमहाराज हरिदासजी की वाणी
सटिष्णपी व धपर निरजनी महात्माभो की रचना के
असाग दादू महाविद्यालय जयपुर सिने
स्किन्लर चार्ल्स ई शिशा मनोविज्ञान आत्माराम १५००

१५५५०

ह

हस दे उदयभानु हस

हसरज दशक पाटियों के स्वर सभाग ३०० या
हसरज रहवर १९१४ अमिता हिंद पा (पा)
१०० उ

प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन नवयुग प्र ८००

हसवणी गौतम सपा पचामत चौखवा ३०० का

हसास्वरूप स्वामी पटवज्नरूपण विज्ञान म ७५५

हुवेला पी डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वार्षिक विकास
गय व २००

बरोजगारी के सिद्धांत गय व २००

हुवेला पी डी दे परमार एस एन

हट्टन जे एच भारत म जाति मोतीलाल

हुनुमानदास चकोर छायावाद और निराला नवयुग प्र या
गार १५०

नये राही नये रास्ते नवयुग प्र धागार २२५

बाल तेरह एकाकी नवयुग प्र धागार १५०

भारतीय ऐतिहासिक वीर महापुरुष नवयुग प्र धागार
१०० वप्र

हमारे कवि हमारे बच्चे नवयुग प्र धागार १०० वप्र
हुनुमानदास, स्वामी, व्या हिंदी ब्रह्मसूत्र शाकर भाष्य भा
१ चौखवा १२००

हरगोविंददास पाद-सद्महण्णवो प्राकृत मोतीलाल ३०००

हरनारायण स्वामी कृपानाथ सरस्वती सरल लोकव्याप
विवेक १५० वप्र

हरि दे मुक्त हरिकृष्णदास 'हरि'

हरिप्रोष दे उपाध्याय अयोध्यासिंह हरिप्रोष

हरिचैरा दे महतो वलिराम हरिचैरा

हरिदत्त वेदान्तकार १९१७ काशिदास के पत्नी गुरुकुल
काली

हरिदत्त गास्त्री व्या शुक-सूक्त-सप्रह सयो स ४ भा
सा म, मे ७००

हरिमोहन भौतिकिक खेत हिंद पा (वा) १००

हरिकरणव नचवन १९०७ अभिनव सोपान राजपाल
१५०० वा

चौसठ रूसी कविताए राजपाल ३००

दो चट्टानें राजपाल ७०० का

मनुकुलगा हिंद पा १०० का

मखस दीप का स्वर राजपाल ५०० का

—रुपा नागर गीता राजपाल ६००

हरिसंकर अनुवाद शिक्षक हि शिक्षक ० ५०
 निबंध सत्र हि शिक्षक ० ५०
 पत्रलेखन हि शिक्षक ० ५०
 कूल पत्र हि शिक्षक भा १ ० ५०, भा २ ० ६०,
 भा ३ ० ७५ क
 हरिचंद्र सदाचार सूत्र प्र म २ ०० नि
 हरिचंद्र विद्यालकार सामवेद गूढका देहाती ४ ००
 हरिहर सिंह हमारे पत्र और त्योहार समाग ८ ००
 हरिहरानंद सरस्वती स्वामी (वरपावीजी) ग्रहमय घोर
 परमार्थसार ठा राधागोहन सिंह स्वगाथम धाम, तिलक
 राय हाता पो बडका राजपुर, जि आरा ६ ००
 हरीश (हरिसंकर धर्मा) १६३३- आदिकाल का हिंदी गद्य
 साहित्य स १०००-१५०० रामा प्र ८ ००
 आदिकालीन हिंदी साहित्य शोध सा भवन, इ
 २ ००
 हरीश नौनिहाला के गीत राज सा भवा २ ५० बप्र
 हरीश मधुर सल क गीत भाग्योदय १ ०० वप्र
 चाचा नेहू भाग्योदय १ ०० वप्र
 धरती हिंदुस्तान की भाग्योदय १ ०० बप्र
 नन्दा चिडियाघर भाग्योदय १ ०० बप्र
 बिस्ली बानी म्याऊ भाग्योदय १ ०० बप्र
 हरेंद्रदेव नागयण भारतीय जवानों की ललकार दिव्यालोक
 प्र ५ २०
 हडौंवर, धीनिवास बालाजी १६०६- घट्टारह सो
 सत्तावन सरता ३ ५०
 तात्मा टोपे नेशनल ६ ००

हर्ष, भार जी, भाष्य शिवकोश—शिवदत्त मोतीलाल
 १२ ००
 हर्षचंद्र दे जेनेंद्रकुमार
 हाथानं, नैथेनियल हवेती राजपाल ५ ०० उ.
 हाडों, टामस केंस्टर बिज का मेयर अनु गिरीदाकुमार
 चतुर्वेदी, पु स, वा ६ ०० उ
 हालदार, अक्षितकुमार, १८६०-१९६४ रूपदसिका चंद्र-
 लोका १० ००
 इंडियन वल्चर एट ए ग्लान्स हि समि ३ ० ००
 हरियन्ना, एम भारतीय दशन की रूपरेखा राजरामल
 १२ ००
 हीलरोनर विद्व के महान धर्मशास्त्री एलाइड ८ ००
 हुनमचंद कचनगड ४ भा देहाती ३ ००
 हृदयेश दे पाडेय, हृदयनारायण हृदयस'
 हेमचंद्र, आचार्य प्रपन्न दा व्याकरण अनु यात्रिग्राम उपाध्याय
 भा विद्या प्र ५ ५०
 हेमराज निर्मम', १६३१- युद्ध और शांति के नेता लाल-
 बहादुर कमल प्र, घ ३ ८०
 रण मे उतरे वीर सपूत कमल प्र, घ ३ ८० नया
 हेलब्रोन्गर, रावर्ट एल आर्थिक विकास गण व २ ५०
 हैनिमन, महात्मा हैनिमेन्स आनिक डिजिज अनु एम एन
 वणवाल एम एल बुक स १ ३ ००
 हेरत उर्दू क प्रेमगीत असोज पा (पा) १ ००
 होभाग दानवी उपनिषद्वाद स साम्यवाद की घोर मूरेधिया.
 १ ५०



बृहद् हिंदी ग्रंथ-सूची: परिशिष्ट १९६६

विभाग २

अ

- ब्रह्म सन्ध्या, राजद्र, कृष्णा अ २५०
- की कृतता सोनवलकर दिनकर एक चेतना
- प्रवेश्य सुकल एम एम सशो स ६ नवयुग सा स आ ८००
- सिद्धान्त शुक्ल, एम एम सशो स ३ नवयुग सा स आ ५००
- प्रणिका-संस्कार गीत वि राष्ट्र
- अग्नि बोली गाइड अगनी फाल्क देहाती २५०
- अनुभव निकाय कीस-यायन, भद्रत आनंद महाबोधि भा १ ७००, भा २ १०००
- अप्रती साहित्य का इतिहास मिथ जयदीशविहारी हि समि ७००
- हिंदी पर्यायवाची बोध कपूर, बदरीनाथ सपा राजकमल ६००
- अनरा देवधर, ज्यो र्ना महाराष्ट्र राष्ट्र ३००
- अतर्जना येन्कीकर ईश्वर वीरा ८५०
- अजयन्त वीरभानु सिंह प्रताप नवयुग ग्रथागार ३५०
- अतर्जनी श्रीशिव कृष्णचंद्र रामप्रसाद २७५
- अनर्जनीय काननू रवाणी महावीरसिंह राजीव, मे ६५०
- कानून सरल अध्ययन विष्णु रामगोपाल राजहस प्र म
- आगार और आर्थिक विकास मिमर, नेरेल्ड एम भारताराम ५५०
- आगार तथा आर्थिक विकास हजेली पी आ गग व २००
- अवध टउन महोत्रसाद केन्द्रीय हि ८८०
- अवध आगिया पी, आर स २ राजीव मे १९१६ से भाषुनिक समय तक ७०० १९३६ से आधुनिक समय तक ३५०, १९७१ से आधुनिक समय तक ५०
- अवध मितल नमिगरण राजहस प्र म ७५०
- अवध सरन अध्ययन रस्तोगी, दयाप्रकाश राजहस प्र म २६५ से ६२५

- प्रतिम अध्याय गुप्त भरवप्रसाद घारा १०००
- परिचय चट्टोपाध्याय सततचंद्र हिंद पा (पा) १००
- अत्याक्षरी दोहावली त्रिवेदी दुर्गाशंकर शरविद प्र म ०६०
- अथा चाद रूपचंद्र मुनि भा ज्ञानपीठ ३००
- अधरी वस्तिवा रमेश भारती नवयुग प्र ५००
- सुबह यशपाल बालिया निराला सा स ३००
- अधरी के बाहर कुलशेठ, रवींद्रप्रकाश स २ त्रिमय ५००
- अवट्टसुत राहुल साकृत्यायन महाबोधि ०५०
- अकडू सा अजीतसिंह भमरा स्वास्थ्य सरिता १००
- अकक कहानी बमा सबदानंद हि प्रचा पु २००
- अकबर औरवन विनोद सम्मननाल देहाती ४००
- अकिन की बात शाही, श्रीरंग अशपाली २००
- अकैली आकृतिया सुनल, प्रयाग परिमल ३५०
- अक्षय रथ चंद्रप्रनाथसिंह सपा म स मूनि प्रलयवट कल्याण म ०५०
- अखंड विवासन ज्योतिष न्यादरसिंह 'वैजै' देहाती ४५०
- अग्नि बोधा अमृतराय सजना ५००
- अथ दार्मा यादवेंद्र चंद्र कल्याणमल ३००
- अच्छा नागरिक बत्स्य, सतराम नेगल १२५
- अच्छी कहानिया बत्स्य सतराम रामप्रसाद ०५६
- रसोई गुल, नृसिंहराम भाग्योदय १००
- हिंदी टउन विश्वनाथ २ भा रामा प्र १५०० (प्र)
- अछूते फूल और अथ कहानिया बाल्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद अणय सरस्व प्र ३५०
- अजय राष्ट्रभाषना उपाध्याय भगवतराण प्रभात प्र ३५०
- अट्टारह सी सत्तावन हर्डीकर, श्रीनिवास बालाजी सस्ता ३५०
- अट्टारह मूरज के पीछे बनी, रमेश, भा ज्ञानपीठ ३००
- सी सत्तावन मासूम राजा राही भारताराम ६००
- १५५० की जगि और रहलसड प्रतापचंद्र 'आजाद स्वराज्य २००
- अनु और अनत गोविदास इल्टर मूनि ४००

अनुसुगु श्रौर हम् दिलीप भ भा सर्वे
 —का नया सवेरा अरुण रविम अर्णयुग २५०
 अतीत लडा सत्यनारायण 'पुष्प' नवयुग प्रयागार २२५
 अत्याधुनिक हिंदी साहित्य कुमार बिमल, सया पराग प्र
 ६००
 अथर्ववेद स्वाध्याय ६००
 —एष गोवध ब्राह्मण ब्लूमफिल्ड एम चौलवा २५००
 —का मुबोध अनुवाद सातवनेकर श्री सा ५ मा स्वाध्याय
 १००० (प्र)
 अद्भुत कवि सम्मेलन श्रीकृष्ण 'सरल' जवतपुर प्र गृ
 ४००
 —नगर गुप्ता शाता राज सा भका ३००
 —मोती दयाल फकीर शिव सा १००
 अद्वैत दशन या एक सत्तावाद गोविंदाचर स्वामी विज्ञान म
 २५०
 अथजली चिन्ता शर्मा नरेंद्र नय्यर प्र ३५०
 अधिकांश का प्रश्न वाजपेयी भगवतीप्रसाद मा सा म
 ३००
 अयुरे गीत नदक्योलियर, ऋषिकुमारी अलका-बीटा ४१०
 अयुरा स्वग वाजपेयी, भगवतीप्रसाद मा अ नि ६००
 अयुरी मुस्कान तिलक चमनलाल २५०
 अय्यन कीन हो राजेंद्र सा केंद्र दि ३५०
 अय्यन अलोक राय विवेकी आदर्श पु २००
 —श्रीर अन्वेषण शर्मा, रामगोपाल दिनेश, सया उदयपुर
 विश्व ५००
 अय्यात्म विकास विष्णुतीर्थ, स्वामी विज्ञान म १५०
 अय्यापत्ते की शिक्षा फोल्ड होडन आत्माराज ६००
 अय्यन चतुरसेन, आचार्य सुबोध पा (पा) १००
 अय्यनके सपने उमाशकर मा अ नि ५००
 अय्यनमोल रत्न वासुदेवा, सी एल भार्गी १७५
 अय्यन कड मदन आचार्य श्रीगुप्ता १७५
 अय्यन के दाने द्रजभूषण कृष्णा अ ३००
 अय्यादीराम श्रौर उमदे साथी नसीब आरमागम ५००
 अय्याम स्वामी जैनेंद्रकुमार पूर्वोदय ४००
 अय्यनपिपित सोह, कविताए, १६५६ ६४ अय्यवाल, भारतभूषण
 मोरभारती ४००
 अय्यनान विधी श्यामसुंदराचार्य स ६ श्यामसुंदर ०५०
 अय्यन के मोती बोरबा, हृदयारायण सायना प्र
 ६००
 —प्रकाश तुकरोजी महाराज २ मा श्रीमृदव १५० (प्र)
 अय्यनवाचक अल्प, यादेव मोतीनाल ५५०
 अय्यनभूषण पाठक, वेदारायण स ३ भा २ श्यामसुंदर
 १००
 अय्यनभूषण श्यामसुंदराचार्य स ७ भा १ श्यामसुंदर
 १००
 —अर्चा ताहनी, बगरोलाय अय्यनवेद गिशा
 अय्यन श्रौर अय्यन मिश्र, दुर्गाशंकर नवयुग प्रयागार
 ४५०

अनुभूति श्रौर चित्त गौड वमलेस नवयुग प्रयागार ७५०
 अनुवर्तिका तथा उद्दिष्ट अभिजनन रामप्रतापसिंह नि महल
 अनुवाद कला कुछ विचार रोमाणी आनंदप्रकाश
 एस चाद
 —भास्कर त्रिपाठी, देवीदयानु रामा प्र ८००
 —शिक्षक हरिदाकर हि शिक्षक ०५०
 अनुसंधान की रूपरेखा राजेंद्रपाल सिंह गयाप्रसाद ५००
 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग की
 सूची पहजा ०१०
 अनेक कठ एक पुकार शिवसिंह 'सरोज' भा प्र, ल
 २००
 अनेकाय तिलक पटकर एम एम मोतीनाल ६००
 अनेका विवाह सुरेंद्रपाल सिंह जवतपुर प्र गृ १००
 —सशर रामवृक्ष धनीपुरी धनीपुरी २००
 अनेकी भालें सुक्ल राजाराम राष्ट्रीय आत्मा . सरस्व स,
 का ४००
 —कहानिया विष्णुदत्त विल्व आत्माराम १२१
 —दुनिया भूगोल २५०
 अतत जोसी हिमानु पूर्वोदय ३५०
 अन्वेषण भूगोल भूगोल २००
 अप टेलरिंग फंडम बुक कालरा सुदीला देहाती ३२५
 अपना इलाज आप करो चौपरी, युगलक्ष्मी वल्लभगमन
 ०७५
 —उदार आप करें अलड १००
 —राज कैसे घटाएँ ? माडें, स्वेट शुबोध पा (पा) १००
 —चरित्र निर्माण आप कीदिए कपूर श्याम आर्य बुक
 २००
 —जीवन निर्माण आप कीदिए कपूर, श्याम आर्य बुक २००
 —देश अपना राज राय अलड राजीव इ १५०
 —स्वास्थ्य आप बनाइये कपूर श्याम आर्य बुक २००
 अय्यन पहवान भगवानदीन महात्मा पूर्वोदय
 अय्यन अय्यन मुह स गुप्त हरिद्वारारा हरि सुंदर २००
 —आपको पहचानिय अधिकांशी, महावीर हिंद पा
 (पा) १००
 —आपको पहचानिये माडें, स्वेट सुबोध पा (पा)
 १००
 —दुल मुझ दे दो बेनी, राजेंद्रसिंह नीताम ४००
 अय्यन अ श्रौर हिंदी म जैन रहस्यवाद वासुदेवसिंह हि
 प्रवा पु
 —भाया श्रौर साहित्य जैन दवेन्द्रकुमार भा ज्ञानपीठ
 १००
 —भाया वा अय्यन श्रीवास्तव वीरद भा सा म
 १२००
 —व्याकरण हमचंद्र आचार्य भा विद्या प्र
 ५५०
 अय्यन श्रौर दड दोमनेवकी गानेत
 ८००
 —श्रीर ईशरायण राय, गौडानुमार चौगवा ८००

- अमरावती का व्यापक विस्तार ४००
 अफगानिस्तान भूगोल १००
 अश्विनी की राष्ट्रीय जागृति मोतम, अजयप्रताप विद्या-
 भवन, ल
 —के राष्ट्रीय नेता माधुर, जयमोहनलाल नवभारती
 २५०, लोक स २००
 अथ एक विष्णुस्वरूप उत्कृष्ट प्र ४००
 अभांगिन का भाग्य बरेकर मामा विद्या प्र म ४५०
 अभिनान शाकुन्तल—सपूर्ण वागीश्वर विशालकार मोतीलाल
 अभिनव विद्यावली वर्मा श्यामलाकांत चौसवा ४५०
 —विक्रित विज्ञान विवेची रघुवीरप्रसाद चौसवा
 २२००
 —शारीर त्रिया विज्ञान शर्मा प्रियव्रत चौसवा १०००
 —संस्कार पद्धति प्रसन्न २५०
 —सोपान हरिवंशराय वचन राजपाल १५००
 —हिंदी निबंध मिथा के जबलपुर प्र गृ १२५
 अभिनेत्री की स्वयंवर सभा भट्टाचार्य बलारानी माग
 दपक १२५
 अभिमान और यात्राएँ विष्णु प्रभाकर विश्वविद्यालय २५०
 अभिगन्था टहन प्रतापनारायण मा कद, दि ३५०
 अभिसार क्रिगण 'बुभुक्ष' मीरा प्र
 —विद्या विजयवर्मा, रामगोपाल राज सा भवा
 २२५
 अभी दिवसी दूर है और गृहदायका कल्प, प्रम 'सोड सा
 सगम प्र, सा ३५०
 अभेददों निराला श्रीधर, शिवप्रसाद 'दिवाकर' नवयुग
 प्रयागर
 अमर बनाए रामकृष्ण बेनीपुरी ४ भा बेनीपुरी १०० (प्र)
 —भारतवारी उद्यमनारायण सिंह परिमल ४००
 —बो, हिंदी रूपान्तर अमरसिंह रा बेनीमाधव ५५०
 —ज्योति और रामराज्य रामकृष्ण बेनीपुरी बेनीपुरी
 २००
 —नेहरू स्वामिदरलाल ३ पथिल १००
 —गहोद चंद्रशेखर प्राजाद वैश्यायन, विश्वनाथ
 लाजपत स्मारक
 —गहोद रामप्रसाद विस्मिल चतुर्वेदी बनारसीदास
 साय नया स भा भाराम ३००
 —गहोद सागरदल गोपा बोडा रामचंद्र लोकव्यत
 १०००
 अमरसिंह राठौर ग्यादरसिंह बर्बन बहाली २५०
 —सैतानी सावरकर गोपाल, दिनकुमार भा मा सदन
 अमराई का साईं मानपा, के बी नेगन २५०
 अमरीका उन्नति के माग पर जानसन, जेरास्ट डब्लू गर्ग
 ३००
 —का सविधान गरल अय्यन बमल प्र
 —की विदेश नीति अर्नेस्ट, धार न भारामराम
 ७५०
 —की बड़ा जानन जेरास्ट डब्लू गर्ग ३००

- अमरीका कैसे बना जानसन, जेरास्ट डब्लू गर्ग ३००
 —में सहकारिता बूरहिस, जेरी गर्ग ३००
 —अर्थव्यवस्था मारखम, जेस्ती डब्लू भारामराम
 ७५०
 अमरीकी दर्शन का इतिहास हिंदू एकेडेमी ८५०
 —राजनीति और अमरीका के राजनैतिक दल
 रासिटर विलन्टन भारामराम ४००
 —राजनीतिक प्रक्रिया लेवी तथा रास आरामराम
 ७५०
 —शिवा के कुछ पहलू चान्सी, हेनरी गर्ग २५०
 —सामाज लिन केनेथ एल भारामराम ७५०
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास कन्लिक, माक्स गर्ग ३००
 अमरकदातक मिथ, विद्यानिवाह, व्या राजकमल
 २५०
 अमरावत और पूनम शुक्ल, भगीरथ 'योगी' ज्ञानमदल प्र
 ५००
 अमरावत माहारम्य जगन्नाथ देहाती १५०
 अमिता हसरान 'रहबर' हिंदू पा (पा) १००
 अमिधम्मत्पसगही कोसल्यायन भदत आनंद महाबोधि
 ३००
 अमिय हलाहल मदमरे गोस्वामी, श्रीगोपाल भा विद्या
 ५००
 अमृत और विष नागर, अमृतलाल लोकराठी १५००
 —सागर बंधक देहाती १०००
 अमृता प्रीतम की श्रेष्ठ कहानियाँ अमृता प्रीतम राजपाल
 ३५०
 अमेरिका के पैंतीसवें राष्ट्रपति जेन फिट्सजेरल्ड कैंनेडी
 दीक्षित, रामबिहारीलाल धर्मभूमि प्र
 अयोध्याकांड अखिलेश्वरप्रसाद, टीका भा भवन ६५०
 अरावली की आर्या शर्मा, मनोहर राज सा समि
 ग्रहण रतन ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २००
 अरुंधा जिपाठी, सूर्यकांत निराला जबलपुर प्र गृ ४००
 —के क्षण चौहान, समर साहित्यालोचक प्र, अर
 ३००
 अरुंधालक और उनके उपयोग शर्मा, उदितकुमार, अनु
 केंद्रीय हिं ३७५
 अरु विचार जैन, रतनकुमार विश्वभारती, ना ६००
 अरुणाक्ष अखिलेश्वरप्रसाद भा भवन ६००
 अरुणाक्ष सक्सेना, अरुणकिशोर राजहंस प्र म ४००
 से ८००
 —ना सरल परिचय नागर, बी डी... जबलपुर प्र गृ
 ७००
 —नी रूप रेखा गर्ग, भागदस्वरूप स १८ राजहंस
 प्र म ७५०
 —के सिद्धांत नवलकिशोर सिंह भा भवन ६००
 —के सिद्धांत पाटनी, धार. एल भा १-२ राजीव, मे.
 ४०० से ७५०

अर्थशास्त्र के सिद्धांत स २ भडारी, मधु राजीव, मे ८००
 —के सिद्धांत विजयप्रताप सिंह सप्तो स ६ नवयुग सा स, आ ५६२ से १०००
 —के सिद्धांत सरल अध्ययन गर्ग, रतनप्रकाश राजहंस प्र म ४५०
 —के सिद्धान्त सरल अध्ययन गुप्त, ध्रुवचंद्रप्रसाद, कमल प्र २ २५
 —के सिद्धांत सरल अध्ययन भित्तल एस सी राजहंस प्र म ७५०
 — सरल अध्ययन विजयपालसिंह राजहंस प्र म १४५०
 ग्रथ आने तक रामलाल खामोश एवर-धीन २५०
 ग्रथों के कून सिन्हा, हरीश नवयुग अग्रगण्य ८००
 ग्रथकार पद्य में कुलवाहा तेजनारायण एम एल बुक १५०
 —प्रयोग पाठ्ये उद्देशचंद्र कि महल ३००
 —मीमांसा द्विवेदी, रामचंद्र मोतीलाल १६००
 —मीमांसा मुरली मनोहरप्रसाद सिंह भा भवन ६००
 —मुक्तावली गर्मा देवेंद्रनाथ भा भवन ३७५
 —सर्वस्व सजोविनी द्विवेदी रामचंद्र मोतीलाल अलकनन्दा के साथ साथ पद्या मुधि' नेशनल १६०
 अलका सिंहल, पारित भा सा सदन २७५
 अलखिया सप्रदाय चारण चंद्रदान भा विद्या म ३००
 अलविदा वाचस्पति जयत हिंद पा (पा) १००
 अल्वर्ट आइंस्टीन निपाठी तारा प्रत्युप २००
 अवतरण गुरदत्त गुबोध पा (पा) २००
 अवध की लूट पाठ्ये, राजे: हिं समि ३५०
 अवधी का विकास मशसेना बाबूराम हिंदु एकेडेमी
 अवधूत धाराधना सनादया विष्णुराम मुमनाकर माधव अवसर को पठचानो माडेंन ह्वे' मुबोध पा (पा) १००
 अविकसित बच्चों की सहायता केपा, वार्नेल गर्ग प्र २००
 अध्ययता रोम मुषाय कुमार सज. १७०
 अज्ञात चिना भाटिया धोम्प्रवान 'अचल राजपूत' अनिल प्र म २५०
 अज्ञोव मुकजी, धार के मोतीलाल
 —के अभिलष पाठ्ये, राजवनी भा भवन ६०००, राज स ७५००
 —के गीत अज्ञोव मंगला
 —निबन्ध सागर विजयकुमार अज्ञोव प्र ५००
 अज्ञ- एव रगौन वदस्तिव कोनया 'अज्ञ' नीताभ १२००
 अज्ञप्यविविया जैन, पुष्पोत्तमपाल धनु केंद्रीय डि ३१०
 अज्ञ प्रबचन जैन हरिनान, सदा जिप्पाचल / ५०
 अज्ञोव हृदय सगुर्ग लानचंद्र, वैद्य मोतीलाल ११००
 अज्ञोव्यापी भाष्य बलराम त्रिगुणु भा प्राध्व भा १. १२००; भा. २ १०००

अष्टोत्तरशतनाम् मानिवा विद्यासागर शास्त्री भा. प्राध्व ६००
 असतुलन चौहान मनहर उदेश
 असतो के हिंदी कवि निवेदी, विपिनविहारी श्री भवानी प्र. ६२५
 असम भूगोल १००
 —की गोद में अरविंद, जनक शर्मा ७५०
 —तथा नेपा के घरतो पुत्र जनक अरविंद शर्मा
 असामयिकी अदस्यी, राजेद्र पु केंद्र
 असामान्य मनोविज्ञान अट्ट एम ए ' ' लक्ष्मी ना ५००
 असोज माहात्म्य शर्मा, जगन्नाथ देहाती १.५०
 अस्तगत शर्मा कृष्णचंद्र 'भिवसु' भा अज्ञोव ६००
 अहमर्ष और परमार्थसार हरिहरानंद सरस्वती, स्वामी (वरपात्री जी) ७००
 अहिना की पहानी जैन, यशपाल रास्ता १७५
 आर्थिक मोतिकी में हल हृए प्रदन गर्ग, पारितप्रसाद राजहंस प्र म १८८
 आलो का सवाल गुप्त, भैरवप्रसाद धारा ३५०
 —देशे वित्र वैजल, दयामनरायण पावेंती २५०
 आगन के पून. निश्र, भिवशकर प्रभात पत्रि २५
 आचल डोन गया चतुर्वेदी, तपेरा, सदा प्रगति प्र ४००
 —डलक गया अग्रवाल, धनश्याम धूपवं
 आमुष्ठा के पून प्रतापचंद्र 'आजाद' स्वराज्य ३००
 आ अत्र लोट चले आनंद, गुरेंद्र सनी स. २ आनंद प्र ३००
 आर्यो सेले आर्यो गार्थे रघुबीर शरण 'मित्र'. भा गा प्र २००
 —साय चले आरे कातिलाल ननिनी' नवयुग सा स, इ २५०
 —सुनो कहानी आ, रमेजचंद्र यथमाला ०७५
 आइना बोल उठा गर्मा, देवेन्द्रनाथ राजगण २२१
 आइने अकबरी गर्मा, हरिवरराय, धनु मशमना १५००
 —के सामने मोहन रावेरा अग्र ४५०
 आकाशंनिक रसायन सरल अध्ययन पाठ्ये कमल प्र २५०
 आकाश वा राशत मिथ, नजलविहारी हि प्रधा गु (पा) १००
 —सानी है दत्त भारती मुषोप गा (पा) २००
 —दर्शन भूगोल १००
 —दानी दे पानी गाविद चातक सप्ता २५०
 —दीर गर्मा, टैकचंद्र यनत्र ४००
 —विभाजिन है गर्मा, विष्णुचंद्र जगन रागपर ६००
 आकाश चीन और हमारा कर्तव्य जैन नमचंद्र 'अप' विवेता ५००
 आगम अज्ञान मुद्रप्रिय देशी श्री श्री पानममयी २५०
 आगो निम्न गुरदत्त मुषोप पा
 —आगम विपाठी, अज्ञान आनंद प्र २१०
 आगम सगुर्ग जैन, प्रद्युम्नकुमार नमन प्र.

- भाषमन सर्वशास्त्र तिवारी, वेदान्तनाथ भा भवन ५५०
- सर्वशास्त्र मल्लिक, जगदीश्वारायण भा भवन ५५०
- भाषम पुग का जैन दर्शन मालवजिष्या, दलसुखभाई सम्प्रति ५००
- शास्त्र गौडपादाचार्य महाबोधि १५०
- भाषाचार्यगुरु हिंदी अनुवाद सहित आत्मरामान, प्राचार्यश्री २ भा मोतीलान १६००
- भाषार्य वैशवदास के तीन ग्रन्थ केशवदास विद्वेषकरानन्द ४००
- चतुरसेन का कथा साहित्य बप्पूर, शुभकर विवेक ३५००
- चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में इतिहास का चित्रण भाषाज्ञान विश्वप्रथम प्र प्रतिष्ठान
- काण्वर नार नारादनराय सा सस्थान राज २५०
- दिश सातवार, निमल, मंग बगोय ८००
- द्विवेदी श्रीर उनके संगी-साथी वाजपेयी, किशोरीदास जिनासा ३००
- नदकुमार वाजपेयी व्यक्ति और साहित्य शर्मा, रामाधार, सभा मनुसधान २०००
- बुद्ध बोध धर्मरक्षित, भिनु महाबोधि १००
- रामचंद्र युक्त जन्माथ 'नलिन बसल ६५०
- विजयनाथप्रसाद मिश्र पाडेय, दीनानाथ युगनाथी प्र १२००
- टनारीप्रसाद द्विवेदी व्यक्ति व एव साहित्य गुप्त, गणपति-चंद्र भारतेन्दु भवन ७००
- हजारीप्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व वासवदत्ता, श्री युगवाणी प्र १२००
- हमचंद्र श्रीर जनजा शब्दानुशासन एक अध्ययन शास्त्री एन सी चौलवा १५००
- भाष का वैज्ञानिक गाइडले, वास्टर यूरेसिया १००
- का हिंदी गाइडर गुप्त, प्रकाशचंद्र वेगनल भाषम वाराणसी सावरकर, बीर विनायक दामोदर पृथ्वीराज प्र भा १.५००, भा २ ५००, भा ३ ५००
- भाषादी के सहज करम नेहरू, जवाहरलाल प्र विभाग भाट अभिनेय एवारी डाबुल, बृजमोहन सिंह साथी ३००
- एवारी शर्मा, निरपानन्द, सभा इ प्रे भाषन मधुराय जवना ३००
- भाष वृत्तान्त का राज मार्ग मण्ड १००
- भाषनयो, नवनेनाये प्रसंग पर प्राधारित कुवरनारायण भा नावरीट ३५०
- भाषमत्त्व विद्वानन्द, स्वामी श्रीरामकृष्ण १३०
- भाषमनायिका की प्रेरक कथाएं अग्रवाल अशोककुमार १०० प्र म १२०
- निर्वाण तथा अन्य कविताएं सम्पेना, राजीव राजमन ३५०
- प्रभा मानावति तुजरोजा नाराय धीगुदेव १००
- प्रभाप विष्णुतोष, स्वामी. विज्ञान म १००

- भाषम विज्ञान स. २ योग नि १०००
- भाषमहत्या श्रीर वासना के अंपराध वर्मा, परिपूर्णानंद सा नि, का ६००
- भाषमा की आर्य शंकर मुत्तानपुरी आत्मा सा केंद्र, दि ६५०
- की सोज सामर, देवीलाल विद्या भवन, उ २१०
- भाषमानन्द जीवन् ज्योति वागीरा, वेदानंद वेद हरमणा १०००
- आत्मोद्धार के साधन गीता
- आदमी की कहानी वास, श्रीवात, धनु राजपाल २५०
- के विकारा की कहानी कील गोपालकृष्ण नेशनल ०४०
- आदश अन्वर्णित शर्मा हरस्वरूप भा १ रामप्रसाद ११०
- कार्यालय पद्धति द्विवेदी, मन्मूलाल प्रभात प्र ५००
- की हत्या श्रीवातल, कृष्णकिशोर रामप्रसाद २७५
- गाव की कहानी पितान, निर्जानंद कुमार सज १००
- बौद्ध महिषाय मालविका विद्यावती महाबोधि १५०
- वास्तवीकि रामायण जयमोपाल मोटा टाडप, बहा साइज देहाती १२००
- हिंदी निबंध शिवचरण मधुर राजीव मे १२५
- हिंदी संस्कृत कोश रामस्वरूप शास्त्री चौलवा १२५०
- आदिकाल का हिंदी गद्य साहित्य स १००० १५०० हरीश
- (हरिश्चकर वर्मा) रामा प्र ८००
- आदिकालीन हिंदी साहित्य बोध हरीश (हरिश्चकर शर्मा) सा भवन, इ २०००
- आदिनिवासी भील महला, जोषसिंह ग सस्थान, राज २५०
- आदिवासी भारत योगेश अटल राजमन ३००
- आदिबौद्धी अमृतराय, धनु सजना ६५०
- आधुनिक इतिहास एटलस भूगोल १००
- इन्डियन युक्त कोकचा, हरनारायण देहाती ८२५
- एनोपेथिक इन्डियन युक्त कोकचा, हरनारायण देहाती ८२५
- एनोपेथिक गाइड कोकचा, हरनारायण देहाती १५००
- कविता और युग दृष्टि निध, शिवकुमार विद्या म, वा १०००
- कविता मे मनोविज्ञान सूक्ती, उर्वशी प्रनुमधान १६००
- कहानी का परिपार्व बाण्येय, लक्ष्मीसागर सा भवन, इ ४५०
- कृषि विज्ञान चौधरी प्रभात प्र ६००
- विकिस्ता शास्त्र धर्मदत्त मोतीलान
- टैबलेट गाइड कोकचा, हरनारायण देहाती ८५
- नवरत्न सन्ना, गोपाललाल वाच मा म १-५
- आधुनिकतम निबंध राय, वैजनाथ हि प्रवा पु ६००
- आधुनिक निबंधमाला विशा प्र भवन
- निबंध समीक्षा वर्मा, नरेंद्र साथी २७५
- निबंधवाली अतितन्वरत्नबाद भा भवन ३००
- परमाणु भौतिकी शिवा श्रोटी धार आत्मनाराय ५००
- परिवहन नीति, भार एस नवयुग गा ७५०

- भाषुनिक वास्तव्य दर्शन गर्मा राजेंद्रप्रसाद भा भवन ६ ००
- प्रतिनिधि कवि और उनका काव्य जोशी जीवनप्रकाश नवयुग प्र ५ ००
- प्रायोगिक रसायन चतुर्वर्ती प्रार एन भा भवन १ ५०
- प्रायोगिक रसायन गाल्वर ताम्हण के ग जबलपुर प्र ग १ २५
- भारत रस्तोगी दयाप्रकाश राजहंस प्र म १००७ स भव तक ७ ५० १८०० स भव तक ५ ००
- भारत का इतिहास राय हरहरप्रसाद भा भवन ३ २५
- भारत का इतिहास १८१५ १९५० स २ राजीव मे ४ ५०
- भारत का इतिहास (१००७ से १९५० तक) भाटिया पी प्रार परि स २ राजीव म ६ ००
- भारत का इतिहास सरल अध्ययन गुप्ता एस सी राजहंस प्र म ३ ५० से ५ ००
- भारतीय चिंतन नरवर्ण विष्वनाथ राजकमल
- राजनीतिक विचारधारणें भारती चंद्रप्रकाश स २ राजहंस प्र म ३ ०० से ५ ५०
- राजनीतिक विचारधारणें सन्त्र अध्ययन रस्तोगी, दयाप्रकाश राजहंस प्र म ८ ०
- राजस्थानी साहित्य भारद्वाज गातिलाल रावेस चित्रगुप्त प्र ५ ००
- लोक तंत्र वेचन एन एम नगरन ३ ०
- विश्व इतिहास विवागी धार गो जबलपुर प्र ग ४ ००
- साहित्य और साहित्यकार गुप्त गणराजिचंद्र भारतेंदु भवन ७ ५०
- हिंदी कथा साहित्य और चरित्र विकास वेचन रामाग १ ६ ००
- हिंदी कविता की भूमिका पाठ्य गमुनाथ विनाद १ ० ००
- हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तिया नयाद रा ३ नैसनन ४ ५०
- हिंदी कविता प्रमुखवाद सहजवाकन जयप्रियानप्रसाद रावेस गु म २ ५०
- हिंदी कविता में भाति नव तिसारी सचिदानंद हि गा मधमे
- हिंदी कविता में विन-विधान रामवतन सिंह 'भ्रमर' नैसनन २० ००
- हिंदी कहानिया महाराष्ट्र राष्ट्र ० ००
- हिंदी काव्य कुमार विमल धरना प्र भा ५ ००
- हिंदीकाव्य मिश्र राजेंद्रकुमार प्रथम ० ००
- हिंदी काव्य की प्रवृत्तिया त्रिपाठी कल्याणहि हि प्रवा य ५ ००
- हिंदीकाव्य भागा रामकुमार हि प्रथम २५ ००
- हिंदी काव्य में वधाववाद गुप्त परगुणम त्रिरी प्रथम १५ ००
- हिंदी गद्य और गद्यकार जात्र, जन्म की प्रथम १५ ००

- भाषुनिक हिंदी नाटको का मनोवैज्ञानिक अध्ययन गौड गणराजत सवस्व पु स १५ ००
- हिंदी निबंध वर्मा, श्रीकृष्णप्रसाद जबलपुर प्र ग २ ५०
- हिंदी निबंध सदानंद सिंह कमल प्र २ ००
- हिंदी व्याकरण और रचना चौधरी रामचंद्र प्रपालय, भा
- हिंदी व्याकरण और रचना वामुदेवनदन प्रसाद भा भवन ५ ५०
- हिंदी साहित्य १९४७ १९६२ चौहान रामगोपाल सिंह विनोद १५ ००
- हिंदी साहित्य की भूमिका वाग्भैय, लक्ष्मीतागर लोकभारती १२ ००
- हिंदी हास्य धर्म्य वर्मा, केशवचंद्र, सपा स २ भा ज्ञानपीठ
- आधे घंटे का खुदा वृद्धचंदर राजपाल ३ ००
- आनंद मठ चट्टोपाध्याय वकिमचंद्र पु स, भा २ ५०
- लहरी कल्याण म २ २५
- आनासागर की सीढ़िया पर बोहरा जगदीप कृष्णा प्र ५ ००
- आपके वचन की सुराज गुप्त, सुरेंद्रनाथ सावेत ३ ३७
- आनक और मनोविज्ञान निगम बृजविहारी सा नगम रवा ३ २५
- आप क्या नहीं कर सफन ? माडॅन, स्टेव मुंडोष पा (पा) १ ००
- आपटेज ससहन हिंदी कोप आपन की एत मोनीलाल १ ० ००
- आप कीनी मनाहर प्रभावर कल्याणमन ३ ५०
- आप विनमान हैं प्रवड १ ००
- आप विनता ही मूत्र गरलगाए रसन, वट्टेड राजरमन ६ ००
- आभास और मत फलेह सिंह हि समि ११ ००
- आध कर विधान तथा साता गुवन, एम एम सगो स ११ नवयुग सा स पा ७ ५०
- आधन व गैम इजन गाइड नरेंद्रनाथ देगती १५ ००
- आधुनिक की कुछ प्राचीन पुस्तकें गमा प्रिययन चौगवा १ ००
- प्रधान माधव आचाय चौगवा १२ ५०
- प्रोग टिपरी राजकुमार चौगवा १२ ००
- आधुनिक गाइड अधिदेव विद्यानाराय मोधीवान ५ ००
- अध्यात्म विनाश ध्यान विद्यानाराय मगुर प्र प्रारजू जै गाइडवचंद्र हिंद पा (पा) १ ००
- अग्निमाना कल्याण म ० ७५
- भारती कुज गाविनीदेवी प्रभाकर दहानी १५ ००
- भारतीय रंग क रम्य धारा १ ००
- वेतामन पाटन, वडागनाथ प्रथमगुदर म २ १ ००
- विज्ञान तथा जन रसायन लक्ष्मीचान हि मृत

- धार्मिक एवं वाणिज्यिक निबन्ध सक्तेया, एष सी सरो
 स ६ नवयुग सा स, आ ५००
 —कोट शास्त्र सिंह, श्री पी सिंघल
 —नियोजन भंडारी, मयू राजीव, मे
 —पद्मिनी जोशी मुखोबेर हि समि ६५०
 —विकास एलकैडर, रावट जे आरमाराम ५५०
 —विकास हेनरीनर, रावट एन गय ३ २५०
 —विचार त इतिहास मित्तल, एष सी नवयुग सा स,
 आ २००
 —विचारधारा का इतिहास सरल अध्ययन महेश्वरी
 एच पी राजहंस प्र म ६२५
 —विचार का इतिहास शर्मा, रमेशचंद्र राजीव, मे
 ७५०
 —विश्लेषण राजीव म ६००
 —सिद्धांत मुद्रा एवं योजनाकरण सरल अध्ययन
 गुप्त धुवचंद्रप्रसाद कमल प्र २५०
 —सिद्धांत, मुद्रा, बैंकिंग राजस्व एवं योजनाकरण सरल
 अध्ययन गुप्त, धुवचंद्रप्रसाद कमल प्र ३००
 —सिद्धांत, मुद्रा, बैंकिंग राजस्व तथा योजनाकरण नवल
 किंगार सिंह भा भवन ७००
 धामचर वाइडस गाइड नरेंद्रनाथ देहावी १५००
 धाय धनुनिमाल सूत्र रिगजिन लुनडुव लाग्ना महावीधि
 ०५०
 धाय भाषाप्रो क विकास नम मे अग्रभ्र वा तथा अग्र निबन्ध
 शर्मा, मल्लामसिंह ग्रथण स २ चिन्मय ७५०
 धाय सम्राज के म्हापुरुषो के जीवन तथा कार्य दक्कणाय
 जगत राम ३००
 धाय सामाजिक धम सत्यानंद स्वामी हरयाणा ०७५
 धाममीर बतुरसन, आचार्य हि प्रचा पु ६००
 धानवार भवती का तमिल प्रबन्ध शेर हिंदी कृष्ण कन्ध
 मनिक् मोहम्मद विनोद २०००
 धालोक वरा सङ्केतवाल कृष्णकांत, मया आलोक प्र,
 बरेली १००
 धालोक की आस्था नर्मद नेशनल ७००
 धालोचना, एक परिचय शर्मा श्रीनिवास अक्षोक प्र
 —श्रीर साहित्य यदान, इन्द्रनाथ नीलाभ ५५०
 —के प्रतिमान चौरसिया, वैदानीप्रसाद शूनाइड
 ३००
 —सोचन, शुक्ल, रामाकर रसात श केतीभाष्य
 फाल्गुनेयि करेन्ट नरेंद्रनाथ देहावी २५०
 धावरयक मूत्र आरमाराम, आचार्यश्री भा १ मातीलाल
 ०७५
 धावागमन दत्तमारती रतन एड क (पर) २००
 धावाइ दो हम एन हैं तरन तारन नववचतना २५०
 धाविभार जगत श्रीवास्तवा, भगवतीप्रसाद बाल सा म
 ३००
 धाविष्कारो की सच्ची कहानी सामंत, ईशान नेशनल
 ३५०

- धाराका की मृत्यु कश्यप, हरवगलासु दस कहानिया
 ३००
 धारा के दीप प्रकाश भारती भा सा सदन २५०
 धारा की जीवन प्याति अक्षय १००
 धारवाटिष्ठ वितान भा, पशधर चौखवा ३००
 धाराइ माहात्म्य शर्मा, जगन्नाथ देहावी १५०
 धारासो के व्यापाम वेदवत शास्त्री हरयाणा ०६०
 धारतीन के साथ श्रीवास्तव टण्किनीर साथी
 आहत मूय देश म महाकोशल १००
 धाहार सुजावली पाठक, केदारनाथ स २ म्यामसुदर
 ०५०
 इगलेड का इतिहास सरल अध्ययन दासगुप्ता, रामशरण
 राजहंस प्र म ३७५
 —की रेर पाडय हृदयनारायण हृदयेज हृदय म
 १५०
 इडियन कन्चर एट ए म्नास हालदार अरिसतकुमार
 हि समि २०००
 इदिरा गांधी सहल, कृष्णविहारी, सया चिन्मय १५००
 —जी कृष्णादेवी इन्टर गुनि १७५
 इडु ब्रजभूषण कृष्णा व ३००
 इद्रयुप रोवडे, जनतगोपाल नोरा ४५०
 इद्रबला शेर नागकनी कलाक कल्पित प्रयाग प्र २००
 इरोटि एक्वपोड गाइड वुके, सुरेशचंद्र देहाता ५२५
 इसान बनो विष्णुदत्त विकल आरमाराम १००
 —भगवान पंसा ड, सतीस देहावी १५०
 इटनी की सभि भूगोल १००
 इति-वृत्तक धमरदित, भिक्षु महावावि ०७५
 इतिवृत्त उपाध्याय, प्रयोव्यासिंह 'हरिशीघ' पु स, वा
 १५०
 इतिहास अमृतराय सजना ३००
 —के स्फुट संघ जामिड रामपीलाल सुमर प्र
 —विवावली भूगोल २००
 —पुष्टय तथा अन्य कविताए नदकिशोर दवराज
 भा जानपीठ ३५०
 —शिक्षण पद्धति श्रीवास्तव प्रेमप्रकाश सा नि,
 का ३००
 इपर भी गये है उधर भी गये है भोमप्रवास 'धादित्य'
 सुबोध पा (पा) १००
 इन दुगुण को छोडिए अमर १००
 इन लोगो व मय गमा विष्णुवट गा केंद्र, वा ५००
 इनम मिलिए जैन मिश्रीमल तंगल सोहन प्र २७५
 इन्सूफजा (पत्र)-त्रिवेदी, कृष्णप्रसाद धवतरि ०५०
 इमानदार बाल भट्ट हृष्णदत्त बाल हितवी ०७५
 इमारत की मूरत द्विवेदी सच्चिदानंद 'धोस्नेही' प्रसाद
 प्र ७५५
 इलैक्टिक लाइनमें व वापरमें गाइड नरेंद्रनाथ देहावी
 २५५०
 —धार्याण नरेंद्रनाथ देहावी ६००

द्वैविद्गुप्त सुपरवाइजर पैपम नरेंद्रनाथ देहाती १०५०
 इंट निमाण म विनान शमा, ओमप्रकाश सपा कौसिल
 १००
 ईदो चतुरसेन आचाय हि प्रभा पु ६००
 ईराक भूगोल १००
 ईसावायस प्रवचन अलखानंद सरस्वती स्वामी
 सत्याहिय
 ईसावायस रहस्य म यत्ने शास्त्री हि समि २५०
 ईश्वर ओर उसकी प्राप्ति अलख १००
 —की मिठाई मल्लिकानी शोभा आत्माराम १००
 ईशमय वचनदत्त कुमार जयशिव ३५०
 उपतारा नामानुन (वैद्यनाथ मिश्र) राजपाल
 उचक्के फाकर विलयम राजपाल ५००
 उच्चतर निबंधावली अलिशबरप्रसाद भा भवन ४५०
 —बहीखाता भागवा गोपाललाल कल्याणमल
 ५५०
 —माध्यमिक बहीखाता खान कि महल १०००
 —माध्यमिक भूगोल मुक्ता ईश्वरीप्रसाद राजहम प्र म
 ६००
 —माध्यमिक विद्वत् भूगोल त्रिपाठी वेदेहीवल्लभ नद व्र
 ६५०
 —मुद्रा तथा वंशिन शर्मा हरिद्वार कल्याणमल
 १७५
 —रत्नायन गौड ज एन बन्ध्यामल ४००
 उजाने के उल्ल तथा अय बहानिया महीपतिह हि भवन
 ३००
 उडो प्रागे सडो भट्ट कृष्णदत्त बाल हितैषी १००
 — जागो मार्लेन स्वट अगोत्र पा (पा) १००
 उडते पत्रो उडते चलो रामकृत् वेनीपुरी वेनीपुरी ५२५
 उत्तम स्वभाव विद्यानंद विदेह स्वामी अद मस्थान ०२०
 उत्तर जय गाया काव्य शर्मा नरेंद्र रामचंद्र २७५
 उत्तरप्रदेश भूगोल ५००
 —एटनय भूगोल ११०
 —पचायत राज एकट नियम व मनुवल जैन, उजागरमल
 बानूनी ६००
 उत्तर फाल्गुनी गुप्त नीहारजन बोरा ६००
 —भैरव समाज एव महति राव, विजयबहादुर भा
 विद्य प्र १२००
 उत्तराध्ययनयुग हिंदी टीका सहित धारदाराम,
 आचायर्षी भा २ मातीशान ८००
 उत्पान धीर पत्रन नानासिंह बोरा ५००
 उल्लय शर्मा रामगोपाल दिनेश राज प्र, ज ११०
 उदयगिरि भट्ट भ्यासि धीर साहित्यकार भट्टागर
 बोरबिगरी, मया धारामागम ७५०
 उदान माया भिषु जगदीन मगाशिव १०१
 उद्गम रामगोपाल पन्थेनी मया प्रगति प्र १००
 उद्बोधन धरम १००
 उद्बोधन मानचंद्र रामपुरिया विधाधार २१०

उद्योगी के जमदाता फनिग, लियॉनार्ड एम गगं व २५०
 उन्नति कैसे करे अग्रवाल माधवदास हिंद पा (पा) १००
 उन्हीने कहा था साहू, केरविम वारली मनु प्रभात बुक
 ४५०
 उपदेश विज्ञान सुवल, बालकराम स २ पवतरि १००
 उपदेश मुक्तावली—भजन सग्रह २ भा कल्याण म ६५०
 उपनिषदावाद से साम्यवाद की धीर होप्राग दामजी मूरभिया
 ११०
 उपनिषत् ५२ कौसल्य शवरलान (भोल दादा), मनु
 भा १ स २ वेदात केसरी ३५०
 उपनिषद गोपाल बसल १६०
 —दर्शन घोष अरविद दिव्य
 —परिचय विष्णुतीय स्वामी विज्ञान म ६००
 उपयास वा प्रेम घोष स्वामसुंदर भा सा म ६००
 उपयासकार अन्नय शेखर एक जीवनी के लक्ष्म मे शर्मा
 केदार रोशनलान ४००
 —प्रेमचंद धीर उनका गोदान एक नया मूल्यांकन भारी,
 कृष्णदेव भारतेंदु भवन ६५०
 —भगवतीप्रसाद वाजपेयी व्यक्तित्व एव वृत्तित्व गुप्त
 वैजनाथ सरस्व पु स ३५०
 उपन्यास शिल्प धीर प्रवृत्तिया सितहा सुरेश, रामा प्र
 ८००
 उपन्यासो मे नायिका की परिकल्पना मिनहा सुरेश अशोक प्र
 १२५०
 उपवास शरणप्रसाद म भा सव १२५
 —धीर फलाहार चौधरी युगनिर्णय कल्याणमल
 ०७५
 उपासकदशाग सूत्रम् हिंदी टीका सहित धारदाराम,
 आचार्यर्षी मोतीलाल ८००
 उपासना मिश्र मूर्धनारायण 'संग' गान मय
 उमरती रेखाए चतुर्वेदी केसवप्रसाद सिद्ध म समानातर
 २५०
 उदू की हास्य व्यंग्य पायरी पंडित प्रवास हिंद पा
 १००
 —के प्रेम गीत हैरत अगोत्र पा (पा) १००
 उमिता भोत्रेय विरहिणी राजदवरव्या, म हि सा म
 ४००
 उर्वशी अघेदवर अरुण जयनिव २००
 — उपलब्धि धीर सीमा विरेंद्रनाथगण मिश्र ज्ञानामोत्र
 उरभी हिमालय ध्याम विभागाकार गु म वा ०००
 उलनी गंगा जैन मिश्रीमन तरुणिन गोत्र प्र ०७१
 उल्लाए जैन पवनकुमार धनु केंद्रीय हि २६०
 उपा सडलवान गुलाब धरम
 उमका प्यार शमा मरेंद्र धाराम प्र दि
 उमके माजत गुलाब कात लार (पा) ०००
 उम दिन पत्थर, गुभारण मय प्र म ३००
 उमर काव्य उपादान हि पा जी ८१०
 उपा साधुनिव बडाई उपासनी दहाती ३००

- कृष्ण सुन्दर सग्रह पाठे, सत्यनारायण, सषा रा वेणीप्रसाद
५ ००
- सूक्त सग्रह हरिदत्त शास्त्री, व्या सत्रो स ४ सा भ,
म ७ ००
- श्रुवेद का सामाजिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सार रेड
विश्वेश्वरनाथ राज सा अक्षा ६ ००
- मन्त्रोच्ची स्वाध्याय २ ००
- सहिला स्वाध्याय १ ० ००
- कृतभर मा सा सदन ३ २०
- श्रुतुए और स्कात्स्य वैश्व उमदीलाल श्यामसदर ० ६२
- श्रीयोग के विज्ञान की अछता पटवधन केचन प्रनत
स्वाध्याय ५ ००
- एपर कञ्जीशनिग गाइड कालोचरण देहाती १५ ००
- एक प्रयोगन कया गुप्त, भैरवप्रसाद धारा ० ००
- आलोचक की नोट बुक देवडा, अरद प्रपरा
- उजली नजर की हुई भावानी हरीश दात्यायन ५ ००
- उदारवादी श्वर बोल्स चेस्टर आत्माराम ५ ००
- और वाजपेयी, हरनामप्रसाद प्रवीर ६ ००
- और कहानी लक्ष्मीनारायणलाल नवभारती प्र ४ ००
- औरत की जिदगी मोयासा हिंद पा (पा) २ ००
- और सब कपूर, प्रेम हि प्रचा पु ५ ००
- कदी हुई जिदगी एच कटा हुमा कागाज वर्मा लक्ष्मीकांत
नेयनल ४ ५०
- गभी की आत्म कथा गौड, पुरुषोत्तमदास कोमल सा
केंद्र, दि ३ ५०
- घटा देव को जगन्नाथ सिंह शास्त्री २ भा अशोक प्र,
ब ३ ००
- तारा भाचव, प्रभाकर हि प्रचा पु (पा) १ ००
- दिल से राह गिरवरसिंह देहाती ६ ००
- दुनिया समानांतर दादब राजेंद्र अणर १० ००
- देवता की कथा शर्मा गादबेद चंद्र कल्याणमल
२ ५०
- नवी से पाठ नया, मुत्तान प्रशोक पा (पा) २ ००
- पगडी की लेख पार नरला, रामगौर सिंह राजकमल
५ ००
- पापलेट बटे के पत्र वर्मा, सावित्रीदेवी आत्माराम
३ ००
- प्यास पहेली अक्खो, राजेन्द्र तुपित' हि प्रचा पु
५ ००
- पीमार लडकी विमलचंद्र विश्वविद्यालय २ ००
- वृद जल लक्ष्मीनारायण लाल बोरा ३ ००
- मुसाफिर एक दुनिया स्वात, लखनप्रसाद हि प्रचा पु
३ ००
- रहस्य एच सत्य नानबंसिंह राजपाल २ ००
- रात का नरक उज्ज्वलाय अक्षक मुकोष पा (पा) १ ००
- सञ्जी एक समस्या आदिल रसीद अणोक पा (पा)
२ ००
- सो एक बरं सैजल, श्यामनारायण मनु ३ ५०

- एक विदेकी लडकी श्रीमोलाल 'सोहावादी' राणू प्रभा,
२ ५०
- साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध (गजानन माधव से) २
भा ज्ञानपीठ २ ५०
- स्वर शानू का वाजपेयी, नगरीप्रसाद, प्रभात ५, २ ००
- श्रुतुए हो भारतवासी शर्मा, श्रीमशर्मा/अरुण/सिद्ध/सिद्धि
४ ००
- एकाकी गोयल, सोलाराम भा सा सदन ६ ००
- एकाकी दोनो चीपरी स्नेहमयी राजकमल ४ ००
- एकादसी माहात्म्य शर्मा, जगन्नाथ देहाती १ ५०
- एपीकल्चरल गाइड भवानीदास देहाती १ ५ ००
- ए टैक्स्ट आफ सोशियल स्टडीज देवराज कि महेश १ ० ००
- एडवार्ड इकनामिक थ्योरी मित्तल, एस सी श्री अल्लोडा
- यानीटरी इकनामिक्स मित्तल एस सी कैलाश पु स
- एनीमल हसबैन्डरी विष्णुदत्त कविरत्न देहाती १२ ००
- एवीसोनिगा भूगोल १ ००
- एलोपैथिक गाइड कोकचा हत्यारायण देहाती १ ५ ००
- पाकेट प्रेस्काइवर लंगा, शिवनाथ चौसदा ५ ००
- पेटेंट चिकित्सा नवनीत कोकचा, हरनारायण साधना प्र
२ ००
- मिक्स्ड द्विवेदी राजकुमार चौलभा २ ५०
- एक्स्टेड प्रिनियल भेट्ट हरिदत्त शैलेश' नवभारती २ २५,
बोक स १ २५
- एगिया गुप्ता, ईश्वरीप्रसाद राजहूत प्र म ५ ५०, सरल
अध्ययन ४ १२
- एशिया त्रिपाठी, वैदेहीवल्लभ नद स ५ ५०
- एशिया मिथ, प्रकाशनारायण रामप्रसाद ६ २५
- का साहित्य भाषने प्रभाकर कृष्णा व्र
एहसासे दद पुरोहित, इन्द्रकुमार नवाब' भा प्र मडल.
२ ५०
- ऐतरेयब्राह्मण का एक अध्ययन पाठक, नाथूलाल रोशनलाल
१ ० ००
- ऐतिहासिक उपन्यासकार बुदावनलाल वर्मा मिथ, राम-
दरसा एस चाद ३ ५०
- निषध त्यागी, महाधीरसिंह राजीव, मे ६ ००
- ऐसे थे बाबा नेहरू-सत्यनारायणसिंह, सषा दि व कु
२ ००
- श्रीमा विवध सग्रह श्रीमा, श्रीशेखर हीराचंद सा सत्यान,
राज भा १ ५ ००, भा २ ६ ००, भा ३-४ ६ ००
- श्री नील उज्ज्वलाय अक्षक नीलाय १ २५
- श्रीसिंधिक खेल हरिमोहन हिंद पा (पा) १ ००
- श्रील भट्टी, नारायणसिंह कलावतार. २ ००
- श्रीवर्त्मन की पाठ्य पुस्तक सिंह सी पी म्यू स्केच ६ ००
- श्रीस के धारू रघुवीरराय मित्र' भा सा प्र ६ ००
- श्री हेलरी उज्ज्वलाय 'अक्षक नीलाय १ २५
- श्रीविलय विमल त्रिपाठी, राममूर्ति भा न
- श्रीयोगिक इलेक्ट्रॉनिकी के सिद्धांत और प्रयोग कृष्ण, प्रो हि
सिम. ६ ००

श्रीलोगिक सगठन सक्सेना-एस सी सरो स ४ नवयुग
सा स भा ५ ००
—सगठन एव प्रवच सक्सेना, एस सी सरो स ८ नवयुग
सा स, भा ८ ००
—सन्निधम भद्रपाल झार सी नवयुग सा
श्रीलोगिक रोग पाणेकर भास्कर गोविंद सरो स ३
चौखवा भा १ १०००, भा २ १२००
श्रीर चिराल बुद्ध गया नरेंद्रप्रसाद नवीन हि सा स
० ७५

क

कहावती चौधरी राजकमल राजकमल पुस्तकमाला
कचनगढ हुकमचद ४ भा देहाती ३ ००
कपनी सचिवीय वाय विधि भद्रपाल बी एन स २ नवयुग
सा स, भा ६ २५
कप मोटरकार टु निग मैनुमल, सपूर्ण कृष्णानंद ३ भा देहाती
२४ ७५
कशाउडर्स गाइड कोकचा, हरनारायण देहाती ५ २५
कव रामायण राजगोपालन एन वी, अनु ख २ बि राष्ट्र
१० ७५
—रामायण रामनाथन, सरस्वती कि महल
कवर एकादशी मायुर, कवर बहादुर भूमत २ ००
कदाध्यापन पाठ सक्त निर्माण एव विभिन्न विधिया शोध
जीत, भाई विनोद ५ ००
कच्चा रंग सखी दुर्गाप्रसाद सपा सहरी
कच्चे पागे शर्मा, श्रीराम राम समाज ६ ००
कच्छ भद्रवान पद्मा नवभारती २ २५ लोक स १ २५
कठपरे भूमतराय सजना २ ००
कठोपनिषद् भाष्य आचार्य वेदावदेव दिव्य
कथक नृत्य प्रकाशनायण स २ कला प्र, इ २ ५०
—नाट्य परिचय श्रीवास्तव हरिद्वर सपीन स प्र २ ००
कथकल नृत्य-नाट्य प्रकाशनायण कला प्र, इ १ ००
कपातर दवडा शरद भपरा ६ ००
कथा दंगल कश्यप, हरबागान, मया दस कहानिया ५ ००
—पराग साहू नारायणदास जबलपुर प्र गू २ ५०
—माधवी राममन्दरलाल, सपा जबलपुर प्र गू ३ ००
—याना गुजल, दुदीसाल अजना
—विद्वद दयामन्दरलाल जबलपुर प्र गू ३ ००
—पोषणी सच्चिदानन्द, जी नेशनल
—सूय की नई माना श्रीवास्तव, हिमागु हि प्रचा पु
कदव धवस्वी जयमोहननाथ 'भागुर्बि' पु स, बा
३ ००
कदम कदम पर पून बडोला, रामरतन बीकानेर टाइम्स
१ ५०
कनेर के पून धीर वर टट्टर पाठक त्रिद्वेषभा भोला प्र ० ००

कन्द साहित्य का नवीन इतिहास सिद्धगोपाल, काव्यतीर्थ
घाटा प्र
कणिवचस्तु-लुविनी दिग्दर्शन श्रीवास्तव, विजय महाबोधि
० ७५
कपन चोर तथा भ्राय कहानिया तिलक कला भा
कक परीक्षा बर्मा, रमेश मोतीलाल १ २५
कव तब पुकाळ राधेश रावव हिंदू पा (पा) २ ००
कबीर द्विवेदी हजारीप्रसाद सरो स ७ हि प्र २ ६ ००
कबीर विजयेंद्र स्नातक, सपा राधाकृष्ण ६ २५
—श्रीर कबीर-पम द्विवेदी, केदारनाथ हि सा सम्भे
—की भाषा जयसवाल, माताबदल कलादा ब्र १ १ ००
—की साखियो का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन सुकदेव सिंह
सरस्व पु स ८ ००
—के धार्मिक विश्वास धमपाल मैत्री मारतेंदु भवन ३ ५०
—गूढ शब्द ध्यास्था सिद्धलाल गिब सा १ ००
—पदावली चतुर्वेदी बरसानेाल, सपा सा सगम, म
—योग दिव्यलाल भा २ शिव सा १ ७५
कन्नड कैसे दूर हो? झलद १ ००
कभी गर्म कभी नर्म डे, सतीश देहाती १ ५०
—नही कमी भी नहीं लहर प्राति प्र ५ ००
कमल कुन्ज शर्मा, विमला भूमत ३ ५०
कमला मेहक काव्य कृष्णबोध 'प्रेम' प्रभा प्र
कमलेश्वर की श्रेष्ठ कहानिया यादव, राजेंद्र, सपा राजपाल
२ ५०
कम्प्युटि डेवलेपमेण्ट प्रोग्राम इन इण्डिया राजेश्वरदयाल
कि महल १२ ५०
कयर उद्योग (नारियल की जटाघो का उद्योग) कौसिल धाक
साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिचर्च कौसिल ४ ००
कर भला हो भला रघुवीरचरण 'मित्र' भा सा प्र १ ५०
करम् प्रधान दुबे, रामउजागर सावेत २ ००
करणा पाडेय, हृदयनारायण हृदयेग' हृदय म १ ५०
कर्मनेत्र श्रीमोलाल 'इलाहाबादी' राष्ट्र प्रचा, इ ३ ५०
कथाय श्रीमोलाल 'इलाहाबादी' राष्ट्र प्रचा, इ ३ ५०
कर्त्वीय गोविन्दम, सेठ म ३ भा सा म ३ ००
कमभूमि (सां गत) प्रेमचंद हल २ ५०
कर्मवीर विद्यार्थी गणेशावर, धामनाराम ३ ००
कलविनी नदा, गुलशन स्टार (पा) २ ००
कलम का मजदूर प्रमचंद मदनगोपाल राजकमल १ १ ००
कलाई का घागा बारटूठ, करपीदान नवयुग पु बु ४ ००
कला धीर धायुनिक प्रवृत्तिया गुजल, रामचंद्र हि सामि
३ ५०
—धीर मन्मथि पत्र, मुमिनालदन कि महल ५ ००
—धीर साहित्य चिदानंद कमल प्र २ ००
—बा दर्शन गुजर, रामचंद्र कारोना १० ५०
—धी परल जयकानी के के धामनाराम ५ ००
—प्रलय गुजर, रामचंद्र कारोना ७ ००
कल विनिगा धरद १ ००
कल्पना मिथ, जयशकरनाथ 'नरोर', मरोर प्र

- कल्याणमी की धुरी सबसेना, ज्योतिप्रकाश विद्याचल ३००
 कल्पवृष त्यागी रवीन्द्रनाथ राजकमल ४००
 कल्याण भारती श्रीकृष्णलाल देहाती १२५
 —सुमन प्रभात बुक २२५
 कवि श्रीर लेखक रत्नेश राजीव, मे १२५
 —बुल गुरु चन्द्रप्रकाशसिंह भा प्र स
 —कीर्तिन विद्यापति शाही श्रीरथ अबपाली २००
 कविता मार्गव भागीरथ कविता ६१ २०० कविता ६३
 २५०, कविता ६४ ३०० कविता
 कविताए शर्मा, शिवचन्द्र अभिज्ञान
 कविता मे प्रयोगवाद की परंपरा चौहान प्रतापसिंह नवयुग
 ग्रंथालय २००
 कवितावती कवितेश्वरप्रसाद, टीका भा भवन १२५
 कवि तोष श्रीर सुधातिथि भायूर सुरेन्द्र सभा का प्र सभा
 —निराला वाजपेयी, नवदुर्गार वाणी वितान १०००
 —प्रसाद, भामु तथा अन्य कृतिया शर्मा, विनयमोहन परि
 स ४ विश्वविद्यालय ३००
 कवियत्री त्रिपाठी, रामफेर रामा प्र ८००
 कविराज गोपबृत्त काव्य प्रभाकर किंवा कविमणी हरण तथा
 ग्रन्थ ग्रन्थ चन्द्रप्रकाश सिंह सभा म स पूनि
 —सत्यनारायण शास्त्री अभिमदन प्र स चौखटा १५००
 कविवर डा रामकुमार वर्मा श्रीर उनका काव्य दशरथराज
 चौखटा
 —पल श्रीर उनका द्वारपर विश्वभर अरुण ग्रंथोक प्र २५०
 —पद्मभार और उनका युग ब्रजनारायणसिंह अनुसंधान
 १८००
 —बनारसोदास जैन, रवीन्द्रकुमार भा ज्ञानपीठ १०००
 —रत्नाकर श्रीर उनका उद्भव शतक चतुर्वेदी राजेश्वरप्रसाद,
 रोगल
 —विहारीलाल चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद भा सा म
 १५०
 —भूमिज्ञानदन पत आसनाानी, दशरथराज नद व ४००
 कविग्रन्थ भोमाला विष्णुस्वरूप काशी हिंदू ४००
 कवि सेनापति समीक्षा त्रिनेन्द्र भारतीय नवयुग प्रयागार
 ४००
 कबीर की एक शाम कल्याणसिंह कुवर साकेत २००
 कसक पाडेय, हृदयनारायण हृदय स २ हृदय म १२५०
 कसे कमला गिरीय घ भ सके १००
 कस्तूरबा स्मारक राष्ट्रीय स्मारक १२००
 कवच का एक दिन अमृतराय सर्गीना ३००
 कहकहे पंडित, स्वण, सभा हिंदू पा (पा) १००
 कहानिया ही कहानिया चौहान, मनहर धार्य बुक २५०
 कहानी अक्षरताल भट्टाचार्य, कृष्णवद मार्ग दशक ४५०
 —श्रीर कहानी मदान, इन्द्रनाथ, सभा रामचंद्र ७५०
 —रत्ना की भाषार दिलाए मिथ्य दुर्गासुन्दर नवयुग
 प्रयागार ४५०
 कहानीकार जैनेंद्र अभिमान श्रीर उरनाथि पाडेय जपश्री
 मधेना प्र, भा ४००

- कहावत कोश मिथ्य, भुवनेश्वरनाथ 'माधव'
 बि राहुट १५००
 काच की बुडिया नदा गुलशन अशोक पा (पा) १००
 —के खिलोने विविधमस, देनेको राजपाव
 ६००
 —के लन भोग के मन राजेश्वर मिलन समानातर २५०
 —के वृक्ष उनेश शोभा प्र २००
 काचल रण भिन, जामु नेशनल २००
 काटा दामन फून डे, सतीदा देहाती १५०
 काकदुत काका हाथरसी संगीत २५०
 काकदुत काका हाथरसी हिंदू पा (पा) १००
 काका रामेश राधव हि शिक्षक २००
 —की फुलकडिया काका हाथरसी (प्रभुदयाल गर्ग) हिंदू पा
 (पा) १००
 —के कारतूस काका हाथरसी (प्रभुदयाल गर्ग) संगीत
 —क प्रहसन काका हाथरसी (प्रभुदयाल गर्ग) संगीत
 वागड की दीवार सद्गल, ललित धार्य बुक २००
 —की नाव कृष्णचंदर राजकमल ४५०
 —के फूल वीरेंद्रकुमार हिंदू पा (पा) १००
 काठ का घोडा नरदप्रसाद 'नवीन' हि सा स ०७५
 कादंबरी (उत्तर भाग) मिथ्य रामचंद्र चौखटा १०५०
 —क्यामुखम मिथ्य, उर्देड, सभा रा वेनीप्रसाद ४००
 कानून श्रीर कामगार भारतीय प्रौढ शिक्षा सभ भा प्रौढ
 ०३५
 —का प्यार राजसभमी कल्याणवाड
 कानूनी व्यवहार विधि पहजा १०००
 काफो हाउस की लडकी सगर, सत्यप्रकाश प्रिंटलेड
 काम कुज विजयप्रहादुर सिंह महाशक्ति ८००
 कामता प्रधावली कामलाप्रसाद सिंह 'नाम पारिजात
 काम घधा एव व्याज मुद्रा के सिद्धांत नाग, दयाशकर हि
 सर्मि ७००
 कामधेनु तत्र कल्याण म २५०
 कामना गुदरत भा सा सदन १००
 कामना मालविका, विद्यावती महाबोधि ०३७
 —(प्रसाद) एक अश्वपन मिथ्य, दुर्गाशकर हि सा म
 २५०
 कामरूप गुप्त, राजेग देहाती ३५०
 कामायनी एक पूनर्विचार मुक्तिश्रीय, गजानन माधव
 मुनिसंल बुक ५००
 —के पने पाडेय भुवनचंद्र नवयुग ग्रंथालय ४२५
 —वितान जैन, विमलजुमार भा स म १२००
 —दिग्दर्शन द्विवेदी, केदारनाथ 'यतींद्र' स २ विश्वमय
 १०००
 —म काव्य, मसूकति श्रीर दर्शन द्वारिकाप्रसाद सबसेना
 नवी २ २ विनीद
 —म नाटकीय सत्य पारादार, इन्द्रप्रभा हि सा म ७००
 —रहस्य राठौर, विजयप्रहादुरसिंह 'विजय इ प्रे
 —विषय दीक्षित, भगीरथ समुदय १०५०

नायचिकित्सा द्वारिकानाय, सी मोतीसात २०००
 नायचिकित्सा पाठक रामरथ चौलबा
 कारवा गुजर गया गोपानदास नौरज' हिंद पा (पा)
 १००
 काटन चौकत धानवी भ्रमोक पा (पा) २००
 काटिक माहात्म्य चर्मा जगन्नाथ देहाती १५०
 —माहात्म्य धेमकारी सत्यनाथ शास्त्री देहाती ६००
 काबोहाइड्रट और ग्लाइकोसाइड बर्मा फूलदेव सहाय केंद्रीय
 हि
 कायकर्ता सेमोनार की रिपोर्ट भारतीय प्रोड शिक्षा सघ
 भा प्रोड १००
 काल की गति मिश्र बटुकदेव धयमाला ३००
 काञ्चमी फरला सियारामशरण प्रसाद कला भा २५०
 काल सघ मिश्र रामप्रिय लालधुमा भा भवन ०७५
 कालाजल शानी शरर ८००
 कालापानी सावरकर वीर विनायक दामोदर पृथ्वीराज प्र
 कालाम मूत्र प्रज्ञानद महाबोधि ० २५
 कालिंदी गिरिजादयाल 'गिरीश सा महल
 कालिदास पाठ्य चंद्रवली मोतीलाल
 —के पानी हरिदत्ता वेदालकार गुरुकुल कागडी
 —के सौंदर्य सिद्धांत और मेघदूत राय सिववालक धचना
 प्र, भा ६००
 —प्रधावली चतुर्वेदी सीताराम, सपा भा प्र म, ल
 २०००
 —प्रधावली त्रिपाठी रामप्रताप कि महल १८००
 —नाममि उपाध्याय भगवतशरण रणजीत ७५०
 बानी तत्र कल्याण म २००
 बालीदास की लालिय योजना द्विवेदी हजारोप्रसाद नैवेद्य
 ६००
 —ने काय्य त्रिपाठी रामप्रताप कि महल १२००
 —के नाटक विगतो रामप्रताप हि प्रभा पु ८००
 बाली स्वरूप तत्व कल्याण म १००
 बाले उनके टीने भगवानसिंह हि प्रभा पु (पा) १००
 बालेज निबधावली भवितेवरप्रसाद भा भवन ५०
 बाध्य नदय पाठ्य भवनेश्वरप्रसाद चौलबा २५०
 —बला और शास्त्र रागेय राधक सगो स २ विनोद
 —चपनिश धर्मा सरनामसिंह ग्रहण कल्याणमल २५०
 —चित्ता विवारी रामसकर चौलबा ६००
 बाध्यधारा टटन गुरुप्रसाद, गपा कि घर, ग्वा ३००
 बाध्यनिगम भिखारीदास सगो स २
 बत्थापदास
 बाध्य प्रयोजन नित्यानंदप्रसाद सरस्वत पु स
 —में रहस्यवाद प्रवर्धी, बन्बुलाल 'मान' प्रथम १२५०
 —क्यों के मूलयोग और उनका विनाय दूरे, गङ्गुना हि
 प्रभा पु
 —गान्ध द्विवेदी, हजारीप्रसाद, मया भा सा म २०००
 —शास्त्र मिय, मणीरय सगो म. ३ निचिकित्सात्मक
 १०००

बाध्यशास्त्र की रूपरेखा श्यामनदन शास्त्री भा भवन ६५०
 बाध्यय परिचय गौड राजेंद्रसिंह भगोक प्र म १००
 —परिचय जैन, नेमीचंद्र कमल प्र २५०
 बाध्यारम भीमासा मिथ जयमत चौलबा १६००
 बाध्यारमक त्रिभूत ब्रजनदनप्रसाद, भखौरी ज्ञानासोर
 १०००
 बाध्यारमकार द्रष्ट वासुदेव २१००
 बाध्यारमिक ब्रजवासीसाल रबींद्र प्र, ग्वा २००
 बाध्यारमन धातु व्याख्यानम् युधिष्ठिर भीमासक धनु भा
 प्राच्य १०००
 —व्याकरणम् युधिष्ठिर भीमासक भा प्राच्य ५००
 बाधो की सारस्वत साधना गोपीनाथ कविराज वि राट्ट
 २५०
 —दरान चर्मा केदारनाथ चौलबा ० ३५
 बाधमी भूगोल १००
 —की देवी जमनादास भस्तर भसोक पा (पा)
 २००
 —हमारा है मनोहर प्रभाकर कल्याणमल २५०
 बाधय विघल गई किरण निखर गई कौशिक ऋषि जैमिनी
 वरमा' जैमिनी प्र
 बाधय फेडरीनफेल्ड २ भा यूरेनिया १००
 बाधोर किशोरियो की सदाचारी शिक्षा भट्टानाय कृष्णपद
 माय दसक १००
 बाधोरों का भावविकास कनल, एस पी शारमाराम ७५०
 बाधोनी लोक कपाए रामेश्वर भद्रात देगाती ५५०
 बाधोनी का देश देनमाक शाही, रामसागर भा भवन
 १००
 बाड-पवगे विवारी रामभद्र धनु राजपाल २५०
 बाडरान रस स्वरूप श्री श्री ध्यानदमयी ६००
 बाडरसिंह मिश्र चंद्रसेखर स्वोति प्र १०००
 — एक प्रच्ययन दुर्गाशांकरप्रसादसिंह 'नाथ स २ नव शा
 म
 बाडरसिंह प्रताप श्यामत प्र १२५
 बाडरी वैजल, श्यामनारायण पावनी ३५०
 बाडरुत्त पालन जयरामसिंह रा वेनीप्रसाद
 बाडरमार तत्र (भाषा टीका) बाडरमार मुनि धवतरि
 ० ५०
 बाडरु वहानिया गतान, इन्द्रनाथ सपा ज्ञान भारती, दि
 ४००
 —बाडरी श्री सुगन देवीदास कल्याण म २००
 —देशा बाडरु सुता बिबना पनदयामदास मरता ३५०
 —निबध जैन भगवतुमार भा ज्ञानपीठ
 —मुक्त, बाडरु शरने रंजीत भगीर 'पा (पा) १००
 —में बाडरु व रामवृष वनीतुनी वनीतु ५००
 —विचार बाडरु समीनायें मुरतीमनोहर तत्रुम प्रधागार
 ४५०
 —गान्ध बाडरु रेगाए विष्णु प्रभाकर सपा ३५०
 —गामोयक प्रदन भाव, विनोका ध भा सर्व

- कृष्ण द्विवेदी, हजारीप्रसाद मैत्रेय ३५०
 कृष्णाय शीकृत शानवी प्रसोक पा (पा) २००
 कुमारसम्भव (पंचम सर्ग) जैन नैमीचंद्र कमल प्र
 कुमारसम्भवम् सर्ग १५ काव्यदास भा भवत ३००
 कुमुद गर्मा, यनदत्ता हिंद पा (पा) १००
 कृष्ण चालकृष्ण मुन्तार विश्वविद्यालय प्र गृ एव नेश-
 नल १२५०
 —रागता है चंद्रशेखरन नायर एन श्रौनिकैतन १७५
 कुलदेवी चरेकर मामा विद्या प्र म ४००
 कुलाणव सत्र कल्याण म ३५०
 कृष्णाय सत्र विज्ञान म ०५०
 कुलीनता गोविंददास सेठ भा विश्व २५०
 कुशल कपाडकर कोकच, हृत्नाारायण देहाती ५००
 —किष्किता कोकच हृत्तराज्य देहाती ५००
 कुशीनपर बा इतिहास धर्मरक्षित भिक्षु महाबोधि २५०
 कुमुद चट्टोपाध्याय शरत्चंद्र स्टार (पा) १००
 कुशी अग्रवाल रामनारायण राध्याश्री २००
 कृति श्री कृतिकार, वाणभट्ट की श्रुतमन्था के सदर्थ में
 गर्मा सरनामसिंह घ्राण विजय बुध
 कृतिना धर्मा रामकुमार चंद्रलोक ६००
 कृषि प्रथिव्यत्र एवम् भू भाष सत्र अध्ययन धर्मा देवेंद्र
 दत्त राजहंस प्र म ५२५
 —ध्वगात्र मित्तल एस सी श्रीरियटल पब्लि
 —ध्वगात्र दूधनाथ सिंह रा बेनीप्रसाद २००
 —ध्वगात्र का एकरेला गग, ध्वगात्ररूप राजहंस
 प्र म ५००
 —ध्वगात्र सरन अध्ययन गग धार पी राजहंस प्र म
 ५५०
 —ध्वगात्र समाज एव समाज कल्याण दूधनाथ सिंह नद प्र
 —ध्व विज्ञान रस्तोगी, सुलचंद राजीव, मे
 ६५०
 —ध्वगात्र सिद्धांत एक ग्राम्य विकास जैन रमेदाचंद्र सिधल
 —ध्वगात्र सरल अध्ययन ध्वगात्र, एस डी राजहंस
 प्र म ४५०
 —ध्वगात्र रसायन मलिक विजय सिधल
 —ध्वगात्र रसायनगत्य ध्वगात्र जयकृष्ण राजहंस प्र म
 २५०
 —ध्वगात्र भूगोल ७००
 —ध्वगात्र एवम् जलवायु विज्ञान गर्ग, जगदीशचंद्र
 राजहंस प्र म ४५०
 —ध्वगात्र तथा जलवायु विज्ञान सरल अध्ययन वैश्य,
 ध्वगात्र राजहंस प्र म ५२५
 —ध्वगात्र सरल अध्ययन ध्वगात्र, जयकृष्ण राजहंस
 प्र म ६०५
 —ध्वगात्र सरल अध्ययन ध्वगात्र, एस डी राज
 हंस प्र म ५५०
 ध्वगात्र रामनारायण रामकृष्णदास रत्निक देहाती ४५०
 —ध्वगात्र वैश्य, तुलसीदास 'नाकर' सार्वे ४००

- कृष्ण गीतायनी धीवास्तव रामचंद्र 'चंद्र', टीका सा प्र
 म, स्वा
 कृष्णचरित सुदर्शनसिंह मोतीलाल १०००
 कृष्णपदा पांडेय, विनोदचंद्र राजकमल ४००
 कृष्णभक्ति-काव्य मे सखीभाव गोस्वामी शरणविहारी
 जीलबा २५००
 कृष्णाम्बुदय—लोकनाथ धर्मा एन एन मोतीलाल
 ३००
 केशव की काव्यकला शुक्ल कृष्णायकर पु स वा ३५०
 केशरिया पयडी धर्मा यादवेंद्र चंद्र कल्याण प्र ३५०
 केशी श्रीर कुर्सी गुल वीजनाथ भा प्र नि ४५०
 केशी श्रीर जर्जर ठाकुर रबींद्रनाथ मजु ३५०
 —की परनी रामवृक्ष बेनीपुरी बेनीपुरी ३००
 केशी का केशरीकर शरण शार एच नर प्र ३५०
 केशिकल इण्डस्ट्रीज जयसवाल की एस देहाती २०००
 केशव वैभव नैकेटेश्वरन एन रा बेनीप्रसाद २००
 केशिज एण्ड जैन गाइड देहाती ८२५
 केशी साहब बा मुत्ती विनि प्रथमनाथ बीरा १२००
 केशि सेल क्रिकेट गुप्ता, विजयकुमार भाग्योदय ३००
 —सेल फुटबाल गुप्ता, विजयकुमार भाग्योदय ३००
 —सेल वातीवाल गुप्ता विजयकुमार भाग्योदय ३००
 —सेल हाकी गुप्ता विजयकुमार भाग्योदय ३००
 केशि स्टार क्रिकेट का मेयर हाडी टामस पु स वा ६००
 केशिप्रॉटेस्टिव डेवलपमेंट इन नेपाल सिन्हा बी के कि महल
 १०००
 केशिप्रॉटेस्टिव कम्युनिटी डेवलपमेंट एन विलेज पंचायत इन
 इंडिया मामोरिया सी की कि महल ६००
 केशि ध्वगात्र नहीं मटियानी शैलेश कि महल २५०
 केशिदेवी विद्याभूषण 'विष्णु' परिमल १५०
 केशिगर्क दुवे, रामेश्वरदास जील प्र २००
 केशिगा श्रीर कवित्र रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल
 ३५०
 केशिगाहल गांधी सी डी सागर' राष्ट्र प्र, दि १५०
 केशि कल्पतरु—विश्वनाथ पटकर एम एम, भाध्य
 मोतीलाल २०००
 केशिहर की शर्त मिश्र, केशवप्रसाद राजकमल ५००
 केशिद्वी का नाच बरती, स्वरूपकुमारी भा प्रथमाला
 ३७५
 केशि कीर्तन कल्याण म १२५
 केशि शिकरी की इक्वीस बहुनिया केशिग, पीतावरनाथ, सगा
 नेशनल ५००
 केशि छाए? कैसे छाए? ध्वगात्र १००
 —धर्म बुद्धिग्राम है? तुलसी, धर्माधर्मा भा ज्ञानपीठ २००
 केशिचरण लोहिया रामनोहर नचिंद्र १००
 केशि का देवता कुवरसिंह मिश्र, जगन्नाथप्रसाद सामां
 १५०
 —का देवता चंद्रोत्तर झाजद मिश्र, जगन्नाथप्रसाद
 सामां १५०

शक्ति का देवता सरदार भगतसिंह मिश्र, जयन्नाथप्रसाद
सन्माय १५०
—का नाहर स्वामलाल 'मधुप' मनोरमा
शक्तिकारी चिद्विद्या सावरकर, वीर विनायक दामोदर
राजधानी २५०
—रमणी तीर्थराज फीरोजपुरी अशोक पा (पा) २००
शक्ति के कवन अमरवहादुर सिंह 'अमरेश' भा प्र, स
८००
—दीप भजनावलि तुक्छोजी महाराज श्रीगुरुदेव ०५०
शक्तिद्वल तिवारी, हृदयामद नुमारेस साकेत ३००
त्रियारमक भूगोल एव मौखिक परीक्षण सरल अध्ययन गुप्ता
ईश्वरीप्रसाद राजहंस प्र म ५००
क्रिस्तन कर्मणी-री बेलि नरोत्तमदास स्वामी, सपा श्रीराम
मेहरा ७५०
त्रिलोकस पौरोजो (बुहू मल मूत्र-कफ रक्तादि परीक्षा)
स्वना दिवनाय चौखवा १०००
शक्तिज की खोज भाटिया श्रीमत्प्रकाश 'अचल राजपूत
अनिल प्र म ०५०
सत्रवा टोपी मदन झाचार्य श्री गुप्ता ० ३७
खडहर रैना विमला राजपास ३००
खडहरों के देश म बनारसीलाल श्राय प्रेम पु भ २५०
खडिल शतु रामुनाथ सिंह समकालीन प्र ४००
खडवर और झादमी यशपाल विप्लव ३००
खजुराहो की अमर ज्योति मिथ मदनमोहन कि महल
खजूर के पत्ते माधवन, आनन्दशकर अमरवति ५००
खट्टे सतरे मीठ सतरे कौशिक शक्ति जैमिनी 'ब्रह्मा
जैमिनी प्र ३५०
खड़ी बोली कविता म विरह धनम मिश्र रामप्रसाद सरस्व
पु म १६००
—बोली का लोच साहित्य गुप्त सत्या हिंदु एवेडमी
१५००
—बोली का स्वरूप शर्मा, अशारखद रूपमन
५००
खन्तुनटवास अजकिशोर नारायण पारिजात ३००
खराद व वजाप जान कानीवरण देहाती ६००
—शिगा दहानी ५५०
खरीदी कौडियों के मोन मित्र विमन २ ख झादमाराम
४२५०
खनिज ज्ञान गाढ़ भरतकुमार अमरवति ८००
खनिहान जग कौमुड 'बनारसी (निबमूर्ति तिव) धनोप पु
म ८००
खद एष्व उर्वर रत्नवीरमि; 'एनियन
खान स चमडा बौधिन झाक सादगिनि एड इडिट्रिपल
रिमचं कौमिल ०५०
खानि वारी अमीर खुमरो भा प्र समा २७५
खाची पित्ररा जिनेंद्र भारती; मगा
—खान मुने कपरे सोनवी कौमनि' लोच पैनना
३५०

खिलजी वश का इतिहास विशोरीसरनलाल एडमी ना ८००
खुदक पाठ धर्मरत्न, भिक्षु महाबोधि ० ३७
खून की परपरा भट्टाचार्य, कृष्णपद मार्ग दर्शक १२५
खूब लठे मरदाने गुप्त विजयकुमार पञ्जाबी
खेती और खलिहानों में शिपाठी रामप्रताप 'शास्त्री' अशोक
प्र म १२५
खेल कद गुप्ता विजयकुमार भाग्योदय ३००
—के गीत हरीश 'मधुर' भाग्योदय १००
—खेल में खोलना शिरीय अ भा सब १५०
खोया हुआ प्रभा महल उपेंद्रनाथ अदक नीलाम ४००
खौक की परछाईया अमृतनाथ सर्जना १५०
गंगा अक भूगोल १००
—एटनस भूगोल १००
—किनारे राकेस तस कृष्ण प्र म २००
—की गोद में खत्री, वृजपाल आलोक प्र, बी ७००
—की धारा गुरुदत्त २ भा भा सा सदन १८००
—खहरी पद्मनाकर मट्ट ना प्र समा १२५
—से पवित्र अमयकुमार 'योधेय' सा केंद्र, दि ६००
गणदीप गुप्त, रमेशचन्द्र अशोक प्र ४००
गनल गगा विद्याभूषण 'विभु' परिमल २००
गजरे तारो वाले वर्मा रामकुमार कि माल ८००
गजालागनि रामगोपाल परेसी, सपा अगत प्र १००
गजानन शास्त्री तिवारी रामेश्वरनाथ ज्ञानपीठ २००
गडवाली लोच साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन बाबुनवर,
मोहनलाल हि सा सम्पे ८००
गढा मडला के गोठ राजा अशवाल, राममरोते राममरोते
अशवाल मडला ४००
गणित का इतिहास ब्रजमोहन हि समि ६५०
—शिषण गुप्त, गिरिजाशकर राजीव मे ४००
—शिषण विधि दुवे बी पी विनोद २००
गणेश शबर विद्यापी के थैठ निवय विद्यापी, गणेश
शबर धादमाराम
गति विज्ञान गुप्ता, पूरनमन राजहंस प्र म १५०
गदार दोस्त नरेंद्रप्रसाद नवीन' हि सा स ०७५
गदहार बाण रणदेव, सत्यपाल पञ्जाव प्रादति एष
भा सङ्ग ६००
—राजा राधिशारमण शिवारामप्रसाद शरण पु स,
धा ३००
गद्य कुमुनांजलि श्रीरूपा सरल जवनपुर प्र गू २२५
—निर्माय दिवारी भवानीप्रसाद २५०
—भारती अन्नाभर, महदू ब्रह्मणमल १५०
—मुत्ताहार वैजनाथसिंह अशोक प्र म १५०
—खल्लरी ध्याम, भोलाशकर चौधवा ०५०
—विधिया सहन, बन्देवालाल ब्रह्मणमल १५०
—विहार भोट, प्रतापनारायण कि महन २००
—गदह दुर्गाशर प्रसाद सिंह 'नाथ' नव सा म १००
—मीरअ एव समीपा सदानसिंह कमल प्र १७५
गद्यापन वैजनाथसिंह अशोक प्र म १७५

- गहकव्यजसमीक्षा शत्रु ज भोतीलाल २५०
 गहडपुराण रहस्य दयाल फकीर दिव सा १००
 गरीडा के गडौदद व्यास, बृष्णानंद 'वेद्यास' वेद्यास ०५०
 गर्जना रामगोपाल परदेशी सया प्रगति प्र ४००
 गर्भवंती स्त्री गुप्त सुरेंद्रनाथ, साकेत २५०
 गन्ध दीप शर्मा, जनार्दनप्रसाद अयोध प्र म १८१
 गांधी गीत बुकडोजी महाराज श्रीगुरुदेव ०१६
 गांधी जी और उनके सपने वियोगी हरि सस्ता १००
 गांधी-युग के सस्मरण उपाध्याय, हरिभाऊ नेशनल ७००
 गांव की झोर चतुरेख विद्याचल २००
 गाइड नारायण, भार के राजपाल ४०० (पा) २००
 गांधीसन्तकाली परमानंद दासजी प्र प्रतिष्ठान २०००
 गांधी चित्रावली झलड १५०
 —सख्त ब्राह्मण शरी परसाई सतावडा. विष्णुराम 'गुमना-
 चार' माधव
 —मन्थार्य झलड १५०
 —महाविज्ञान ३ भा झलड ३५० (प्र)
 —यज्ञ विद्यान २ भा झलड २०० (प्र)
 —साहित्य संर (छोटा) झलड १० पुस्तकें १२५
 गांधी देव प्रेम के गीत विवेदी, दुर्गाशंकर प्रविद गृ
 • ७०
 गांधीरूप विज्ञान चौधरी, शालीबाला भा भवन ३५०
 गालिब उष शर्मा पांडेय बेचन 'उष' रणजित ३५००
 —के पत्र शर्मा, श्रीराम हिंदु एकेडेमी ८००
 गिटा रदान प्रकाशनारायण कला प्र, इ २००
 गिरती दीवार कापनी झालें रॉडन हॉ 'पुष्प प्रभात प्र
 गिरस्तितन रामकुमार 'भ्रमर' विश्वभारती, ना
 शीत विनेसायन और स्लेही, सया गीत प्र ४००
 —कथा शर्मा, मनोहर राज सा समि
 —प्रिया साह हंसमुख अंपरा
 गीतम मिश्र, बीरेस्ट विद्याचल २५०
 गीतांजुल रामगोपाल परदेशी सया प्रगति प्र ५००
 गीतांजलि ठाकुर, रवींद्रनाथ राज सा प्रका २५०
 गीता कथा झलड ६००
 गीतानंद पिल्लार्ड, मेरुकौला परमेस्वरन रा वेनीप्रसाद
 २००
 गीता पद्यानुवाद झलड ३००
 —प्रवचन, गीता व्याख्यान माला चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा
 ३ भा कापी हिंदू ३५५०
 —मे विश्वरूप दांन गीता
 गीतायन साधनी, हरीण सूर्य प्र म ३००
 गीतावली का माधोकर्य गुप्त, परमलाल नवयुग प्रथागार
 गीता विज्ञान भाचार्य वेदावदेव, सनलन एव अणु दिव्य
 १०००
 गीतिका (निराना) एक अध्ययन मिश्र, दुर्गाशंकर हि सा,
 म ३५०
 गीती मिटने अमतराय मजंता ३००
 गुजरात के हिंदी गौरव ग्रंथ नामर, अवाककर, सया

- गुजराती साहित्य ना इतिहास. बुने, जयतकृष्ण हरेकृष्ण. हि
 समि ६५०
 गुजराती चतुर्वेदी, सुंदरलाल 'भ्रमणेश' प्रगति प्र २००
 गुडडी का लाल लाल बहादुर मजुजा उमेश २५०
 गुनावन दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह 'नाथ नव सा म ३५०
 गुप्तकालीन उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास प्रायतपाल,
 प्रसातकुमार पारिजात
 —भारत गोयल, श्रीराम विश्वविद्यालय १२५०
 गुप्त धन अमतराय २ भा सर्जना ८०० (प्र)
 गुनराह पांडेय, सच्चिदानंद नवयुग प्रथागार २७५
 गुरिल्लो की छापामार लडाईं त्रिपाठी, कृष्णदेव इटर मूनि
 १२५
 गुं गोविंदसिंह महीपसिंह उमेश ४००
 —श्रीकृष्णसिंह शर्म रजिष्ट्र उमेश ७००
 —गोविंदसिंह और उनका काव्य सहगल, प्रसिन्नी, हि सा
 म १५००
 गुणदेव गौरीशंकर जी नामर सनावडा विष्णुराम 'गुमनाकर'
 माधव
 —श्री रत्न मूनि स्मृति ग्रंथ कोठरी, डी एन
 गुणदेव स्मृति ग्रंथ सनिति, जेन भवन, बोहामडी ध्यागर
 १५००
 गुह-परंपरा विज्ञान म १५०
 गुलछेरें देवुध बलिपाटिक. हि परि, व १००
 गुलाब के फूल. वाम, शंकर प्रायं बुक २५०
 गुसाईं गुस्वामी नारंग, गोकुलचंद्र नेशनल २०००
 गुंभी मछलिया रसतोगी, विनोद उमेश . ५०
 गुंजते स्वर रामगोपाल परदेशी, सया प्रगति प्र ५००
 गूह परिचर्या तथा प्राथमिक उपचार मुकुंद सतिता जी
 विद्या प्र भवन
 —विज्ञान-तरंग चौधरी, धातिदाला भा भवन ४५०
 —व्यवस्था एव विज्ञान मलैया, विद्यावती दि पु स
 ६५०
 गूह और गुलाब रामबृक्ष बेनीपुरी दि पु स ३००
 गोडवानी शेखगुलाब, सया आदिमजाति ७५०
 गोमाजी चौहान की राजस्थानी भाषा चारण, चंद्रदान, सया
 मा विद्या म ५००
 गोदान • अध्ययन की समस्याएँ राय, गोपाल ग्रंथ नि, प
 ८७५
 — एक विवेचन सिनहा सुरेश रीगल
 गोपालन के सवध मे पारनेरकर, यदावत महादेव केंद्रीय गो
 परि
 गोपीचंद्र शर्मा, मनोहर, सया राज सा समि.
 गौरवे ऊनी शीरडी शर्मा, मदनगोपाल राज लेखक ३००
 गोरिल्ला की खोज मे पांडेय, गोपालचंद्र प्रथमाता १५०
 गोर्जे के सस्मरण जोशी, इलाचंद्र पु स, वा २५०
 गोसाईं-चरिय गुप्त, विजयीलाल, सया वाणी-विज्ञान
 गोस्वामी हित हरिवंशराय • एक अध्ययन गुलाटी, मदनलाल
 इ पन्नि.

- ग्रहण भा, राजेंद्र सा बेंद्र, दि ७ ००
 ग्रह-नाशत्र सपूर्णानंद हिंदु एकेडेमी १५ २५
 ग्राम कचहरी श्रीवास्तव पट्टा १६०
 —कचहरी नियमावली शरौडा पट्टा १००
 ग्रामदान प्रबन्धोत्तर भावे विनोबा श्र भा सर्वे
 ग्रामीण ग्रथशास्त्र शर्मा रमेशचन्द्र राजीव मे ८ ५०
 —एव नागरिक ग्रथ व्यवस्था सरल ग्रथयन गोपत,
 उत्तमचंद्र राजहंस प्र म
 —एव म्युनिस्पाल ग्रथशास्त्र मिश्र, एस सी ओरियंटल
 पब्लिश
 —समाजशास्त्र तौमर, रामबिहारीसिंह श्रीराम मेहरा
 १५ ००
 —हिंदी बोलिया बाहरी हरदेव कि महल
 ग्राम्य चिकित्सा पाठक वेदारनाथ स ६ श्यामसुंदर ० ६२
 ग्रेट ब्रिटेन का सविधान राय हरिहरप्रसाद भा भवन ८ ००
 —ब्रिटेन का सविधान सरल ग्रथयन सिन्हा, काशीनाथ
 कमल प्र १ ७५
 पानानंद चौरसिया केशरीप्रसाद अयोध्या प्र म २ २५
 धनग्रानंद वर्मा कृष्णचन्द्र सगा रवींद्र प्र म्वा १० ००
 घर का चित्रण प्रतापचन्द्र झाजाद सा कला श्र एड
 स्वराज्य ३ ००
 —का ज्योतिषि ब०जावत, बीरजमल कि घर जो
 १ ००
 —बी धान सगर, सत्यप्रकाश स २ प्रिन्टिंग एव राजकमल
 ४ ५०
 —बी सहेली वर्मा साबनीदेवी हि प्रभा पु (पा) १ ००
 —के बुद्ध शोकत धानवी अयोग पा (पा) १ ००
 परलू इलाज ठकुर, चंद्रशेखर गोपालजी भा ज्ञानपीठ
 २ ००
 —दंधन कौशल आफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
 कौशल ७ ००
 —उद्योग धंधे कालीचरण देहाती २ ५०
 —उद्योग धंधे दुवे, सुरेशचन्द्र रतन एड क
 धंधे और भट्टरी को कहावतें शुक्ल कृष्ण, टीका पु स,
 वा १ ५०
 घाट का पत्थर गदा, गुलशन पजाबी २ ००
 —का पत्थर गदा गुलशन सुबोध पा (पा) २ ००
 घाटियों के स्वर हंसराज दशक' समर्गा ३ ००
 धायल सोनार्ये क्या ? शुक्ल टेकचंद्र प्रतिभा प्र १ ००

च

- चंद्रिका महाभाष्य कल्याण म १ ००
 चंडी चरितावली कल्याण म ० ७५
 चंद्रगुप्त मौर्य रामगनावन कि महल ७ ५०
 चंद्रोदय मन्तरश्चन्द्र राधावल्लभ शं ३ चवतरी ० २५

- चपा नागार्जुन (वैद्यनाथ मिश्र) हिंदु पा (पा) १ ००
 चपारन मे महात्मा गांधी राजेंद्रप्रसाद परि स वि राष्ट्र
 चपा रातद् चपादेवो जैन सा १ ००
 चपू-का-ब का मनोचिन्तामक एव ऐतिहासिक ग्रथयन
 त्रिपाठी, लखिनाथ चौखंबा १२ ००
 चबल की घाटिया रामकुमार भ्रमर विद्यभारती, ना
 चक्के की कहानी मदारिया, मनमोहन नेशनल १ ००
 चक्रपूजा के स्तोत्र कल्याण म १ ००
 चक्रव्यूह शुक्ल, भ्रमरनाथ विद्या प्र म ६ ००
 चटपट राजद्रसिंह धामी
 चट्टानें श्यामसुंदर नवयुग श्र बागार ४ ००
 —टकरा गई गोवर्द्धनसिंह 'वहसी' नय्यर प्र एव सिव सा
 स ३ ५०
 चडती पगडिया अनथके पाव कौशिक, रामचरण हि प्रभा
 पु ३ ००
 चतुरंग ठाकुर, रवींद्रनाथ प्रभात प्र २ ००
 जतुर्द्वय वर्ष प्रश्नोत्तर श्रीवास्तव कमलिनी सगीत स
 प्र २ ००
 चतुर्भुजदास दूत मधुपालती वार्ता तथा उसका माधव दामो
 दूत सशोधित रूपांतर गुप्त, माताप्रसाद, सया ना प्र
 सभा
 चतुर्भुजदास देहाती जगन्नाथ देहाती १ ५०
 चतुर्विध तपस्या और चतुर्विध मुक्ति श्रीमाताजी श्री
 शरविंद १ ००
 चमकते नदारी भग, दयानंद हि भवन १ ५०
 चमडे का काम डेविड, एस सी विद्या भवन उ
 २ ५०
 चयनिका गौड, राजेंद्रसिंह धनोक्त प्र म २ ००
 चयनिका त्रिलोकीनाथ प्रमो' नानदा सा ३ ५०
 चयनिका भटनागर, महेंद्र कल्याणमल
 चरक संहिता अग्निवेश, महर्षि २ भा चौपडा ३६ ००
 —संहिता का निर्माणकाल तथा काश्यप संहिता का
 निर्माणकाल तामा रघुवीरचरण चौपडा २ ००
 —संहिता का सांस्कृतिक अनुगोलन अग्निदेव विद्यातकार
 शांति प्र, वा
 चरण चिह्न तामा, वज्रदत्त सा प्र
 चरणोदक सकसेना, रामदयाल नवयुग प्र मु ६ ००
 चरित्र धर्मे, के एल रोशनलाल १ २५
 —निर्माण की चर्चा ए अलड १ ००
 चरित्रवान रमेश चौधरी, ए 'मारिगलूड' वि प. कु
 ६ ००
 चरिया विट्ठल धमरदित्त, भिगू महावोधि १ २५
 चपेट पजरिका भोगानंद, परमहंस स्वामी (धालुवाते
 बाबा), सया स २ वेदान्त केसरी १ ५०
 चलने पुर्ण गुप्त, हरिहरदास 'हरि' मुंदर २ ००
 चला हंग का जाडा गुलशन कृष्ण सुप्रभा प ८ २५
 चांद उतर घरती पर धामो भगवानदाग निर्मोही' भारतेंदु
 भवन ४ ५०

चाद का मुहू टेडा है मुक्लिबोध, गजानन माधव भा ज्ञान-
पीठ १०००

—की पुर राम, ब्रह्मनारायण 'विकल' नवमुग प्र धामार
३२५

चादनी का जहर त्रिपाठी, नमदाप्रसाद हि भवन ३००

—के बधन अमरकांत राजीव, इ ५००

चाद, सूरज शीर सितारे प्रसोक मणल

चादी की रात चुकल, कमल भा खबाला ५७५

चावा नेहरू हरीश मधुर भाग्मोदय १००

—नेहरू जिदानाद अमरवहादुरसिंह अमरेश इ पब्लि
१००

—नेहरू जिदानाद सवसेना सिवनारायण अरविद प्र ग
०७०

चाबुक विगाडी, मयंकोत 'निरामा' जबलपुर प्र ग
३००

चाय उद्योग कौंसिल थाक साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
कौंसिल ६५०

चार सौ बीस शोकन यानवी अणोक पा (पा) २००

चारमित्रा सीताराम शारनी चद्रलोफ

चावोंक दर्शन एक मानवीय धरोहर बोडा, रामचद्र
नवमुग प्र कु ३५०

—दर्शन की छात्रकीय समीक्षा पाठक, सर्वानंद चौखवा
१२५०

चितक की लवारी चतुर्वेदी, माखनलाल भा ज्ञानपीठ

चिंतन के धारि बचनदेवकुमार नावली ४००

—के धाण विनयेंद्र स्वातंत्र्य नेशनल ७००

चिता छोटिडे—प्रसन्न रहिय भवड १००

चितामणि विवेचन भा २ भाटी, देगाराजसिंह प्रसोक प्र
२५०

चिता मुक्त कैसे हो ? मार्टेन, स्वेड मुबोध पा (पा)
१००

चिनगारी श्रीर फूल त्रिपाठी, रमाबांत मधु

चिकित्सा तत्व दीपिका पाडेय, महावीरप्रसाद भा २ साति
३, दि १०५०

चिट्ठी-पत्री धमतराय, सपा सर्वेता भा १ ७००,
भा २ ८००

चिता के फूल रामवस बेनीपुरी बेनीपुरी ३००

चित्रकलाक धमतराय सर्वेता ३००

चित्रकला का रसास्वादन मुकुल, रामचद्र हि प्रचा पु
६००

चित्रकू प्रवेदी, रमानंद गास्त्री विनोद

चित्रकू मानपा, के बी नेगल ३००

चित्रकू की परिपा मुक्त श्रीरूप देहाती ४५०

चित्रमय जोधपुर हि धर, जो १००

चित्रमाला माधवने धारिदानर अमरावती ७००

चित्रा मुकुल, भातुदेव, सपा विद्याचल ३००

चित्रानदा ठापुर रवींद्रनाथ राज । भका १००

चित्र-रचा के मोह रामदेव चित्रा म, हो ८००

चीन मुगोल १००

—एटलस मुगोल १००

—के मोर्चे पर देचन सम्पूर्ण ३००

—की चुनौती क्षेमचंद्र सुमन, सपा हिद पा

चीनी विचकला राजकवर तथा अय सा नि, का
३५०

चुनकरद एक विद्युत छरे एन एम छातमाराम १५००

चुनकी भर चादनी चौरसिया केगनीप्रसाद भूमिताभ, इ

चुटीले चुनकूले जैन मिश्रीमल तरंगित मोहन प्र २७५

चुनाव श्रीमालाल इलाहाबादी राष्ट्र प्रचा, इ ३२५

—कानून १९६२ व्यास पहुंचा ६००

—कानून हिंदी में व्यास सीमेश्वर शर्मा शारदा पु म

चुने हुए कवि श्रीर लेखक भाय वेदभानु राजहंस प्र म
१५०

चुनौती जगदीश विचारद अरविद प्र ग ०५०

चूक की हूक लागडी प्रनपूर्ण विके ६५०

चूनर की पीडा शर्मा यादवेद चद्र' नेशनल ५५०

चूर्ण रत्नाकर कोकचा हरनारायण देहाती ३००

चैत मानसा रेवतदान कि धर, जो ३००

चेयर मैन सत्यकाम विद्यालकार हिद पा (पा) १००

चेहरे जाने पहुंचाने गोविंददास, सेठ एस चाद २५०

चेहरो से चिरा सर्वण रामगोपाल परवेसी, सपा प्रगति प्र
४००

चैत महात्म्य शर्मा, जयन्नाथ देहाती १५०

चौंसठ कविताए जैन, इदु भा ज्ञानपीठ ३००

—रूसी कविताए हरिवाराय बच्चन' राजपाल ३००

चोदह फेरे तिवानी (गोड पत) विरवविद्यालय ६००

चौपाल चर्चा रामकुमार अमर जबलपुर प्र ग १००

चौरी की शकर राजकमल ११००

चौराहा मुक्त, राजेन देहाती ३५०

छद भलकार रस तिवारी, चंद्रसेखर जबलपुर प्र ग
०७०

—भलकार रस बोध परसाई, हरिश्कर जबलपुर प्र ग
०८७

—रस भलकार नरेय मोहन कुमार भा भवन ०८८

—शास्त्र नेपात्रत, मुनि, टीका हरयाणा २५०

—शास्त्र की भूमिका शिवकुमार नारायण तिवानी प्र ३००

छदस्वतीवाक धरपाल, बी मोतीलाल १५०

छदोलकार दीपिका शर्मा, भवभूति सा नि, वा ०६०

—यज्ञी सत्तरचद्र मोतीलाल - ००

छरीसगड म लोक गीत शर्मा, धारेश्वर, सपा छरीस लोह
२००

छरीसगड की मयाए शिवकुमार 'सैल' राष्ट्र प्रचार म १००

छलना वाग्पेयी, मयवतीप्रसाद प्रभात प्र ३००

छलाय श्रीर शाह्या विद्यार्थी, धनतरप्रसाद गुधना विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनग

छात्रोपयोगी विचारमाला जगदेवसिंह शास्त्री हरयाणा

०६५

छाया की छाया गोवन्द नसिंह वही नव्यर प्र १ ५०
 —युगप आचाय श्रीगोपाल मुता प्र ३ ५०
 छायातोत्र की रहस्य नगरी भट्टाचाय कृष्णपद माग दर्शक
 १ ००
 छायावाद श्रीर निराला हनुमानदास चहोर नवयुग षष्ठा
 गार १ ५०
 —पुनम ल्याकन पत मुमिवातनन लोकभारती ५०
 —युग गमनाथ सिंह सरस्व म वा ७ ००
 —विशेषण श्रीर मूल्याकन दीनानाथ गरण नवयुग षष्ठा
 गार १ ०००
 छायावाणी काय श्रीर निराला श्रीवास्तव गति प्रथम
 १ ५ ००
 छायावाणी गार काश्य सिद्ध बरप्रसाद नेगल ८ ००
 छोटे चतुर्वर्णी बरसानेलाय रायश्री २ ५०
 छक छक छक नागर बालकराम एकै १ ००
 छोटे धादमी की बही कहानी मासूम रजा राही राजकमल
 —छोटे उद्योग स ७ बाटेज १ ० ००
 —छोटे सबाल दुष्यतकुमार राजकमल
 —साहब वाजपेयी भगवतीप्रसाद समाग ७ ५०
 जगल म खगानी नाच वाम गकर प्राय बुक १ ५०
 —म मगन दीनित भूपनारायण प्रथम ला १ ८०
 जमी पैमादा चोव (गोन लकनी) देहाती ३ ००
 —पैमादा चोव (चिरी लकनी) राजद्रकुमार देहाती
 ३ ००
 जगत की रचना गुरुदा भा सा सदन २ ००
 जगद्वि जगद्वि चद्रप्रकाशमिहू भा प्र न ३ ००
 —दिनर वमा मयकाम भा प्र नि
 जन जन म जाग नहू लम्पी गाधना सुदर प्र ४ ००
 जननायक जवाहरलाल नेहरू रगा भैरवतन सपा मूय प्र
 म १ ५०
 जननी धारमीप्रमा मिहू प्रमात पत्रिच
 जनमोया गोड पुरपोलमास कोमन वि महल २ ५०
 जनवरी के मत साहू, बेरुविम वारनो प्रभात बुक
 जकर की गायरा पठित प्रकाय सपा हिं पा (पा)
 १ ००
 जननाताल जी बिठना धन्यामदास सस्ता १ ५०
 जनाना बन्द गया गुप्ती भा ४ भा सा सदन १ ० ००
 जनाने की प्राग प्रतापच धाजा स्वराय ३ ००
 जनान दोहावरी गहलोत महावीरसिंह प स वा
 १ ००
 जमीन धाममान वन वन एम हिं पा (पा) १ ००
 जनान के तारे प्रतापच धाजा स्वराय २ ००
 जयतिथि पुस्तक वीरविगत मा नि का १ ००
 जय घोष सवना कमान कमाने प्र ४ ००
 —जय हिंदुमान ताराचणाल कवन गाति प्र वा
 —जवान वमा ताराचद चिमय २ ५०
 —जवान जयमान चतुर्वरी देवायान मगत धनवा
 प्र भा १ ५०

जय जवान जय किसान यामलान मधुप नवीनतम
 २ ००
 —भारत दीक्षित मुस्तार सिंह धाने पु वा
 जयमाना धान नौरजा नवयुग प्रधागार ४ ७५
 जयमात्रा धर्मकेतु (गोरीगकर गोवन्द नजीगी) घोरा ५ ५०
 जय विजय त्रिपाठी वाल्मीकि प्रयुष १ ० ००
 जयशकर प्रमाद श्रीर रित्तनी गर्मा राजनाथ विनो ३ ५०
 जरासभ सतोपकुमार दि पु स १ २५
 जमनी देग श्रीर निवास तिबारी उदयनारायण हिं पा
 (पा) ० ००
 जसती चट्टान नदा गुलान सुबोध वा (पा) २ ००
 —भाडी बर्मा निमल राजकमल
 जलवायु विनाल भूगोल ३ ००
 जवान सज्जन कि धर जो २ ००
 जवाहरलाल नेहू चतुर्वदी रामजग सपा चिमय १ ० ००
 —नेहू एक विवचना मक वत गुरुदा भा सा सदन
 ८ ००
 जहर भटनागर कणादकृषि नेगल ३ ००
 जहागीर गर्मा श्रीराम राम समाग
 जाभोजी श्रीर उनकी वाणी पारीक सूर्याकर भा विद्या म
 १ ० ०० ?
 जाग उठा है हिंदुस्तान ठाकुर प्रमकुमारी प्रमकुमारी ठाकुर
 १२ रामनिवास विधान सभा माग लखनऊ २ ००
 —जाग सतिव महान बर्मा कातिकीगन बकुम बमा प्र
 २ ००
 जागरण के लिए जागरण गोड वृष्णदेवप्रसाद सदा सतोप
 पत्रि ३ ००
 —के स्वर मिथ सूननारायण सरल नान मूय एव सतीग
 कुमार २ ००
 जापो धारलो वा सवना सविन गा पुष्प हिं पा (पा)
 १ ००
 जायत भारत देवदत्त गास्त्री वि हिं पा
 जागति गुरुदास राजपाल ५ ००
 जाद की मूय पत्रिकर रजनी हिं पा (पा) १ ००
 जाति प्रवचण गमा छोटेलाय सती स हिं प्रम ८ २५
 —भे श्रीर वृद्ध धर्मरात मिक्षु मगाविधि ० ७५
 जातिया का बोप गीत ० ५०
 जाति वगी का विन् श्रीवास्तव रमागकर हिं समि
 १ २ ५०
 —ध्वस्तया नमदेवरप्रमा राजकमल ३ ५०
 जानने की कहानिया सप्रेत्र नारायण राजपाल १ ५०
 —की बात चणोसाम्या दवीप्रमा राजकमल
 जायान गग धर उमरे निवागा हिं पा () ० ००
 जायमी निचरी रामपुत्रन राधाहु ग २ ३
 जायमा भागी देगाराजिन् प्रभा प्र २ ०
 —श्रीर उना काश्य मिथ याम धनाय १
 —की विजयोरना मकनना सुपा धनाय प्र १ ००
 —वा भागा पुत्र प्रभाय विवदितारय हिं प्र १ ६ ००

जायसी धयावली प्रथम, राजनाथ, मया विनोद ८००
 जार्ज वाणिगटन त्रिपाठी, तारा प्रत्युष २००
 त्रिदशो एव पाव, एव फूल वाजपयी, हारनामप्रसाद प्रभात
 प्र १०००
 —धौर त्रिदशो गृहगत मनमोहन दि पु स ७००
 —के घेरे धनत नवयुग प्रयागार ४२५
 —कैते त्रिपे ब्रह्म १००
 त्रिनासा धौर अय क्हानिया वास्त्यामन, सन्निवादानन्द हीरा
 नन्द भ्रमैय' सरस्व प्रे
 त्रिपुट्टा परिच राजसिंह कवि मयी दि जैन म धेन धी
 मत्स्यवीरजी, जयपुर एव जैन सा ५००
 त्रिन द्वाद तिन पाइया ईश्वरदत्त पु जगत
 त्रिन्हें नही भूलूया वस्त्री पदमलान पुन्नालात लोकचेतना
 ३५०
 त्रिपत्ती जोशी, इलाचन्द्र लोकभारती ८००
 त्रिना प्रभासन रामायणीप्रसाद कि महल
 जीत था हार मधोच, वलराज भा सा सदन ४२५
 जीती जामती क्हानिया मिथ शरयनारायण सरकार
 जीवन धौर जीव जनु की कहानी पाठेय प्रभुनाथ विविध
 १६२
 —धौर साम धीरेंद्र पवज दि पु स २५०
 —की कडली मूर, रय एतन आत्माराम ७५०
 —की राहें पटेत, नित्यानन्द गोविंदराम ४००
 —के चार अष्टाय मिथ, मुक्तेश्वरनाथ 'माघन लोकभारती
 ७००
 —के छोटे राह, रेमी पील प्रभात बुक ४२५
 —के सत्व धौर काव्य के सिद्धांत लक्ष्मीनारायण 'सुधासु
 सगो स ज्ञानपीठ १००
 —के पढ़ू धर्मतराय सजना २००
 —के मोड मिथ रमाकांत नवयुग प्रयागार ४५०
 —ज्योति चनुपति, व्या गोविंदराम
 —ज्योति तुत्रदोत्री महाराज धीगुरदेव, ० ५६
 —ज्वार युद्धत भा सा सदन (पा) ३००
 —दासा सोन्दाग पो जे प्रभात बुक ३००
 —निर्मण साह भार, पी प्रभात बुक भा १ १३७, भा
 २ २००, भा ३ १५०
 —पापेय विद्यानन्द विदेह, स्वामी वेद सस्थान ०५०
 —म येसो गुप्त, हरिद्वारदास 'हरि' मुदर २००
 —रदा महासक्ति १५०
 —रेवा रात्रेवर गुरु नेगल ५००
 —सयाम म कैने जीतें ? ब्रह्म १००
 —सपर्य सत्वदेव विद्यालकार राजवान
 —सुधार निवर्तनलाल गिय सा १२५
 जीवात्मा उपाध्याय, गयाप्रसाद कला प्रेस १००
 जुलाफ फातिश्वरनाथ रेणु भा ज्ञानपीठ ३५०
 जूना जीवना विचराम ध्यात मुरसोपर' राज सा
 प्रमा ३७५
 जूही की कत्ती शरण त्रिपाठी स २७५

जैन प्राथम साहित्य मे भारतीय समाज जैन जगदीशचन्द्र
 चौखवा
 —प्रथम भण्डारसू इन रामस्थान कासलीवाल कस्तूरचन्द जैन
 सा
 —धम वा प्राण सघवी सुखलाल सस्ता २००
 —धम वा सरस परिचय भानुविजय गणिवर मोतीलाल
 २००
 —धमामृत जैन, हीराजाल सपा भा ज्ञानपीठ
 जैनस की क्हानिया जैनेन्द्रकुमार भा १० पूर्वोदय ५००
 —व्यक्ति कथाकार धौर चितक भटनागर, बाकेविहारी,
 सपा नेघनल ५००
 जै रामदेव बोवा की धानवी रामदत्त कि घर, जो १ ७५
 जो चाह सो कैंते पाये ? माडेंन स्वेत सुबोध पा (पा)
 १००
 —मुलाए नही भूलते कपिल, आसाय बेनोपुरी ५००
 जोहर के अक्षर सतीपकुमारी 'सैलजा नेगल ३००
 ज्ञान की कुबी गोस्वामी, मोहनपुरी देहाली १२५
 ज्ञानदीप भवनाथल लुकडोजी महाराज धीगुरदेव ० ३७
 ज्ञानभारती कत्य सतराम रामप्रसाद भा १
 १२१, भा २ १५१
 ज्ञानयोग पर प्रवचन विवेकानन्द स्वामी श्रीरामकृष्ण
 ० ६०
 ज्ञान-सकलिनो तत्र कल्याण म १५०
 जैय अजय जैन, विमला, सपा ज्ञानदीप प्र २५०
 ज्याभितोप बनावट सर्मा वैद्यनाथ सर्मा प्र
 ज्युलियस सोजर देवमपियर, विलियम कोरा २००
 ज्येष्ठ महात्म्य सर्मा, जगन्नाथ देहाली १५०
 ज्योति जले भारत सूचना धौर प्रसारण मन्त्रालय
 प्र विभाग
 ज्योतिष की पढ़व गोरतप्रसाद हि समि १०००
 ज्योतिषचन्द्रिका गयाप्रसाद ध्याग सा १००
 ज्वाला परबनो सर्मा, नरेंद्र समुदय २५०
 ज्यातागुम्बो दुर्गासागरप्रसाद सिंह 'नाथ' स २ नव सा म
 २००
 ज्यातागुम्बो रोवडे, अनंतयोपाल सस्ता ३५०
 अर भर कथा बारहठ करपोदान नवयुग प्र कु एव बारहठ
 प्र ५५०
 अरोये चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त' लायल
 भलक हार मोती निवर्तलाल गिय सा २००
 भाकी हिन्दुस्तान की धनत, म ध (प्रसाफन प्रहमद).
 समर्पा २५०
 भासी की रानी मार्गव मोतीलाल भा प्र मदिर
 —की रानी मिथ धानद जदनपुर प्र ग ५००
 भाइ टिरी राजाराम शास्त्री लोक मच ३००
 भिडियो बारहठ, करणीदान बारहठ प्र १५०
 भीत बोली गुप्त, डाऊनी विवेक ५००
 भूतभूना चतुर्वेदी, सदरलाल धरपोसा' लोकराज.
 भूटे बघन लहर प्रगति प्र १००

ट

टकी. भूगोल १००
 टावर की बात (राज भाषा) रानी लक्ष्मीकुमारी राज.
 सा अक्षा २२५
 टीपू मुल्तान जैन, यादवचन्द्र प्रभात प्र २५०
 टुलिनस रामवृक्ष बेनीपुरी बेनीपुरी ५००
 टूटता धागा गुर्टू चर्चोरानी इ पब्लि. हा ३५०
 टूटती इकाइया दबडा, धारद अग्ररा
 —जजीरें कवल, एस एन टी. धार
 —पगडिडिया बृजमोहन अजना ३००
 टूटते बंधन बाजपेयी, भगवतीप्रसाद हिंद पा (पा) १००
 —सपने वर्मा, लक्ष्मीदेवी 'चंद्रिका' मंगला
 टैंगोर श्रीर निराला बाजपेयी, भवधप्रसाद अनुसंधान
 १२००
 टोटका विज्ञान पाठक, केदारनाथ स ६ श्यामसुंदर
 ० ३७
 ट्राजिस्टर गाइड रमेयचन्द्र विजय देहाती २२५०
 —रिसीवर नरेंद्रनाथ देहाती ६७५
 टाकुर टैंगामिह पाडेय, कातानाथ 'चोच' पु स, बा
 ३-००
 ठुकराये हुए लोग उपाध्याय, शचींद्र कृष्णा अ २५०
 ठोस ज्यामिति गुप्ता, पूरनमल राजहम प्र म ११२
 —ज्यामिति प्रसाद, बी एन मोतीलाल २५०
 —ज्यामिति बुद्धिबत तथा बुद्धिबत रामप्रसाद १५०
 —ज्यामिति मयाडू, रत्नसिंह जबलपुर प्र गु १ २५
 ठरपोह नदा गुलशन अशोक पा (पा) २००
 ठाक टिकट की जन्म कहानी चौधरी, शक्तिविलासराय
 अजना ६००
 ठाकुर भावना गौड, गंगाप्रसाद 'नाहर' साकेल ० ५०
 था इन्द्रनाथ मदान हिंदी विभाषा, पञ्जव, चंडीगड
 था चंपक धोर मन्जु वर्मा, मनोहर राज सा अक्षा. २५०
 था नरेंद्र व्यक्तित्व धोर कृत्तिल रोधा, रणवीर, सपा.
 भा सा म ६००
 थ. सौद्र सौड, एकाग्रप्रसाद 'नाहर' साकेल ० ५०
 था. वन्दवप्रसाद मिश्र, व्यक्तित्व धोर कृत्तिल हा मिश्र
 धर्मिनन्दन गमिनि, राजनादपाव
 थकुर मिट्टी गौड, गंगाप्रसाद 'नाहर'. साकेल १.५०
 था मोर्चा का दीप वेन्न, एच जी नेमनल ३५०
 था रामकुमार वर्मा का काय विधाटी, प्रं प्रभाष चंद्रलोह
 था रामकुमार वर्मा : व्यक्तित्व धोर कृत्तिल विन्नेपण
 गियागामनरणप्रसाद सपा. कला भा ४००
 थामरी * नीरम पृष्ठ जोनी, इलाचंद्र सोहभारती ३५०
 थानी की टिप्पण पाटी बर्णी, रमचन्द्रकुमारी भा पंथवाता
 ४००

त

टिजाइन ग्रेट प्रिंस राममवतार 'बीर' देहाती ६००
 टोजल इन गाइड कृष्णानंद देहाती ८.२५
 उबते मस्तूल मेहता, नरेय. साधना सदन ४००
 उरुको पर सुदे नाम वोहरा, जगदीश कृष्णा अ ३००
 उंगरी भाषा और व्याकरण गुप्ता, बसोबाल ललितकला
 २ ८०
 डोलता हिमालय चतुर्वेदी, रामजन्म स २ चिन्मय ४००
 डलती राह डूबते तारे कुशवाहा, विमल नवयुग प्रकाशगार
 ३५०
 डार्ड गज का टुकड़ा ओमोलाल 'इलाहाबादी'. राष्ट्र. प्रचा,
 इ २५०
 डोल की पोल (रेडियो मूठिस्तान) चिरजीत सुबोध पा
 (पा) १.००
 डोला मास् र दूहा. शर्मासिंह मनोहर, सपा स २. चिन्मय.
 १०००
 डोलामास्तर दूहा रामसिंह * स. ३ ना. प्र सभा ८००

तजसार कल्याण म. ८.००
 तबाकू धातव विष है अलख १००
 —जहर है चौधरी, युगलकिशोर. कल्याणमल ० ५०
 तबार्थ सूत्र जैनागम समन्वय आरमाराम आचार्यश्री
 मोतीलाल १.२५
 तयागत. रामवृक्ष बेनीपुरी. बेनीपुरी २२५
 —ना उपदेश स्वविर, सद्धर्माचार्य प्रार्थकन महावीरि
 ० ५०
 —ना प्रथम उपदेश धर्मरक्षित, मिश्र महावीरि ० ३७
 —गर्भमूत्र भद्रतमगल हृदय महावीरि ० ३७
 —हृदय धर्मरक्षित मिश्र महावीरि ० ७५
 तप का तेज रूप के जाने रघुवीररारण 'मित्र'. भा सा प्र
 ३००
 तपस्वी मार्टिन साहू, बेरविम बारनो प्रभात बुक १२५
 तपोभूमि जैनेन्द्रकुमार तथा ऋषमचरण जैन सुबोध पा (पा.)
 २.००
 तपोवत जयगोविंद कि. घर. जो २००
 तव धीर प्रव गुदरत. हिंद पा (पा.) १००
 तबसा प्रवेसिवा प्रतापनारायण कला प्र, र भा. १ १५०,
 भा ० ००
 —वादन धीरास्तव, गिरीनचंद्र संगीत स प्र २५०
 तमिन साहित्य दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा दक्षिण भा.
 ३००
 —साहित्य का नवीन इतिहास राजगोपालन, न. बी
 प्रसा प्र
 तरविणी गिरिजादयाल 'गिरीन'. गा मकर ०००
 तराना दूदा रिल. ध्याम, कृष्णानंद 'बेमात'. बेमात. १.००

तस्यैव अथवा सूक्ष्मत पाठ्य, चन्द्रबली नद ५००
 तस्वीरें और साथे मिथ, गंगाप्रसाद सा भवन इ
 राजनहल दामा रामकुमार 'दिनक' हि प्र २ ५००
 राजनहल राजपूती महल गा फोक पु ना मूर्त प्र
 ४००
 तात्या टोपे हर्डीकर श्रीनिवास बालाजी नेशनल ६००
 तापमान (यमामीटर) दिवेदी, राजकुमार चौखवा ० २५
 तार सन्तक वास्तुमान, सच्चिदानन्द हीरानन्द 'प्रनेय', सपा
 भा ज्ञानपीठ ७ ००
 तारा पशपाल हिंद पा (पा) १००
 तारावती चतुर्वेदी, सुदरलाल धरणीश, सपा लोकराज
 तारास बुवा गोमोल, एन एमके २५०
 ताल परचय श्रीवास्तव गिरिचन्द्र समीत स प्र भा १
 २००, भा २ २००
 तालमेल दामा, विष्णुचंद्र सा केंद्र, वा ३००
 तालदार मोनो शिवनतलाल शिव सा १५०
 तालीनी गोमावारी कि महल ४००
 तारसा पारीक, बुद्धिप्रकाश प्रमोद प्र म २७५
 तिनहन की सेठी रामदेवर असात देहाती ४५०
 तीन इकरे अशोक भगला
 तीन टिलगे इद्रुमा, अलेक्जेंडर नवगुण प्रकाश १०००
 —पाग प्र बिकाप्रसाद दिव्य सा सदन, अ ५००
 —यास एषा की विद्यार्थी, भारती नेशनल
 २००
 —मुन्शी घूप राजेंद्रकुमार राजेश * ज्ञानोदय
 —मूर्ति सप्रज्ञालय प्रमानदी, कुमारी चंतन १५०
 —सी शीत रामगोपाल परदेशी, मया प्रगति प्र ५००
 तीर्थवनसप्रह जोहरापुरकर, विद्याधर, सपा जैन सस्त्विति
 ५००
 तीस दिन मे सफलता परेष, ए पी हिंद पा (पा)
 १००
 तुम प्रनत शक्ति के मोन हो नथमल, मुनिर्था भा
 ज्ञानपीठ
 —उद्धार करो, हम प्यार करें शोभीलाल 'दत्ताहावादी',
 सा केंद्र, रि ३००
 —राजा में एक दुर्गासंकरप्रसादसिंह 'नाथ' नव सा म
 १२५
 तुलनात्मक शिक्षा मर्नया, के सी लोकभारती ७००
 —सापार्जित सस्यार्थे तोमर, रामबिहारीसिंह
 श्रीराम मेहता १०००
 —साहित्य शास्त्र विष्णुदास राकेज सा सदन, वे
 मुनसी उदयभानुसिंह, सपा राधाकृष्ण ६००
 —की काथ्य बला और दर्शन दामा, रामगोपाल 'दिनेश',
 सपा तरस्व सवाद ८ ५००
 तुलसीदास रामायण ज्वालाप्रसाद, टीका नया सस्वरम
 देहाती १५००
 तुलसी के गुण उषा उन्नयन भोरुचा, हरनारायण देहाती
 ३००

तुलसी के समस्कारी गुण धलड १००
 —के तीन पात कोसल्यायन भदत पानन्द महाबोधि १००
 —के दल वैश्य, तुलसीराम भास्वर साकेत ६००
 —के बिरथा जगमय दुबे, भृगुलाल साधिनजाति ६००
 —के राम सत्यनारायणसिंह प्र विभाग
 —के वैज्ञानिक ३४३ परीक्षित प्रयोग त्रिपाठी, लक्ष्मीपति
 चौखवा ० ७५
 तुलसीदास भोग्ग, कन्हैयालाल सा सत्पान, राज १५०
 —और उनका अयोध्याकांड सीताराम प्रभास कथल प्र
 —का सौंदर्य-बोध दीक्षित, छोटेलाल नद स ४००
 — चित्तन और कला भदान, इन्द्रनाथ, तापा स २
 राजपाल ६००
 — जीवकी और काथ्य दामा, श्रीनिवास अशोक प्र ३५०
 तुलसी पदावली चतुर्वेदी, बरसावेवाल, सपा हा समय, म
 —साहित्य दर्शन मिथ, सिवशकर, सपा तुलसी स्मारक
 एव प्रसात पन्थि ४००
 तुला और तारे सिहा, सावित्री नेशनल ८००
 तुषन और किनारा नेद, विमल हि प्रवा पु (पा) १००
 —की रात राय, समुक्ता सलोव प्र. दि ३ ७५
 —के दिवे वोहरा, जगदीशसिंह वोहरा प्र
 —के बाद दामा, यज्ञदत्त सा प्र ५००
 तेजरेखा पटेल पीताम्बर दास्याराम २००
 तेल और उनसे बने पदार्थ पाठक, एस पी हि समि
 २५०
 तेलबटाह भाया धर्मरहित, भिक्षु महाबोधि ० ३७
 तल्लु की श्रेष्ठ कहानिया रेड्डी, बालगौरि हिंद पा. (पा)
 १००
 —साहित्य का इतिहास रेड्डी, बालगौरि हि समि ६००
 तैस्ता हुमा ताज मिथ, भगवतीशरर राज प्र ०००
 तौडल लक्ष कल्याण स १५०
 त्यागमूर्ति डेमियन साहू, आर पी प्रभास पुत्र १५०
 त्योहार और शिक्षा भविनासिलिगम् टी एस राष्ट्रीय
 संश्लिषिक
 त्रिधारा त्रिधारी, गोपीनाथ * विश्वविद्यालय
 ३००
 त्रिनिधा विभागी, प्रजलाल नवगुण सा स, इ २ ५०
 त्रिनिधा वेदप्रकाश 'वटुक' विश्वविद्यालय ४००
 पके हुए कचनकुमार मुकुल प्र
 पेर माया धर्मरत्न, भिक्षु महाबोधि ३००
 पड न्यायालय सप्रह (बहुत भविनियम) पट्टा ८००
 —प्रक्रिया संहिता पट्टा ४००
 पत विज्ञान गुप्त, गोपीनाथ स २ पवतरि ० ३७
 पदकारिणी श्रीदुर्गातामसाहस्य कल्याण म ० ७५
 पक्षि भारत की बला, सस्त्विति, सभ्यता का इतिहास
 प्रपापचंद्र आजाद स्वरज्य ५००
 पक्षिणी ध्रुव जो सोन दुर्गेक, जे आत्माराम ३.५०
 पक्षिणी हिंदी का उदभव और विकास दामा, श्रीराम हि
 सा उभने

दनु चित्रित्वा महाशक्ति १५०
 दयानंद दयान जगदीश विद्यारद अरविंद प्र गू १००
 —सिद्धांतप्रकाश वैद्यनाथ शास्त्री सार्वभौमिक श्रम्यं
 दद की तसवीरें मुजल, कमल अनुपम २५०
 —सो गया महेशचंद्र हि ग्र २ ३५०
 —हमारे श्रुतुम्हारे श्रवण्यो दामुशरण 'दामु, सपा हि
 सा परि पा ५०
 दसन और बितन मपका सुखलाल मोतीलाल ७००
 —की मनक सिंहा रामदत्तसदा मा भवन ३००
 दसम प्रथ की पौराणिक पृष्ठभूमि जगो, रत्नसिंह भा सा
 म १६००
 दसमूल (सचित्र) वैश्य रूपलाल घनवतिर ०५०
 दस वैचारिक सूत्र हिदा गोवा सहित आत्माराम आचार्यश्री
 मोतीलाल १०००
 दस एकाकी बगारीसिद्ध मोतीलाल ३००
 —कदम पुरोहित रामचंद्र सपा कल्याणमल ११०
 दादुदयाल प्रयागवासी चतुर्वेदी, परशुराम सपा ना प्र सभा
 दानवीर भामादाह पवनकुमार कल्याणमल १०५
 दायरा मालवीय लटमीधर चिन्मय १००
 दावरे नेने, गांधार परशुराम नीलम २१०
 दावरे सत्यदेव शांतिप्रिय टि पु स ३००
 दार्याजिन्हो बानभयी श्रवणप्रसाद नवयुग प्रयागार ८००
 दार्शनिक विद्वेषण सत्य यशदेव मोतीलाल १०००
 दावानल नानकसिंह बोरा ५५०
 दिगांत की किरणें नलिनीकान एम एल बुक
 दिनकर एक पुननूपाहन विज्ञेन्द्रनारायण सिंह परिमल
 ४००
 —घोर उनका कवित्व रणवीर सुरेश अशुवं
 —घोर उनका कुरुभेज धर्मराज बहादुर कमल प्र
 —घोर उनका काव्यकृतिया कविन आचार्य बेनीपुरी
 ३७५
 दिन-रात व्यास विनादशकर पु म वा २००
 —रोमा रात हूमी रघुवीरगण 'मित्र भा सा प्र ३ १०
 दिन घोर दीवार नरेंद्रप्रसाद नवीन हि सा स ००७
 दिन की घडवन, बनम की विरक्त श्रवण मैं ललक बैसे बान
 प्र प्रतिष्ठान ८००
 दिन, दीनत और दुनिया कृदन्धर राजपाल ०५०
 —पर एक दास उमाशंकर प्रवीर ५००
 दिल्ली की बहानी घोर उमक वास्तु रमारक परमात्माशरण
 रणजीत
 —की मात्र चादीवाजा श्रजविजान प्र विभाग
 —गमनन रनिमानुसिंह नाहर' कि महन १८००
 —गे बरिन महापकुमार घाल ६ युजोपर १ १०
 —हायर मन्दी भयंगलर की रूप-रेखा गर्ग, आनन्दस्वरूप
 रायहृग प्र म ६००
 दिव्य जीवन योग, धरविद २ मा दिव्य
 —जीवन भा १ धदिनि क १४ धक योग धरविद
 धीधरविद २१.००

दिव्यपुरुष नेहरू शमा, आनन्दशकर भगवती शर्मा ८ माहल
 बस्ती नद दिल्ली-५ ६००
 दिव्या यगपाल हिंद पा (पा) २००
 दिशापा का पहला आकाश वैजल, दयामनारायण पावती
 ३००
 दि हिस्ट्री आफ इंडिया एलफिंस्टन कि महल ३५००
 दीदी मुनीला मोहन सत्यदेव विद्यालकार मारवाडी प्र ३५०
 दीप चरण, दीप किरण कौशिक कृषि जैमिनी 'बहामा' जैमिनी
 प्र ८२५
 —झाडनी सोनी, कुनदीगसिंह दीप प्र, ल ३००
 —शिला मदन, आचार्य श्री गुप्ता २००
 —स दीप जन गुण, टेकचंद्र प्रतिभा प्र १००
 —से शाप जन तिवारी, गोपीनाथ नवयुग प्रयागार २२५
 दीपाराधना माधवन आनन्दशकर अमरावति ७००
 दीप्ति रामाश्रय सविना' बीणा प्र १५०
 दीमक शासिक गिरिक ११०
 दीया वाती और तूकान शर्मा, श्रीराम राम, नवयुग प्र
 ५००
 दीवार कूर पुष्पतीराज हिंद पा (पा) १००
 दीवासी और हसी आसी, इलाचंद्र लोकभारती ४५०
 दुग्ध कल्प या दुग्ध चिकित्सा चौधरी, मुगलकिशोर बाण शर
 मल २ २५
 दुनिया की नजरा में नेहरू पाठेय रत्नाकर नेहरू सा
 दगा उपालना रामकृष्णदास रसिक बहाती ४५०
 —पुष्पाजनि म्यादरसिंह बेचेन देहाती १५०
 —संपत्ती —दादशा पञ्चानुवाद कल्याण म ११०
 —स्तुति म्यादरसिंह वैचन देहाती ११२
 दुलती काका हाथरसी सुबाध पा (पा) १००
 दुलहिन की बात बंदल, दयामनारायण पावती २५०
 दुदचरित्र पाठेय शाहरदयाल नवयुग प्रयागार ३००
 दुहरी जिनगी बगी, रमेश हिंद पा (पा) १००
 दूर की आवाज बुकरती, मोहनलाल हि सा भवन
 दूवीगण के सिद्धांत शर्मा, हरप्रसाद, अशु हि समि ६५०
 दूरातर बघोपाध्याय, विभूतिभूषण हि प्रचा पु (पा)
 १००
 दुग्ध मुता गोपालप्रसाद चंद्रातप १००
 दुग्ध मडिर वर्मा, हनुमच्छ नवयुग प्रयागार १००
 दुष्टिकोण ड, धनिल निरगर' दि पु स ४ ३१
 दुर्गाकीदिवनी मिश्र, बनवारीलाल मुमन' मुमन प्र ५००
 दुवद्याया नदा गुलशन स्नार २००
 दुवदा चतुर्वेदी, सीताराम पु म, वा १ १०
 देवदासी बरेरकर, मामा विशा प्र म ४५०
 देवानी जेठानी की बहानी गोरीदत्त प्रथ नि, प २००
 देवरी री पद सोनवी, मूरज, मया नवयुग प्र २५०
 देव-भूषा देवदत्त मया ३००
 देवार्जना प्रप्रवान राधेदयाम नवयुग प्रयागार ३००
 देवी विगाटी मूर्धनंत 'निराला' जबलपुर प्र गू ४५०
 —बदना (देवी स्तुति) रामकृष्णदास रसिक देहाती १५०

देवेंद्रनाथ शर्मा और उनका खट्वा—मीठा सदानद सिंह कमल प्र १२५
 दण और समाज दुःख रामप्रसाद भा १ १७०, भा २ २०८, भा ३ २४६
 —को मिन्नी बुनाती है कौसल्यायन, भदत भानव सम्कार
 —की समस्याएँ और कामदाल जयप्रकाश नारायण स २ भा मा सर्व
 —के प्रहरी विजयलक्ष्मी हिंद पा (पा) १००
 —के लिए राजकुमार हि प्रका पु १५०
 —के साम भ्रमरजात प्रायुषिक कथा
 —के वीर जवान रघुवर्षी राजेंद्र विनोद
 —के वीर सिपाही चतुर्वेदी मंगलतारण विनोद २००
 —के सच्च सयूत मिश्र चरदोहर हि प्रका पु मा १ १००, भा २ ११६ भा ३ १२५
 —दमन पुस्तकमाला १ लका २ इराक ३ दिल्लीनाथ मिश्र रामनारायण तथा भूगोल
 —दिल्ली और घट्टम मिश्र रामप्रसाद अनिल प्र म ६००
 —देग के मका सहैली कवूट, कालोदाल रामा प्र ३००
 —दशरथ राजेंद्रप्रसाद गोविंददास सेठ राजपाल (पा) २०० १००
 —दश विदेग का मनोषी प्रसाएँ मिन्हा, सत्यनारायण हिंद पा (पा) १००
 —विदेग की मचिन कहानिया वाशिष्ठ, राम आत्माराम १०
 —है वीर जवाना का बनारसी मिह स २ राजधानी ५००
 —देगी राज्य भूगोल २५०
 —दमप्यार दे गीन केहूँसिंह मधुकर', तथा आकादमी प्राफ माट
 —देहाना चौधरी, राजमल पारिजात
 —दहरी के बाहुर वाजपेयी, विद्याभास्कर प्रपति प्र १५०
 —देहातिपी की तदुस्तती पाठक, केदारनाथ स ३ ध्यामसुंदर ०७५
 —दहाती दुर्गिणी कट्टीगण्णाम, अरतकर हिंद पा (पा) १००
 —दंष्टाचार कपी का गिकार गुक्त, सतुम्नलाल उमेश २००
 —दैनिक पाठनी साधना अलख २०
 —दीवन म जीव विज्ञान भागव, कामदेवसहाय हि समि ३५०
 —देवन गणिका सातबकर, धी सा, तथा स्वाध्याय ३०००
 —देवन परबहार कालिप्रपतम सुधिरिटर भीमासक भा प्राच्य ६००
 —दो अभिनव नाटक श्रीपदे, भातती साषी ३००
 —दुग्गने हरिवागय वचन राजपाल ७००
 —दुष्य महो बलिराम हरिचरा लय एक बुक १००
 —दुगा का एक मुम मरियानी, बीसक लि महल
 —दुगा लोडनाथ प्ररत नामम ५००
 —दल व निनारे भावालोड, मिसाइल हिंद पा (पा) २००

दो नभरों की कहानी डिकम, चार्ल्स मेगनल ८००
 —बूंद जल मरियानी, शैलिया कि महल २५०
 —रास्ते श्रीवास्तव, कपेगप्रसाद नवयुग प्रकाशगार ४५०
 —दोषकारणत्व भीमासा शर्मा, प्रियवत तथा चौखवा १००
 —दोहा अन्त्याक्षरी शर्मा, भगवतीदेवी अलख १००
 —द्रव्यगुण गजुपा शुक्ल, शिवदत्त चौखवा २००
 —द्विजान शर्मा, प्रियवत २ भा चौखवा १८००
 —द्रव्य, विनिमय तथा बैंक प्रथा राठी, एत एत मुरारी ५००
 —द्वितीय महासागर परिचय भूगोल ११५०
 —द्विविदु कर्णीकरण माजीबाले, व व आत्माराम १०००
 —द्विवेणी चरदोहरन नाथर एत, ए धीनिकेतन ०८५
 —द्विवेदी जी और बाणभट्ट की आत्मकथा मप्रसाद धनश्याम धनुर्व
 —दुग का हिंदी काव्य शर्मा, रामसकराम धनुसधान १८००
 —दुगिण हिंदी गद्य शैलिया चौखपि, शकरदयाल भा सा म १५००
 —घन कमाने की कला राजा रिपमदास सत्कार
 —प्राप्ति के प्रयोग कल्याण म १००
 —घनपद धर्मरक्षित, शिशु महाबोधि १५०
 —घनपद वसुनारायणलाल महाबोधि ०३७
 —घनपद राहुल साकू पवन महाबोधि १५०
 —(कथा के साथ) ३००, (हिंदी अनुवाद मात्र) ०५०
 —धर्मरक्षित, शिशु महाबोधि
 —धरती और आकाश अशोक मंगला
 —धीर भाकाश शुक्ल, कमल भा प्रथमाला ६५०
 —का स्वयं लोन, अली मुहम्मद एकडे १००
 —की धून बरेकर, भाभा विद्या प्र भा ५००
 —की वेदना भवस्थी, धनुसराय 'शम्भु' हि सा परि, पी ०००
 —के गीत चतुर्वेदी, हीरादेवी अलका प्र गवा १५०
 —काए दे अन्नपाल, कनकायण कृष्ण मुरारी २५०
 —सागर और सीपियाँ धनुता प्रोतम राजपाल २५०, (पा) १००
 —हरी भरी मिश्र शिवदाकर प्रमात पन्ति १२५
 —हिंदुस्तान की हरीय 'भयुर' भाग्योदय १००
 —परम सरपंच दुव रामदजापर साकेत १००
 —परम और दर्शन उपाध्याय, बसदेव चौखवा ४००
 —परमेश्वर कुशमेने चौहान, विजय रणजीत
 —परम प्र प्राचीन तथा नवीन व्यवस्थान के प्रथम का हिंदी अनुवाद बाल्द, एत एत सत पौलुस प्रकाशन इलाहाबाद.
 —परमतरव विष्कानद, स्वामी श्रीरामचरण १७०
 —परमद का कौणिक निर्माण महापात्र, दिनेशकुमार लोड-बेतवा १५०
 —परम पर एक दृष्टि लोहिया, राममनोहर तवहिंद ०६०

धर्म पुराणा की सत कथाएँ अथवा १००
 —बिठु (हरिभद्र) मोतीमाल ३२५
 —भाग पर कल्याण म ४००
 धर्मवीर हजीबन राय न्यादरसिंह वैचैन देहाती ३००
 धर्मशास्त्र का इतिहास काश्यप, अर्जुन चौबे हिं सति भा
 १ २१००, भा २ १३००
 धातु शिल्प वैचनप्रसाद सिंह कि महल
 धीरे बड़े दोन रे शोकोखोब मिखाइल ४ भा राजकमल
 ३५००
 धूम्रा, भाग श्रीर भ्रासू दील नवयुग प्रयागार ३००
 धुएँ के धन्वे शतुबंदी मनोहर पु स का २५०
 —के बादल राव नरेंद्र जवलपुर प्र गू २५०
 धूप और बादल धर्मा श्रीराम राम सम्भारों ४५०
 —का दुकडा धमृता प्रीतम राजकमल ६००
 —छाव धारिक मारहूबी स्मार (पा) २००
 —भरी सुबह तायल जुगमदिर कविता २००
 धूमशिला भट्ट उदयशकर आत्माराम २५०
 धूल का मह व एनडर, दर्राविग कि महल २५०
 ध्रुवस्वामिनी का नाट्य-सौन्दर्य गुप्त रमेशचंद्र अशोक प्र
 २००
 ध्वन्यालीक धर्मा वदरीनाथ चौबेका ६००
 —सौचन विपाठी रामसागर २ भा मोतीलाल २५००
 ध्वात महद प्रताप भावप प्र ५००
 नद मीम युग नीलकण्ठ शास्त्रा मोतीलाल
 नदिप्राम काव्य द्विवेदी गयाप्रसाद प्रसाद लोचभारती
 नई इभारत सुखल रामेश्वर शचल हि प्रभा पु ७००
 —कविता वासुदेवनदन प्रसाद कल्याणमल
 ६००
 —बहानी बी मून सवदना सिनहा सुरेश भा प्र नि ५००
 —बहानी दशा दिगा नमामना सुरेंद्र अनेको १७००
 —बहानी सबलन मारग कृष्णगोपाय नवयुग प्रयागार
 २५०
 —बहानी सदभं और प्रट्टि अदरथी, दवीगकर प्रभर
 ८००
 —किरण जगन्नाथप्रसाद मिसिद रवीन्द्र प्र ग्वा ५००
 —किरण ड सतीश देहाती १५०
 —नारी रामरूप बेनीपुरी मगो म बनीपुरी २५०
 —समीगा पुराणा साहित्य राय उदयनाथ नवयुग प्रया
 गार २००
 नए युग का मूलपात अथवा १००
 —युग की नई प्रेरणा अथवा १००
 नगन लोका व्यास विनोदगजर पु म, वा ०००
 नहा विदिषाधर हरीग 'मधुर भाग्योदय १००
 नहा नरेंद्रों साराभाई, मृणालिनी राजकमल
 नाट्यसुहृदीर मिनागे गुजर रामनरमण साहित्यधनी १००
 —सनानी द्विवेदी दुर्गाकर भाग्योदय १००
 नयान विद्विदा कोचका हरनारायण दहाती ६००
 नयना मीर भरे गिरीय जवाहर

नया भगवान गुप्त, रामभरोसेलाल 'पकजशानी' नवयुग
 प्रयागार २००
 —व्यवस्था साह, धार पी, धनु प्रभात बुक ३५०
 —समाज धर्मा लक्ष्मीनारायण राजपाल १००
 —समाज और गाव के देवता रामवृक्ष बेनीपुरी बेनीपुरी
 १५०
 —साहित्य श्रीभा, वशरथ, सपा हेमकुट भा १ ३००,
 भा २ ३२५, भा ३ ३५०
 —साहित्य कुछ पहलू विष्णुस्वरूप उत्कर्ष प्र ३७०
 —हिंदी काव्य और विवेचना चतुर्वेदी, समुनाथ नद स १०००
 नयी कविता का आत्मसमर्पण तथा अन्य निबंध मुक्तिबोध,
 गजानन माधव विद्यभारती प्र
 —कविता का स्वरूप विकास घोष, स्वामसुंदर हिं सा स
 ५००
 —कविता मे सौंदर्य बोध बंश, गायत्री रोगननाल ४५०
 —कविता सत्कार और शिल्प मिथ, रामशंकर सायी
 ५००
 —कविता सीमाएँ और सभावनाएँ माधुर, गिरिजाकुमार
 अक्षर ६००
 —दृष्टि गुह्यत भा सा सदन ६००
 —धरती नये लोग अजित पुष्पल परिमल ३००
 —समीक्षा धर्मतराय सर्जना ६००
 नये कहानीकार यादव राजेंद्र, सपा राजपाल
 —मान की नयी कथाएँ व्यक्तित्व हृदय आय बुक २००
 —नगर की कृतानो-विद्यार्थी रामप्रनाद रावी कल्याणमल,
 ३००
 —नये गीत उपाध्याय शिवनारायण शिव हि भवन ०५०
 —नये चेहरे श्रीबास्तव, बी पी रजना प्र
 १००
 —निबंध रवींद्रप्रकाश 'षबरोल हजूरिया बा
 —निबंध धर्मा, विनयमोहन कैलाश पु स ६००
 पत्ते विपाठी नूरुबान्त 'निराला' जयपुर प्र मू ३७५
 —प्रतिमान पुराने निबंध धर्मा लक्ष्मीनाथ भा जानपीठ
 —राही नय राते हनुमानदास 'चकोर' नवयुग प्रयागार
 २२५
 —विचार नई बातें गुह्यत भा सा सदन ८५०
 —सदम नय हस्ताक्षर गुप्त टैबल प्र प्रतिभा प्र २००
 —सन्ने का उजाग दीगंत, प्रकाश जयपुर प्र मू १२५
 नरक की श्रांत म मे अयोध्याय प्रयणकुमार पाती
 ३००
 नरम और गरम पद ताहिया राममनोहर नवाहिद ०६०
 नन दमयन्ती धर्मा जगदीश दहाती १२५
 —नरेय प्रतापनारायण, पुरोहित परि म २ शरय मशत
 २०००
 नव एकांकी बेगावप्रसाद मिह मया समकालीन प्र २१०
 नवचितन की कथानिया कृपालसिंह धानाद एगरे १००
 नवजीवन निबन्धी, रामचंद्र साधना सदन ४००
 —नवीन प्रवर्गिता पाद्रेय मयाप्रसाद देहाती १०५०

- नववीणित बोध राहुव साहस्यपिन महाबोधि ० १५
 नवभारत का राजनीतिक भूगोल भूगोल २००
 नवभारती मदान, इन्द्रनाथ, सपा पनाब यू
 नवसुर रण चौकमणि मिश्र हि सा रामे
 नवाब जनकोटा टडन, प्रतापनारायण विवेक २५०
 —ननहू चतुरसेन, धार्याय सुबोध पा (पा) १००
 नवीन धर्मशास्त्र जैन नवीनचंद्र स २ रामप्रसाद २७५
 —गतिविज्ञान मयाडू रत्नसिंह जवतपुर प्र गू २००
 —चित्रकला शिक्षण पद्धति गुप्त रामचंद्र कि महल ५००
 —त्रिकोणमिति गुप्ता, रामदेव्याम जवतपुर प्र गू २००
 —बोध गणित गुप्ता रामदेव्याम जवतपुर प्र गू भा १
 २५०, भा २ २२५ भा ३ ३२०
 —भारतीय चित्रकला शिक्षा पद्धति गुप्त रामचंद्र कि
 महल ५००
 —रामान धारण कुलधेठ के पी जवतपुर प्र गू ४००
 —व्यापार प्रभाती पारायार एव कुलधेठ २ भा राम-
 प्रसाद ७००
 —व्यापारिक धनगणित जैन कूलचंद मुरारी २००
 —शिक्षा का सिद्धांत पाडेय, रामशक्त रामप्रसाद ४००
 —स्थितिज्ञान मयाडू, रत्नसिंह जवतपुर प्र गू २००
 नव्य विज्ञान विज्ञान वर्मा, मुकुन्दस्वरूप २ भा चौखवा
 १६००
 —द्विती समीक्ष जोशी, कृष्णवल्लभ शयम १६००
 नाक, कान, गले के रोग चौधरी, युगलकिशोर कल्याणमल
 १००
 नागदमय मूलचन्द्र 'प्राणोत्' भा विद्या म ५००
 नागकवी और धुमा रात्रेंद्र मिलन प्रगति प्र १००
 —और धुमा रात्रेंद्र मिलन समानांतर २५०, (पा)
 १५०
 —का देश अमृतस्य सगना १५०
 नागमणि प्रमत्त शीतम राजपाल २५०, (पा) १००
 नागर गीता हरिवंशराय 'बच्चन, रुपा राजपाल ६००
 नागरिक दर्शन भूगोल ० ५०
 —शास्त्र एव उसके सामान्य सिद्धांत द्विवेदी, रविाकर
 जवतपुर प्र गू भा १ २२५, भा २ २५०, भा ३
 २५०
 —शास्त्र के मूल सिद्धांत पित्त, वैभारण सगो स ६
 राजहंस प्र म ४००
 —शास्त्र के सिद्धांत राय, हरिहरप्रसाद भा भवन ४५०
 —शास्त्र के सिद्धांत और भारतीय सविधान रघुनाथसिंह
 ज्ञानालोक २५०
 —शास्त्र के सिद्धांत सरल मध्यमन वीरदेवरप्रसाद सिंह
 कमल प्र २२५
 —शास्त्र सरल अध्येयन रत्नोनी, दयाप्रकाश राजहंस
 प्र म ४५०
 —सुरधा मिश्र, रामाशरकर चौकप्रिय
 नागरीशस-शशावती गुप्त विगोरीनाथ, भवा २ भा
 भा प्र सगो

- नागाभो के देश मे चतुर्वेदी, विपिन विनोद ३००
 नागिन कुशाहा कांत सुबोध पा (पा) २००
 नागेश्वरी शं, सतीश देहाती १५०
 नाटक साहित्य का अध्ययन मैथ्यूज, बैडर शास्त्रात्म ७५०
 नाट्य सिद्धांत मोभा, कैलासपति नैवेद्य
 नाट्यलोचन पाडेय, दयानारायण विजयधु म ६००
 नाथ और सत साहित्य, तुलनात्मक अध्ययन उपाध्याय,
 नागदेनाथ काशी सिंह १०००
 —पथ और निर्गुण रात काव्य तोनकी, कोमलसिंह
 विनोद
 —सप्रदाय द्विवेदी हजारिप्रसाद लोकभारती १०००
 नाटक योग पित्रप्रताप ३ भा सिव सा ४००
 नानाराव पेशवा श्रीवास्तव, हिमाशु वि प्र कु ३७५
 नानार्थ मन्त्री—राघव कृष्णमूर्ति के बी मोतीलाल १५००
 —रत्नभावा दधनिनाथ शर्मा बी प्रार मोतीलाल
 १५००
 नाम मलिका—बोध कुलकर्णी मोतीलाल ६००
 नारद भक्तिसूत्र एव भक्तिवैयक प्रवचन और साध्यान
 विवेकानंद स्वामी श्रीरामकृष्ण १००
 नारद मोह नाटक शर्मा, जगदीश देहाती १२५
 नारी का रण मिश्र सधमीनारायण हि प्रवा पु ३००
 —की धीन सप्तस्यए गुप्त, सुरेंद्रनाथ साकेत २५०
 —जोवन गुणाचक्रप्रसाद सिंह 'नाप' नव सा म २५०
 —हृदय मातृविका, विद्याती महाबोधि १५०
 नाग का विनाश बरेकर, मामा रासना ३००
 निदिधा पुकारे मारित, ज्ञान चित्रगुप्त प्र ४००
 निदमन तर्कशास्त्र जैन, प्रद्युम्नकुमार कमल प्र ५००
 —तर्कशास्त्र मल्लिक, बगवतीनारायण भा भवन ७५०
 निमन वित कुलधेठ, रघुवीरसहाय सा भवन, भा
 निनी और सार्वजनिक क्षेत्र लोहिया, राममनोहर नर्वाह
 ०६०
 निदान नवनील घाट्टे शं कौक्चा, हरनारायण साधना प्र ००
 निबध और निबध मदान, इन्द्रनाथ नेशनल १५००
 निबधकार गुलाबराय जैन, देवेंद्रकुमार सा रत्न म
 निबध वदिया उपाध्याय, कृष्णदेव चौखवा २००
 —व्ययिका चतुर्वेदी, महेंद्र, सग नेशनल
 —दर्शन राहस्य कि घर, खा ५००
 —दयाक परसाई, हरिनाथ, सपा जवतपुर प्र गू २५०
 —नवनील वाण्ये, लक्ष्मीकाशर, सग स ४ विरवविद्यालय
 ४००
 —निबध गुल मोतीलाल * चिन्मय ६००
 —पीयूष गुलाबी, मरा, सपा हि भवन
 —प्रकाश विरागी, दयामविहारी शर्मा प्र म २००
 —भारती गोमय मनमोहन भा सा म ४५०
 —माता श्रीवास्तव, शिवप्रसाद जवतपुर प्र गू २०५
 —दिशा सारस्वत, गोपालदा सगो म चिन्मय ३००
 —सोखर गर्ग, मटोचंद्र चौखवा ५००
 —सप्रह दयानन्दनप्रसाद सिंह हि सा स २००

- निबंध संग्रह हरिश्चन्द्र हि साहित्यक ० ५०
 —सचय सूरजप्रसाद सिंह सपा मगध सा
 —साहित्य की प्रमुख समस्याएँ बाजपेयी अविवाप्रसाद
 सा नि बा
 —सौरभ मिश्र दाबूलाल चौधवा १ २५
 निबंधालोक दामा राजेंद्र लक्ष्मी ना ६००
 निमग्न चतुरसेन आचार्य हिंद पा (पा) २००
 निमाड के सत कवि सिगाजी मगराड, रमेशचंद्र हि सा
 म ८००
 निमोनिया प्रकाश बाजपेयी देवकरण स २ धवतरि ० ३७
 निमोजित परिवार सुख का आधार अनात, अ शुभोध प्र
 निराला तिलक विज्ञमशिला प्र ७००
 —श्रीर राम की शक्ति पूजा भाटी देवराजसिंह अशोक प्र
 २००
 —श्रीर राम की शक्ति-पूजा गर्भा, हरिश्चरण चिन्मय २ ५०
 —काव्य और व्यक्तित्व वर्मा धनजय स २ विद्या प्र
 म १०००
 —काव्य पर बगला का प्रभाव चौधरी इन्द्रनाथ श्री भा
 भारती
 —का साहित्य और साधना उपाध्याय विश्वभरनाथ स २
 विनोद ६००
 —की काव्य साधना जैन, देवेंद्रकुमार कमान प्र
 —की काव्य साधना शर्मा बीणा हि सा स ६००
 —जीवन और साहित्य तेजनाथप्रसाद सिंह
 राज प्र
 निराला के वक्तव्य लोहिया राममनोहर नवहिंद ० ७०
 निरक्त भाव्य भगवद्गत भा प्राच्य १२००
 निरस्त यास्क ज्ञानमंडल १६००
 —समुच्चय वररुचि भा प्राच्य ५००
 निरस्त तत्र कल्याण म २ ५०
 निर्भर गया बन्गी स्वरूपकुमारी भा सयमाना ३ ५०
 निर्भरिणी सीता नि महन २००
 —श्रीर पदपर दर निमना नेगनन ५००
 निरुज्ज रमेश चौधरी ए आरिगपूडि हि प्रचा पु
 (पा) १००
 निबसना आचार्य गोगान स्य प्र म ५ ५०
 निर्वीण तत्र कल्याण म २००
 —पथ अविवाप्रसाद दिव्य मा सदन प्र ५००
 निरा की गौर गुवन कमल मार्ग २ ५०
 निपथ नरेस (देवा) दमयती) धीवाग्गत रामपुनीत
 प्र ७ ५०
 नीम के उपयोग पाठक, केदारनाथ स ६ इशामसुंदर १००
 नीरज व्यक्तिस्व और वृत्तित्व सर्वगेना मुधा प्रगति प्र
 ३००
 नीर भर प्राये बदरा स २ उमापकर भा प्र नि ४००
 नीपथमल पदा गुणान अगोन वा (वा) २००
 नीलजस साई परछाईया जयसिंह नीरज शक्ति ३००
 नीलतत्र कल्याण म २००

- नीला कठ, उजले बोन मिश्र, विश्वनाथप्रसाद बागी वितान
 नीली भील विष्णु प्रभाकर सपा सस्ता ३ ५०
 नूतन आलोक प्रमूतराय सर्जना २ ५०
 नृत्य प्रदन पत्र प्रयाग सगीत समिति कला प्र, इ ० ५०
 —प्रश्नोत्तरी प्रवासनारायण कला प्र इ १००
 नृत्य तथा समाज दर्शन दाल्य, यशदेव मोतीलाल ८००
 नेताजी त्रिवेदा, अद्रभूषण रमई बाबा साकेत ० ५०
 नेत्र रोगा का इलाज चौधरी, युगतकिशोर कल्याणमल
 १००
 नेपाल और नेपाल नरेस पाडेय, राजनाथ ज्ञानपीठ ४ ५०
 —का सविधान राम हरिहरप्रसाद भा भवन
 —देश और निवासी अलख मधुप हिंद पा (पा) २००
 नेहरू छतिम अय्याय चट्टोपाध्याय, बसंतकुमार अशोक पा
 (पा) १००
 —छतिम अलक टडन प्रेमनारायण हि सा म २ ५०
 —अतिम यात्रा गुप्ता, के पी, सपा इ पब्लि १ ५०, छाट
 पेपर ३ ७५
 —श्रीर बासी रघुनाथप्रसाद सपा भा प्र मडल १००
 —का भतीजा जमीर, रजिवा सज्जाद एमके १ ५०
 —को काव्यजति अगिजर सगा गिरिक १ २५
 —चित्रो मे गुप्ता, के पी इ पब्लि १ ५०, छाट पेपर
 ३ ७५
 —जी का महाप्रस्थान रघुनारासिंह गैंगान १०००
 —जी की पुण्यात्मा की आवाज सन्ना विद्यावती विद्या
 सागर ० ६०
 —दूमरो की दृष्टि मे गुप्ता के पी इ पब्लि २ ५०
 —व्यक्तित्व और विचार चतुर्वेदी, बनारसीदास स ३
 सस्ता २ ५००
 नैतिक् शिक्षा जैन राजेंद्र अनुपम ० ५०
 नैयाल अतीत और वर्तमान सनसना शररसहाय रवशुभ
 प्र कु १०००
 नैपथीयवर्तितम् मोदी दीपशिक्षा सपा रा बनीप्रसाद
 नीविहाणे के गीत हरीण राज सा भवा २ ५०
 नोमुस्लिम जाति निणय शर्मा छोटेनाल हिंदू धम ८ ५
 न्याय के न्याय भोजपुरी नाट्य दुर्गाप्रसादसिंह नाथ
 नथ सा म
 —नाथन बी शररेला उपाध्याय बागीनाथ भा भवन
 ३ २५
 —निद्रात मुक्ताबली हिंदी बाग्या प्रस्थभ गड धर्मदत्ताथ
 नाथरी भातीनाथ ५ २५

प

पत्र और पानो गोपन, सीताराम भा सा सदन १ ७५
 पत्र म पत्रक सोपनी अन्नपूर्णा पूणिमा प्र
 पत्र और पाग मनान, ज्वानाप्रसाद विद्वत्विद्यालय ३००

पद्मविद्या कृष्णकुमार 'नूतन' कुमार सज १५०
 पचकोट और सूम्न जगत गंगाप्रसाद शर्मा सा ० ६८
 पञ्चदश सत्यनाम धार्मिकी देहाती ३५०
 पचदशी पीतंबर, व्या रतन एड क ८००
 पचमकार तथा मावत्रय कल्याण म ३००
 पचविष कषाय—कल्पना विज्ञान धर्मिणी, अक्षयविहारी
 चौखवा १५०
 पचवील और बुद्धि वचना महात्मविर भवत गोपाजद
 महावादि ० १३
 पचामृत हंसवती, गौतम तथा चौखवा ३००
 पचायत राज ऐक्य एव नियमावली शरोडा पहुँजा ८००
 पचाक्षरी राज का वित्त विधान भसाली, गुरुजराब मंगल
 उदय १०००
 पञ्चम केतरी लाला साजपतराय वर्मा, मुकुटविहारी सस्ता
 १००
 —प्रात भूगाल ५००
 पञ्जाबी साहित्य का नवीन इतिहास अक्षयकाल, ज्ञानेंद्रपाल
 श्यामा प्र
 प जयचंद्र विद्यानगर भाषा विभाग, पञ्जाब, पटियाला
 पडिन नरहृषी पौर मध्य प्रेश सूचना एव प्र सचलनालय,
 म प्र, भोरात
 —नेहरू प उत्तराधिकारियों का रहस्य भट्टाचाय, कृष्णपद
 शर्म दसक १२५
 —सुरतिनारायण अणि अश्विनदत्त प्रथ अक्षयकाल नामुदेवचरण
 प सुरितानारायणमणि विपाठी अश्विनदत्त
 निर्माण, के ४०।१८ औरनाथ वाराणसी २५००
 पडुवानी रायगुजार सभा २ भा आदिजाति ६००
 (प्र)
 पत और उनका गुजन बंसरीकुमार मातोतल ३१२
 पचाय साल बाद सरावगी, समचद हि प्रचा पु (पा)
 १००
 पचवीस पूर्णमासी कथा जगन्नाथ देहाती १५०
 —श्रेष्ठ कहानियाँ रासिपाल देवन, सपा सहयल
 पडोमी दागी म जैन, यशपाल सस्ता ६००
 पड़ो, हल्ले और शर्म के रमा, जसिना शारदाराम १७०
 पतन क। मार्ग सुदरत भा सा सदन ८००
 पतिव्रती के देश म रामवृष वनीपुरी वनीपुरी ३००
 पतिव्रती श्रीमतीसाल 'इलाहाबादी राज्य' प्रका, इ २७५
 पत्थर और फूम गिरबरीसह देहाती ३००
 —की भाव गुप्त मम्मथनाथ हिंद पा (पा) १००
 —ने सनप पत्थर सुत्तानपुरी सुबोध पा
 —के हाठ नदा, गुजरात अयोध वा (पा) २००
 पत्नी को परमेस्वर मानने व्यसत, गोपालप्रसाद सुबोध पा
 (पा) १००
 पत्र प्रबोध पांडेय, हृदयनारायण 'हृदयेश' हृदय म २००
 —नैयत हरिगणर हि तिगण ० ५०
 —व्यवहार ब्रह्म, रामकृष्ण ममा भा ५ मन्ता १००
 पत्राक्षरि संज्ञा कल्पित, सपा विष्णुचल २००

पत्र के दर्शन मे सतीरकुमार सत्कार
 —दश रामकिशोर 'जैमिनी' दोफालिका २५०
 पयरीले प्रतिक्रम टडन प्रतापनारायण विवेक ४००
 पथिन गुरुदत्त भा सा सदन ७५०
 पदार्थ की रचना भीमसुन राजकमल ० ६०
 —विज्ञानम शुक्ल वागीश्वर चौखवा ८००
 —शास्त्र अा, भाग्य हि सिमि ८००
 पदावली जैन जवाहरलाल विद्याचल १००
 पदकाल मालवीय व्यवितल और कृतितल भोवार शरद,
 सपा शारदा पु म
 पद्यगाथा शसिकर गिरिक १२५
 पद्याभरण कृष्णनारायण प्रसाद माधव, टीका भा भवन
 ३२०
 पद्मानत अक्षयकाल, नामुदेवचरण व्या सा सदन, चि १५००
 पद्मिनी चरित्र चौपई नाहटा भवरलाल सपा सादूल ४००
 पद्मावली शर्मा, हरिकर रामप्रसाद १३७
 पद्म अनेक लक्ष्य एक अक्षय १००
 पद्मी का मुकुट रमेशभाई शर्म बुक २००
 पवित्रा चतुर्वेदी सुवरलाल 'अरुणस सोरराज
 परछाई सातोत्तर वा द विद्या प्र म ४००
 परतो के धारदार उपेंद्रनाथ अक्षर' नीलाम ४५०
 परदगी की गोरडी, मूलचद 'प्राणस स्वास्थ्य सरिता १००
 परशुमरी मास्टर कालीचरण देहाती २५०
 परमवीर भारत क्यामलाल मधुप नवीनतम ३२५
 परम सपा मृगु कामेलकर कावा (दत्तात्रेय बालकृष्ण
 कामेलकर) सस्ता ३००
 परमाणु शक्ति की कहानी कृष्णबहादुर रा वनीप्रसाद १२५
 परगुराम की प्रतीक्षा (दिनकर) एक अध्ययन शर्मा,
 योगेंद्रनाथ हि सा भ १७५
 पराई डाक का पछी अमरकात हिंद पा (पा) १००
 पराजय का पुरस्कार कोहली दोगावीर राजकमल १५०
 पराजय क कल्याण म १५०
 परिराही भोमा, रसिकविहारी निर्माक' जमसेदपुर भोजपुरी
 १००
 परिरज 'निगम, जगदीशनारायण अक्षय' २७०
 परित्यक्ता सगर, सत्यप्रकाश राजकमल ४५०
 परितेग जनेंद्रकुमार, पूर्वोदय ८००
 परिभाषा प्रथम शुक्ल, जगन्नाथप्रसाद चौखवा २५०
 परिवो का नाम पदपाल मिह 'मयक' नवमग प्रयागार
 ० ७५
 परिवार और उनका निर्माण अक्षय १००
 —नियोजन घोर, देवल एकके २००
 —नियोजन, ज्यो और कैते गुप्ता, विजयकुमार भाग्योदय
 ३००
 परिशापी व्याकरण श्रीवास्तव, मुत्सोपर भा भवन १५०
 परीपकारी बालक अट्ट, कृष्णदत्त बाल हिंदीपी ० ७५
 पर्वों की प्रेरणा और पदति अक्षय ३००
 पर्वत पर प्रकाश प्रमात बुक १३७

- पद्युषो के पाठक रोग दीक्षित राजेश देहाती १२५
 पद्यु की परंपरा गोयल सीताराम भा सा सदन ४००
 —चिकित्सा गुप्ता जोहर सिधल
 —परिचय भूगोल १००
 —पालन एव चिकित्सा सरल अध्येयन शर्मा, देवेंद्रदास
 राजहंस प्र म ४५०
 —पालन चिकित्सा एव दुष्चोत्पन्न बाजपेयी, एल डी
 एशियम
 —पालन सिद्धांत एव प्रयोग गुप्ता जोहर सिधल
 —रोग चिकित्सा धारासिंह देहाती ०७५
 पश्चिम निपाठ दर्शन चौहान, गजानन सिंह 'नम्र प्रेमी प्र
 म ०४०
 —आलोचना शास्त्र बाण्ये लक्ष्मीसागर हि समि ८५०
 —भारत की यात्रा टाड, जेम्स राज प्राच्यविद्या
 —साहित्यलोचन के सिद्धांत जेम्स स्कॉट कि महल
 पहला प्रारंभिक लिखत अम्बुलक्षार, काजी विश्वविद्यालय
 ४००
 —प्यार मिहारोविच चिरोमिर राजकमल २२५
 पहिले के ऊपर जैन कुतलकुमार हि भवन ३५०
 पांच सिपाही रामकुमार अमर जबलपुर प्र गु १५०
 पांचाली शर्मा यज्ञदत्त सा प्र
 पाद्म-लच्छीनाम माला बेचरदास जीवराज मोतीलाल
 १००
 पाद्म सहमहण्यो प्रावृत्त हरगोविन्ददास मोतीलाल ३०००
 पाक हूमलाबरो से भारत की ललकार व्यक्तित्वहृदय कल्याण
 मल ४००
 पाकिस्तान का संविधान सरल अध्येयन राजहंस प्र म
 —वा सफर साहनी, बलराज हिंद पा (पा) १००
 —की उदु शायरी पंडित, प्रकाश, सपा हिंद पा (पा)
 १००
 पॉकेट प्रवेजी हिंदी कोश हिंद पा ४००, (पा) ३००
 पाठशाला के हीरो पाठक रघुनाथप्रसाद समान १००
 पाणिनिप्रतिष्ठा नाटक गोपाल शास्त्री ज्ञानमंडल
 पाणिनीय व्याकरण का अनुसूचित भट्टाचार्य, रामदास
 इंडोनाजिवल १२००
 पातंजल योग—दर्शन विष्णुतीर्थ, स्वामी विज्ञान म १५०
 —योग सूत्र—भोजवृत्ति भट्टाचार्य, रामदास मोतीलाल
 २००
 —योग सूत्र—व्यास वाचस्पति भट्टाचार्य, रामदास
 मोतीलाल १०००
 पानी के गुण तथा उपयोग शोका हस्तास्य दहाती ३००
 —विच मीन विप्रासी मिश्र राधेन्द्र बेगनल ५००
 पाप और पीडा पामीवाल, दिनेश प्रगति प्र १००
 —घोर पुण्य पुबल, कमल समान ५००
 —का फल रैमीन हि भवन ०७५
 पापी रांगेय राधक हिंद पा (पा) १००
 पापूजी की बचि हारनाप्रसाद राज सा प्र २००

- पारिवारिक समाज शास्त्र शर्मा, कलाचनाथ कि महल
 ५००
 पाटी कामरेड यशपाल स ५ विप्लव ३००
 पावती महाकाव्य तिवारी, रामानंद 'भारतगदन' भा
 मंदिर १५००
 पावस भादरीकुमारी 'भार्या' भात्माराम २००
 पावसमान तिवारी, भगवानदास स वि गृह
 पालि पाठ माला धर्मरक्षित भिद्यु महाबोधि १००
 —साहित्य का इतिहास राहुल सांकृत्यायन हि समि ५००
 पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत गुप्त साहित्यरूप शरोन
 प्र १०००
 —राजनातिक विचारधारा का इतिहास शर्मा, विश्वनाथ-
 प्रसाद हि समि १४००
 —साहित्यलोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव वर्मा, रवींद्र-
 सहाय विश्वविद्यालय ७५०
 पाषाणी ज्ञानकीवल्लभ शास्त्री जयगिब ३५०
 —सौंदर्य चेतना का कथा काव्य गोस्वामी, शरणबिहारी हि
 स ५००
 पिकनिक टुवे रामेश्वरदयाल शील प्र १००
 पिता और पुत्र तुर्गनेव हिंद पा (पा) २००
 पीरू प्रकाश घनोरा सर्वादीसिंह सपा सप्त शक्ति २५०
 पीलीभीत का साहित्यिक इतिहास सुबल, गणेशदास 'सुधु'
 हि सा परि, पी २००
 पुरखी की छाती दुबे, रामउजगर सानेत् २००
 पुराणगत वेद विपयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन
 भट्टाचार्य रामदास हि सा समे
 पुराण विमर्श उपाध्याय, बसदेव चौखवा २०००
 —शास्त्र एव जन बघाए तिवारी, रमेश तथा चौखवा
 १२००
 पुराणों की प्रमर कहानिया निपाठी, रामप्रताप भा ५ सा
 भवन, इ
 पुराना कठ भई हुकार गुप्त, टेकचंद्र प्रतिभा प्र १००
 पुरानी बातें श्रीमालाजी श्रीभारविंद १५०
 पुरुष और महापुरुष श्रीवास्तव, हिमांग हि सा स ३५०
 —गुप्त रोग चिकित्सा कोरुवा, हरनारायण देहाती ६००
 पुराणीय भगवानदास सशो स ३ चौखवा
 पुरुषोत्तम भास महाकव्य शर्मा जगन्नाथ देहाती १५०
 पुरुषरत्नो के सामाजिक गीत पुरोहित पुरुषोत्तमदास कि घर,
 जो १००
 पुष्करिणी गौड, राजदमिह प्रदीप प्र म १७५
 पुस्तक की बहानी एलिन एम राजपाल २००
 पुस्तकालय दर्शन शारी, नीरय शरवाली २००
 पुस्तक पालन एव तथा प्रणाली प्राज्ञदनुमार भा भवन १००
 पुठरी की लोटा गोस्वामी, शरणबिहारी हि सा स २२५
 पूजा भास्कर देहाती ४५०
 पूर्ण कनक रांगेय राधक राज सा स २७५
 पूर्णिमा मानविना विद्यावती महाबोधि ०६२
 पूर्व प्राप्ति राजस्थान रघुवीरमिह सा. संस्थान, राज ७००

- पूर्वग्रह गुरुदल भा सा सदन ७००
 पूर्वा वास्वामन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अजय' राजपाल ७००
 —एशिया का प्राधुनिक इतिहास मिश्र, मिसला ख १ हि
 समि ८५०
 —एशिया का प्राधुनिक इतिहास चौम पदमाकर ख २
 हि समि ५५०
 पृथिवी का परिधान भूगोल ० १०
 —की कहानी भूगोल १००
 —की कहानी रगनामकी रा वनीप्रसाद १५०
 —की परिक्रमा मिश्र, प्रकाशनारायण रामप्रसाद भा १
 ०६१, भा २ ११५ भा ३ १२२
 —की बाले शर्मा परमात्मा रामा प्र १५०
 —की सच्ची कहानी मूढ, पेट्रिक नेदानल ३००
 —पर विजय रामकृष्ण वेणीपुरी २ भा वेणीपुरी २०० (प्र)
 पृथ्वीराज रासठ सुन्द, पद्मनाभप्रसाद सया कृष्ण सुन्द, जिन
 पृथ्वीराजरावो त्रिवेदी, विपिनबिहारी पालक प्र १०००
 पृथ्वीराजरावो मोहनसिंह, तथा ४ भा सा सत्पान,
 राज १००० (प्र), भा १ प्रभा
 —की विवेचना मोहनलाल दासनी तथा सा सत्पान
 राज १५००
 —पद्मावती समय गौड विश्वनाथ टीका सा नि का
 १७५
 पेट्रेन्ट प्रेक्षाद्वर द्विवेदी, रामनाथ चौधवा ८००
 पेंतरे जर्नेनाथ 'भरक' नीलाम ४००
 पीटीज बाइड धर्मवी, काक्य देहाती ४५०
 पीतियो तथा प्राधुनिक धोमप्रकाश, कविराज पोलियो धात्रम
 भागवर्त, नई दिल्ली
 पीप महात्म्य धर्म, जगन्नाथ देहाती १५०
 पीपटी भा सा सदन ३००
 प्यार कर मुझे मनुज सुवत गणेशकर 'बपु' हि सा परि,
 पी १००
 प्यारी प्यारी कहानिया धर्मपाल दासनी धर्म बृक २००
 प्यास नाथरे, एल डी ? विश्वभारती, ना
 —धीर सोने रघुवीरधारण 'मिश्र' भा सा प्र ३००
 —की प्यास मुमेरसिंह 'दह्या' सूर्य प्र म ४००
 प्यासा निर्मेर धर्म, नरेंद्र धनुष्य ८००
 —धानी रैनो विमला धाटभारण ८००
 प्रकाश की छाया म नरेंद्रपाल सिंह सस्ता
 ४००
 प्रकीर्णका वाजपयी, नरकुलारे धनुसधान ७ १०
 प्रहति धीर प्राच्य दुवे कृष्णविहारी लक्ष्मण प्र धागार
 २००
 —के शीघ्र धनुसूक्ति के धण टील, एडविन दे आत्माराम
 ४५०
 —पर विजय रामकृष्ण वेणीपुरी २ भा वेणीपुरी १००
 (प्र)
 —मालव धीर विनाय चित्रगुप्त प्र ३००
 प्रदीपन धर्मोत्तर वाइडिन नरेंद्रनाथ देहाती ८ २५

- प्रकीर्णक ट्रांजिस्टर सच्चिदानंद रमेशचंद्र विजय देहाती ७ ५०
 प्रक्रियात्मक भूगोल के सिद्धांत सिकंदर प्रेमचंद्र श्रीरियन्टल
 पन्जि
 —भूगोल सरल अध्ययन गुप्ता, ईंदरीप्रसाद राजहंस प्र
 म १८८
 प्रगति के पथ पर अलड १००
 प्रगतिवाद मिश्र, शिवकुमार राजकमल १००
 —पूनमत्याकन हसरज 'रहवर नवयुग प्र ८००
 प्रगतिवादी भाष्य मिश्र उमेश प्रथम १५००
 प्रगत्त समाजशास्त्रीय सिद्धांत तोपर, रामबिहारीसिंह श्रीराम
 मेहरा १०००
 प्रजनन श्रीमानी पन्नातान विद्या भवन उ २५०
 प्रणय धीर परिग्रह गोयल, सीताराम भा सा सदन १७५
 प्रणय पीर व्यास कृष्णाद वेप्रास' वेप्रास (पा) १००
 प्रणव भागती:—प्रथम चौथा डाकुर, श्रीकांतनाथ, मोतीलाल
 १००
 प्रतापनारायण मिश्र जीवन धीर साहित्य सुवल, गुरेशचंद्र
 चंद्र धनुसधान १५००
 प्रताप रासो जार्जीक जीवण राज प्राच्य विद्या
 ६७५
 प्रतिनिधि देवराज (नदविद्यो देवराज) राजकमल ८००
 प्रविता (प्रेमचंद्र) एक अध्ययन चौधरी रामशेखरान हि
 सा म २००
 प्रतिनिधि एकाकीकार महेन्द्र रामचरण सा सदन, दे ६५०
 —कहानिया केसरीकुमार मोतीलाल ४००
 —कहानिया भारद्वाज, दानिलाल 'राजेन' चित्रगुप्त प्र ३००
 —रचनाए नानकसिंह भा जानपीठ
 —शोक गीत श्रीबास्तव रामानुज, सया लोकचेतना
 २००
 —सकलन कविता मराठी सोनवन्कर, दिनकर भा
 जानपीठ ४००
 —साहित्य तिया रामशरण प्रसाद तथा कला भा १६६३
 २५०, १६६४ २५०
 —हस्ताक्षर रामगोपाल परदेसी, तथा प्रगति प्र ५००
 प्रतिभा मेहलाब हरेकृष्ण हि प्रवा पु (पा) १००
 प्रतिशोध सुन्दर राजपाल ४००, (पा) २००
 प्रतिष्ठान बैरिस, एम जे प्रभात बुक १००
 प्रतीक तथा प्रतीकवाद चंद्रकला मंगल २७०
 प्रतीकवाद अणुवाल, पद्या मनीविज्ञान
 प्रतीकात्म्य धर्म, परिपूर्णानंद हि समि १०००
 प्रथम धाम माधवत धर्मनंदराज धमरावति ६००
 —धर्मोत्तर सनातन कार्वेनिच रसायन साहू, जगदीश
 मोतीलाल ५७५
 प्रदीप वृत्तधा जगन्नाथ देहाती १२५
 प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री, एक जीवनी विद्याप्रकाश
 प्रजित प्र म
 प्रबुद्ध विद्यार्थ विद्यार्थी रामप्रसाद रावो' रामप्रसाद १६५
 प्रबोधचक्रिका—बंसल जगदीशलाल मोतीलाल ३००

- प्रभाकर प्रश्न पत्र प्रयाग संगीत समिति कला प्र, इ ० ५०
 —प्रश्नोत्तर श्रीवास्तव हरिश्चन्द्र संगीत स प्र ४५०
 प्रभात के प्रभू न मिथ दुर्गाशंकर, सया नवयुग प्रयागार
 ४५०
 प्रमुख देशों की शासन प्रणालिया सरल अध्ययन रस्तोगी,
 दयाप्रताप राजहंस प्र म ४०० से ६५०
 —राजनीतिक विचारक मित्तल, नेमिशरण राजहंस प्र म
 ५०० से ७५०
 —राजनीतिक विचारक सरल अध्ययन मित्तल सी क
 राजहंस प्र म ३०० से ४५०
 —शासन प्रणालिया सर्मा बी एन कि महल १२५०
 प्रयोग पुष्पावली स ३ धवतरी १२५
 —रत्नावली पाठ्य वेदांगनाथ इशामसुंदर २००
 प्रयोगवाद और नयी कविता श्रमनाथसिंह, समकालीन प्र
 ६००
 —काव्यधारा तथोक्त नई कविता तिवारी रामशंकर चौखवा
 १२५०
 प्रयोगात्मक मनोविज्ञान रावत, डी एस सद्यो स २
 विनोद ५००
 —वनस्पति विज्ञान विमल शांति डी राजहंस प्र म ५००
 प्रवचना गुरुदत्त हिंद पा (पा) २००
 प्रवीण प्रश्नोत्तर प्रकाशनारायण कला प्र, इ ४००
 प्रवशिका ग्रन्थशास्त्र देवेन्द्रप्रसाद सिंह भा भवन ६००
 —इतिहास मुनेश्वरप्रसाद भा भवन भा १ ३००, भा
 २ ३४५० (प्र)
 —नागरिक शास्त्र राय हरिहरप्रसाद भा भवन ६००
 —नागरिक शास्त्र तथा ग्रन्थशास्त्र अखिलेश्वरप्रसाद
 भा भवन भा १ ३००, भा २ ३३५० (प्र)
 —प्रायोगिक रसायन साहू, जगदीश मोतीलाल १५०
 —भूगोल सुरेशप्रसाद भा भवन ५५०
 —रसायन ठाकुर बसुदलाल भा भवन भा १
 ४०० भा २ ३००
 —रसायन साहू, जगदीश मोतीलाल ५५०
 —शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य चौधरी, मोतीलाल
 भा भवन भा १ शरीर विज्ञान ५२५, भा २
 स्वास्थ्य विज्ञान ५००
 —संस्कृत व्याकरण चौधरी, सत्यनारायण भा भवन ४५०
 —समाज अध्ययन मुनेश्वरप्रसाद भा भवन भा १ ३००,
 भा २ ३५० भा ३ ४००
 —सामान्य विज्ञान सर्मा, चंद्रशंकर भा भवन भा
 १ ३०५, भा २ ३५०, भा ३ २५०, मूल्य ७५०
 प्रधान महाभाग विवेक सा केंद्र, वा ३००
 प्रतिभाषण विज्ञानयो म प्रवेशी विभाषण विधि सर्मा, मुनाताल
 विनोद ४००
 प्रश्न पत्र उत्तर श्रीभाताजी भा ४ श्रीधरविद ४००
 —श्री प्रश्न जैनेन्द्रकुमार पूर्वोदय
 —श्री प्रश्न वाशुदेवी, हरिश्चन्द्र नवयुग प्रयागार २००
 प्रसाद नाथशर, निर्मल, सया मा प्रतिष्ठान ८५०

- प्रसाद और उनकी कामायनी प्रचण्डिया, महेंद्रसागर कमल प्र
 —श्री उनकी लहर विज, पुरपोतमलाल रीगल
 —श्री उनके नाटक केशरीकुमार मोतीलाल २१२
 —श्री ध्रुवस्वामिनी माधुर सुरेंद्र हरिनामकता ०५०
 —का स्कन्दगुप्त, विवेचनात्मक तथा ध्यात्वात्मक अध्ययन
 विज, पुरपोतमलाल रीगल
 —की कविताए पाठ्य सुधाकर हि प्रचा पु ८००
 —की काव्य प्रतिमा मिथ, दुर्गाशंकर नवयुग प्रयागार
 ६००
 —की काव्य प्रवृत्ति कामेश्वरप्रसाद सिंह अनुसंधान
 —की दार्शनिक चेतना चतुर्वर्ती प्रथम २०००
 —की नाट्य कला पाठ्य रामखिलाचन अनुसंधान १२५०
 —के नाटको का शास्त्रीय अध्ययन शर्मा, जगन्नाथप्रसाद
 नद ब्र ८२५
 —के नारी चरित्र ठाकुर, देवेश नवयुग प्र २०००
 प्रसार व सामुदायिक विकास चौहान, भारमाराम
 विद्या म, हो
 प्रभुतिविज्ञान द्विवेदी रामनाथ चौखवा १०००
 प्रभूत पथ माधवन, ध्यानदाकर धर्मरावति ४००
 प्रसव वेदना माधवन, ध्यानदाकर धर्मरावति १५००
 प्राक काबनिक रसायन साहू, जगदीश मोतीलाल ३००
 प्राकृत और अपभ्रंश का डिगल साहित्य पर प्रभात सर्मा,
 गोवर्द्धन अनुसंधान १६००
 —श्री अपभ्रंश साहित्य तथा उनका हिंदी साहित्य पर
 प्रभात तोमर, रामसिंह प्रयाग विश्व
 —पैगन्य व्यास २ भा मोतीलाल ३१००
 —मार्गवेदिका दोगी वचरदास मातीलाल
 प्राकृतिक चिकित्सा कयो श्री कंस शंकरानंद, स्वामी
 भाग्योदय ३००
 —चिकित्सा विज्ञान अपभ्रंश १००
 —चिकित्सा सागर चौधरी, युगचिकित्सा वस्थापनल १५०
 —उपर राधाबल्लभ धवतरी ०३०
 —भूवृत्त संचित्तवरी, रोलिन डी लक्ष्मी भा ३०००
 प्राणन दूत भवरीगत सया हरिमोहन मालवीय प्राणन हि
 सा सम्मे
 प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत (प्राथम से १५३६ तक)
 त्यागी महावीरसिंह रात्रीव, मे ८५०
 —कवि वेदावदास चंद्रशंकर, ए, मया लोकार्थारी ६००
 —कवियों की कवि-विराट नट्य, अणुवचन भा विद्या स
 ५००
 —प्रतिनिधि कवि और उनकी काव्य जोषी, जीवनप्रकाश
 नवयुग प्र ३५०
 —ब्रह्मज्ञान मज्जनमास दोगिन, रामसेही देहरी गुटका
 साइज ६५०
 —भारत का इतिहास गिन्हा, विधेश्वरीप्रसाद
 शारा १२५०
 —भारत का भौगोलिक स्वर्ण अक्षरपी, अक्षयविहागे
 मोतीलाल १०००

- प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पाठ्य विषयनमत्र सट्टल बुक १२५०
- भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पुरातन प्रस्तुतकाल स सं १२०० तक लूनीया, बनवारीलाल मानकचंद
- भारत की दृष्टीनि वागची, ज ए मोतीलाल १०००
- भारत (प्रारंभ से १२०६ तक) त्यागी महावीरसिंह राजीव, मे १००
- भारत में जननत्र युक्त देशीदरा हि समि ५५०
- भारत म नगर तथा नगर-जीवन राय उदयनारायण 'उदय हिंदु एकेडमी २२००
- भारत म राजशास्त्र प्रणता पाठ्य श्यामलाल हि समि १०००
- भारत मे राज्य और ग्याय फाविका त्रिपाठी हरीहरनाथ मोतीलाल १०००
- भारत म लक्ष्मी प्रदिमा एक अध्ययन रायगोविंदचंद्र हि प्रचा पु ७००
- भारत सरल अध्ययन गुप्ता एत सी राजहंस प्र म ५००
- भारतीय ग्रनमोल रत्न शर्मा, मुमन गगहरा प्र
- भारतीय ग्राय राजवस शर्मा सुमन गगहरा प्र ११००
- भारतीय ब्रह्मराज्य शर्मा, मुमन गगहरा प्र
- भारतीय लोकप्रम अध्ययन, वानुदेववरण ज्ञानोदय ट्रस्ट, अहमदाबाद
- भारतीय विद्या मुवर्जी राधाकुमुद मोतीलाल
- भारतीय संस्कृति लूनीया, बनवारीलाल नयूराम लक्ष्मी ना १२००
- भारतीय साहित्य इतिहास मित्र विटर मोतीलाल १२००
- भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका उपाध्याय रामजी देवभारती प्र एव मोक्षभारती ३२५०
- भारती कांगेज लान तुलपुने, ग म मोतीलाल ५०००
- राजस्थानी काव्य सीरम गह्वान, महावीरसिंह कि घर, जा २००
- राजस्थानी गीत शर्मा, चिरीधारीलाल भा १२ भा सत्यान राज ३५० (प्र)
- राजस्थानी गीत मोहनसिंह सपा भा ३, ४, ७, ८ सा सत्यान राज भा ३ २१० भा ४ २७५, भा ७ २७५, भा ८ २७५
- राजस्थानी गीत दवडा, लनुमलसिंह सपा भा ५ सा सत्यान राज २७५
- राजस्थानी गीत शर्मा गोवर्द्धन सपा भा ६, ६ सा सत्यान, राज भा ६ २७५, भा ६ २७५
- राजस्थानी गीत मोहनसिंह भा १०-१२ सा सत्यान, राज २७५ (प्र)
- सम्बन्ध साहित्य का इतिहास संक्षेपमूलर कि महल प्राच्य ग्रम मीर गादनाथ विचार राधाकृष्णन, सविन्ली रायगाल

- प्राणतत्व विष्णुतीर्थ, स्वामी विज्ञान म १००
- प्राण दे गये, नाम कर गये व्यथितहृदय भा सा म १५०
- प्राणी विज्ञान वीथिका साल एम वी केद्रीय हि ९००
- शास्त्र विमल, शांति, डी राजहंस प्र म ३७१
- शास्त्र सरल अध्ययन विमल, शांति डी राजहंस प्र म ४५०
- प्राणस पुष्पाजलि शर्मा तथासाल 'प्राणेश शारदा देवी शर्मा, किरोजाबाद, कि आगरा
- प्राणो की बाजी कातिमोहन, प्रनु हिंद वा (पा) १००
- प्राथमिक चिकित्सा एव जन प्रतिरक्षा घोर, कवल राजधानी २००
- सहायता मिथ रामाशकर आत्माराम २५०
- सहायता और गृह परिचया चौधरी शांतिबाला भा भवन ३००
- प्राथमिकी सिनहा, बदरीनारायण श्रीगणपत १०००
- प्रार्थना पद्धति तुकडोजो महाराज श्रीगुरुदेव ०५०
- प्रयोगिक जनु विज्ञान विमल, शांति डी राजहंस प्र म ४५०
- जीव विज्ञान बनर्जी भा भवन भा १ ४००, भा २
- डैरी रसायन शास्त्र तथा पशु पोषण अध्ययन मिघल
- भूगोल के मूल तत्व शर्मा, के एन जबलपुर प्र म १५०
- भौतिक विज्ञान जैन, डी सी जबलपुर प्र म ५५०
- संक्षिप्त स ३५०
- भौतिक विज्ञान शर्मा, गुरुदत्त सगो स २ राजहंस प्र म ३७५ से ४५०
- भौतिकी सुदर्शनप्रसाद सिंह भा भवन ६००, ७००
- रसायन तिव री, जे एस जबलपुर प्र म ३५०
- रसायन दुवे कल्याणमल ११०
- रसायन शर्मा, चंद्रशेखर भा भवन २५०
- रसायन शास्त्र खन्ना जयकृष्ण राजहंस प्र म २५०
- रसायन शास्त्र चक्रवर्ती, पी वी जबलपुर प्र म १ २५
- रसायन शास्त्र मुवर्जी, एम एन सगो स ३ राजहंस प्र म १२५
- रसायन शास्त्र सरल अध्ययन खन्ना, जयकृष्ण राजहंस प्र म १५०
- प्रारंभ चक्रवर्ती जगदीश, सपा भा या प्र, दि ८००
- प्रारंभिक अध्ययन मल्लिकार्जुनप्रसाद भा भवन २२५
- अध्ययन सक्सेना, सुरेशचंद्र कि महल ३५०
- उद्दिष्ट शास्त्र ठाकुर, बलवत्सिंह चोतला ४५०
- बलनशास्त्र चौधरी, रामोदर भा भवन ३००
- ग्रामीण समाजशास्त्र सोमर, रामविहारीसिंह श्रीराम मेहरा ७५०
- ज्यामिति शमा वंछनाथ शर्मा प्र
- ठीस ज्यामिति चंद्रशेखरप्रसाद भा भवन २००
- नागरिक शास्त्र राय, हरिहरप्रसाद भा भवन ३५०
- नियामक ज्यामिति चंद्रशेखरप्रसाद भा भवन भा १ ३००, भा २. १५०

प्रारम्भिक प्रायोगिक भौतिकी कौशिक एच के बाल सा म

- भूगोल वर्मा सुमन चौधवा १ १०
- भौतिकी संत्री, निहालकरन चौलवा ५ ५०
- मनोविज्ञान मोहसिन एस एम लोकभारती ५ ००
- मनोविज्ञान सक्केना के के रामहृष प्र म ३ ७५
- रसायन गौड ज एन कल्याणमल ४ ००
- शरीर विज्ञान चौधरी गोलोकविहारी भा भवन ३ ६५
- समाज दर्शन वर्मा शशोककुमार मोतीलाल ४ ००
- स्वास्थ्य गुप्त गोरीशकर स ४ श्यामसुन्दर ० ३७
- स्वास्थ्य विज्ञान चौधरी गोलोकविहारी भा पवन ३ ००

प्रि० शिवशालकराम और उनका गद्य सौरभ सदानदत्तहि कमल प्र १ २५

प्रियदर्शी मिश्र, आनंद कैलास पु स प्रिय प्रकाश (केसवदास) भगवानदीन लाला सपा कल्याणदास

- प्रवास की टीका गौतम, लक्ष्मणदत्त शशोक प्र ५ ००
- मिलन भा, नदविशोर देवबधु ४ ००
- प्रीति का पुरस्कार अजनबन कमल प्र १ ००
- प्रेम और प्रकाश धात्रीजीद सस्ता ० ००
- श्रीर हत्या के रहस्यमय मुकदमे पंडित प्रकाश सपा हिंदू पा (पा) १ ००
- बया मेरी मागरेट प्रभात बुक २ ००
- की विजय साहू आर पी प्रभात बुक १ ५०
- प्रेमचंद और उनकी रसभूमि गुप्त शार्ङ्गसिंहकर रीयल
- एक विवेचन सिन्हा सुरेश रीयल
- कलम का निभाही धर्मनाराय सजना २ ०००
- कहानीकार घानद सुरेंद्र घानद प्र १ ०००
- का नारी चित्रण गीतालाल हि सा स २ ५ ००
- की श्रेष्ठ कहानिया मदान इन्द्रनाथ हिंदू पा (पा) १ ००

- के पुरुषनाथ घानद सुरेंद्र आनंद प्र १ ५ ००
- के साहित्य सिद्धांत कोहली, नरेंद्र प्रयोक्त प्र १ ० ००
- स्मृति धर्मनाराय सपा मर्जना ६ ००

प्रम चुनरिया बट्टरंगी तथा अन्य कहानियां पवित्र, रजनी कल्याणमल ० ५०

- दान साहू आर पी २ भा प्रभात बुक १ ०० (प्र)
- पथ पाडेय, हृदयनारायण हृदयेण हृदय म ० ५०
- पनावली मदन आचाय श्री मुन्ता १ ५०
- पवन तुपनेव सस्ता ० ००
- माधुरी और स्पुन्ड कविताएं भारलेंडु हरिदत्त हि सा स

- पना बारहठ करणीदान बारहठ प्र ६ ००
- पना पाडेय हृदयनारायण 'हृदयेण' म ० हृदय म १ ६२

- प्रेमाजनि तुनगी वनदीन आत्माराम २ ५०
- प्रेमिका रंथर किना शत्रुपान ५ ००
- प्रश्न प्रणय दर्मा, रामकृष्ण धार्य बुन १ ५०

प्रोफेसॉर होम इस्टडीज दुवे गुरदाचंद्र देहाती ८ २५
 प्रोड मनोरमा सतीक सीताराम मोतीलाल ३० ००
 —रत्ननाथुनाद कौमुदी द्विवेदी, कविलदेव विश्वविद्यालय १० ००

—शिक्षा के नए माध्यम नरेंद्रकुमार आशा पब्लि ४ ००
 —शिक्षा विधि और सामग्री शर्मा प्रविद्धनारायण दि पु स ४ ००

—शिक्षा हस्तामलक स्याल, बी एन पु स, या १ २५
 प्लास्टर कास्टिंग बला कालीचरण देहाती २ ५०
 प्लोहा के रोग और उनकी चिकित्सा चंद्रबशी, ब्रह्मानंद चौलवा ० ३५

प्लेटो के काव्य सिद्धांत जैन, निर्मला नेशनल ६ ००
 फडा मेण्टल्स ऑफ पोलिटिकल साइंस एण्ड इकोनामी गुलमुख निहालसिंह कि महल १८ ००
 फणीश्वरनाथ रेणु श्रेष्ठ कहानिया यादव राजेंद्र, सपा राजपस २ ५०

फरार की डायरी दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह नाथ' नव सा म ३ ५०

फनीचर डिजाइन बुक रत्नप्रकाश छोल् देहाती १२ ००
 फस्ट एंड तथा नागरिक सुरक्षा शर्मा, लक्ष्मोनायण हिंदू पा १ ००

फल संरक्षण विज्ञान गुप्त, युगलक्ष्मीशोर चौलवा १ ००
 फनी की काव्य भवानीदास, देहाती ८ २५
 फनल जलिया वाले बाग की राष्ट्रबन्धु नर्सरी २ ००
 फासी के लक्ष्मे से धर्मनाराय, धनु सजना ३ ००
 फागुन के दिन चार सर्पा, पाडेय वेचन 'उष' हिंदू पा (पा) १ ००

फाल्गुन माहात्म्य दर्मा, जगन्नाथ देहाती १ ५०
 फिटर मैकेनिक वर्मा, श्रीराम देहाती ८ २५
 फिटिंग पाप परिचय वर्मा श्रीराम देहाती १२ ००
 फिर से बहो गगाधर, मधुकर पारिजात
 फिराक की नायरी पंडित, प्रकाश, सपा हिंदू पा (पा) १ ००

फिल्म एक्सिज गाइड गुप्त, श्रीकृष्ण देहाती ४ ५०
 फिल्म फोटोग्राफी गुप्त श्रीकृष्ण देहाता ८ २५
 —मेफमन गाइड गुप्त, श्रीकृष्ण देहाती ८ २५

—गुलभडिया हृदयचंद्र हिंदू पा (पा) १ ००
 पुनभडिया जैन मिथीमल तरनिन मोहन प्र २ ७५
 फुनभडी धर्मोक्त सगना

फुनवारि चतुर्वेदी, मुंदरान 'परलेंग'. लोकराज १ ००
 फुनवारि चिकी चंद्रभूषण 'रमई बाना' गाजेत १ २५
 फून नही रग बोचन हैं प्रथवान, केशरनाथ परिमल ६ ५०
 फूनपती हलिाकर हि गिपक भा १ ० ५०, भा २ ० ६०, भा ३ ० ७५

फूनी की सुतप, बागों की बुधन राधरवान, बननजता परिमल ८ ००

फुंफुलीर पेट्ट पट्टमा ० ५०
 फुंफुली नायरी पंडित, प्रकाश, सपा हिंदू पा (पा) १ ००

क्रेक साहित्य का इतिहास सान्याल, भूपेंद्रनाथ हिं. सनि
७.००

बद करो बहनाई शिवकुमार 'शिव' शिव-सा. स. १५०

बंदी. कल्याणसिंह, कुवर साकेत. १५०

बपन. डे, सतीश देहाती. १५०

बघन के सेतु भा, दिनेशचंद्र 'प्रवासी'. परिमल. ३००

बसरी. ठाकुर, रवींद्रनाथ राज सा. अका. १५०

बसी की धुन. मृगो, कन्हैयालाल माथिकचंद. राजकमल
७.००

बक रहा हूँ जुगनू में पड़ित, प्रकाश (ओमप्रकाश पड़ित)
भा. भानुपीठ. ३००

बच्चन : एक मुगलत गोपालदास नीरज*** पंजाबी पु ४००

—: व्यक्ति और कवि. मटनागर, बाकेबिहारी सपा नेशनल
५.००

बच्चे और उनका मनोविज्ञान. अखंड १००

—सदगुणी कैसे बनें? अखंड ४००

बच्चों की कुछ समस्याएँ धीमाली, बालूला स ३ विद्या
भवन उ ३.२५

—की शिक्षा दीक्षा. अखंड १.००

—के नाटक कपूर, मस्तराम 'समिल'. नेशनल २५०

—के लघु निबंध हि शिक्षक. १.००

—के सरल निबंध. हि शिक्षक. १५०

—को कैसे सुषारा जाय? अखंड. १००

बज्जुर है छाती किसान की. जैन, श्रीचंद्र आत्माराम ३००

बच्चमूर्तिवर्णनचंद्र. अश्वघोष, आचार्य. महावीरि ०५०

बदक बहादुर. शर्मा, रामकृष्ण आर्य बुक २००

बहवानल. बारहठ, करणीदान बारहठ प्र. १५०

बहा भक्ति सागर. मोहनलाल देहाती ५००

—योगसन. सरयकाम दासनी. देहाती. ४००

बहों का बचपन गिरिजादयाल 'गिरिश'. नवयुग प्रकाश
०७५

—की बड़ी बातें. अखंड १.००

बहते चरण. माटिया, धीमप्रकाश 'अचल' राजपुत प्रिनल प्र
म. २.००

बहो वीर हिमालय पर. व्यास, कृष्णानंद 'बिप्रास' बेप्रास
१.००

बतिया गुन हैं. भा. दिनेशचंद्र 'प्रवासी' परिमल २५०

बख्ती रक्षाए. शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश'. राज प्र, ज. २५०

बनते-बिपश्ये सदर्थ. वर्मा, निहालचंद्र हि प्रचा. पु ८००

बन लो हीरे पुष्प, हरिकृष्णदास 'हरि' मुद्र. १.००

बनी मान मनमोल. गुल, हरिकृष्णदास 'हरि'. सूदर. २.००

बपार एक हल्की सी. राजेंद्र मिलन, सपा. समानांतर १००

बरदद भी छाक. सत्यमेव सतिप्रिय दि. पु. स. ३१०

—की छाह शीरसागर. विन्व-भारती प्र

—की बेटी उपेंद्रनाथ 'प्रसन्न'. नीलाभ ४००

बरनशाल काव्य-संग्रह. वरनवाल, लदीप्रसाद. एम एन. बुक.
०.५०

बपेंद्र धूवते सो है. जोशी, हिमायु भा. सा. मं. ५.००

बरठन. जोशी, इलाबद. पु. स., वा. २.००

बयं कड़ोल (परिवार नियोजन). दीक्षित, राजेश. देहाती.
५.००

बर्फ बनी अगारे इन्द्रजीतसिंह 'तुलसी'. आर्टस. ६.००

बवंरक विजेता धूमकेतु (गोरीशंकर गोबर्द्धन जोशी) वीरा.
६००

बलबद्धक व्यायाम. अखंड १.००

बलिवान अर्जुन कुमार सज ३००

बलिवान भगवानदेव, आचार्य हरयाणा १२.००

बलिदानाकाप्रवेश द्विवेदी, राजकुमार. चौखवा ०.५०

बहुता सागर प्रकाश भारती भा सा सदन. ३२५

बहुती नरिया, जमते किनारे बहुते, रवींद्रनाथ 'भ्रताल'. मंजु.
३५०

—नदिया रोती गरीब कौशल, सतोप नथीना प्र.
बहुत्तिया आदिल रतीद स्टार (पा.) २००

बहादुर नाथिक बाके अहाज स्टार. १.००

बहार अब आती है राय, मुनीन. भारतेन्दु भवन. २.५०

बहिरंग योग योग नि १०००

बहिरु बाघन बाका द्विवेदी, बद्रभूषण 'रमई कार्क'. साकेत.
१२५

बहुत हैं, एक स्वतंत्र गीत प्रयोग पाठक, राजकुमार. लता प्र., प.
बहु के चरण पाडेय, शंकरदयाल नवयुग प्रकाश. ३.००

बात का पुल सवेनेना, सर्वेश्वरदयाल. समवाय
भा और वापू चंद्रप्रकाश सिंह. साकेत १.५०

बाणमट्ट की आत्मकथा एक अध्ययन मटनागर, राजेंद्र-
मोहन. विनोद. ३५०

बात कुछ कहनी द्विवेदी, रामेश्वरप्रसाद 'रामेश्वर' ज्योत्सना
प्र ५००

बाता रो भूमलो शर्मा, मनोहर २ भा. राज सा सनि.
बादलो के बीच गोबर्द्धन सिंह 'बहुती'. नम्यर प्र. १७५

बापू सिन्हा, सुरेश उषा २००

—राष्ट्रीय जयो. रतीराम शास्त्री देहाती. १.१०

बापू कुंभर सिंह दुर्गांतरप्रसाद सिंह 'नाथ'. नव सा. म.
३५०

बारह घंटे. परापास विन्व ३५०

—घंटे. अशपाल. हिंद पा (पा) १.००

—मास माहात्म्य शर्मा, जगन्नाथ देहाती १५.००

—मासा वर्मा, गजानन. वि. घर, जो. ४००

—माह के त्योहार. रामकृष्ण दास रतिक देहाती ५.५०

बाहुरूप्य राज्य व्यवस्था बाजपेयी, रामचंद्र. चौखवा
बावन पत्ते. कृष्णचंद्र. स्टार. (पा) २००

—परिमो का नाच. बाजपेयी, हरनामप्रसाद प्रवीर. ५.००

बालक : घर और स्कूल के बाहर. श्रीवास्तव, के एन. विद्या
भवन, उ. ४५०

—बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक समस्याएँ द्वारकाप्रसाद.
नेशनल ३.००

बालकांड—रामचरित्रमानस रामचंद्र शास्त्री. मोतीवाल. ३.००

बालकों का नव निर्माण. अखंड. १.००

- बालकों को इन दुर्गुणों से बचाए प्रकाश १००
- को इस तरह सुधारिए प्रकाश १००
- बालगीत साहित्य निरकार देव 'सेवक' कि महल
- बालचंद्र बत्तीसी बालचंद्र मुनि हि सा सम्भे
- बालचर पद्मबन्धो वाचान मनु ०५०
- बाल तेरह एकान्ती हनुमान दास 'चकोर' नवदुग्ध प्रयागर १५०
- नाटक ग्रन्थ शमा, एस के सा नि, ब
- नीति शिक्षा साह भार पी प्रभात बुक भा १ १००, भा २ १२५
- पंचरात्र उपाध्याय, वाचकृष्ण प्रथमाभा २००
- बालवाणी दुव जुनराम भ भा सर्व २००
- बालभारती बल्लभ, सतराम भा २ रामप्रसाद ०७५
- बाल महाभारत मुद्ररिण चारा २५०
- मुकुंद गुप्त एक मूल्यांकन लोडा, कल्याणमल बाबू
- बालमुकुंद गुप्त शतवाचिको समारोह समिति कलकत्ता
- वितरक प्रतिताम क २०००
- रामायण सूदर्शन चोख २००
- विवात की समस्याए प्रकाश १००
- वीरों के खेल मिश्र शिवकुमार प्रभात पब्लि १२५
- संसार भूगोल संपिप्त १२५, संपूण ३००
- सामान्य विज्ञान रॉबर्टप्रसाद भा १ रामप्रसाद ०५५
- बाली कथ शर्मा, जगदीश देहाती १२५
- बासंतो गिरिजाशक्त 'गिरीश' सा मडल
- बाह्य भतरिक्ष म उपग्रह एसीमाव धामाराम ४००
- बिदिया भीर लकीरें धरत भारमाराम ३००
- बिखरत साय जयनाथ 'नलिन नेशनल ६००
- बिखरे चित्र गुप्तत सा प्रतिष्ठान ३५०
- बिगुल बर उठा पुरोहित, ज्वरनाथ 'प्रथम चिन्मय ०७५
- बिना बीवारो के घर भडारी, मन्नु भार ३००
- पैसे दुनिया पैरल सफर सतीगजुमार स २ प्र भा सर्व
- पैसे दुनिया का पैरल सफर सफर सतीगजुमार हिंद पा (पा) २००
- बिनीला उद्योग कौमिल धाप साइसटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसेच कौमिल ६००
- बिनीले का वैज्ञानिक उपयोग कौमिल धाप साइसटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसेच कौमिल ०५०
- बिनापी जी बिना की नजर म गुप्त, रामचंद्र 'बिनापी ७००
- बिस्ली बोली स्मार्क हरोय 'मधुसू' भाग्योदय १००
- बिष के दान शर्मा, नज्जिनविवाचन मोनीलाल २००
- बिस्मिल भी बहक रघुपन्नाल 'मधुसू' मनोरमा २०
- बिहार भीर उद्योगा कौभारोनिष सोमारणीय रैचड तथा नियमावली पृष्ठा ३५०
- भीर उद्योगा का भारोरेटिष सोमारणीय नियमावली पृष्ठा २००

- बिहार का शेर रघुपन्नाल 'मधुसू' मनोरमा
- ग्राम-पंचायत के मुक्तिदा श्रीवास्तव, श्रीनाथप्रसाद सरो स पृष्ठा
- जुनर तथा प्रतिष्ठान सचिनिमम पृष्ठा ३००
- पंचायत दर विधान श्रीवास्तव, श्रीनाथप्रसाद पृष्ठा ३००
- पंचायत निर्वाचन नियमावली, १९५६ पृष्ठा १५०
- श्री-मूर्तीवाचिकी धर्मशास्त्र की रूपरेखा (सिद्धांत) गां, धानन्दस्वरूप राजहंस प्र म ५००
- श्री-मूर्तीवाचिकी धर्मशास्त्र के सिद्धांत सरल अध्ययन गां, रत्नप्रकाश राजहंस प्र म ३७५
- श्रीम भवलचन कानून पृष्ठा ०५०
- श्रीम सुधार अधिनियम, १९५० श्रीरडा, पूर्णचंद्र, सपा पृष्ठा २२५
- श्रीम हृदयदी कानून १९६१ खेतोरमय, सपा पृष्ठा १७५
- मे जिला परिषद अधिनियमावली रमण पृष्ठा २००
- सर्टिफिकेट हस्तक (बिहार सर्टिफिकेट मैनुअल) १९६४ सचिवालय मुद्रपातय, बिहार, पटना
- हायर सेकेंड्री धर्मशास्त्र की रूपरेखा गां, धानन्दस्वरूप. राजहंस प्र म ५००
- बिहारी कवि भीर काव्य सिन्हा, हर्टप्रताप " रा बेनीमाधव
- की काव्य-भाषना भाटी, देवराजसिंह भगोच प्र २५०
- पंचावली सुस्त, श्रीनिवास, सपा भा विष्णुचल २००
- रोहावली मुत्तोपरसिंह देहाती ०७५
- मीमांसा त्रिपाठी, रामसागर सरो स भगोच प्र १०००
- सतसई वैज्ञानिक समीक्षा गुप्त, गणपतिचंद्र. भारतेन्दु भवन ५५०
- सतसई शार शर्मा अविवाचरण " प्रसार बुक २७५
- बो ए हिंदी रचना का सरल अध्ययन सदानसिंह कमल प्र ४००
- बीच की बड़ी पाप्य पाप्य सा ४००
- बीर धनुजराय सज्जा ६००
- भीर धनु माहवरवी सिंह 'महेस' महेस प्र २२५
- बीरक मूल सपा महाराज राधकाम बबीर बाबू बैजनाथ प्रसाद, रामदरवाबा, बारास ७००
- बीरपणित चंद्रचरणप्रसाद भा भवन ५५०
- सरल अध्ययन मुला, पूरनमल राजहंस प्र म. १५०
- बीठी बाटें बलिदेवभारतीयसिंह 'सुहृद'. बि स कु १५००
- बीनस रस भीर हिंदी साहित्य भारी, कृष्णदेव मूल प्र २०००
- बीरबल जिदा है श्रीवास्तव, जी पी हिंद पा (पा) १००
- बीरभदेव राम, एक गवेषणा श्रीदाराम धारपी हिंदु एकेडेमी ०००
- बीमकी उद्योगी की क्षीरपिना वर्मा, मुकुन्दस्वरूप चौधरी ८००

द्वैतयोः शास्त्रादीं मे प्रमरीकी शिक्षा. कॅडेल, भाई एच
गणं प्र ३१०

श्रीस बुधशे के बाद. चौहान, मनहर उमेश ३५०
बूदेली फाग साहित्य. व्यास, कृष्णानंद 'बेभ्रास'. भा १. बेभ्रास
३.००

बुक-कोषिक के प्राथुनिक सिद्धांत. हि. प्रजा पु २.७५

—कीर्तिनः सरल ग्रन्थयन. विजयपालसिंह. राजहंस प्र म
६७५

बुद्ध और बुद्ध धर्म. त्रिपाठी, चन्द्रवली महाबोधि ०७५

—श्रीर बौद्ध धर्म चतुरसेन, प्राचार्य. भा प्र, ल, ५५०

—कालीन भारत का भौगोलिक परिचय धर्मरक्षित, मिश्र
महाबोधि. ०.५०

—की देव महास्वविर, भदक डी. शासन महाबोधि २००

—कीर्तन चौहान, प्रेमसिंह. महाबोधि. १.२०

—गया शीलाचार, मिश्र महाबोधि ०७५

—चरितावली. मामबिका, विशावती महाबोधि ०७५

—पास्तावली. रामचंद्रलाल. महाबोधि. १.००

बुद्धधर्म्या राहुल साहूपायन. महाबोधि १.००

बुद्ध जीवनी वेदराजप्रसाद महाबोधि ०७५

बुद्धत्व की श्रौर शायब, बसतेकुमार महाबोधि ६.००

बुद्ध वचन. कौसल्यायन, भवत भानुद महाबोधि ०७५

—वचनानुसृत. महास्वविर, भदक डी. शासन. महाबोधि.
१२५

बुद्धार्चन चौहान, प्रेमसिंह महाबोधि ०२५

बुद्धि विवास बखतराम साहू राज. प्राच्य विद्या ३७५

बुधुमा की बेटी रामा, पाडेय वेचन 'उग्र' हिंदू पा (पा)
१००

बुनिपादी धाला प्रमितेस. पारासर. रामकृष्ण. समग्र नई १००

—गाला संगठन पारासर, रामकृष्ण समग्र नई ०५०

—गाला संगठन श्रीर शिक्षण व्यवस्था. पारासर, रामकृष्ण.
समग्र नई. १००

—शिक्षण मूलोद्योग. तनवीवाले, सुशीलाबाई " जवलपुर
प्र ग. २.२५

—शिक्षण सामान्य विज्ञान शीवस्तव, एस पी जवलपुर प्र
ग. ३.००

—गाला श्रीर जीवन समान व्यवस्था. दुबे, मित्तापचंद्र. स.२
राष्ट्रीय सौषणिक.

—गाला की विविष्ट पद्धतिया. भवर्षी, सरला जवलपुर
प्र. ग. २७५

—गाला की सामान्य पद्धतिया. भवर्षी, सरला जवलपुर प्र
ग. २.७५

—गाला मनोविज्ञान. मन्वेया, विशावती जवलपुर प्र. ग.
२.७५

—गालाया संगठन द्विवेदी, उमाकाकर. जवलपुर प्र ग.
२७५

—गाला सिद्धांत. तिवारी, जगन्नाथप्रसाद जवलपुर प्र. ग.
२७५

—गाला सिद्धांत. राव, सूर्यनारायण कल्याणमल. ३००

बृहत् आर्थिक विज्ञापण विजयेंद्रपाल सिंह. नवयुग सा. स.,
भा. १४००

बृहत्कथा अश्रवाल, नीलम, सभा कि. महल १२५०

बृहत् साहित्यिक निबन्ध त्रिपाठी, रामसागर... भ्रमरीक
प्र १२५०

—हिंदी-मराठी शब्दकोष नेने, गोपाल परशुराम...
महाराष्ट्र राष्ट्र २०००

बृहद् द्विवेदी प्रथ-सूची महाजन, मद्यपाल... भा. प्र नि ३६.००

ब्रह्मास की फागें व्यास, कृष्णानंद 'बेभ्रास' १० मा. बेभ्रास
(प्र) १००

—बोल व्यास, कृष्णानंद 'बेभ्रास' बेभ्रास १.००

बेईमानी की परत तथा अन्य निबन्ध परसाई, हरिश्चक्र
पुनिसंवल बुक ३२५

बेकार कुछ नहीं राय, भ्रमरनाथ सरला ०७५

बेटा हिंदू का लक्ष्मण मे दुबे, रामजगार साकेत. ३.००

बेटिया ही तो ऐसी रामवृक्ष बेनीपुरी बेनीपुरी १.००

बेटे ही तो ऐसे रामवृक्ष बेनीपुरी बेनीपुरी १.००

बेनदेतो कोबे फोबे, बेनदेतो विन्मय ५००

बेनीपुरी बाल प्र थावली रामवृक्ष बेनीपुरी. भा १. बेनीपुरी.
१५००

बेरोजगारी के सिद्धांत हजेला, पी डी गर्ग प्र. २००

बेला त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' जवलपुर प्र ग. ५.००

—सुख की कार्तिकेय, महेंद्र चितरजन प्र.

बैकिंग शिवा क्यों श्रीर कैसे? श्रीवास्तव, धनेश्वरनाथ पु.
स, वा १.५०

बैकिंग के सिद्धांत तथा भारतीय बैंक व्यवस्था अखिलेश्वर-
प्रसाद, भा भवन ५००

—विधि एव व्यवहार रामा, हरिश्चक्र. सा भवन, भा.

बैचवर्क एंड डाई फिटर भगनतराय देहाती ८२५

बैरग वेगम पिट्टिया. मिश्र रामदास ग्राम्या प्र. २५०

बोधिचर्यावतार शाति मिश्र शास्त्री महाबोधि. १.०००

बोधिपथ प्रदीपम् रिगजिन लुनडुबलामा महाबोधि ०.५०

बोधितत्व प्राणव चपु रूपकमल २००

बोलती कहानिया भावे, विनोबा. प्र. भा. सर्व १५०

—ततवीरें साहू, रेमी पोल प्रभात बुक २.२५

बोझू सुनीता बमलवीर प्र २००

बोछार बिदेदी, चंद्रभूषण 'रमई काका' साकेत. १.२५

बोद्ध चर्चा विधि धर्मरक्षित, मिश्र. महाबोधि ०.५६

—दंगन मीमासा उषाध्याय, बलदेव. महाबोधि ६.००

—धर्म के मूल सिद्धांत धर्मरक्षित, मिश्र महाबोधि. ०७५

—धर्म के विकास का इतिहास पाडे, गोविंदचंद्र. हि समि.
१२००

—धर्म दर्शन तथा साहित्य धर्मरक्षित, मिश्र. नूद. य. ६५०

—धर्म ही मानव धर्म धर्मरक्षित, मिश्र, सभा. महाबोधि.
१००

—विज्ञानवाद अथवा बौद्ध दर्शन तथा उसका विवास. राजू,
पी टी मोतीलाल १५०

—बिभ्रतिमा धर्मरक्षित, मिश्र. महाबोधि. १.००

बौद्ध संस्कार पद्धति धर्मरक्षित, भिक्षु महाबोधि ० ५०
 —सिद्धार्थसार दत्ताईतामा मोनीबाल ४ ००
 बौद्धिक रस मिश्र, रामप्रसाद अनिल प्र म
 अज और धदेनी लोकगीतो मे कृष्ण कथा गुप्त, साहित्यग्राम
 विनोद १२ ५०
 —का सांस्कृतिक इतिहास मोतील प्रभुदयाल राजकमल
 ३२ ००
 ब्रजभाषा एव खड़ी बोली के व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन
 शर्मा गंगादास प्र प्रतिष्ठान १० ००
 —श्री ब्रजवृत्ति साहित्य, तुलनात्मक अध्ययन तोमर,
 कणिका कामी हि १ ००
 —श्री विभूतियां शर्मा द्वंद्वनाय मोतीलाल ३ ७५
 —रीति शास्त्र धर्म श्रेया चतुर्वेदी, जवाहरलाल, सपा हि
 सा सम्मे
 अजराज-काव्य बाधुरी जवानसिंह महाराणा सा सस्यान,
 राज
 ब्रह्मचर्य के साधन मा १-१० भगवानदेव, भावायं हरयाणा
 ३ ४५
 ब्रह्मज्ञान अपूर्व मन्त्र ध्यामदेव स्वामी विज्ञान म ६ ००
 ब्रह्मविज्ञान योगेश्वरानन्द सरस्वती स्वामी योग नि १४ ००
 ब्राह्मण की बेटी चट्टोपाध्याय शरत्चन्द्र हिन्द पा (पा)
 १ ००
 —निर्णय शर्मा, छोटोसात हिंदू धर्म १५ ००
 ब्रिटिश उपनिवेशों का ऐतिहासिक भूगोल भूगोल २ ००
 अजर गीत मालवीय हरिबोहन हि सा सम्मे
 भक्तप्रभु न्यादरसिंह वैचैन देहाती १ २५
 भक्त प्रह्लाद शर्मा वैद्यनाथ शर्मा प्र
 भक्तदास चतुरदास कृत टीका सहिन राघवदास राज प्राच्य
 विद्या ६ ७५
 भक्त मोरचंज न्यादरसिंह वैचैन देहाती १ २५
 भक्तिकाल एक अध्ययन नाहर कि महल
 भक्ति काव्य के मूल और मिश्र दुर्गाशंकर नवयुग प्रयागार
 ५ ७५
 —काव्य में भावपूर्ण भाव का स्वरूप जयनाथ 'नलिन' बल्ल
 २५ ००
 —काव्य में रहस्यावाद पाठे, रामनारायण नेशनल २० ००
 भक्ति माल साह, धार पी प्रभात बुक २ ००
 भक्ति योग भलभानंद शरत्चती, स्वामी उत्साहिय
 —योग का तत्व गीता
 भगवद्गीता मूल तथा हिंदी टीका बाणदेवगरण, धनु मोनी-
 साल ६ ००
 भगवान गीतम दूद महारामविर, भदत बोधानंद महाबोधि
 १ ५०
 भगवान बुद्ध मालविकार, विज्ञानपी हि प्रचा पु ३ ५०
 —बुद्ध का संसार को संदेश एव धर्म व्याख्यान श्री प्रबचन
 विवेकानंद, स्वामी श्रीरामकृष्ण
 —श्रीकृष्ण और भगवद्गीता विवेकानंद स्वामी श्री-
 रामकृष्ण १ ७०

भगवान श्रीकृष्ण लीसाभूत मन्तरी, प्रेम धर्मजीवी ३ ५०
 भगीरथ के बेटे रत्तोगी, विनोद भात्माराय १ ००
 भग्न सोमाए रेड्डी बालजोरी राजकमल ५ ००
 भजनकज तुलकोजी महाराज श्री गुरुदेव ० ६०
 भटकता देवदास श्रीर कोई हुई पारो भानद, सुरेश धानद
 प्र ६ ००
 भटकती रास साहनी, भीष्म राजकमल ५ ००
 भटकती सहूरें और किनारा शील नवयुग प्रयागार
 ४ २५
 भटके राठी मधुर भाषिणी प्रभात प्र २ ५०
 —राही मिश्र, विरचनाय नवयुग प्र ६ ००
 भयकर लोक कथन मनु १ २५
 भवन निर्माण कता बट्टीप्रसाद भाग्योदय ३ ००
 भविष्यवाणी महतो, बालेराम नवयुग प्रयागार २ ००
 भागवृत्ति सक्कनम्, युधिष्ठिर भीमासक, सपा भा प्राच्य
 ३ ००
 भागे हुए लोग मटियाणी, सीसा कि महल ५ ००
 भाग्यहीन ओपीलाल 'इलाहाबादी' राष्ट्र प्रचा, इ ४ ००
 भाग इज्जत की कहानी नेशनल ३ ५०
 भाभिनी विलास अन्वीरित पाठेय, जनार्दनस्वरूप विरल
 विद्यालय ३ ५०
 भारत इतिहास और संस्कृति मुक्तिबोध गजानन मायव
 जबलपुर प्र म ३ ५०
 —एव विदेशी मे सहकारिता सरल अध्ययन सबसेना,
 एल सी राजहस प्र म ६ २५
 —श्रीर विरल जैन, पी धार दि पु स ७ २५
 —श्रीर सगार मणोक, बलराज भा सा सदन ५ ००
 —का धार्मिक एव वाणिज्य भूगोल बुलथेच्छ, एन एल
 रामप्रसाद ३ ००
 —का धार्मिक भूगोल भागोरिया, चतुपुत्र गयाप्रसाद १० ५०
 —का धार्मिक विकास गौड ए पी सगो स ७
 नवयुग सा स, धा १२ ५०
 —का धार्मिक विचार पाटनी धार एल सगो स २
 राजीव मे ५ ५०
 —का धार्मिक विचार बरला चैनसिंह जैन पु म
 —का धार्मिक विकास मिनन, एम पी श्रीरियन्टल पब्लि
 १२ ५०
 —का धार्मिक विचार मनसेना, एल सी सगो स ३
 नवयुग सा म, धा ७ ००
 —का इतिहास रत्तोगी, दयाप्रकाश सगो स ७
 राजहस प्र म प्रारम्भ से १२२६ तक ६ ५०, १५२६ से
 धव तक ७ ५०, प्रारम्भ से ५७०७ तक ८ ००, १७०७
 से धव तक ५ ५०
 —का इतिहास (पूर्व ऐतिहासिक काल से धव तक) रत्तोगी
 दयाप्रकाश राजहस प्र म ६ २५
 —का इतिहास सरल अध्ययन गुला, एम सी
 राजहस प्र म ३ ०० से ११ ००

- भारत का ऐतिहासिक प्रगति विकास एवं अन्य प्रबंध, विवेकानंद, स्वामी श्रीरामकृष्ण १३०
- का भूगोल - सरल अध्ययन गुप्ता, ईश्वरीप्रसाद रावहस प्र म ८००
- का भौगोलिक अध्ययन नेगी, वनवीरसिंह हि प्रचा पु १५००
- का राजनीतिक इतिहास, १७५७-१८६० रामकुमार सशो स २ हि प्रचा पु
- का राष्ट्रीय आंदोलन भानसी, चन्द्रप्रकाश रावहस प्र म ५००
- का राष्ट्रीय आंदोलन तथा सांस्कृतिक विकास मित्रा, रवीन्द्रनाथ जोशीमारसी १२००
- का राष्ट्रीय आंदोलन, सर्वमानिक विकास एवं सविधान परमात्मा सरण सशो स ३ रस्तोगी
- का राष्ट्रीय आंदोलन सरल अध्ययन काशीनाथसिंह कमल प्र ३००
- का वाणिज्य भूगोल अग्रवाल, अमरतरायण रा वेनीप्रसाद ३००
- का संपूर्ण इतिहास शर्मा गोपीनाथ शिवलाल ७००
- का सविधान परि स ३ प्र विभाग
- का सविधान राजहस प्र म ५००
- का सविधान अरोडा, पूर्णचंद्र, सभा सशो १९६३ पहला १०००
- का सविधान सरल अध्ययन वीरकेशवरप्रसादसिंह कमल प्र १५०, २२५
- का सर्वमानिक इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन सिंह, धार एन प्र केंद्र ६७५
- का सरल भूगोल अग्रवाल, एल सी मुरारी ३००
- का सरल वाणिज्य भूगोल भूगोल २५०
- का सामाजिक क्रांति उपासनाय रामजी रा वेनीनाथ ३००
- की आर्थिक समस्याएं पाटनी, धार एन सशो स २ राजीव, मे ५५०
- की चित्रकला रायकृष्णदास भा म
- की प्रतिनिधि क्रांतियां शर्मा, नलिनविद्योपन यण पु म
- की प्रमुख कमलें टडन जे एन रामप्रसाद
- की भौगोलिक समीक्षा गौड़, कृष्णप्रकाश सशो स ५ हि प्रचा पु १५००
- की महान विभूतिया अक्षय १००
- की विदेशी धारण व्यवस्था वर्मा, फूलेदेवमहाय केंद्रीय हि ५८५
- की विदेशी नीति शर्मा, श्रीराम चि घर, म्वा ८००
- की विदेश नीति सुधीर, वेददान जैत पु म ७५०
- की विभूतिया दीनानाथ 'सरण' नवमुग प्रधागार ०७५
- की सभा पद्धति रघुवरी, वीरेंद्रसिंह फूलचंद
- की संहति और कला मुकुर्ती, राधाकमल रावणन १२००

- भारत की सच्चिदा यादव, ए एस * कलास पु स
- की समाज व्यवस्था तोमर रामबिहारीसिंह श्रीराम मेहरा ७५०
- की सामाजिक समस्याएं तोमर, रामबिहारीसिंह श्रीराम मेहरा १०००
- के कुछ शिक्षा दार्शनिक चौबे सरयूप्रसाद रा वेनीनाथ ५७५
- के क्रांतिकारी गुप्त, मन्मथनाथ हिंद पा (पा) २००
- के नवरत्न राय, ब्रह्मदेव राजीव, इ १२५
- के महान श्रुति वानप्रस्थी प्राणनाथ म २ राजपाल
- के महान क्रांतिकारी व्यास लल्लवप्रसाद गंगा
- के रत्न गिरिजादयाल गिरिस नवमुग प्रधागार ०७५
- गौरव रघुवीरदरशण मित्र भा सा प्र २००
- चीन और उत्तरी सीमाएं लोहिया, रामनोहर नवहिंद २०००
- ज्ञानकोश (वाणिकी) अश्वनीप्रकाश विद्यालकार, सभा हिंद पा (पा) २००
- दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा भूषण स्वामी हि सा स
- परिचय नकशों में आदर्श राजकमल ०७५
- पाक युद्ध १९६५ अरौरी, कृष्णदेव कमान प्र, प्र ८५०
- पाकिस्तान चीन समस्या देवकीनन्दन विभव कि घर भा ०५०
- , भारतवर्ष का विस्तृत भूगोल चौहान, वीरेंद्रसिंह सशो स २ रस्तोगी
- भूमि विज्ञानवादा स्वामसुन्दर शक्ति प्र १७५
- में आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय मित्तल, एस सी प्रसाद प्र म २५०
- में जाति हटान, जे एच मोतीलाल
- में नये बाटों का सुगम रेडो रेकनर अरोडा आनन्द-प्रकाश कि घर, जो ३००
- में नियम विना सिद्धांत एवं व्यवहार सचसेना, एस सी धारणा बुक १०००
- में पंचायती राज रमेशचंद्र शास्त्री कृष्ण व्र ७००
- में पंचायती राज सान्याल, भूपेंद्रनाथ नेगनन २००
- में फल तथा फूलों की खेती लखन्या, मुरारीनाल स ३ सिपल १०६२
- में युद्ध और वैकिंग का विश्राम मिश्र अक्षयबिहारी हि सभ ५००
- में यातायात मिह्रात एवं व्यवहार गीतम, सुधाकर राजीव मे ७००
- में राजत्व के सिद्धांत एवं व्यवहार शर्मा गुरुचन्द्रनाथ मानकचंद
- में वैज्ञानिक समाजवाद ज्ञानपीठ ५५०

- भारत में शिक्षा की वर्तमान गतिविधियां निगम, शिवनाथ***
जबनपुर प्र गृ २५०
—मे समाजशास्त्र, प्रजाति और संस्कृति भट्ट, गोरीशकर
सा सदन, दे १५००
—मे सहकारिता आंदोलन महेशचंद्र रा बेनीप्रसाद
२००
—मे सामुदायिक विकास जोहर सुरिंद्रसिंह मून्डी
—मे सामुदायिक विकास विजयप्रतापसिंह रा बेनीप्रसाद
१०००
—मे स्थानीय स्वशासन का आलोचनात्मक अध्ययन
केसवप्रसाद भा भवन ४००
—मेरा देश धित्तिडवाल रमाप्रसाद 'पट्टाडी' रा
बेनीप्रसाद २००
भारतवर्ष का इतिहास रतिमानुसिंह नाहर' कि महल
६००
—का बड़ा मानचित्र भूगोल २५०
—का भूगोल मिश्र, रामनारायण, सपा भूगोल ३००
—का भूगोल वर्मा के एन जबलपुर प्र गृ २५०
—का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास श्रीवास्वत
आशीर्वादीनान २ भा शिवलाल १०००
—की खनिजसम्पत्ति (चाट सहित) नामा, निरजनलाल
भूगोल २२५
भारतवर्षीय प्राचीन चरित्रकोश चित्रराव सिद्धेश्वरशास्त्री
भा चरित्रकोश ६०००
भारत सम्राट समुद्रगुप्त धूमकेतु चोरा ६५०
भारती केदारनाथ लाम भा भवन ३००
भारती द्विवेदी, रामबचन शर्मा बंद विद्या प्रचारक बुक
डिपो, कचहरी रोड, गया ०५०
भारतीय अर्थकोश १६६५ वि राट्ट ६००
—अर्थशास्त्र गण धानदस्वरूप सरो स ३ राजहस
प्र म ८५०
—अर्थशास्त्र तेना एस सी स ५ कृष्णा व १३५०
—अर्थशास्त्र देराश्री, सत्यदेव सरो स ४ लक्ष्मी
ना १२५०
—अर्थशास्त्र नवलकिशोर सिंह भा भवन १६५०
—अर्थशास्त्र पाटनी, भार एस सरो स २ राजीव, मे
५५०
—अर्थशास्त्र बोस, वंलेशकुमार भा भवन भा १
६७५, भा २ ६५०
—अर्थशास्त्र भित्तल, एस सी धोरियन्टल पब्लि
—अर्थशास्त्र शर्मा, हरिद्वर सा भवन, भा
—अर्थशास्त्र मन्नेना, एम सी सरो स ३ नवयुग सा
स भा ७००
—अर्थशास्त्र दर्शन गौड़, कृपाकर रा बेनीप्रसाद
३००
—अर्थशास्त्र सरल अध्ययन राजकिशोर बमन प्र २२५
—आर्थिक समस्याएँ एवं वृष्टिमूिम कुलधेष्ठ, एन एन स
२ रामप्रसाद २५०

- भारतीय द्वायं भाषायें वाष्ण्य, लक्ष्मीसागर हि समि १०५०
—इतिहास की रूपरेखा श्रीवास्वत, बलराम चौलवा २५०
—इतिहास सरल अध्ययन उपाध्याय, मिथिलेशचंद्र राज-
हस प्र म २२५ से ४५०
—उद्योगों का संगठन, प्रबंध एवं वित्त गुप्त, बी एन सा
भवन, भा
—श्रुतिविज्ञान सोहनी, भारकानंद हि समि ४५०
—ऐतिहासिक वीर महापुरुष हनुमानदास 'चकोर', नवयुग
प्रयागार १००
—कपनी अधिनियम अध्याय, बी एन स ५ नवयुग सा
स, भा ३७५
—कला अप्रवास, वासुदेवराज पृथिवी प्र २५००
—कला एवं संस्कृति श्यामप्रकाश रवींद्र प्र, गवा ३५०
—काव्य दर्शन पांडेय, फूलचंद, सत्रा चित्रगुप्त प्र ४००
—काव्य धारा चित्रगुप्त प्र ४५०
—काव्य मे छायावाद मिश्र, गंगाधर पु स, वा २५०
—क्रीकेट के नवरत्न शर्मा, हरिमोहन चोरा २५०
—कवी नया युग निवेदी, रचित प्रभास प्र
—प्राचीन समाजशास्त्र शर्मा, रामनाथ धोरियन्टल पब्लि
१२५०
—चित्रकला का इतिहास वर्मा, ए बी प्रकाश बुक १४००
—जनता एवं सम्याएँ तोमर, रामबिहारीसिंह श्रीराम मेहरा
१०००
—जनता तथा सम्याएँ मुकेशी, रवींद्रनाथ सरो एवं परि
स ३ सरस्व स
—जवाबों की ललकार हरेंद्रदेव नारायण दिव्याशोक प्र
५५०
—तत्व दर्शन भट्टाचार्य, कृष्णपद भार्य दर्शक ३००
—तत्व विद्या सपथी सुखलाल मातीलाल ३००
—तथा पाश्चात्य रगमच चतुर्वेदी सीताराम हि समि
२२००
—तर्कबोध ज्ञान मीमांसा भा, अनिरुद्ध मोतीलाल १२५
—तर्कशास्त्र तथा मानशास्त्र वर्मा, अचोक्तुमार मोतीलाल
२००
—दंड संहिता वर्मा, देवधारीप्रसाद पट्टा १२००
—दर्शन उपाध्याय बलदेव चौलवा १०००
—दर्शन मिश्र, जगता सरो स २ हि समि
—दर्शन राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली राजपाल पूर्वार्ध २५००,
उत्तरार्ध
—दर्शन का परिचय तिवारी, रामानंद 'भारतीनदन' भा
मदिर ३५०
—दर्शन की कहानी पांडेय, राममलाल रा बेनीप्रसाद
५००
—दर्शन की मजबूत सिद्धा, रामदेवप्रसाद भा भवन
३००
—दर्शन की भूमिका तिवारी, रामानंद 'भारतीनदन' भा.
मदिर ७००
—दर्शन की रूपरेखा हरियन्ता, एम राजबमन १२००

- भारतीय दर्शन परिचय ख १ न्याय दर्शन ख २ वैशेषिक-
दर्शन भा, हरिमोहन पु म
—दर्शन सरल परिचय चण्डोपाध्याय, देवीप्रसाद राजकमल.
६००
—नागर विद्यार्थी चरितप्रसाद राजकमल ३ ५०
—नीति का विकास पांडेय, राजबली वि राष्ट्र ५००
—नीति शास्त्र का इतिहास प्रानेय भोखनलाल हि समि
२००
—परवरा अनुर्वेदी, महेंद्र अनु केंद्रीय हि २ ५०
—परिवहन की समस्यायें और निम्नात नागर, विष्णुदत्त
कैलास पु स
—पञ्चुपनी भूगोल २००
—पुराणिनि शास्त्र बुद्धलर मोतीलाल
—प्रशासन तथा नागरिकता राय, हरिहरप्रसाद भा भवन
४७५
—किन्माँ का इतिहास कल्याणकर रामभूमि
—भाषाओं का भाषाशास्त्रीय अध्ययन वर्मा, ब्रजेश्वर
भा १ विनोद ८००
—भाषायें भूगोल १ २५
—भूगोल सरल अध्ययन गुप्ता, ईश्वरीप्रसाद राजहंस प्र
म ५५०
—भूगोति कपूर, काविदास हि समि ७ ५०
—मनोविज्ञान भ्रमय, पी एल मोतीलाल ६००
—मुगलों की संघ-व्यवस्था इरविन्द, विलियम भादास हि
१०००
—राम्यदति गुप्त धर्मदेव चौखवा १ ५०
—राजशास्त्र प्रणता पांडेय, श्यामलाल हि समि
—राष्ट्रीय आंदोलन राय हरिहरप्रसाद भा भवन ४००
—राष्ट्रीय आंदोलन एवं सवैधानिक विकास त्रिवेदी राम-
नरेन मोतीलाल
—राष्ट्रीय आंदोलन और सामुदायिक विकास विमलेश
लामी ना ८ ५०
—राष्ट्रीय आंदोलन सरल अध्ययन राजहंस प्र म ३ ५०
—सोक कथाएँ थिस्टलवाल रमाप्रसाद 'पहाडी', सया रा
बेनीप्रसाद ४००
—सोकजीवन और शासन व्यवस्था मिलल, नेमिसरयन ससो
स ६ राजहंस प्र म ५००
—सैनिक कपूर, रामनारायण सया स सा नि का ६ ००
—शासन राय हरिहरप्रसाद भा भवन ४ ५०
—शासन एवं राजनीति का विकास परमात्मार शरण ससो
म २ रस्तोगी
—शासन और उन्नत विकास राय, हरिहरप्रसाद भा भवन
—शासन और राजनीति के सौ सय सुशीलचन्द्र सिंह साधी
१०००
—शिगा धामुनिक नास बीरेंद्रकुमार सिंह सापना म
५००
—शिगा की धामुनिक समस्याएँ (अप्रलोत्तर) भारद्वाज,
शिनेचन्द्र विनोद ४००

- भारतीय शिक्षा की तत्कालीन समस्यायें पाठक, सुरेसप्रसाद
रस्तोगी
—शिक्षा की प्रमुख समस्यायें दीक्षित, उपेंद्रनाथ
राज बुब
—शिक्षा की समस्याएँ नीतल, भुन्नालाल राजा पन्नि
—संयोजन म समाजवाद श्रीम नारायण सस्ता ३ ५०
—संविधान और नागरिक जीवन सरल अध्ययन बीरकेश्वर-
प्रसाद सिंह कमल प्र २ २५
—संविधान तथा नागरिक जीवन (राजनीति) गुप्त, राम-
नारायण कि महल ४७५
—संविधान तथा राष्ट्रीय आंदोलन, भाभरो, चन्द्रप्रकाश
राजहंस प्र म ७ ५०
—संविधान तथा राष्ट्रीय आंदोलन सरल अध्ययन रस्तागी,
दयाप्रकाश राजहंस प्र म ६००
—संविधान सरल अध्ययन रस्तोगी दयाप्रकाश राजहंस
प्र म ३००
—संस्कृति भट्ट, गौरीशंकर भा सदन, दे १७ ५०
—संस्कृति सहाय शिवस्वरूप गग व ३००
—संस्कृति और साधना गोपीनाथ बबिराज भा २ दि
राष्ट्र ७००
—संस्कृति का इतिहास सरल अध्ययन रस्तोगी दयाप्रकाश
राजहंस प्र म ६००
—संस्कृति की रूपरेखा भ्रुइड २००
—संस्कृति के स्थायी स्वर वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद
अनंत राजकमल
—संस्कृति गौतम से गार्गी तक लोहनी, भास्करानंद भाप्र-
हायण. ६००
—समाज एवं संस्कृति तोमर, रामबिहारीसिंह श्रीराम मेहरा
८ ५०
—समाज एवं संस्कृति (भारतीय जातियाँ) सरल अध्ययन
गोयल, मूलचंद राजहंस प्र म ४००
—समाज एवं संस्कृति (भारतीय जनसंख्या) सरल अध्ययन
गोयल, मूलचंद राजहंस प्र म ४००
—समाज और संस्थाएँ सरल अध्ययन धानदप्रकाश राज-
हंस प्र म ४ ५०
—समाज, संस्कृति तथा संस्थाएँ तोमर, रामबिहारीसिंह
श्रीराम मेहरा १२ ५०
—साधना और सत तुलसी माधुर, हस्वरूप सा नि, वा
२०००
—सामाजिक व्यवस्था तोमर, रमबिहारीसिंह श्रीराम मेहरा
१०००
—सामाजिक संगठन स ३ मुकर्जी, धार एन प्रकाश
बुक ३ ५०
—साहित्य का इतिहास वेबर, अल्बर्ट कि महल
—साहित्य-कीश नगेंद्र, सया राजकमल
—साहित्य, तुलनात्मक अध्ययन वर्मा, ब्रजेश्वर प्रधान सया
विनाद
—साहित्य शास्त्र देशपांडे मोतीलाल १२ ५०

- भारतीय साहित्य दार्शन और काव्यालंकार. व्यास, भोलाशंकर. चौखवा. ८.००
- सैन्य पद्धति का इतिहास. टहन, बी. धार. के. ११०
प्रकाश युक्त ७.५०
- सैन्य-विज्ञान कुलधर ठठ, रमेशचंद्र संशो. स. २.
अप्र ६.२५
- स्त्री शिक्षा भट्टाचार्य, बेलासानी. मार्ग दर्शक. १००
- भारतेंदु हरिश्चंद्र. वाण्येय, लक्ष्मीसागर. संशो. सं. ३ सा.
भवन, ६. ७.५०
- हरिश्चंद्र शर्मा, रामबिलास राजकमल. ५००
- भारवि-काव्य मे अर्थांतरन्यास. रस्तोगी, उमेशप्रसाद. चौखवा.
६.००
- भाषाप्रकाशनिष्ठ भाव मिश्र. चौखवा. ६.००
- भावरण तहरो भट्ट, बलवतराय गुलाबराय 'भावरण'.
मोतीलाल.
- भाषा. फील्ड, व्जूम मोतीलाल.
- भाषा. लोहिया, राममनोहर तदहिक. १०००
- श्रीर भाषिकी. द्विवेदी, देवीशंकर. लक्ष्मी ना. ५.००
- श्रीर सवेदना चतुर्वेदी, रामस्वरूप. भा. ज्ञानपीठ.
- श्रीर साहित्य. वारानिकोव. हि. प्रभा. पु ५००
- वा इतिहास भगवद्दत्त. स ३. इतिहास प्र म ८.००
- ज्ञान और निबध रचना. पाठक, चंद्रहस सं विगमय
१.५०
- अंतरस शेष रहोम. क मु. हि.
- भूषण. गोड, राजेंद्रसिंह. अयोधक प्र. म.
- लोक; बृहतर संस्करण सुशीलकुमार सिंह. अलोलक
प्र., मो
- विज्ञान. अणुवाल, धार. डी. प्रकाश युक्त. ८००
- विज्ञान. शर्मा, देवेन्द्रनाथ राधाकृष्ण.
- विज्ञान के सिद्धांत. सुमन. नवचेतना. ६५०
- विज्ञान पर भाषण. जोशी, हेमचंद्र. हि. समि. ८.००
- विज्ञान : विकास और विद्वेषण रावत्र, चंद्रमान. सरस्व.
पु. स १२.५०
- शब्द-कोष. मुक्क, रामचकर 'रसाल'. रा. बेनीप्रसाद.
- शास्त्र प्रवैदिकता. अमरबहादुर सिंह 'अमरेण'. रा. बेनी-
प्रसाद. ६.००
- शिक्षण की नवीन विधियां. छोड़, एल. के. विद्या भवन, उ.
६.७५
- भास के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन. दीशित. धार्य युक्त.
१२.००
- भा. सा. म मेवा शापना तुकडोजी महाराज. श्रीगुरुदेव.
१.५०
- भिलासालि. घोमा, जगदीन 'सुदर'. अयोधक प्र. म.
१.२५
- भित्ति-चित्र. श्यामी, रवींद्रनाथ. राजकमल.
- भिनगार. त्रिवेदी, अष्टभूषण 'रमई काका'. साकेत १.२५
- भीनी-भीनी भाव गधि. ब्याम, कृष्णानंद 'बेघास'. बेघास.
१.००

- भील : भाषा, साहित्य और संस्कृति. जैन, नेमीचंद. हीरा-
मंसा प्र ५.००
- भवन-कोष. भूगोल. १.००
- विजयम. उमाशंकर. सं ३. भा. सं. नि. ६.००
- भुवनेश्वरी नित्यांबन. बल्ल्याण मं. ३.००
- भूल की ज्वाला. दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह 'नाथ'. नव सा. मं.
१.२५
- भूगोल. सुरेशप्रसाद भा. भवन. ६.५०
- एटलस. भूगोल. १.५०
- भित्तिचित्र. भूगोल. २५०
- शब्द-कोष. भूगोल. २.००
- शिक्षा पद्धति. भूगोल. १.००
- भूचाल. गुप्त, राजेश. देहावी. ३.५०
- भूत के पाव पीछे. परसाई, हरिशंकर. सिंहल सा. २५०
- भू-सत्त्व (प्राकृतिक भूगोल). भूगोल. ४.००
- भू-परिचय भूगोल. ३.००
- भू-रूप विज्ञान एवं भू-स्वरूप विधान. प्रतापसिंह. हि प्रभा.
पु. १०.००
- भूल पर भूल. चोक्कापियर, विलियम. उमेश. २.००
- भूले बिसरे चित्र. वमं, भगवतीचरण राजकमल. १३.००
- भेड़िये की दारत. सिवा रामचरणप्रसाद. कला भा. ०.६२
- भैरव वितास—वैदनाथ. शर्मा, एन. एन. मोतीलाल.
३.००
- भैरवी चक्रपूजन. कल्याण मं. १.००
- भेल सहिता. येल्ला, आचार्यमी. चौखवा. १०.००
- भैरव्य कल्पना विज्ञान. अग्निहोत्री, अरुणबिहारी. चौखवा.
५.००
- सहिता, भागम और प्रत्यक्ष दृष्टि. अग्निदेव विद्यालकार.
हि. समि ४.५०
- भोजन कब और कैसे. गुप्ता, सुरेंद्रनाथ. साकेत. ४.००
- भोजन-विधि (पश्यापश्या). पाठक, केदारनाथ स. २.
श्यामसुंदर २.००
- भोजपुरी : एक समीक्षा. दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह 'नाथ'. नव
सा. मं. २.००
- के कवि और काव्य. दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह 'नाथ'. नव सा.
मं. ४.५०
- लोक गीत में करण रस. दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह 'नाथ'. सं. २.
नव सा. मं. १०.००
- भोज, भोजपुर और भोजपुरी प्रदेश. दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह
'नाथ'. नव सा मं ३.००
- भोरकठ चुप, सत्यपाल दि पु. स. ४.००
- भोर की जमुश्राप्य. रामसिंह 'अजय'. नव ज्योति प्र., भा.
२.२५
- से पहले. अमृतनाथ. संजना. २.००
- भोषी भाषी. माधवा प्रतापी (बाधमीरीलाल घोमा). नवपुत्र
प्र. ४५०
- भौगोलिक शब्दकोश और परिभाषाएँ. बरूर, अमरनाथ. हि.
महत्.

भौतिक भूगोल सरल अध्ययन गुप्ता, ईश्वरीप्रसाद राजहंस प्र म ४१०
 —रसायन शास्त्र खन्ना, जयकृष्ण राजहंस प्र म ५००
 —शास्त्र वर्ग शांतिप्रकाश राजहंस प्र म ५२५
 —शास्त्र म क्या, क्यों, कैसे ? गिरी, राजेंद्र राजीव, मे १२५
 —शास्त्र में क्यों और कैसे वैश्य, चमनप्रकाश राजहंस प्र म १८८
 —शास्त्र सरल अध्ययन वर्ग, शांतिप्रसाद २ मा राजहंस प्र म ३७१ (प्र)
 भौतिकी एवं रासायनिक गणनाएँ श्रीवास्तव कल्याणमल २२५
 —परिचय मेहरोत्रा, एस के स २ राजीव मे ३५०
 भ्रम की दीवार सिया रामचरणप्रसाद सा प्र २००
 भ्रमरगीत सार शर्मा, राजनाथ राधा विनोद
 —सार सुबल, रामचंद्र, सपा सगो स १३ सा सेवा स ५००
 भ्रातृपद मास माहात्म्य शर्मा जगन्नाथ देहाती १५०
 भगल बीप पटेल, पीतावर भ्रातृमाराम ३००
 —युग शर्मा, ज्ञानस्वरूप ममलतारा १००
 —सुन मित्तल, महेंद्र भा सा म ५००
 भगवान्चरण भ्रमूतराय, सपा सर्जना १५००
 भगवतिर माहात्म्य शर्मा, जगन्नाथ देहाती १५०
 भजिल गौड़, ब्रजेंद्र एमके २००
 —दूर नहीं बर्मा, रविशेखर भूपोलो ४००
 भजूया भ्रमूतराय, सपा हंस ५००
 भजूया सुधाकर, के एन विवेक २५०
 भजूया चयन भ्रमूतराय प्रेमवद हंस ५००
 भम्पार पाठय, सच्चिदानन्द नवयुग प्रकाश ३००
 भक्त श्री मातृवाप्री का रहस्य, तन्त्रानुसार अस्थी सिवशंकर चौलवा
 मनकोष कल्याण म २००
 मनसिद्धि का उपाय कल्याण म २००
 मंदिर का कला श्रोवास्तव प्रेमेश्वरूप रा वेनीप्रसाद १२०
 मण्डी व्याकरण कोश प्रयागी संपत्ति हि सा स १०५०
 मछली मरी हुई चौधरी राजकमल राजकमल ५००
 मटनेके वृष्ट राजेंद्रपाल सिंह राज्यश्री २५०
 मट्टा या छाछ के उपयोग वर्मा प्रकाशीवाल स ०
 श्यामसुंदर १००
 मदी का दीवा गुरुदयालसिंह राजबंसल ५००
 मणिपुरी नृत्य प्रकाशनाशरण कना प्र, इ १००
 मणिमाला भारत सूचना धीर प्रसारण मन्त्रालय, प्रकाशन विभाग प्र विभाग
 मंत्रिराम श्यामवती मिश्र, कृष्णविहारी ना प्र सभा ८००
 मत्स्य प्रदेश की हिंदी-साहित्य की देन गुप्त, मोतीलाल राज श्राध्यायिका

मट्टा की यीनाशी युक्त, यदुष्मन्तल समे २००
 मधुकरि व्यास विनोदशंकर, सपा भा ३-५० पु म, वा ३०० (प्र)
 मधुकमल हरिविद्याराय 'बकून' हिंद पा १००
 मधु के उपयोग पाठक, केदारनाथ स ४ श्यामसुंदर १००
 —के गुण तथा उपयोग दीक्षित रामस्नेही देहाती २५०
 मधुमय सत्रम गोविन्ददास, सेठ 'प्र प्रतिष्ठान ३२००
 मधुमालती बार्ता गुप्त, माताप्रसाद सपा भा प्र सभा ८००
 मधुरवनी शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश' राज सा अका ४००
 मधुर मिलन शरीवा, भ्रमरगीत चमनलाल २००
 मधुरिया पाठय हृदयनारायण हृदयेन' स २ हृदय म १७५
 मध्य एशिया के सरोपठी अभिलेखों में जीवन वर्मा, उपा मोतीलाल ३००
 मध्यकालीन काव्य विनयकुमार भा भवन ५२५
 —मारल त्यागी, महावीरसिंह राजीव, मे ४५० से ८००
 —मारल (१००० १७६१) रत्तोयी, इयाप्रकाश स २ राजहंस प्र म १०००
 —भारत सरल अध्ययन गुप्ता, एस सी राजहंस प्र म ६५० से १०००
 —सत साहित्य पाठय, रामसेलावन हि प्रचा पु १५००
 —हिंदी काव्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि उपाध्याय, विश्वभरनाथ सा भवन ३
 —हिंदी सत विचार धीर साधना चौरसिया, केदानीप्रसाद, हिंदु एकेडेमी १५००
 मध्यप्रदेश में सहकारी भादोलन सूचना तथा प्रकाशन, मध्य-प्रदेश, भोपाल
 —सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, १९६० जितल, मदनलाल स ३ राजकमल
 —हामर सेवन्टी प्रयोगशास्त्र की रूपरेखा वर्ग, ध्यान-स्वरूप राजहंस प्र म ६५०
 मध्ययुगीन भारत, १००० से १७७६ ई परमारशासन रणजीत
 —हिंदी कृष्णभक्ति धारा धीर चेतन सप्रदाय श्रीवास्तव, भोरा हिंदु एकेडेमी
 मन के गीत मिश्र, शिवशंकरलाल ममिलाल, ल मनवृन्दावन लक्ष्मीनारायणलाल नेदानल ५००
 मनु की समाज व्यवस्था दुबे, सत्यनिक कि महल. ७००
 मनुष्य का मूल्यांकन मखड १००
 —की उत्पत्ति धीर मानव जातिया सान्याल, भूवैज्ञानिक नेदानल ३५०
 —मे ईश्वर की क्रांती शंकर १००
 —सर्वश्रेष्ठ धीर सकल जीवन कैसे बने गीता मनोरमा राजमल्लार, पी वी नेदानल २५०
 मनोविज्ञान गैरिट, हैनरी ई एलाइड ५६०

- मनोविज्ञान की ऐतिहासिक रूपरेखा जायसवाल, सीताराम हि सप्त १३ ००
- के श्रेष्ठ सुवा, रामभूति हि सप्त ७५०
- सया शिव सकल्य भाटमानन्द, स्वामी हरयाणा ३५०
- मे प्रारम्भिकी साहित्यकी शमसाद हुसेन मोतीलाल ३५०
- सप्रदाय पाठ्य रामदासक रामप्रसाद ५००
- मनोव्यथा पाठ्य, हृदयनारायण 'हृदय' हृदय म ०५०
- मम्मी बिगडेगी द्वारकाप्रसाद उपन्यास प्र भरकत द्वीप का स्वर हरिवंशराय 'बच्चन' राजपाल ५००
- परघट का मुर्दा वर्मा, परिपूर्णन्द सा नि, वा १५०
- की रास मर्येन्द्रप्रसाद सिंह 'धरुण' नीलम स्टोरी १५०
- मकहूत का रंग स्थल मिय भदनमोहन कि महल पराठी का भ्रातृनिक साहित्य, इतिहास, १८०५ से १९१० देशपांडे, भी गो नवयुग बुकस्टाल
- हिंदुस्तानी कोश चोरघटे, बामनराव स्वाध्याय २००
- पराठी का इतिहास (१००० ई से १७५५ ई तक) डफ ग्रांट शाशिधर १२००
- का उत्कर्ष तिवारी, रमेश चौलबा १२००
- का उत्कर्ष रानाडे, जस्टिस मोतीलाल १२००
- महद्वेषता मन्-सहृद की समन्वय चरणसूची स्वाध्याय २००
- मरु भयक महधि, श्रीकान्ठ कि पर जो २००
- मर्म विज्ञान पाठक, रामरत्न चौलबा ३५०
- मर्यादा राक्षस वरस इ पत्निक
- की ध्यान पर निगम, श्यामकिशोर सा केन्द्र, दि २००
- मल्लवपु धर्मरक्षित, मिथु नद क २००
- मयाल जल उठी सुबल, रामकुमार सुपमा सा म
- मरवीन युग की कहानी कातिमोहन, धनु राजपाल २००
- मरीनीन्द नरेन्द्रनाथ देहाती २५५०
- मस्तनाथ चरित्र मस्तनाथ देहाती ५००
- महत्त्वपूर्ण शासन प्रणालिया सुनीलचन्द्र सिंह साथी १०००
- महधि दयानन्द मुहदत भा सा सदन
- दयानन्द और महात्मा गांधी धर्मदेव विद्यामार्तंड हरयाणा २००
- दयानन्द का जीवन वेदवागीश, वेदानन्द हरयाणा १५०
- महाकवि वालिशम सुनीलकुमार उमेश २००
- वासिनाम और उनका अभिमान शावतल त्रिपाठी, कृष्णनान सा नि, वा २७५
- की साहित्य-साधना गुप्त, सुरेशचन्द्र रीगल
- आयसी, व्यक्तित्व एव कृतिव वर्मा परमेश्वरीन नवयुग पु भ
- दिनकर उर्वशी तथा अन्य कृतिया जेन, विमलकुमार भा सा म १५००
- नरदास प्रयवान, सति बैनाथ क २७५
- निराला, जानकी वल्लभ शास्त्री, सया जयतिव एव निरालानि
- पन वर्मा, सयनाम भा प्र, दि
- प्रसाद, वर्मा, सयनाम भा प्र, दि

- महाकवि विहारी की समर-कृति विहारी सतसई चर्मा, देवेन्द्र 'इन्द्र' सरो स ३ विनोद
- भवभूति राय गंगासागर चौलबा ५००
- सुब्रह्मण्य भारती एव महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्यो का तुलनात्मक अध्ययन अयरायन, पी हि सा म. २०००
- सूरदास और महाकवि पोतना दक्षिणभूति, एन एस हि सा म २०००
- सूरदास, कृतिमा और कला वर्मा, परमेश्वरीनीन " नवयुग पु भ
- हरिभोष गुप्त, हृदयचन्द्र प्र प्रतिष्ठा
- हरिभोष या प्रिय प्रवास केशरी कुमार मोतीलाल २२५
- महाकोशल के तरण ब्रजभूषण भादरं पारिजात प्र, सा ३००
- महात्मा गांधी एक जीवनी नदा, बी प्रार सस्ता ५००
- महादेवी अभिनन्दन प्रय पत्त, सुमित्रानन्दन लोकरभारती ३२००
- का वेदना-भाव खडलवाल, जयविज्ञानप्रसाद सरो स २ विनोद ५००
- चित्तन व कला मदान, इन्द्रनाथ, सया राधाकृष्ण ५५०
- वर्मा कुमारविमल पराग प्र १५०
- वर्मा अभिनन्दन प्रय देवदत्त शास्त्री, सया श्रीधर शास्त्री, प्रयाग
- वर्मा और 'स्मृति की रेखाए' चर्मा, राजनाथ विनोद ३००
- महानगर मित्र, नरेन्द्रनाथ धनना ३००
- महानता का मर्म तिवारी, रामानन्द 'भारतीनन्दन' भा मदि. ५००
- महान् दासनिःक डॉ राधाकृष्णन धनत, ध ध प्रेम प्र २५०
- नेहरू वर्मा, ताराचन्द्र विन्मय २५०
- वैज्ञानिक मुले, गुणाकर राजकमल ३००
- शिशा शास्त्री निगम, सिवाय जवलपुर प्र गु २००
- शिशा शास्त्रियों के सिद्धांत रत्न, प्रार प्रार विन्मय-विद्यालय
- महापुण्य वेदप्रवाश 'टोरी' नवीनतम १०००
- महाभारत का भ्रातृनिक हिंदी प्रबन्ध काव्यो पर प्रभाष विन्मय सम्मार्ग २०००
- बांशीन समाज भट्टाचार्य सुलभम सोवभारती २५००
- की मारी भवावकर, वनभाता, अभिनव २०००
- कोश राय, रामकुमार चौलबा २०००
- वनजं राधेश्याम मण्णू २२ भा रात्री, श्रीतात देहाती वडा साइज १५००
- भाषा जयगोपाल देहाती १२००
- महाभारत की पठित मदनमोहन जी भालवीय के लेख और भाषण गवसन धामुदेव-रण भालवीय, मदनमोहन भा १ अभिनव भा जयमती समारोह समिति, बागो हिन्दू विन्मयविद्यालय, वाराणसी

महामानव शर्मा, सूर्यदेव शर्मा सा १००
 महामानवबुद्ध राहुल साहज्यामन महाबोधि २५०
 महामूर्ख सम्पेनन बाका हायरती सुबोध पा (पा) १००
 महायाणा नाया (रैन धोर चदा) रायेय रायव कि महल १८००
 महाराजा भतुहरि नाटक न्यायसिंह वेचैन देहाती १५०
 महाराती प्रहिल्याबाई श्रीशृण्ण 'सरल' जबलपुर प्र म २००
 —दुर्गावती चर्मा, वृदावनलाल मयूर
 महाराष्ट्र का हिंदी-शोक काव्य दिवाकर, कृष्णजी गगाधर हि सा भ ५००
 महावनी धर्मरक्षित, भिन्दु महाबोधि ०७५
 महावीर वर्धमान जीवन धोर उपदेश जैन सा महासती लुशीबाई मडलौई सनावदा विष्णुराम सुमनाकर भाष्य
 महासमर अर भूगोल १२५
 —एटलस भूगोल १००
 —ईनादिनी डायरी भूगोल २००
 महिला महत्व गिरिजादयाल 'फिरीश' सा मडल मा गोर्नी, मैक्सिम हिंद पा (पा) २००
 —भानदमयी वनासाल थी थी भानदमयी २५०
 —भानदमयी उपदेशाभूत सग्रह थी थी भानदमयी
 —धोर मुना जुल्ही, मोहनी साकेत १००
 —की उदासी मोमीसाल 'इलाहाबादी' राष्ट्र प्रचा, इ १५०
 —की मयता, घाली, योगराज शर्मा बुक २००
 मांग का सिद्धर बोहरा, मंगलदास 'साथी' वि घर, जो ३००
 माहेश्वरप्रवचन भ्रष्टाचार सरस्वती, स्वामी स २ सस्ताहित्य
 माहलनाल चतुर्वेदी व्यक्ति धोर काव्य तिवारी, राम-खिलावन अनुसंधान १८००
 माप माहात्म्य चर्मा, जगन्नाथ देहाती १५०
 माटी की गुठिया सुवल कमल प्रेम प्र ६००
 —के भोग—सोते वी नैया मिश्र, भाग्यावद राजकमल
 —जागी रे धनिहोत्री ज्ञानदेव भाताराम २००
 माहनं एम्ब्राइडो मयुरारानी देहाती ५५०
 —कौन—सुंदर कौन ? राधिकारमणप्रसाद सिंह अशोक प्रे १५०
 —सौर इन्स्टी बालीकरण देहाती १०५०
 मातामो धोर शिशुमा के रोमा की रोक्याम चर्मा, विनेसचद, भ्रतु केंद्रीय हि ५००
 माता विना धोर बच्चे सुराणा प्रतापसिंह बिचा मवन, उ ५००
 मातृ उपासना बल्याण म ०५०
 —का भेद सत्र बल्याण म २५०
 —दान मार्वेनी थी थी भानदमयी २५०

मातृभाषा शिक्षण क्षत्रिया, के विनोद ६००
 मातृलीला सर्वोत्तम थी थी भानदमयी ०३०
 मातृवाणी धीमाताजी भा ४ श्रीधरविद ०३७
 मात्रिक छवों का विकास शिवनदनप्रसाद वि राष्ट्र ८५०
 माधवी गिरिजादयाल गिरीश' सा मडल गाधवी नदा, गुनवान अशोक पा (पा) २००
 माध्यम रावी समानातर १००
 माध्यमिक एशिया मित्तल, जगदीशचंद्र रा वेनीप्रसाद ५००
 —रूपि रसायन भार्गव, पी एन नद व ७००
 —जीव विज्ञान साह जे डी भा भवन
 —प्रयोगिक रसायन सूरी, ललितमोहन कुलदीपसिंह रामप्रसाद २००
 —भूगोल न्यासी जानकीलाल भा १-२ शिवलाल ६००
 —भौतिकी गव जगदीशचंद्र २ भा राजहंस प्र म ७०० (प्र)
 —रेखागणित पाठ्य, जे पी कल्याणमल ४००
 मानसो पंडितार, गिरधारीसिंह जगजीवन सर्वोदय ४००
 मानचित्र अध्ययन की सरल विधि बलवतसिंह प्रकाश बुक ३७५
 —कला प्रकाश त्रिकारु विष्वनाथ हि प्रचा पु १०००
 —निरूपण तिवारी, विश्वनाथ अशोक प्र म ५००
 —प्रवेशिका तिवारी, विश्वनाथ अशोक प्र म २५०
 मानद प्रालोचना धोर भ्रतुसंधान चर्मा नलिनबिचोचन मोतीलाल ५००
 मानव इतिहास की रूपरेखा चर्मा एच धार लक्ष्मी भा ८००
 —एकता का स्वरूप धीमाताजी श्रीधरविद २५०
 —कल्याण दयाल फकीर शिव सा भा १.१००, भा २ १२५
 —का उज्ज्वल मविष्य हिंदु एकेडेमी ४५०
 —की कहानी कून, कार्लटन एम भाताराम ७५०
 —के दिने मेमावी भवेरचद सस्ता ३५०
 —के पुत्राजी सुवल, अमरनाथ विद्या प्र म २५०
 —दानव गुप्त मन्मथनाथ राजपाल ६५०
 —दुर्द्धि सवपी विवेचन हि समि
 —भूगोल भूगोल ३००
 —भूगोल वंशिशु, रामस्वरूप वि घर, स्वा १०००
 —भूगोल सरल अध्ययन गुप्ता, ईश्वरीप्रसाद राजहंस प्र म ५००
 —भयान धोर मृगु दत्तभारती रतन एड व. (पा) २००
 —चरीर रचना मुकुंदस्वरूप मोतीलाल
 —संस्कृति के निमाता गोविंद चानक रथोदप्र, स्वा २००
 —सम्पत्ता का दिवाकर. राजीवनाथ प्रसाद भा भवन ७५०
 —समाज प्रकाश, गोपालहृष्य कि महल ८५०
 मानविकी पारिभाषिक कोश नगेंद्र, सदा राजकमल २५० (प्र)
 मानवीय ज्ञान के सिद्धांत मंगवान बकासिंह हि समि ८५०
 —मिष्ठा धर्मविचारी, दादा ध भा सर्वे
 मानवेंद्र रत्नवीरगण 'मित्र' भा सा प्र २५००

मानस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन शर्मा कि महल १०००
 —दशमं श्रोकृष्णलाल सशो स धानद पु, वा ४००
 मानसरोवर सहल, कन्हैयालाल कल्याणमल २५०
 भाषा मिली न राम राबिकारमणप्रसाद सिंह अशोक प्रे
 १७५
 भारतल चिन्स के डिजाइन रामप्रवतार वीर' देहाती ६००
 भारवाडी गीत संग्रह मोहनलाल देहाती ४५०
 मार्क टवेन उपेन्द्रनाथ अशक' नीताम १२५
 मार्क्स और माथी का साम्य दर्शन भाराथपतिह हि सा
 सम्भे
 मार्ग दर्शन पौराणिक, कालीचरन प्राच्य विद्या
 मालविकाग्निमित्रम् भा, तरिणीश, सथा रा वैनोप्रसाद
 ३००
 मालवी कदावर्त मेहता, रतनलाल, सथा भा १ सा सत्यान,
 राज २०० (ग्रन्थ)
 —का लोक साहित्य परमार, इयां हिंदु एवेडेमी
 मालदाशी युवल, पुतुलाल 'बद्रावर' विवेक
 मासुम दिगाहा का निकार नाथ, पी 'मोहन' हि प्रचा पु
 (पा) १००
 मास्को की रहस्यमयी युवती भट्टाचार्य कृष्णपद मार्ग दर्शक
 ३२५
 मास्टर महिम बसु, मनोज सस्ता ४००
 मिट्टी का नग्न अच्युत नेशनल ५००
 —की दीवार वर्मा, ऊपा धार्मी
 —के गुण तथा उपयोग कौकचा हरनारायण देहाती ३००
 —के सनम कृष्णचन्द्र राजपाल ३००, (पा) १००
 —च पुट्टी का नाम गर्ग प्रेमप्रकाश विद्या भवन, उ २५०
 मिडिल भूगोल ४ भा भूगोल ३५०
 मिथव्यमी बनिए—सुकी रहिए प्रसन्न १००
 मिनिस्टर की डायरी सगर, सत्यप्रकाश राजकमल ४००
 मितल के गीत राजेंद्रमिलन समाचार ३००
 मिस इडा वर्मा, रजन ज्ञानपीठ २००
 मितेज लाल भट्टारिया, मदनमोहन हि प्रचा पु (पा)
 १००
 मिस्टर 'सोये-सीये' शत्रुघ्नी बरगानेलाज विनोद ३००
 मीमांसा और मूल्यांकन शर्मा, रामगोपाल दिनेश' साहित्य
 लोक प्र ६००
 —दर्शन दर्शनानन्द स्वामी, टीका देहाती ६००
 मीरा की काव्यशला और जीवनी शर्मा नारायण सरस्व पु
 स ३७५
 मीराबाई प्रभाव हि प्र र
 —की पदावली शत्रुघ्नी, परपुराम, सा हि सा सम्भे ५००
 मीरा की प्रेम-साधना. मिय, मुदनेन्दरनाथ 'गाधव' सगी स
 राजकमल १०००
 —, जीवनी और काव्य महनीत, महाशौरसिंह पु स, वा
 १५०
 —नाची रे भा, रमेशचन्द्र नय्यर प्र ३००
 —पदावली. शत्रुघ्नी, बरगानेवाल, सथा. सा सगम, म

मुक्तक काव्य परपरा और बिहारो त्रिपाठी, रामसागर
 स २ अशोक प्र १५००
 मुक्ता शर्मा, पाठ्य वेचन 'उग्र' आत्माराम २५०
 —की लडी विश्वमोहनकुमारसिंह भा भवन २००
 मुक्ताफल चुनल, चडिकाप्रसाद अशोक प्र म १००
 मुक्ति यज्ञ पत्र, मुमिआनदन राधाकृष्ण
 —बोध जैनेन्द्रकुमार पूर्वोदय ४५०
 मुखिया के अधिकार और कर्तव्य धीवास्तव पृहजा
 २५०
 मुगलकालीन भारत रस्तोगे, दशाप्रकाश सगी २ राजहल
 प्र म १५२६-१७६१ ६००, १५२६-१८१८ ८००
 मुषधोष भाषा विज्ञान अश्रवाल, रामेश्वरदयालु प्रकाश बुक
 मुम्बे में जो शेष है भद्र, उदयशंकर आत्माराम २५०
 —मे देव जीवन का विकास धर्मिहोत्री, सत्यनन्द देव समाज
 २५०
 मुम्बे क्रिकेट दो सगर, सत्यप्रकाश राजकमल ५००
 —मालूम न था चाजपेयी, भगवतीप्रसाद सुबोध पा (पा)
 १००
 मुटापा और उसका हलाज, चौधरी युगलकिशोर कल्याणमल
 १००
 मुद्राप एव उपचार कल्याण म २००
 मुद्रा एव अधिवेशन अश्वस्थी कि महल १००
 —एव वैकिंग चौहान शिवग्यानिह सा भवन, पा
 —एव वैकिंग जैन सधमी ना ७५०
 —एव राजस्व गुप्त गिरिजाप्रसाद स ३ रामप्रसाद
 १०००
 —और वैक परिचय पाठ्य सुधाकर हि प्रचा पु
 १६२
 —की रूपरेखा सरल अध्ययन मितल, एस सी राजहल
 प्र म ६२५
 —सतन एव अधिकोपण अश्रवाल एस सी नवयुग
 सा ५५०
 —सतन एव अधिकोपण विजयेंद्रपान सिंह सगी
 स १२ नवयुग सा स भा ६३७
 —तथा वैक की रूपरेखा अश्रवाल हि प्रचा पु
 २००
 —तथा वैकिंग विजयपान गिह राजहल प्र म ३७५
 —तथा वैकिंग की रूप रेखा गर्ग भानदरवरण सगी स २
 राजहल प्र म ४५०
 —वैकिंग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत परमार, एस
 एल गर्ग प्र ५५०
 —वैकिंग एव राजस्व अश्रवाल, एस सी ' नवयुग सा
 ६००
 —वैकिंग एव राजस्व विजयेंद्रपाल गिह सगी म १२
 नवयुग सा स भा १०००
 —वैकिंग, विदेशी विनिमय पाठनी, आर एल राजीव, मे
 ४५०
 —वैकिंग, विदेशी विनिमय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय

- श्राय तथा राजस्व गण, धानदस्वरूप राजहस प्र म
= ५० से ६५०
- मुद्रा, वैकिंग, विदेशी विनिमय, राष्ट्रीय श्राय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
तथा राजस्व पाटनी, भार एल सगो स २ राजीव,
मे ६००
- वैकिंग, विदेशी विनिमय, राष्ट्रीय श्राय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,
राजस्व एवं सांख्यिकीय माध्य विक्रम संस्करण पाटनी, भार
एल सगो स ३ राजीव, मे ६००
- वैकिंग, विदेशी विनिमय, राष्ट्रीय श्राय तथा अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार पाटनी, भार एल सगो स ३ राजीव, मे
५००
- वैकिंग, विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निगम प्रवत-
राम सा नि, का
- मौद्रिक एवं श्रम्य व्यवस्था पाडेय, वी एन मोतीलाल
६००
- मुद्राराशय भाटी, देवराजसिंह श्रमोक प्र ३००
- मुद्राराजसत्तम भा, सारिणीस सपा रा वेनीप्रसाद ५००
- मुनिश्री हजारीमल स्मृति ग्रथ मुनिश्री हजारीमल स्मृति ग्रथ,
प्रशासन समिति, म्यावर ५०००
- मुमुक्षु मार्ग ३ भा कल्याण म ६००
- मुस्ता साराय शिवप्रसादसिंह भा ज्ञानपोठ ३००
- मुस्तान का मोल तोमर, हनुमेशसिंह जवाहर ७५०
- मुस्तुरात धानु निवारी, हृदयानंद 'कुमारेश' साकेत ५००
- मुहता नैपसो विरचित मुहुवा नैपसिरीख्यात साकरिया,
बदरोप्रसाद, सपा राज प्राच्यविद्या
मुहावरे क्हापत मोहना सिंह हि शिक्षक ०५०
- मूल सस्कृत उडरण मूदर, जान चौलवा भा १-३
६०००, भा ४५
- मूल्य और उपलब्धि धामुनार्थसिंह मोतीलाल ५२५०
- मूल्य और पजी महेशबद हि समि ६००
- मूल्याकन सहल, बन्दैयालाल राज पु म ७००
- मृगनयनी समीक्षा भाटी, देवराजसिंह श्रमोक प्र २५०
- मृगावती (तुतुवन) निध निवगोपाल, सपा हि सा सम्मे
मृत्युञ्जय सावरकर सावरकर, वीर विनायक दामोदर पृथ्वी
राज प्र २००
- मृत्युञ्जयी पद्य साहू, नेरचिम बारनो प्रभात बुक ०७५
- मुस्तु और उस पर विजय घोष अरविद श्रीप्रविद ३००
- मुदण मक सागीत ४००
- मेपदूत धोरसिया, केशनीप्रसाद, रूपा श्रमोक पु म २५०
- मेपदूत तिलकधारी सिंह 'तिलक' विद्यावती प्र एव शाति
जनरत ३५०
- मीमासा श्यामनदन शास्त्री टीका भा भवन
मेपदूतम (उत्तर मय) सानरमा यदुपाल सिंह लोकरुमारती
६००
- मेपदूत (राजस्थानी धनुवाद) रागेय राषय कल्याणमल
२००
- मपमाल, रितु काश सेतावन, सुमेरसिंह प्रलका प्र, सी
३००

- मेघमाला चतुर्वेदी, सुंदरलाल 'मरुणेश', सपा लोकराज
मेम साहब का बेरा बस्ती, स्वरूपकुमारी भा ग्रथमाला
३७५
- मेरा जीवन प्रलपूराय शास्त्री सरस्व पब्लि ६००
- देश बस्ती, पदुमनास पुन्नालाल दि पु स ३२५
- भारत देश महान् विनय निर्वाध कल्याणमल १२५
- मन बनवास दिया सा जोशी दाति राधाकृष्ण
मेरी जापान यात्रा तुकडोजी महाराज श्रीगुरुदेव १२५
- सब से बडी कहानी का नदकिशोर देवधु १००
- श्लेठ कहानिया बाजपेयी, भगवतीप्रसाद प्रत्युप ४५०
- मेरे अत समय का आश्रम श्रीमद्भगवद्गीता परमानंद, भाई
भा सा सदन ५००
- प्रपने कपिलदेवनारायण सिंह तुहद वि प्र कु ७५०
- देखें कुछ देनो को भलक मुबहाण्यम, सी चदामामा
१५०
- प्रिय निवय बस्ती पदुमलाल पुन्नालाल लोकपेता
६००
- हृदय देव उपाध्याय, हरिभाज सस्ता ३००
- मेवाड गौरव गाथा रघुबीरधारण देहाती ३००
- परिचय बाजपेयी, विपिनविहारी सा सस्थान, राज ०५०
- राज्य स केंद्रीय शक्तिपा गहलोत जगदीशसिंह स २
हि सा म, जो ३००
- मेवाडो क्हावनें जोशी लक्ष्मीलाल, सपा सा सस्थान, राज
२०० (भत्रा)
- में श्रागिरस ऋतुराज हि सा प्र, प्र
- और तुम भूषण बनमाली नई सदी प्र ५००
- कैसे लेखक बना भा परिपद् ५००
- गीत सुनाता जाऊंगा दिवाकर, बल्लभेश प्रगति पथ
५००
- बाबा नेहरू शंकर सुल्तानपुरी भा ग्रथमाला
- चूनाब सङ्गा शर्मा, एल के सा नि, ब
- मेने सिल पडुचोई मिश्र, विद्यानिवात. राजकमल ५००
- में मिनिस्टर का वेडा हू प्रप्रवाल, पदमा कि महल २००
- हार गया जुत्सी, हरी नवयुग धयागार ३७५
- मैथिली निवधावली भा बालगोविंद भा भवन ४००
- मैथिलीशारण गुप्त और बल्लातोल का तुलनात्मक अध्ययन
भागि, के एस नेशनल २०००
- मैथिली साहित्य का इतिहास भा, बालगोविंद भा भवन २५०
- मैली चादनी नदा, गुलशन हिंद पा (पा) १००
- मोटरकार इन्डुस्त्र हृणानंद देहाती १५००
- मोटपाय कम करने के उपाय त्रिणाठी, प्रमुनारायण स २
श्यामसुंदर १००
- मोती का पेठ बिस्नोई, हरमरनसिंह एमके १००
- धमके धूल म शंकर सुल्तानपुरी सा कें, दि २५०
- मोतीलाल नरहू जोशी रमेरा सायना सदन २००
- मोहन की बगी ब्रजमोहन चौलवा ०७५
- मोत की छाया बायल, कानन हिंद पा (पा) १००
- की माद म धनराजपुरी, महत हिंद पा (पा) १००

भौत के पत्र में चतुरसेन, आचार्य हि प्रचा पु (पा) १००
 —के मुह म रामा सरनामसिद्ध 'अरण' कल्याणमल ३५०
 भौतिक अर्थशास्त्र अग्रवाल एम सी नवयुग सा
 ७००
 भौतिक रसायन गणित खना जयकृष्ण राजहंस प्र म
 २५०
 भौतिकी के फूल प्रिमा राजन नीताम ३२५

य

यज्ञशास्त्र रामचरणप्रसाद भा भवन
 यज्ञवेद स्वाध्याय सुधम अथर १००, स्थूल अक्षर ३००
 यज्ञवेद तैत्तिरीय संहिता स्वाध्याय १०००
 यज्ञवेद मैत्रायणीयमरुणकम स्वाध्याय ० ७५
 यज्ञवेद वा स पादसूची स्वाध्याय १५०
 यज्ञवेद (वाजसनेयी) संहिता स्वाध्याय ५००
 यज्ञवेद सर्वानुक्रम सूत्रम स्वाध्याय १५०
 यज्ञ का घोडा व घोडो की आला व्ययितहृदय जबलपुर प्र
 गु १००
 यज्ञपाल के उपन्यास शर्मा स्नेहलता प्र प्रतिष्ठान
 ४००
 यज्ञवत ब्रह्मभूषण कृष्णा ब्र ५५०
 यज्ञोपवा एक समीक्षा वामुदेवनदनप्रसाद भा भवन
 ४५०
 यह भविष्यत्कालीय लोग श्रीवास्तव हिमागु दि पु स
 ५००
 —धरती है बलिदान की भा, अयोध्याप्रसाद धधमाला
 २००
 —पत्निया पाराशर शिरजीलाज दि पू स ५००
 —धस्ती है माहीदी की ठाकुर, रवीन्द्रनाथ मजु ३५०
 —मेरी कविताए हैं ठाकुर रवींद्र कि महल
 २५०
 —सब झूठ है मुहदत, उमेरा ५००
 —सब झूठ है गुरुदास स्टार (पा) २००
 यही सब है मधुकर गगाधर राजकमल ३००
 —हमारे गांव है धरत मुन्तानपुरी नवनेलना १५०
 बाणवन्धव-मन्त्रि अनामद शारकी रोहनकल ४००
 यातना का मूर्ध पुराण नैन, वीरेंद्रकुमार लवणीना प्र एव
 हि ध र ५००
 यातायात के सिद्धान्त एवं समस्याए मकमेना, एम सी सद्यो
 स रस्तोमी १०००
 —गिद्वान्त एवं व्यवहार मरन अध्येयन सखना,
 अक्षयशिराजी राजहंस प्र म ८००
 यात्रा का आनंद वाजसकर, काजा दि राष्ट्र ७५०
 यात्री का परिचय श्रीवास्तव, हिमागु राजधानी ५००
 यात्रो के पहाड जगदीशचंद्र नभानन ३००

यात्रो के वातायन त्रिपाठी, प्रेम आनंद प्र ३००
 युगकवि तुलसी वर्मा, सत्यकाम भा प्र, दि
 —दिनकर श्रीवास्तव मुरलीधर वि थ कु १०००
 युग गायन अलख १००
 युगकवि रामगोपाल परदेशी, सया प्रगति प्र ५००
 युग पुरुष की विदा पर (नेहरू स्मारिका) कविता ३००
 —पुरुष नेहरू गोविन्ददास, सठ राजपाल २००
 —पुरुष राम गुरुदत्त मा सा सदन २००
 —युग की कहानी रणदिवे, एम बी सशो स २ विविध
 १२५
 —युगो में दिल्ली वर्मा, निर्भयस्वरूप शायं बुक
 —बीणा अलख १००
 —बीणा मिथ, विद्यावती अलख
 युगवाणी (सुमित्रानंदन पंत) एक अध्येयन पाठ्य रामेश्वर-
 रमेरा हि सा भ ३५०
 युग सगम चंद्रशेखरन नायर, एन श्रीनिदेनन १५०
 —सदेश अलख १००
 युगायन अग्रवाल, पनप्याम अशुर्व
 युद्ध एक मोर्चे अनेक गुप्त, टेकचंद्र प्रतिभा प्र १००
 —श्रीर शांति के नेता लाल बहादुर हेमराज 'निर्मम'
 कमल प्र, अ ३८०
 —के गीत शर्मा, वीरेंद्र विजय प्र, मे ३००
 —के मोर्चे पर धीर, केवल हिंदू पा (पा) १००
 —के साधन श्रीर साध्य कुलश्रेष्ठ, रमेराबद रा
 वेनीप्रनाद ८००
 युनानी निश्चय का नाम बोपिया मछाराम मोतीलाल
 ५००
 यूगोस्लाविया की कहानी अक्षय, राजेंद्र बर्बई प्र २५०
 यूरोप का आधुनिक इतिहास मजूमदार, पी के कि महल
 ७५०
 —का इतिहास त्यागी, महाश्रीरामिह राजीव मे ५०० से
 ६५०
 —का इतिहास सरल अध्येयन दासगुप्ता, रामचरण
 राजहंस प्र म ५५०
 —के निर्माता माहू, केरिगम चारनो प्रमान युव २५०
 — सरल अध्येयन गुप्ता ईश्वरीप्रनाद राजहंस प्र म
 ५५०
 ये आनंदाने महर राधागुप्ता ७००
 ये कथा सत्य सत्य, अरुणेंद्र चंद्र मूर्ध प्र न १००
 ये चरने वालिया कुदित सुजीष पा (पा) २००
 ये मेरी कविताए हैं तथा अर्थ रचनाए —कबीर रवींद्र
 गोविंदगुण गोपा वि महल ३००
 ये सहजहात पड़ जैन श्रीचंद्र विद्याधर २००
 ये लोग आनंद गुरुदत्त सगो म २ आनंद प्र ४००
 ये सब के वगु जैन श्रीचंद्र विद्याधर १५०
 ये मरने, ये प्रत रणजीत नवयुग प्र ५००
 ये मान धीर हृद वर्मा, अमराजचरण राधागुप्ता
 योग विनिरता अनिदेश विद्याधर चौधवा ३५०

योग-तरंग विद्यानन्द विदेह, स्वामी वेद सत्यान ० २०
 —दशम दर्शनानन्द स्वामी, टीका देहाती ६००
 —दशम संपूर्णनिब हि समि ६००
 —प्रवाह वडम्बाल पीतावरदती साकेत ३५०
 —मनाशिवान भावेय, शांतिप्रवाण इन्दुरेशानल स्टैंडड
 —वासिष्ठ संपूर्ण १ नित्द म ६ प्रकरण सहित, सरल भाषा
 म शर्मा, रत्नीराम, मनु देहाती बका साइड, मोटे ब्रह्मर
 २२००, पहेल एडिशन २५००
 —काशियु कथा रघुनाथसिंह हि प्रचा पु १२००
 —विद्योय शकर राजकमल ६००
 —समन्वय घोष, शरद्विद भा २ ख १ श्रीशरद्विद
 ५००
 योगयोग ठाकुर, रवीन्द्रनाथ हि प्रचा पु (पा) १००
 योगी का सोड्डकाय सत्यभूषण योगी गोविंदराम ५२५
 —की मधुपासा सत्यभूषण योगी गोविंदराम
 योरोपीय उपन्यास साहित्य व्यास, विनोदशकर पु म वा
 २००
 —साहित्य व्यास विनोदशकर पु म, वा २००
 —साहित्यकार व्यास, विनोदशकर पु म, वा ५००
 योग मनोविचार, कारण और निवारण गुप्त, सुरेंद्रनाथ
 साकेत २००
 योग की भाषी सुई, विपरे हिंद पा (पा) २००
 योग-जग और व्यय व्यास, गोपालप्रसाद भा सा म ५००
 —विरयी कविताए गुप्ता, दाता कल्याणमल १००
 —विरयी कहानिया विष्णुदत्त 'विक्रम भास्काराम' १५०
 योगभूमि प्रेमचंद सरस्व प्रे ससिप्त ६००
 —(प्रमचंद) एक ग्रन्थयन चौधरी, रामसेखावन हि सा
 म २५०
 योगच ज्ञानकुमारी प्रवीत परिपद २००
 योगच धीहृण्यदास मनु हि समि ११५०
 —मौर नाटक की भूमिका लक्ष्मीनारायण लाल मेनान
 १०००
 योगनरी विधा, राट्टा नवयुग प्रकाश १७५
 रजना द्वारवाप्रसाद एमके २००
 रजत राधावल्लभ धवठरि ० २५
 रजनीय भडारी गणपतिचंद्र कि घर, जो ३५०
 रजनाय रपक मतसाराद, कवि कि घर, जो १५०
 रघुनाथ कविशात या भ्रातृदमी ६५०
 रघुवीर थडारसिंह कालेतर बाबा इन्दुरेशानल एकेडेमी
 भाऊ इंडियन कल्चर नई दिल्ली
 रचनात्मक कहानिया गोत्रम, कमला भाय बुक् २००
 —राजनीति बजाज, रामरुपा, सया सस्ता ५००
 रजती सपथ गिबमूनि स्वामी, एम भार कर्नाटक
 प्राणीय ००
 रजनीगथा राम, विवेकी भादाय पु म २००
 रजनीगथा वैरागी धनत्रय वेदान्त ३००
 रजिया का शाही दम्तर साह रजिया मुल्ताना देहाती
 २५०

रण-जागरण जीती, गणेशचंद्र स २ चिन्मय ५००
 —बाकुर व्यक्तित्वम भा सा म १५०
 रणमल छद मुलबद 'प्राणश' भा विद्या म
 रण मे उत्तरे वीर सपूत हेमराज 'निमम कमल प्र, ज
 ३००
 रतीषी त्रिवेणी चंद्रभूषण रमई काका साकेत १२५
 रत्नगर्भ भारतभूमि भगवानसिंह राजपाल १५०
 रत्नविद्यान पुरुषोत्तमदास स्वामी कि महल १५००
 रत्नाकर की साहित्य-साधना पाठक दानवहाडुर 'वर
 विनोद ६००
 रत्नावली और उनका काव्य भारद्वाज, रामदत्त गंगा
 रथचक्र पेंडसे श्री ना राजपाल ६००
 रथ से गिरी बासुरी श्रीकाश्वत हिराया भा प्र वि ५५०
 रथ इक्षुडी कालीचरण देहाती ६००
 रथ्या धनुतराय सर्जना ५००
 रथय परीक्ष गा मदनलाल कल्याणमल १२५
 रविंद्र पय कथा ठाकुर, रवीन्द्रनाथ राज सा भका
 १५०
 रविशकर की वाता ठाकुर, रवीन्द्रनाथ राज सा भका
 ३२५
 रवींद्रगीताज्ञसिंह कैलाश कल्पित, मनु प्रयाग प्र २००
 रवीन्द्रनाथ शिवाय नद प्र १०००
 —की श्रेष्ठ कहानिया ठाकुर, रवीन्द्रनाथ हिंद पा (पा)
 २००
 —टींगी जीवन और रचना जोहर, सुरेंद्रसिंह सा सगम,
 सु ५००
 रवींद्र निबंध माल धनुतराय मनु सजना १२००
 —भारती रामयुग बेनीपुरी बेनीपुरी ५००
 —रत्नाकर ठाकुर रवीन्द्रनाथ भा विद्या मवन, व
 रत्निरापी (दिनकर) एक ग्रन्थयन शर्मा योगेंद्रनाथ हि
 सा म संपूर्ण ५००, ससिप्त २००
 रस भलकार छद सिनहा, हरेंद्रप्रताप कैलाश प्र २००
 रसलाल का ममर काव्य निध, दुर्गासाकर नवयुग प्रकाश
 २००
 —की काव्य-जला सीताधर 'विवोनी' दोष प्र २५०
 —रघुवाली भाटी, देसायसिंह भद्रोक प्र ५००
 —दोहावली मुरलीधर सिंह देहाती ० ७५
 —रत्नावली याज्ञिक, नबानीसाकर, सया हि सा सम्भे
 रसगुला चतुर्वेद विद्याचल २२५
 रसबिकला चर्जी प्रभाकर खोखा ६००
 रस छद भलकार शर्मा, इन्दुदेव भद्रोक प्र १५०
 —मेरु घाम कुचधेष्ट, वद रामप्रसाद ०-७५
 रसमिन्न क्रियात्मक रसगालन नानी अंबकनाथ प रसेयनाथ
 शर्मा जो १७, निजाम कालोमी का हि वि वि,
 वाराणसी ५००
 रस रसमय गुणिका मूलन गंग, देवीगणर धवठरि ० १५
 रसराज मतोदधि, संपूर्ण ५ भा वेदक देहाती १०००
 रसलीन प्रयावली पाठय, सुधाकर, सया हि प्रचा पु

- रस विमल त्रिपाठी राममूर्ति विद्या म, वा ८००
 —शास्त्र प्रौर साहित्य समीक्षा भारी, कृष्णदेव, भारतेंदु
 भवन ६००
 रससिद्ध रामनाथ कविदा शर्मा, मनोहर राज सा समि
 रसायन परिचय त्यागी, पद्मसिंह स २ राजीव, मे ३ २५
 —शास्त्र सारस्वत एष सी शिवलाल ५००
 —शास्त्र मे क्या क्यों, कैसे? भ्रमिहोत्री, डी डी २ भा
 राजीव मे ० ७५ (प्र) संपूर्ण १ २५
 —शास्त्र म क्यों प्रौर कैसे खन्ना, जयकृष्ण राजहस प्र म
 १ ५०
 —शास्त्र मे क्यों प्रौर कैसे रस्तोगी, प्रार वी राजहस प्र
 म १ २५
 —शास्त्र सरल अध्ययन खन्ना, जयकृष्ण २ भा राजहस
 प्र म ४ १२ (प्र)
 —सहिता, भाषा टीका सहित चवतरि १००
 रसायनसार श्यामसुंदराचार्य स ४ श्यामसुंदर ८००
 रसिकप्रिया नेशबदास राष्ट्रीय स्रवहालय १०००
 रहस्यमय विद्वद् भ्रमाल, धनतलधमी, धनु केंद्रीय हि २ ८०
 रहस्यवाद त्रिपाठी, राममूर्ति राजकमल ५००
 रहीम की राष्ट्रीयता सोलकी, देवेंद्रप्रतापसिंह 'धनुजानुज'
 कृष्णा प्र १०००
 राका गिरिजादयाल 'गिरीश' सा मडल
 रागेय राघव प्रौर उनका उपन्यास साहित्य प्रानद, सुरेंद्र
 प्रानद प्र १०००
 राई प्रौर पर्वत रागेय राघव राजपाल
 राकेट की कहानी कपूर, श्यामनारायण सा नि, वा
 राक प्रौर भगवारे नदा, गुलशन स्टार (पा) २००
 —प्रौर प्राण कलास कल्पित प्रयाग प्र १००
 राग परिचय श्रीवास्तव हरिश्चंद्र संगीत स प्र
 भा १ १७२ भा २ २० भा ३ २५०,
 भा ४ ५००
 —प्रवीण शर्मा, गणेशप्रसाद कला प्र ६ ५००
 राजकीय धर्म प्रबंध के सिद्धांत विजेयेंद्रपाल सिंह नवयुग सा
 स, प्रा ७ ५०
 राजनीय के सिद्धांत सुशीलचंद्र सिंह सामी ५००
 —के सिद्धांत प्रौर अध्ययन राय कृष्णा चौमदा ५००
 राजनीति सुशीलचंद्र सिंह साथी १०००
 राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत शर्मा, व्रजमोहन हि समि
 ७००
 —निबंध त्यागी, महावीर सिंह राजीव मे ७ ५०
 —निबंध भाषिया, वी प्रार राजहस प्र म
 —निबंध वर्मा, के एन सा २ रस्तोगी
 —विचारों का इतिहास त्यागी महावीरसिंह भा १
 राजीव, म ६ ५०
 —विचारों का इतिहास त्यागी, महावीरसिंह भा २
 राजीव, मे ७००
 —विचारों का इतिहास सरल अध्ययन मितन, नेमियरण
 भा १-२. राजहस प्र म

- राजनीति के मूल तत्त्व लास्की, हेरोल्ड जे एमाइड २१००
 —चित्तम का इतिहास मैटिल लक्ष्मी ना १५००
 —मे निबंध सुशीलचंद्र सिंह साथी
 —मे विभिन्नवाद सरल अध्ययन रस्तोगी, दयाप्रकाश
 राजहस प्र म ३००
 —विज्ञान के सिद्धांत सरल अध्ययन गर्ग, गणप्रसाद
 राजहस प्र म ३०० से ५००
 —विज्ञान - सरल अध्ययन राय, हरिहरप्रसाद कमल प्र
 —विज्ञान सरल अध्ययन वीरकेश्वरप्रसाद सिंह कमल
 प्र ३००
 —शास्त्र रस्तोगी दयाप्रकाश राजहस प्र म ७ ५०
 राजनीतिक भूगोल भूगोल ८००
 राजपुत्राने का इतिहास गहलोत, जगदीशसिंह भा ३ जयपुर
 व भलवर राज्य हि सा म, जो १५००
 राज भाषा हिंदी गोविंददास सेठ हि सा सम्मे
 राजवाडे लेख संग्रह जोशी, लक्ष्मण शास्त्री, सया शिवलाल
 १ २५०
 राजस्थान का वास्तविक पर्व, गणेश्वर भोभा, दीनदयाल,
 सया मुमल प्र
 —के कवि चतुर्वेदी, नद, सया राज सा प्रका १०००
 —के कवि सारस्वत, रावत, सया भा २. राज सा प्रका
 ३.७५
 —के कहानीकार भोभा, दीनदयाल, सया राज सा प्रका
 ३ ७५
 —के कहानीकार, हिंदी, महेंद्र, रामचरण राज सा प्रका
 ६००
 —के गद्य काव्यकार महेंद्र रामचरण, सया राज सा प्रका
 ६००
 —के नाटककार महेंद्र, रामचरण, सया राज सा प्रका
 ५.७५
 —के राजपूत महेश, माणोलाल नि पर जो ५००
 —के रीति रिवाज गहलोत मुखवीरसिंह रोशनलाल
 —टूंगरी मेन्सूफल जैन, हरिश्चंद्र साथी स राज
 पचायत प्र
 —पचायत, न्याय पचायत पचायत समिति एव त्रिणा परिषद्
 वृहत् कोड जैन हरिश्चंद्र राज पचायत प्र
 —प्रति के पन्द्रह वर्षे दयारा, भवरल स 'राज प्र, ज
 ८ ५०
 श्री मुनिवसिठी धर्मशास्त्र की रूप रेखा गर्ग, प्रानदरसरूप
 राजहस प्र म ६००
 —मे हिंदी के हस्तलिखित प्रयोगों की गोज मनारिया मोनी
 लाल, सया भा १ सा सत्यान, राज ३०० (प्रभा)
 —मे हिंदी के हस्तलिखित प्रयोगों की गोज नाहटा, प्रारचंद्र,
 सया भा २ ४ सा सत्यान राज भा २ १००,
 भा ४ ५००
 —मे हिंदी के हस्तलिखित प्रयोगों की गोज भन्नावर, उदयसिंह,
 सया भा ३ सा सत्यान राज ५०० (प्रभा)
 —रा लोकगीत सिवनी राज भाषा ५००

- राजस्थानी उमरखैयाम धर्मा, मनोहर, भनु राज भाषा
 —एककी भडापी, गणपतिचंद्र, सभा राज सा अफा ५ ७५
 —बैन सतो की साहित्य साधना कासलीवाल कस्तूरचंद
 जैन सा
 —बोहावली धर्मा, गिरिधारीनाल, सभा भा १ सा सस्थान,
 राज २ ५०
 —भाषा चाटुर्गा, सुनीतिकुमार सा सस्थान, राज २ ५०
 (प्रभा)
 —भील गीत धर्मा, गिरिधारीनाल, सभा भा २ ३ सा
 सस्थान, राज २ ५० (प्र.)
 —भीलो की कृतावर्त भील, फूलजी भाई, सभा सा सस्थान
 राज २ ५०
 —भीलो के लोकगीत भील, फूलजी भाई सभा भा १ सा
 सस्थान, राज २ ५०
 —मेघदूत. धर्मा, मनोहर, भनु राज भाषा
 —रवींद्र वाणी धर्मा, मनोहर, भनु राज सा समि
 —लोक-कथाएं भद्रवाल, गोविंद भा म
 —लोकगीत कमठान, गणप्रसाद सभा भा १ सा सस्थान
 राज २ ५०
 —लोकगीत चोपल, त्रिपतिह, सभा भा २ सा सस्थान,
 राज २ ५०
 —लोकगीत देवडा, हनुवतसिंह, सभा भा ३ सा सस्थान,
 राज २ ५०
 —लोकगीत ध्यास, मोहनदाल भा ४ सा सस्थान,
 राज २ ५०
 —लोकगीत शेखावत, सोभाग्यसिंह, सभा भा ५ सा सस्थान,
 राज २ ५०
 —लोकगीत ध्यास, मोहनदाल, सभा भा ६ सा सस्थान,
 राज २ ५०
 —लोक सङ्घटि की रूपरेखा 'गर्मा, मनोहर राज सा समि
 —वचनिकाएं धालमगाह सा राज. सा अफा ४ ७५
 —बार्ता नरोत्तमदास स्वामी, सभा भा १ सा सस्थान,
 राज २ ५०
 —बार्ता जगध्याय, भवानीकर, मरा भा २ सा सस्थान,
 राज २ ५०
 —बार्ता शेखावत, सोभाग्यसिंह, सभा भा ३, ४, ७ सा
 सस्थान, राज २ ५० (प्र.)
 —बार्ता शेखावत, सोभाग्यसिंह भा ५ सा सस्थान,
 राज २ ५०
 —बार्ता चूडान, लक्ष्मीकुमारी भा ६ सा सस्थान, राज
 ४ ००
 —वैलि साहित्य भानावत, नरेंद्र राज सा अफा २१ ००
 —व्याख्यान सातल, सीताराम कि घर जो ३ ००
 —साहित्य और सङ्घटि मनोहर प्रभाकर, मया घासा पति
 ५ ००
 —साहित्य कुछ प्रकृतिया भानावत, नरेंद्र वेदगल ६ ००
 —साहित्य-संग्रह राज पुरा म भा १ ३ ००, भा ३
 ५ ५०

- राजव एव रोजगार के सिद्धांत पाटनी, भार. एन सघो
 स २ राजीव, मे ३ ००
 —के सिद्धांत पाटनी भार एन राजीव, मे २ ५०
 राजहत द्विती निवच गोव, भार एन राजवह म म ३ ७५
 राजा निरवसिया कमलेश्वर भा ज्ञानपीठ ५ ००
 —वेडा कंते बनाए गुप्त, सुरेन्द्रनाथ साकेन १ ५०
 —भोज कालिदास देहाती ३ ५०
 राजीव हिंदी निवच सवसेना, भुवनेश्वरोचरण राजीव,
 मे ४ ००
 राज्य और उद्योग गर्मा, डी पी राजीव, मे ५ ००
 —की अर्थ व्यवस्था एव कर सिद्धांत प्रयोध्यासिंह हि समि
 ७ ५०
 —की दार्शनिक विचारधारा जोशी, के सी हि समि ६ ००
 राणा की पत्नी रागेय राधव हि शिक्षक १ ५०
 रात की बाहा ग अहमद अन्वास स्वादा राधाहृण्य
 ३ ५०
 राधा माधव रस सुधा गीत
 राबिन दां पुष्प की कहानिया राबिन दां पुष्प. नरेंद्र बरुती
 प्र ३ ५०
 राम उपासना रामहृण्यदास रतिक देहाती ५ ५०
 —की राति पूजा तथा त्रिरासा धर्मा, देवेंद्र इंद्र विनोद
 २ ५०
 रामकुमार धर्मा की नाट्यकला धर्मा, सुरेशकुमार लोकचेतना
 ५ ००
 रामचरित नवनीत दत्तनावाचार्य, स्वामी भा १ विज्ञान म
 ४ ५०
 रामचरितमानस त्रिपाठी, विजयानंद भा. ३ मोतीलाल
 ३ ० ००
 रामचरितमानस मिश्र, विद्वनायप्रसाद, सभा सर्वभारतीय
 ५ ००
 —प्रयोध्याकांड रामचंद्र शास्त्री मोतीलाल ४ ५०
 —रा तत्व-दर्शन श्रीसुकुमार लोह चेतना
 —रा तुलनात्मक अध्ययन सुवल, त्रिविकुमार अनुसंधान
 १ ५०
 —रा मनोदार्शनिक अध्ययन धर्मा, जगदीशप्रसाद कि महल.
 रामजम त्रि राट्ट
 रामजन्म धर्मा, जगदीश देहाती १ २५
 रामनरेश त्रिपाठी और उनका स्वल्प धर्मा, श्रीनिवास प्रतोक
 प्र २ ००
 रामप्रसाद त्रिभुवन महावीर श्रीभासक हरयाणा ० ७५
 राम बनवास धर्मा जगदीश देहाती १ २५
 —लवकुश मुद्दे धर्मा, जगदीश देहाती १ २५
 रामवचन द्विती 'भरविंद' जीवननमपिका दूध, विध्याचल
 सुमम ० ५०
 रामायण रागेय राधव स २ कि महल २ ५०
 रामायणवालीन सङ्घटि ध्यास, सातिकुमार नानुराम सस्था.
 ६ ००
 रामायण तुलसीहृष्ट जगन्नाथप्रसाद, टीका

रामायण वतर्जं रात्रेश्याम न्यादरसिंह वैचन देहाती ५ ५०
 —मजरी (सुदर काठ) सुकुल, श्यामविहारी 'तरल', टीका.
 सयो. स सा नि, का १ ७५
 रामायणी, लछमन सत् परोक्षा खेलगुताव सया आदिमजाति
 ६ ००
 रामायण त्रिवेदी बृजवाला भा १ देवायम (बालकाड)
 श्रीदेवी बृजवाला ५ ००
 रावी के किनारे जयत वाचस्पति राजपाल २ ५०
 —पार बलवतसिंह हिंद पा (पा) १ ००
 राष्ट्र और राज्य जैनेन्द्रकुमार पूर्वोदय ३ ००
 राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त और उनकी यथोधरा तीताराम
 'प्रभात' कमल प्र
 राष्ट्र का प्रहरी निरजननाथ आचार्य चिन्मय १ ५०
 —निर्माता सरदार पटेल चन्द्रशेखर शास्त्री स २ सोसायटी
 १ ० ००
 —नौका भजनावलि तुकडोजी महाराज श्रीगुरुदेव ० ७५
 राष्ट्रपति राधाकृष्णन् भवनदींद्रकुमार विद्यालकार राजपाल
 ४ ००
 —राधाकृष्णन. भवनदींद्रकुमार विद्यालकार हिंद पा (पा)
 १ ००
 राष्ट्रभारती चौखवा १ ५०
 राष्ट्रभाषा-भाडोलन नेने, गोपाल परशुराम महाराष्ट्र राष्ट्र
 २ ५०
 —की शिक्षा मुकर्जी, धीधरनाथ स २ आचार्य बुक
 ८ ००
 —की समस्या शर्मा, रामविलास प्रसर १२ ००
 —रजत जयंती व्र य उरुन प्राचीय राष्ट्रभाषा प्रचार समी
 उत्कल प्र २०.००
 —विचार संगह जोगलेकर, न वि ससो स ४.
 प्रनाथ
 —शिक्षण राजपन नायर एस हिं सा भ ३ ००
 —सरल हिंदी ध्यानरण शर्मा, वेदनाथ चौखवा
 १ २५
 —हिंदी, समस्यःए और ममाधान शर्मा, देवेंद्रनाथ
 राजवमस ६ ५०
 राष्ट्र राग नारदमुनि विविध हिं सा परि, पी ० २५
 राष्ट्रीय प्राल्हा, पौराणिक कात्र से चीनी आक्रमण तक
 भवनशी, नन्दुभाद्र. स २ श्री प्रभाकर २ ००
 —मजनावलि तुकडोजी महाराज श्रीगुरुदेव १ ५०
 —समस्या में साहित्य दोनानाथ 'गरण' रि व कु ३ ००
 राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निवय वाजदेवी, नन्दधुन्दरे विद्या
 म, भा १ ० ००
 रासवाध्यायी और भवरगीत (नदवात) विद्वन्मर 'अरण'
 भनो' प्र ३ ५०
 रासायनिक गणित पर हून हूण प्ररन रस्तोगी, धार बी.
 राजहम प्र म १ २५
 रासायनिक परिभाषाए तथा प्राग्नि समीकरण सेवेरवरगिह
 भा भवन १ ७५

रासो साहित्य और पृथ्वीराज-रासो : सक्षिप्त परिचय जरो-
 त्तमदास स्वामी भा विद्या म ७.००
 राह का परचर गुप्त, विद्याचलप्रसाद प्रभात प्र.
 राहगीर के गीत राहगीर राहगीर प्र ३ ५०
 राही के सपने वर्मा राजनारायण राज प्र
 राही अलग-अलग शर्मा, यादवेंद्र 'चंद्र' राष्ट्र. प्र, दि
 ४ ५०
 रिमन्निम सराफ, गोपालकृष्ण हिं प्रचा पु
 रिसर्वं प्राफ टायलेट शास्त्र भगवतराय देहाती १५ ००
 रीतिकाम के प्रमुख प्रबंध काव्य, स १ ७०० १६ ०० वि
 इद्रपालसिंह 'इंद्र' विनोद १५ ००
 रीतिकालीन अलकार साहित्य का शास्त्रीय विवेचन शर्मा,
 श्रीमप्रनासा हिं सा स २५ ००
 रीतिगुणोक्त काव्य वर्मा, कृष्णचंद्र. पु म, इ १५ ००
 रककर सोचती हू बक्षी, रमेस हिं प्रचा पु (पा)
 १ ००
 रदत प्रगीत काव्यालकार चौधरी, सत्यदेव चामुदेव १८ ००
 रघुपे का भवभूत्यन और उसका प्रभाव भट्टाचार्य, पी सी ...
 नवभारती ६ ००
 रघुपे पानी की बूँदें टउन, प्रतापनारायण विवेक ४ ००
 रघुपेया चतुर्वेदी भगवतराय विनोद १ ५०
 रघुमणी हरण सायाजी भुला राज प्राच्यविद्या ३ ५०
 रघु रानी मिथ, नरेंद्र तरंगिणी ३ ५०
 रूप की धूप कैलास कल्पित प्रयाग प्र
 —के बादल शोभा, कृष्णदत्त पेहगसिंह चौहान (कु)
 आउवा (पाती) १ २५
 रूपकी की भाषा मिथ रामगोपाल हिं सा सम्मे. ३ ००
 रूपतरंगिणी चन्द्रधर मोतीलाल
 रूपदविका हालदार, प्रसितकुमार चद्रलोक १ ० ००
 रूप महन स तथा हिंदी श्रीवास्तव, दलराम मोतीलाल
 ६ ००
 रूपमती नदा, गुलशन श्रोत्रक पा (पा) २ ००
 रूप रतिम शर्मा, गजानंद रा वेनीप्रसाद ३ ००
 रूप व फ्राम का सविधान सरल अक्षयन कमल प्र
 रूसी लोक कथाए वर्मा, घुमा हिं भवन २ ००
 रूसी साहित्य का इतिहास सुकुल, केसरीनारायण हिं गमि
 ७ ००
 रूसी की तीन दाताएँ मार्गव, मोतीराम हिं लणि ४ ००
 रंगने वाले जीव सुरेगसिंह मरता ३ ००
 रेखाए कृष्ण जनगेवी, मना मूर्ध प्र म १.२५
 —सिंह गई सम्भेना, बीरेंद्र सा नि, व
 रेहार परिचय विन्देश्वरदत्तमाल हिं गमि ५.५०
 रेडियो की प्रथम पुस्तक रमेशचंद्र विजय
 —के लिए वैसे निलें धमरनाथ चचल नवयुग व पु
 ३ ००
 —ट्रांजिस्टर पाइड विजय, धार गो देहाती १ ० ५०
 —गान्धे बुक नरेंद्रनाथ. देहाती ६ ००
 —त्रिजिह्वन नरेंद्रनाथ देहाती १ ६ ५०

रेडियो व ट्रांजिस्टर सवितन विजय, भार सी देहाती
१५ ७५

—सुन्दरेश खडेलवाल, गणराजलाल देहाती १ २५

—सवितन रमेशचन्द्र विजय हि समि ८ ५०

रेल की पटरिया तिवारी, रामेश्वरनाथ धर्वना प्र, भा
३ ००

रेवती शर्मा, वृणचन्द्र 'विनय' हि प्रभा पु ५ ००

रेवमी डोरे कुरंसी, जगदीश परिमल ३ ००

रोहि परिव्य सन्ना, दिवनाथ चौखवा १२ ७५

रोहि परिष्ठा विधि शर्मा प्रियव्रत चौखवा ६ ००

—रोगविमर्श द्विवेदी, रामनाथ चौखवा २ ००

—परीक्षा सन्ना, दिवनाथ चौखवा ६ ००

रोन्ने के दुकडे बरख, प्रभादुमार नवयुग प्र

रोती राह सिसकते तारे मुकल, कमल नय्यर प्र ५ ३०

रो पडे तुम धाधिकर गिरिक १ २५

रोमदाब उर्वेदनाथ अरक हिंद पा (पा) १ ००

रोमियो जूलियट मुकल, धनुनलाल, रूपा उमेरा २ ००

रोसनी का रथ तोयल जुगमरि हि सा प्र, भा २ ००

—के घेरे गुप्त, ऐरीलाल अजना ३ ००

ल

लका काड दुर्गाशकरप्रसाद सिंह 'नाय' नव सा म

लकी लडकी देवी, राजेंद्रसिंह हिंद पा (पा) १ ००

लक्षणा भोर उत्तना हिरी काश्य मे प्रसार. त्रिपाठी, राममूर्ति
ना प्र सभा

लक्ष्मण मूर्छा शर्मा, जगदीश देहाती १ २५

लक्ष्मीनाथपण मिथ के सामाजिक नाटक चह्दा, भारतनूपण.
नेशनल ५ ००

लखपति डे, सतीश देहाती १ ३०

लक्ष्मी रानी वैशारनाथ साभ भा भवन २ ५०

लक्ष्मी के लिए सुविधाए क्या भोर कहा प्र विभाग
सधुनर हिंदी सन्देसागर त्रिपाठी, कल्याणपति, सभा ना प्र
सभा ६ ००

लक्ष्मणरायरी भाष्य कपूर, रामचंद्र भोगीलाल ८ ००

लक्ष्मणरायरी गोरीशकर सिंह विश्वविद्यालय १ ५०

—हिंदी सन्देसागर त्रिपाठी, कल्याणपति, सभा ना प्र सभा
१ ५०

लखे मूरमा धार जी उर्फ गीगले का बाबू भा १ दागी,

गणपतलाल दत्तचयु २ ७५

लखार डे, सतीश देहाती १ ५०

लखार बैरागी, बालकवि सुबोध पा (पा) १ ००

लखित कलाए भोर मनुष्य एडमैन्. दरबिन नेशनल ५ ००

—निबंध विश्वनाथसिंह स ३ धर्वना प्र, भा
३ ००

लखी धनुस सतार, बाबो विश्वविद्यालय २ ००

। लखण परीसा भा, एच के भा भवन

लहर भोर लपटें शर्मा, सतीशबहादुर, भगोक प्र, फ ३ ००

—की बरसा तुकडोजी महाराज श्रीगुरुदेव १ ५०

—मीमासा चावला स्वदेश कला म १ ५०

लहरी का सतार टडन, श्रीप्रकाश बाल सा. म १ २५

—की दोड ताजवर सामरी नवयुग प्र ५ ००

लहू का रग एक है राकर मुलवानपुरी सा केंद्र, दि. ३ ५०

—पुकारेया गिरिराजकिशोर सभा नवभारती प्र ३ ००

लाहो इन्डस्ट्री कालीचरण देहाती ६ ००

—व डाइवलीनिंग कालीचरण देहाती ५ ५०

लागत लेखा मुकल, एस एम सती न ५ नवयुग सा स,
भा ८ ००

लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी दि पु स ३ ००

—घरती ध्रुवतराय नजना २ ५०

लालबहादुर शास्त्री भविनारी, महावीर हिंद पा १ ००

—शास्त्री जितेंद्रप्रसाद सिंह सभा प्रगति प्र ३ ००

—शास्त्री श्यामल हृदय रामप्रसाद ३ ५०

—शास्त्री सहल, वृष्णविहारी, सभा विमय २ ५ ००

लाल हवेली सिवानी विश्वविद्यालय ४ ००

लाला लालचतराय रामनाथ सुमन साधना सदन ५ ५०

लाले का फूल सलाहजहीन, गाबो विश्वविद्यालय ३ ००

लिंगानुशासनवर्ण शर्मा, मुकुंद मोतीलाल १२ ००

लिपिका बलरामदत्त स्वास्थ्य सतिता ० ६२

लिफाया देखकर, वैयक्तिक निबंध श्रीवास्तव, शंलेंद्रनाथ
वि श कु ३ ००

लूणिया जाति निणय गौड, भीमदत्त शर्मा 'विकल' हिंदू
धर्म ६ ५०

लेहोज वाडी मेकर्स ब्रगंसी, फारुक देहाती २ ५०

लेन देन चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र हिंद पा (पा) १ ००

लोक भयंशास्त्र पाटनी आर एल राजीव, मे ७ ००

—धर्मशास्त्र विजयेंद्रपालसिंह नवयुग सा स, भा ११ २५

—धर्मशास्त्र सरल धर्मयन महेश्वरी, एच पी. राजहंस
प्र म ७ ५०

—श्रीर परलोक सुधार न्यादरसिंह 'विचैत' देहाती १ ३५

—क्यापी के कुछ रूब ततु सहल, वन्हेयालाल कि महल
५ ००

—देव नेहरू रामधारीसिंह 'दिनकर' उदयाचल ५ ००

—नाटक भारतीय प्रौढ शिक्षा सभ भा प्रौढ ३ ००

—परलोक गुरुदत्त भा सा सदन ५ ००

—प्रशासन भवस्थी, भमरेश्वर लक्ष्मी ना

—प्रशासन पत्र, हरमोबिंद सती स ३ राजीव, मे ६ ५०

—प्रशासन महेंद्रप्रसादसिंह भा भवन १ ० ००

—प्रशासन सरल धर्मयन. नाटिया, श्री आर राजहंस
प्र म

लोचप्रिय कहानियां बाबूपेयी, भगवतीप्रसाद प्रबोर ५ ००

—रवाइया. राममोनाल परदेसी, सभा प्रगति प्र ५ ००

लोचन ट्रांजिस्टर रमेशचन्द्र विजय देहाती ५ ५०

—ट्रांजिस्टर रिस्कीबर देहाती ८ २५

लोकवित्त पाटनी, धार एल राजीव, मे ६००
 —के सिद्धांत डाल्टन एवाइड ६००
 — सरल अध्ययन महेस्वरी एच पी राजहंस प्र म ६२५
 लोकोक्तिया ध्यानसिंह कुमार सज ३००
 लोग गिरिराज किशोर घोरा ५५०
 लोभामुद्रा मुषी कहेयालाल मार्णिकलाल सुबोध पा
 (पा) १००
 लोह दुर्ग गुप्त राजेश देहाती ३५०
 वदिता वर्मा सुरेंद्रनाथ नेशनल २००
 लदे मातरम कल्याण म २००
 —मातरम् ठाकुर रवींद्रनाथ मजु ७००
 लक्ष्मी देवायें शर्मा धर्मेश नवयुग प्र कु ५००
 लज्जिका भाषा श्री साहित्य साही श्रीरंग जवापी २००
 लतन की आबरू अग्निहोत्री ज्ञानदेव उमेश २५०
 —हमारा श्रीकृष्ण सरल जन कल्याण २००
 लघु या श्रित्ता भैरा, अनिलचंद्र पारिजात प्र सा
 जन के लून लाल केलुचिन्म कारती श्रमाल कुक ३००
 लक्ष्मिपति धी निर्माण कालीचरण देहाती ८२५
 —शास्त्र विमल शांति डी राजहंस प्र म ३७५
 —शास्त्र सरल अध्ययन विमल, शांति डी राजहंस प्र म
 ५२५
 लक्ष्मीपति गाइड देहाती ५५०
 —टैक्नोलोजी नरेंद्रनाथ देहाती २५५०
 —प्रीतिवत्स कालीचरण देहाती १२००
 लक्ष्मी की रानी गुप्त राजेश देहाती ३००
 लक्ष्मी माधवन भानुदासकर अमरवति ८००
 लक्ष्मीपति मटियानी, वीलेस हिंद पा (पा) १००
 लक्ष्मी भूगोल भूगोल १२५
 लक्ष्मी नहा सा शादी सुभगलप्रकाश भा ज्ञानपीठ ६००
 —फिर प्राई प्रमोदराजा रायगथी २२५
 —शिल्पी भा दुर्गाशंकरप्रसादसिंह नाम नव सा म १२५
 लक्ष्मीपति गुप्त युग मजूमदार भार सी मोतीलाल
 —राजवश का इतिहास तथा अभिलेख मिरासी, वासुदेव
 विष्णु तारा
 लक्ष्मीपति इतिहास वर्मा ईश्वरप्रसाद अनिल प्र म
 कचा बली नुकडोजी महाराज श्रीगुरुदेव १००
 लक्ष्मीपति अध्ययन गण रतनप्रकाश राजहंस प्र म ४५०
 —प्रकाशकी रूप रेखा गर्ग, आनंदलक्ष्मण राजहंस
 प्र म ६००
 —भूगोल सुरेंद्रनाथ भा भवन ५००
 —निष्ठात प्रबंधन हि प्रभा पु ३७५
 लक्ष्मीपति कायमूत्र अतिदेव विद्यादेवराज देहाती ७५०
 लक्ष्मीपति श्रोवास्तव हरिचंद्र संगीत स प्र २५०
 लक्ष्मीपति साहू, भवरलाल राज सा प्रभा ५५०
 लक्ष्मीपति विद्यापुस्तकनम् शर्मा वेदवती, तथा भा प्राच्य
 २००
 लक्ष्मीपति कल्याण म १००
 लक्ष्मीपति वादन प्रकाशनारायण नना प्र, ६२००

लक्ष्मीपति गिरपतारी किन्नर तौसबी हिंद पा. (पा) १००
 लक्ष्मीपति रूप ** आत्माराम १५०
 लक्ष्मीपति हेस्टिंग्स का मुकदमा बर्क, एडमंड आदर्श हि २०००
 लक्ष्मीपति मास्टर दास जे सी देहाती २५०
 लक्ष्मीपति श्री तुलसी साहित्यिक मूल्यांकन अक्षयल,
 रामप्रकाश प्र प्रतिष्ठान २०००
 लक्ष्मीपति रामायण कोश राय, रामकुमार चौखवा २०००
 लक्ष्मीपति के अकुर टडन प्रतापनारायण सा केंद्र, दि ३५०
 लक्ष्मीपति वास्तुकार धर्मिय बंध विद्याकर मिस्त्री, लक्ष्मीप्रसाद 'रमा'
 हि साहित्यालय ०५०
 लक्ष्मीपति बानारस बडेगुरु भा भाषा १२५
 लक्ष्मीपति विद्यालय शिवमगलसिंह 'मुमन' आत्माराम ४००
 लक्ष्मीपति विकास श्री सर्वोदय पाडे विद्यासागर सा सयम, ग्वा
 २५०
 —का प्रकाश विपाठी, भिवानीमोक्ष साकेत १५०
 —गीत चौहान 'प्रेमी' प्रेमी प्र म १००
 लक्ष्मीपति विद्यासागर बाल मनोविज्ञान रामबालेश्वर सिंह मोतीलाल
 ५५०
 लक्ष्मीपति विदुस रेखाए घुबले चित्र भटनागर, महेन्द्र वृष्णा प्र ३००
 लक्ष्मीपति विजय कला सरल अध्ययन सहाय, बी कमल प्र १२५
 लक्ष्मीपति विख्यात भाषिष्कारक तथा उनके भाषिष्कार पेंड, पलेश्वर
 राजपाल २००
 लक्ष्मीपति विचार और मूल्यांकन, कपिल भाचार्य वि प्र मु ५५०
 —श्रीर विवेचन त्रिवेदी, विपिनविहारी पारल प्र १०००
 —श्रीर समीक्षा चौहान, प्रतापसिंह नवयुग प्रकाश ५७५
 —दृष्टिकोण एव सकेत अक्षयल, पक्षचंद्र विनोद
 १०००
 —विज्ञान बाहरी सीताराम लोकराठी
 —वीथिया मिश्र, दुर्गाशंकर नवयुग प्रकाश ४००
 लक्ष्मीपति विचारों की शैलीक शक्ति अक्षय १००
 लक्ष्मीपति विचित्र जुहुवा चतुर्वाण, तथा चदाभाभा १००
 लक्ष्मीपति विजय का व्यामोह श्रीवास्तव, प्रतापनारायण प्रलय ३००
 —के पथ पर सा, कमलनारायण 'कमलेश' अक्षयल १००
 लक्ष्मीपति विजयथी बाजपेयी, भगवतीप्रसाद बाल सा म ४५०
 लक्ष्मीपति विजय हमारी है संहिता सपा नवयुग प्र मु
 विज्ञान और वैज्ञानिक शंकर मुल्लानपुरी अतुपम ०७५
 —म नहा दशन मट्टाचार्य, वृष्णापद मार्ग दर्शक २५०
 —वार्ता बहूची, पदुमलाल पुनालाल जवापुर प्र गु ३५०
 लक्ष्मीपति विचार एव राजेश्वर विष्वाचर २५०
 लक्ष्मीपति वित्त व्यवस्था शरन अध्ययन मित्तल एल सी राजहंस प्र
 म ६२५
 लक्ष्मीपति विदेशियों से सबह केंद्रीय अधिनियम और नियम (३१ अद्यत,
 १९६५ तक मणारूपभेदित) गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
 दिल्ली
 लक्ष्मीपति विदेशों में एक साठ स्वतंत्रताद, स्वामी हरयाणा २२५
 लक्ष्मीपति विदेशी मोताबकी विद्यादेव विन्नेट, स्वामी वेद संपान
 ०५०
 लक्ष्मीपति विद्यापति और उतरा बाध्य बपूर, गुमवार तथा

- विद्यापति और उनकी पदावली रामवृक्ष बेनीपुरी सपा
परि स बेनीपुरी १०००
- की काव्य प्रतिभा शर्मा गोविंदराम नवयुग प्र ७५०
- पदावली स २ वि राष्ट्र
- पदावली सटीक शर्मा, कृष्णदेव अगोक प्र ५००
- युग और साहित्य सिन्हा, भरविदनाभयण विनोद
१२५०
- विद्यापति की छिन्न चर्चा विद्यापति जगदीश गोविंदराम
विद्यालय प्रशासन एवं संपन्न सुविधा, एत पी विनोद
६००
- व्यवस्था यादव, रामप्रसाद श्रीराम मेहरा
विद्युत इंजीनियरिंग कालीचरण देहाती १६००
- विषय विज्ञान गिरिजादयाल गिरिग सा मडल
विनय धारती सनावदा विष्णुराम सुभानकर भाष्य
विनयपत्रिका पाठक दानकहापुर वर नवयुग यथावार
६७५
- विनयनैविक विद्योतीहरि टीका पु स वा ५५०
- विनय पिटक राहुल साहूवायन महाबोधि १२००
- विनयमालिका साहू, भार पी प्रभात बुक ०६५
- विनय मुखा कल्याण म १२५
- विनोबा के विचार मावे, विनोबा भा ३ सस्ता २००
- विन्हेराली महेसदास राव राज प्राथ्यविद्या
विप्रदास चट्टीवाघ्याय, भारतभद्र हिंद पा (पा) १००
- विमा शर्मा, विमला प्रभुत १००
- विमर्श और व्युत्पत्ति सहज कन्हैयालाल विमय १२००
- विमोचन, कृष्ण रस का गद्य काव्य लक्ष्मीभारवण 'मुद्यायु वि
य कु
- विरजानद चरित वेदानंद, स्वामी हरध्याया १५०
- विरहानुभूति और काव्य मिश्र, सुरेंद्रनाथ कल्याणदास ५५०
- विरहिणी शर्मा, मंगीराम सोम प्रत्युप १२००
- विवाहित जीवन में धीन सप्रयोग गुप्त सुरेंद्रनाथ सारैत
५५०
- विविध प्रसंग धर्मतराय सर्जना भा १ ७५०, भा २-३
१२५० (प्र)
- विविधार्थ भगवानदास खोसबा ६००
- विवेक के रथ ध्वस्त्यी, देवीशंकर, सरा भा ज्ञानपीठ ७००
- संस्कृत भवनार्थक तुकडोगी मद्रास श्रीगुरुदेव १५०
- विवेकानंद सचयन विवेकानंद, स्वामी श्रीरामकृष्ण ७५०
- साहित्य विवेकानंद स्वामी १० स प्रवैत ध्याय
६०० (प्र)
- विज्ञान भारत भूगोल १५०
- विमुद्दिमार्ग धर्मरंगिन भागु २ भा महाबोधि १०००
- विद्वेषधामक धमपावन कौल, कृष्णकृष्णार कि महल
१२५०
- विद्वे इतिहास गुप्ता, रामारणदास राजहम प्र म ३७५
- इतिहास एतलम भूगोल २५०
- इतिहास-जीव महावीर, चंद्रराज, सपा भा ३ ज्ञान-आदि
—वा इतिहास शर्मा, गोपीचंद्र पञ्चपायल ३००

- विश्व का व्यापारिक भूगोल मिश्र, रामनारायण भूगोल
२००
- की भाविवाणी जन-जातिया, मानव-जाति विज्ञान का
भौगोलिक परिचय चिंतोप दास रामप्रसाद ५००
- की प्रमुख शासन प्रणालिया स्वामी महावीरसिंह परि स
२ राजीव, मे ७०० से ८५०
- की महान महिलाए गुर्दा, चवीरानी आधुनिक सा स
५००
- की साहित्यिक गायए शुक्ल, दानुश्वलाल उमेय २५०
- के अनूठ आदश गिरिजादयाल 'गिरीश' नवयुग प्रयागर
०७५
- के प्रमुख सविधान स्वामी महावीरसिंह परि स ३
राजीव मे ७५०
- के प्रमुख सविधान सरल अध्ययन रस्तोगी, दयाप्रकाश
राजहंस प्र म ८५०
- के २० अमर उपन्यास राधेय राधक सपा हिंद पा (पा)
२००
- के महान प्रथेसास्त्री हीलबोनर एलाइड ८००
- के महान वैज्ञानिक केन किलिप राजपाल १०००
- के महान शिक्षा दाली शाक्य, जयजयराम राजपाल
३५०
- के सत महापुरुष देवराज (नरसिंहोर देवराज) काशी
हिंदू २५०
- के सविधान सरल अध्ययन वीरदेवप्रसाद सिद्ध कमल
प्र ३००
- तथा पीठिक भूगोल सरल अध्ययन गुप्ता, ईश्वरीप्रसाद
राजहंस प्र म ५५०
- यम दयाल फकीर शिव सा भा १०७५, भा २
०५०
- भू-कोश भूगोल २५००
- अमण गोविंददास, सेठ हिंद पा (पा) २००
- मानवता की धोर जोषी, इलाचंद्र, धनु हि समि ७००
- मुद्र की रोमाचकारी कहानिया परदेसी, सपा हिंद पा
(पा) १००
- राजनीति का इतिहास वर्मा, दीनानाथ दि पु स ८००
- शांति की धोर केनेडी, जॉन एफ भाद्रभासम ५५०
- सम्पत्ता का इतिहास भापुर, एल पी चित्रगुप्त प्र ५७५
- विद्वान गुरदत्त स २ भा सा खन ३००
- का बल धालीधनात्मक अध्ययन शर्मा, राजनाथ विनोद
३५०
- का बत एक अध्ययन शर्मा, कृष्णदेव हि सा स
३५०
- विद्वेषविद्यालय शिक्षा की समस्याए भेंवेल, चार्ल्स गर्ग ह
२५०
- विप से धर्म की धोर ब्रह्म १००
- विपला प्रभुत नानकसिंह राजकमल ५५०
- विष्णु उपासना रामकृष्णदास 'रसिक देहाती ५५०
- विमुद्दिमगरीपिका कोशाची, धर्मानंद महाबोधि ३५०

विस्तारवादी चीन के दो हजार वर्ष चतुर्वेदी, जगदीशप्रसाद नवभारती २२५ लोक स १ २५
 विस्मृति के पक्ष आचार्य, निरजननाथ भा सा म ३००
 —के भय से गुप्त तनमुखराम सूर्य प्र ३००
 विहारी को वाच्य मला उदयभानु हंस रीगल
 बोटाकिन और हानता अनित रोग गुप्त, सुरेन्द्रनाथ सञ्जित ४००
 बीणा वादिनी गिरिजादयाल गिरीश सा भडल ३५०
 बीर गायण कोहली द्रोगवीर राजकमल १५०
 बीरगाथा स्वनत्र भारत की बरनवाल सुलदेवप्रसाद
 भार्मी ४५०
 बीर दस के बालक बीर चतुर्वेदी, रामजन्म चिन्मय १ २५
 —भूमि हरयाणा भगवानदेव प्राचाय हरयाणा ४००
 —बाणी सावरकर, बीर विनायक दामोदर पृथ्वीराज प्र
 १ २५
 —सतसई श्रूपां मूमल्ल मिथण बगाल हि
 ६००
 —सन्ध्यासी राजेंद्रपान जितामुं श्री स्वामी सर्वानंद जी,
 दयानंद मठ, बीना नगर (पंजाब) ४००
 —हेतु भगवानदेव, प्राचार्य हरयाणा ०७५
 बीरगना बंनम्मा शकर वाम उभेश २५०
 वृद्ध सतसई सुकन, कृष्ण, टीका पु स, वा २५०
 वृद्धावस्था कैसे रोके 'सुमन', प्राचार्य भाग्योदय. २००
 वृ पाक सप्रहृ त्रिवेदी कृष्णप्रसाद धवतरि ३५०
 वृहत् इन्द्रजाल सपूर्ण तानिक देहाती २५००
 —पर्यायवाची कोश त्रिवारी भोलानाथ, सपा सतो स २
 कि महल
 —सुप्तवार कथा जगन्नाथ देहाती २००
 वैणीसहार नाटकम भा सारिणीच, सपा रा वेनीप्रसाद
 ५५०
 वेद मंत्रों के प्रकाश म सपूर्णानंद सस्ता १५०
 वेद रत्न भद्रवाल, वामुदेवशरण स्वाध्याय ५००
 —विमल बदरत शास्त्री हरयाणा २००
 —व्याख्या श्रेय सप्तम पुण विद्यानंद विदेह, स्वामी
 वेद सप्तान १५०
 —सोम विद्यार्थी, जगदीश गोविंदराम
 वेदान्त विवेचनानंद, स्वामी श्रीरामकृष्ण २००
 —सार म तथा हिंदी यशानंद मोतीलाल २००
 वे दिन वर्मा निर्मल राजकमल
 —दिन, व लोग महाय जिबपूरन राजकमल ८५०
 वेदों का दिव्य सदेश भगव १००
 —मे वैदिक ज्ञान राधावल्लभ धवतरि ० १६
 वे महान कंठे बने राष्ट्रबन्धु राजपाल १००
 वे माई के सार भा, धर्मोत्थाप्रसाद धर्मभागा १ २५
 —संज्ञे हजार साल मिथ गिवमागर मजुन
 वेनिश्चिन रत्नमणीरी दीपिन, धानदप्रकाश परि स
 विश्वविद्यालय ७००
 वेत्यावर्ति भा सा मन्मे १०००

वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कार राव रवीद्रप्रताप
 जबलपुर प्र गु १५०
 —उद्भाषा का इतिहास चतुर्वेदी, जगपति हि समि ५००
 —गणार्थे रस्तोगी, सुधीरचंद्र राजीव, मे १ २५
 —परिभाषा कोश कपूर, बदरीनाथ, सपा शब्द-लोक
 १२००
 —प्राणायाम रहस्य शशोककुमार सिंह धवतरि २ २५
 वैदिक व्यवस्था शर्मा, रमेशचंद्र राजीव, मे
 वैदिक शास्त्राय राय, गंगासागर चौखटा २००
 —इतिहासाय निर्णय शिवराज कान्यतीर्थ स २ वैदिक
 पुस्तकालय ८५०
 —उपदेश भा १ श्री १००८ श्री स्वामी जी महाराज,
 व्या श्री पीतावर १ २५
 —कोश सूर्यकांत शास्त्री मोतीलाल २२५०
 —धर्म एवं दर्शन चौध, ए बी २ भा मोतीलाल ५०००
 —धर्म परिचय जगदेवसिंह शास्त्री हरयाणा ० ६५
 —निवधावली शर्मा, मुशीराम 'सोम चौखटा ४००
 —प्रवचन जगत्कृमार शास्त्री मधुर प्र २ २५
 —भारत में यज्ञ और उसका आध्यात्मिक स्वरूप देवराज,
 मुनि हरयाणा २००
 —युग के भारतीय आसूषण रायगोविंदचंद्र चौखटा
 १५००
 —योग-परिचय विष्णुतीर्थ, स्वामी वितान म २ ५०
 —वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वरानक प्रकार मुषिन्टर
 मोतासब भा प्राच्य १५०
 —विमान विमर्श वैद्यनाथ शास्त्री सार्वदेविका शर्मा
 —व्याकरण पाठ्य, उभेशचंद्र चौखटा २००
 —व्याकरण मैकडोनेल मोतीलाल
 —व्याकरण भा १ रामगोपाल नेशनल १/००
 —श्री बगला पूजा-पर्यटन कल्याण म २००
 —साधना विद्यानंद विदेह, स्वामी वद सप्तान ० ५०
 —साहित्य और सन्धिति उपाध्याय, वल्लभ चौखटा ८००
 —साहित्य की रूपरेखा भद्रवाल, हंसराज चौखटा २००
 —साहित्य मे नारी प्रधानकुमार वेदालकार कानुदेव
 ७००
 —स्वर-संभोगा अमरनाथ शास्त्री श्रीमानवीय १०००
 वैद्यकीय मुष्ठापितादीन महता, पी एम चौखटा २००
 वैद्यराज जी की जीवनी (राधावल्लभ) धवतरि ० १६
 वैशाख माहात्म्य शर्मा, जगन्नाथ देहानी १ ५०
 वैशाखी, एक परिचय दाही, धीरज अग्रानी २००
 —की नगर सप्त चतुरसेन प्राचार्य शास्त्रा प्र, भा
 पूर्वार्ध ६००, उत्तरार्ध ६००
 व्याय की वरमात चतुर्वेदी, दरमाननाथ रामप्रसाद १ ७५
 व्यक्ति और वाच्य चतुर्वेदी, मानवनाथ धनुसंधान
 १६००
 —धीर साहित्य काव्योपी, नन्ददुनारे धनुसंधान
 २००
 व्यक्तिरव और विचार बन्दैयामिह, सपा कि महल

- व्यवधान, बिल्वरी भ्रास निल्वरी प्रीत वाजपेयी, शांतिकुमारी लोकभारती
- व्यवहार प्रथिमा सहिता पृहजा ५ ५०
- व्यवहारिक मनोविज्ञान कौशिक, सत्यप्रकाश राजीव, मे ५००
- मनोविज्ञान राय, रामकुमार चौखवा ००
- मनोविज्ञान सरसेना के के राजहंस प्र म ४ ५०
- मनोविज्ञान की रूपरेखा राय, रामकुमार चौखवा ५ ००
- मनोविज्ञान सरल मध्यम कौशिक, सत्यप्रकाश राजीव, म ४ ७५
- व्याकरण बोध परसाई हरिश्चकर जलसपुर प्र म ० ५०
- महाभाष्य १-३ भाष्यिक हिंदी सहित चारुदेव शास्त्री मोतीलाल ४ ००
- महाभाष्य प्रदीपोद्योत तथा छाया सहित मोतीलाल १६ ६५
- व्यापार प्रथं मार्तण्ड रत्नायाम शास्त्री वैहाती १० ००
- द्विदशम चौधरी, कृष्णसहाय भगोक्त प्र म भा १ ३ ५०, भा २ ३ ००
- व्यापारिक तथा भौतिक सगठन एव प्रवच बहुगुणा, सुरेंद्रदत्त सरो स ३ लक्ष्मी ना १० ००
- सन्निवम भ्रमनाल बी एन सरो स ७ नवयुग सा स, भा ० ०० से १० ००
- सन्निवम को रूपरेखा सरसेना, के बी हि प्रचा पु १० ००
- व्यापार और दारिद्रिक विकास भगोक्तकुमार सिंह स २ क्यामसुवर २ ५०
- रा कायाकर चौधरी, युलकिशोर कल्याणमल १ ००
- विद्या युक्त रमेचरन पु स, भा ० ७५
- व्यावसायिक सगठन सरसेना, एस सी सरो स ८ नवयुग सा स, भा ७ ५० से १३ ७५
- व्यापार प्रथिनवन प्रथ विवेकी, हजारीप्रसाद, सपा एत चाद २० ००
- व्रत और त्योहार भलड १ ००

श

- शाकरी गीता चक्रवर्ती चमनलाल ० ४०
- शाकरीवायं नारायणदत्त सिद्धातलनार नवभारती २ ५०
- , उनके भाषावाद तथा प्रथ सिद्धार्थों का प्राबोधनात्मक मध्यम दर्मा, रामभूति सा म, के दालनाद पाडेय हृदयनारायण हृदयण हृदय म ० ५०
- शाकुन्तला रामवृष बेनीपुरी बेनीपुरी १ २५
- शाक सन्मगसिंह राजा धनु लोकरभारती २ ५०
- शांति का स्त्रीत प्रापायाम भलड १ ००
- शांतिराज विष्णुनीय, स्वामी स ३ विज्ञान म १ ५०
- शांतनी मन्मथचौधरी, वीरेंद्र नेगनस ५ ००
- शांतचरि विद्यान कल्याण म २ ७५

- शांतपय ब्राह्मण सायण भाष्य सपूर्ण ५ भा मोतीलाल २० ००
- शांतरेज का प्यादा पटवा, शुभकरण सजल प्र एव सूर्य प्र म १ ५०
- शांतरेज भूमतराय तथा सर्जना १ ५०
- शाब्द और धर्म वर्मा रामचंद्र शाब्द-लोक ३ ००
- शांतरेज राय, सावधप्रभा चौखवा २ ००
- शांतीको का कटरा युक्त, मन्मथनाथ राजपाल शांति कटिंग कला भ्रमनाल, शांतिप्रभा देहाती ४ ५०
- शास्त्र विज्ञान वादय, ए एस कैलाश पु स
- विज्ञान सरल मध्यम दर्मा, देवेन्द्रदत्त २ भा राजहंस प्र म ३ ०५ (प्र)
- शाहू का छत्ता शिरोप प्र भा सर्व १ ००
- शाहू भा शाहू नहीं था चौधरी, राजकमल वि प्र कु ३ ७५
- शाहू में धूमता भाईना उपेंद्रनाथ भद्रक नीलाय १२ ००
- शाकर प्रशावली-दश उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता शाकर भाष्य सहित ३ भा मोतीलाल ११ ७५
- शांति के भ्रमर शहीद श्री शास्त्री पाडेय, रत्नाकर, सपा मोला प्र ५ ००
- के पुजारी, मुद्र के विजेता भटनागर, चाकैविहारी शकुन ६ ००
- शांतिदत्त गोस्वामी, भगवानदत्त सूर्य प्र म १ ००
- शांति-सेवा और विश्व शांति कालेलकर, काका (दत्तात्रेय बाबकृष्ण कालेलकर) म भा सर्व
- शाकुन्तल काशिकात राधाकृष्ण ५ ००
- शांकीपादन के सिद्धांत एवम् विधिमा शर्मा पी पी एशियन
- शादी राहुल साहूत्यायन हि प्रचा पु ६ ००
- शाप और वर दर्मा, रत्नलाल बसल ३ ००
- शाप और जर्बेरी चौध, क्यामसुवर भा कुक २ ७५
- शापर, शीर, सयुत दर्मा, वैद्यनाथ दर्मा प्र
- शापर की रंगीनिपा विजयप्रकाश हि प्रचा पु (पा) १ ००
- शास्त्रीयाभ्यानामामला—हर्ष कीर्ति पटकर, एस एम, भाष्य मोतीलाल ५ ००
- शास्त्राभ्यतत्र द्विवेदी, रमानाथ स २ चौखवा
- शास्त्रीय एव कार्यालयीन भाषेखन, टिप्पणी और संशोध लेखन राष्ट्र प्रचा सति
- शास्त्र राग परिचय ४ भा प्रकाशनारायण कला प्र इ, भा १ ७५, भा २ २ ००, भा ३ ३ ००, भा ४ ५ ००
- शास्त्री की दूसरी की नजर म व्यक्तित्वदृष्टि धार्य बुक ६ ५०
- स्मृति प्रथ भ्रमरनाथ, मना ज्ञानलोक
- शाहूब्रह्मों के धामू दर्मा, देवेन्द्रनाथ हि सा स ३ ००
- शांकायण और गिहायण उपेंद्रनाथ भद्रक नीलाय ५ ००
- शांतिना कला शांकेन्द्रप्रसाद दि पु स ७ ५०

- दिखाण बी समस्यए टेलर, हैरल्ड राजपाल ७००
 शिक्षा और भारतीय लोकतंत्र श्रीमाली, कालूलाल विद्या
 भवन, उ २००
 —श्रीर स्वतंत्रता कान्ट वेम्स बी आत्माराम २००
 —का महत्त्व भगवानप्रसाद सस्ता ३००
 —का विकास भगवानप्रसाद सस्ता ३००
 —की समस्यए माधुर विश्वनाथ सहाय इ पब्लि
 —के तात्विक सिद्धांत जायसवाल नूद ब्र ६५०
 —के मूल आधार गग घोषा रा बेनीप्रसाद ६५०
 —के मूल भूत सिद्धांत द्वे, राघेय्याम दि पु स ३५०
 —के सिद्धांत और आधार गुप्ता एल एन स २
 कैलाश ब्र ८७५
 —दशों गुप्ता एल एन कैलाश ब्र ८००
 —प्रद क्वांटिया किरण योकुल इन्टर युनि १२५
 —मनोविज्ञान गुप्ता, एल एन कैलाश ब्र १२५०
 —मनोविज्ञान जायसवाल सीताराम विद्या प्र म १०००
 —मनोविज्ञान वर्मा, लक्ष्मीबिहारीलाल अशोक प्र म
 ३००
 —मनोविज्ञान स्किनर चाल्स ई आत्माराम १५००
 —मनोविज्ञान एव बाल बुनियादी मनोविज्ञान वर्मा, शारदा
 प्रसाद लोकचेतना
 —मनोविज्ञान सरल अध्ययन सक्सेना, के के राजहंस प्र
 म ५५०
 —मे क्रियात्मक अनुसंधान पाठ्य के पी विनोद ३००
 —मे वस्तुदोषण माहेस्वरी द्वारिकाप्रसाद पु स, वा २५०
 —में सरल सांख्यिकी पाठ्य के पी विनोद ३००
 —विज्ञान जायसवाल, सीताराम विनोद ११००
 —सिद्धांत वर्मा लक्ष्मीबिहारीलाल अशोक प्र म ३००
 शिक्षा और यंत्रोपवीत का रहस्य अल्लंड १००
 शिक्षाश्रीत विज्ञान श्रीदी, जनहुवीप्रसाद चौखवा ०७६
 शिव उपासना रामकृष्णदास 'सिक' देहाती ५५०
 —शेण—शिवदत्त ह्य धार जी भाष्य मोतीलाल १२००
 —महाराणा सरल भाषा, सचित्र, मोटे अक्षरों मे धाम,
 रतीराम, अनु देहाती बहा साहज १५००, देहज एही
 राम १६००
 —सकल विज्ञानद विदेह स्वामी वेद सस्थान ०३०
 शिवसिंह सरोज सपा त्रिलोकी नारायण दीक्षित दिवसिंह,
 टाकुर तेजकुमार ६००
 सिंधु और समभाव घलड १००
 —जन्म से पूर्व घलड १००
 —पानन यशमान, डा प्रिन्स ३००
 गीत मंडल बरनं कानीशरण देहाती ८२५
 गुप्तकार व्रतवषा रामकृष्णदास रमिक देहाती ०७५
 गुप्तकुमारी का वैसाखान वरुण अनु पुस्तकें ३००
 गुप्त कविता बी खोत्र रामपारीगिर दिनकर उदयान
 १०००
 —पुनर्गामिनि प्रवेगिना तिन्हा, हरिहरप्रसाद, अनु
 केंद्रीय हि ५१५

- गुप्त बुद्धि मीमांसा वर्मा, मोलानाथ हि समि ६००
 —हिंदी बाहरी, हरदेव लोकभारती २००
 गुप्त गीत मोदी, श्रीनाथ हि घर, ए १५०
 गुप्तदा चतुरसेन, प्राचार्य कि प्रचा पु ५५०
 गुप्त्य की प्रीति टडन, प्रतापनारायण विवेक ४००
 गूल की सेज माहेस्वरी द्वारिकाप्रसाद रा बेनीमाधव ३५०
 गौर श्री नाथरी पंडित, प्रकाश, सपा हिंद पा (पा) २००
 गोरखाह सूरि भगवानदेव, प्राचार्य हरयाणा ०७५
 गोवडे व्यक्तित्व विचार और कृति भटनागर, बाकेबिहारी,
 सपा आत्माराम
 गोप स्मृतिवा रघुवीर सिंह ना प्र सभा
 शिक्षिक एव विद्यालय प्रशासन योगेंद्रजीठ, भाई विनोद ६००
 —समाजशास्त्र जायसवाल, सीताराम हि समि ७५०
 गौवालिनो पाठ्य, हृदयनारायण 'हृदय' हृदय म ४००
 गोष प्रक्रिया एव विवरणिका वर्मा, सरनामसिंह आत्माराम
 गोषा और लूफान डे, सीता देहाती १५०
 गृगार रस और हिंदी-काव्य गुप्त, गणपतिचंद्र भारतेन्दु भवन
 १२५०
 धंदाराम सधावली भनोट, सरनदास, सपा नेशनल ८००
 धम अर्थशास्त्र गिरारस, बंजनाथ सरस्व स
 —समस्याए श्रीवास्तव, राजमणिलाल श्रीरियटल
 पब्लि १२५०
 —समस्याए एव समाज-कल्याण सरल अध्ययन प्ररोडा,
 धोमप्रकाश राजहंस प्र म ६२५
 ध्वज कुमार वर्मा, जगदीरा देहाती १२५
 ध्यान महात्म्य, वर्मा, जगन्नाथ देहाती १५०
 श्री अनुमति प्रकार लूपरा हरिसिंह हरिसिंह लुबरा, रिटायर्ड
 बैंक मैनेजर, जे ६ राजौरी गाहन नई दिल्ली १५
 ६००
 —अरविद का सर्वान दर्शन वर्मा, रामनाथ श्रीरियटल पब्लि
 १०००
 —अरविद उपावली पीय परविद भा २ श्रीपरविद
 १००
 —अरविद पारिभाषिक शब्द कोश प्राचार्य, नैरावदेव दिव्य
 —अरविद साहित्य एक भाषी श्रीपरविद २००
 —उच्चव गीताजलि कल्याण म २५०
 —बमला स्तव भजरी कल्याण म २००
 —कल्याण २ भा कल्याण म १५०
 श्रीकाली निरुचार्चन कल्याण म ३००
 —स्तव भजरी कल्याण म ३५०
 श्रीकृष्ण चोपडा, मुद्रान उमेज २००
 —जन्माष्टमी मूर्तस्तर गोस्वामी चिन्मनदास, सपा गीता
 ०३०
 श्रीकृष्ण, हिंदी-मूर्तस्तर कोष वर्मा, नैरावदेव, सपा चौखवा
 १५
 श्रीगणेशी तत्त्व विमर्श कल्याण म २००
 श्रीगुरु प्रथ माहिब का टीका, देवनागरी लिपि म श्रीदान सिंह,
 बीभी, जालपर १६००

- श्री गोपाल प्रसाद व्यास अभिनदन ग्रंथ व्यास स्वर्ण-जयती
समारोह समिति, २० थियेटर कम्प्युनिकेशन बिल्डिंग, कनाट
प्लेट, नई दिल्ली १ २० ००
- चन्द्रभानु गुप्त अभिनदन ग्रंथ गुप्त, दीनदयाल, सपा एस
चाद
- छिन्नमस्ता नित्याचन कल्याण म २ ००
- जनसुखराय जैन स्मृति ग्रंथ जैन, जैवद्रकुमार
सनसुखराय स्मृति ग्रंथ समिति, दिल्ली १०००
- ठारा नित्याचन कल्याण म २ ५०
- ठारा स्तव मञ्जरी कल्याण म २ २५
- ठारा स्वरूप स्तव कल्याण म २ ००
- थिपुरा महोत्सवद् कल्याण म १ ५०
- डुर्गा स्तव-मञ्जरी कल्याण म २ ५०
- नारायण लक्ष्मणमाल शिवोत्सव प्रकाश, ब्रह्मचारी विज्ञान
म १ ७५
- नरनामिनि पूजन सनाथदा, विष्णुराम सुयनाकर भाष्य
- पुण्यातम योग प्रसन्नानन्द सरस्वती, स्वामी सत्साहित्य
३.००
- प्रेमसागर बल्लुवाल देहाती १ ००
- बगला नित्याचन कल्याण म २ ००
- बाबू राष्ट्रीय जर्नी स्तोत्राम शास्त्री देहाती ० ६०
- बाला नित्याचन कल्याण म ३ ००
- बाबा स्तव मञ्जरी कल्याण म २ ५०
- ममकवी गीता कल्याण म ३ २५
- श्रीम विजय सुक्त, रामाशकर 'रसातल परिवल' म २ २५
- भुवनेश्वरी रहस्य कल्याण म ३ ००
- भुवनेश्वरी स्तव मञ्जरी कल्याण म ३ ००
- नरबोधेया कल्याण म २ ७५
- श्रीमद्भयानन्द प्रकाश सायानन्द, स्वामी वेद प्रका म ३ २५
- श्रीमद भागवत सुकल, रघुनन्दनप्रसाद 'मटल मटल प्र
१ २ ००
- श्रीमद्भागवत गीता, १४ ग्रन्थ्याय माहात्म्य सहित देहाती
३ ००
- उर्ज राधेश्याम सपुत्रे २० भा क्षत्री, श्रीसात देहाती
१ २ ००
- श्रीमद्भूतचन्द्रगीता पुरोधाय बौधिनो सातवलेकर, श्री दा
स्वाध्याय २ ००
- श्रीमद्भूतचन्द्र रहस्य प्रसन्नानन्द सरस्वती, स्वामी सत्साहित्य
श्रीदत्तभासायर्ण जो धीरजनका पुष्टिभागी चतुर्वेदी क्षीतराम
हि सा कु ५ ००
- श्री महाराज हरिदास जी की बागी छट्टणगी व अक्षर
निरुक्ति महात्म्यार्णो की रचना के भाषात स्वापी, गंगल
दास, सपा दाहू महाविद्यालय, जयपुर सीटो २ ० ००
- माता जी के वचन श्रीमाताजी श्रीपरदिद २ ५०
- 'रमा' धीर जनका काव्य विष्णो, लक्ष्मीप्रसाद 'रमा' हि
साहित्यालय ० ७५
- श्रीराधा जग्याप्टमी महोत्सव गीता
- याचन-चन्दन पोद्दार, हनुमानप्रसाद गीता २ ००

- श्री रामचरित्रमानस श्रवणा रामायण प्रायो काष्ठ सटीक सपा
लक्ष्मणप्रसाद भरद्वाज तुलसीदास तेजकुमार १४ ००
- श्री रामलीला नाटक विन्नेखर देयाल देहाती ७ ५०
- रामलीला नाटक चर्मा जगदीश देहाती १० ००
- लालबहादुर शास्त्री चित्रचन्दनद्वार चित्रकला संगम
२ ५ ००
- विचारसागर श्री निरुधरदास सेमराज
- श्याम मुखसागर सपुत्र, सचिन्द्र मोटे अक्षर नरसिंह श्याम
प्रनु देहाती वडा साइज १४ ००, रहेज एडीशन
१ ६ ००
- श्रीसामा पूवा पदति कल्याण म २ ००
- सपर्या सासना कल्याण म ३ ५०
- श्रीचैतन्यचरितामृत गोस्वामी कृष्णदास श्रीहरिनाम प्रेम
सकीर्तन मङ्गल, नू बाधन
- श्री मा मानदमयी गुरुनिघ देवी श्री श्री मानदमयी भा
१ ३ ५, ६, २ ०० (प्र), भा २, ५ ३ ०० (प्र)
- श्रीविद्या नित्याचन कल्याण म ३ ५०
- श्रीविद्या स्तव मञ्जरी कल्याण म ३ ५०
- सूरजमल जालानमधु मंगल श्री सेठ सूरजमल कौशिक,
श्रीम जैमिनी बहमा २ ५ ००
- स्वामी सत्यदेव परिभाषक पञ्चाव भाषा विभाषा भाषा
वि, पञ्चाव, पटियाला
- हनुमान जीवन चरित्र अकुर, सुखरायदास देहाती.
४ ५०
- हरि भक्त रसामृत सिधु व्या इनामनारायण पाद्वेय
पोस्वामी, रूप सा नि, का १ ६०
- हृण की भाषाकपा उपाध्याय दासकृष्ण प्रथमासा
१ ५०
- श्रेष्ठ कहानिया यादव राजेंद्र, सपा राजपाल २ ५०
- पट्टचक्रनिर्घण्य हस्ताक्षर, स्वामी विज्ञान म ० ७५

स

- सकलितान् भानदकुमार रामप्रसाद २ ५०
- सकलितान् सेधिया, मूलचन्द बल्ल्याणमल २ ५०
- सकरय सक्ति के उद्भूत चमरकार अखड १ ००
- सकीर्तन पाद्वेय, हृदयनारायणमण हृदयस हृदय म ० ५०
- सज्जत बाजपेयी, कलाभा मा ज्ञानपीठ ३ ००
- सक्षिप्त माधमी हृदय प्रसन्न ० २०
- बिहारी सत्सारधर रामचन्द्र ४ ००
- सामान्य दर्शन बर्म, ए के मोतीलाल ४ ५०
- हिंदी व्याकरण मोहन सिंह हि शिक्षक ० ५०
- सङ्गोकरण यादव, जगदीश भा भवन ३ ००
- संगम जानकीवल्लभ शास्त्री जयसिध २ ००
- संगम जोमी, मदनमोहन रामप्रसाद ३ ००
- संगम वैद्यनाथ चद भमरावति १ ५०

- सर्गांतको की चित्रावलि. श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र. संगीत स. प्र ५००
- संगीत निबंध सग्रह श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र, सपा संगीत स प्र ३००
- प्रवीण प्रश्न पत्र प्रयाग संगीत समिति कला प्र, इ ०७५
- प्रदेशिका धनु शिवेंद्रनाथ २ भा मोतीलाल ३००
- प्रश्नोत्तर श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र भा १ संगीत स प्र १६०
- रत्नाकर भा १ संगीत ७००
- संगीतराज—प्रथम धर्मा, प्रेमलता मोतीलाल ५००
- शिक्षक बसंतकुमार कला प्र, इ २००
- संगीतज्ञसि ठाकुर भोकारनाथ ६ भा मोतीलाल ३२००
- सग्रह त्रिपाठी, सूर्यकांत निराला जबलपुर प्र मृ ५७५
- सग्रहालय धनुशोलेन रायचौधरी, डी एमके २५००
- सधर्मिना धीर सिपल विजय रामवृक्ष बेनीपुरी बेनीपुरी २००
- सधर्म नाम, समरसेट राजपाल ६००
- के पथ पर श्रीवास्तव मोतीलाल नवयुग प्रयागार ४२५
- सधवाद धीर सधवाद शासन धर्मा, ब्रजमोहन हिं समि ५५०
- सविता प्रेमशंकर सपा विध्याचल २५०
- सजीवन कहा ? राजेंद्रप्रसाद सिंह बेनीपुरी ३५०
- सजीविनी धारसीप्रसाद सिंह तारामडल १७५
- सत झलोहर साहू, केरहिम बारनो प्रभात बुक २००
- बनीर चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद भा सा म १५०
- कवि मल्लूकादास दोसित, त्रिलोकीनारायण सा सस्थान, राज
- कवि रज्जव सम्प्रदाय धीर साहित्य धर्मा, ब्रजलाज राज प्राच्यविद्या ७२५
- काव्य का दार्शनिक विश्लेषण सह्यल, मनमोहन भारतेंदु भवन १२००
- सतति निरोध बब, क्यों धीर कैपे गुप्त, सुरेंद्रनाथ साकेत ४००
- सत दाहू धीर उनका काव्य मिथ, भगवतव्रत दिनेश प्र कु
- नामदेव की हिंदी पदावली मिथ, भगीरथ... पूना विद्व १५००
- पलटूदास धीर पलटू पय राधाट्टणसिंह सूर्य प्र
- पीजल दसवं साहू धार पी प्रभात बुक २७५
- प्रांसि जेवियर पस्काल, जे प्रभात बुक २७५
- बनंठ माटिना, मिस्टर प्रभात बुक १२५
- बेनेदिक साहू, केरहिम बारनो प्रभात बुक १३७
- मंतरों की शाली शोबडे, धर्मतपोपाल हिं प्रवा पु (पा) १००
- साहित्य युवल, प्रेमनारायण प्रथम १८००
- साहित्य की लौकिक वृष्टमूर्ति धर्मा, धर्मप्रकाश हिंदु एकेडमी
- गिगानी, एच घष्ययन उपाध्याय, रामनारायण सा कुटीर ३००

- सतानसुख प्राप्ति के प्रयोग कल्याण म १००
- सतास सस्कार की रूपरेखा उमाशंकर निर्माण प्र, प १२५०
- सतीली-प्रकाशिका साहू, डोमन 'समीर' श्री दयाल पु भवन २५०
- सतुलन राजेंद्र मिलन, सपा ख १ समानांतर ३७५
- सतुलन सुयोगी मिलन, सपा ख २ समानांतर ३५०
- सतो की भाकिया साहू, केरहिम बारनो प्रभात बुक ३००
- के धार्मिक विश्वास धर्मपाल मैत्री नवजोत २५००
- के साथी साहू, रेमीपोल प्रभात बुक ३२५
- सदेह का सिद्ध परदेसी कल्याणमल ३००
- सध्या पाडेय, रूपनारायण नवयुग प्रयागार ४००
- क्या ? क्यों ? कैसे ? उपाध्याय, गंगाप्रसाद वैदिक प्र म
- योग धीर ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्मचारी जगन्नाथ 'पथिक' एस डी धर्मा, २०००
- संस्कृतलडन सावरकर, कोट विनायक दामोदर पृथ्वीराज प्र सन्यासियों की गुप्त वृत्तिया रामनारायण देहाती ७५०
- सन्धासो धीर सुदरी धर्मा, यादवेंद्र 'सद' कल्याणमल ३००
- का विवाह बरेरकर, मामा विद्या प्र म २००
- सपादक के पृथ्वीस वर्ष युवल, देवीदत्त कल्याण म. ४००
- सपकं भाषा हिंदी लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' राजकमल २५०
- सपूर्ण भान्हा खड, ५२ सडाई मट्टसाल देहाती १२००
- गांधी वाङ्मय भारत सूचना धीर प्रसार मञ्जलय
- महाराष्ट्रमायण शिवव्रतसाल शिव सा ६००
- रामायण खन्ना, उदय विद्यासागर १००
- सयुक्त निकाय काव्यप, भिक्षु जगदीश महाबोधि भा १ ७००, भा २ ६००
- निकाय धर्मरसित, भिक्षु महाबोधि भा १ ७००, भा २ ६००
- राज्य धर्मरीका भूगोल १००
- सयुग्मता, समीकरण एव धार्मिकीकरण लघ्वीकरण धर्मा, चंद्रशेखर भा भवन १२५
- सयोजन कौसल्यायन, भदत धानद महाबोधि ०३७
- ससार की मनीरम बहानियां रामवृक्ष बेनीपुरी बेनीपुरी २००
- बी लोक गायए भूगोल १००
- के महायुद्ध धलद १००
- शासन भूगोल ३००
- सस्कार ससद गीयल, सीताराम भा सा सदन १७५
- ससृष्ट भलनारकोश धर्मा, धर्मप्रवाच वानुदेव
- काव्य में शकुन धर्मा, दीपचंद्र सा मं, मे १२५०
- काव्य शास्त्र का इतिहास बाने, पी बी मोतीलाल १५००
- के महाकवि धीर काव्य उपाध्याय, रामजी... रा बेनीमाधव
- नाट्य कौष, ए बी मोतीलाल १५००
- भाषा बरो, टी बीसवा ३०००

- संस्कृत रचन गौड, गणेशदत्त प्रकाश बुक २००
 —रीतिकाम्य का विकास परमानन्द शास्त्री प्र प्रलिप्तान १६००
 —वाङ्मय उपाध्याय, बलदेव चौखवा १७५
 —व्याकरण द्विवेदी, कर्पिलदेव विश्वविद्यालय ५००
 —व्याकरण की उपक्रमणिका ईश्वरचन्द्र विद्यासागर चौखवा १२५
 —व्याकरण कौमुदी ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भा १-४ चौखवा ८००
 —व्याकरण दर्शन जौधरी, रामचन्द्र प्रयाग, भा
 —व्याकरण, रचना तथा निबन्ध उपाध्याय, रामजी लोक भारती
 —शिक्षण पाठ्य, रामदास विनोद ३५०
 —साहित्य का भाषाशास्त्रात्मक इतिहास पाठ्य, सत्यनारायण सा भं, मे ८००
 —साहित्य का इतिहास उपाध्याय बलदेव परि स ७, शारदा म, भा एव चौखवा १२००
 —साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य की रूपरेखा सहित प्रबन्धान, हंसराज समी स ४ चौखवा ७५०
 —साहित्य का नवीन इतिहास कृष्ण चैतन्य चौखवा २०००
 —साहित्य म मौलिकता एव अनुकरण रत्नोगी, उमेयप्रसाद चौखवा ८००
 —साहित्य के सादृश्यमूलक फलकारों का विकास शर्मा, ब्रह्मानन्द ब्रह्मानन्द शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज, भजनपुर १२००
 —सुकवि समीक्षा उपाध्याय, बलदेव चौखवा २०००
 —संस्कृतानुवाद निबन्धादय गौड, पूर्णादा मोतीलाल १५०
 —संस्कृत शीर साहित्य दुबे भाषुरी रामप्रसाद ४००
 —की परोहर महेश्वर, रामचरण भरविंद प्र मू २६५
 —सम्भरणो के बीच निराला शंकर सुल्तानपुरी भा प्रथमात्ता ३००
 —सईदा जिया घड़ीमानादी हि प्रभा पु (पा) १००
 —संक्षिप्त प्रार्थना पाठ सुकडोबी महाराज श्रीगुरुदेव ०१०
 —संस्कृत-परिचय सनायका, विष्णुराम 'सुमनाकर' माधव सचिन्द्र भाषुर्वेदीय यत्रयस्त्रपरिचय सुरदमोहन चौखवा १७५
 —इन्वेस्टमन्त सन्ना गिवनाय चौखवा ११००
 —त्रिपाठ्यक धर्मोधि परिचय विनान द्विवेदी विरचनाय चौखवा १२००
 —धर्मरक्षा तथा सिगुपरिपालन धर्मा, मुकुन्दस्वरूप चौखवा ४५०
 —ग्रह विमान ज्योतिष, भासायानी धारदाराम ८००
 —परिवार नियोजन कौकषा, हरनारायण देहाती ५२५
 —भौगोलिक कक्षातिया भूनेल ०५०
 —सन्धी भक्ति मोटफोर्ड, वूडस डे प्रमात बुक २५०
 —संस्कृत वापिस जाती है कृष्णचन्द्र एमडे ५००
 —संस्कृत कक्षातिया उदयन चौखवा १४०
 —सर्वाङ्ग कविजाए मनोद, रामनाद भास्काराम १५०
 —सत्य, शिव सुदर्न, तिवारी, रामानन्द 'भारतीयान' २ भा भा मंदिर ६०००

- सत्यमेव जयते मद्रसेन, भाचार्य रामभाषी १७५
 —सत्य हरिश्चन्द्र नाटक बासुदेव, टीका भा भवन १६०
 —हरिश्चन्द्र नाटक व्यास लक्ष्मीशंकर, सभा चौखवा ०६५
 —नारायण व्रत कथा प्रबन्ध ०७५
 —सद्गुरुचन्द्र सूर्य प्र मू २००
 —सदा जवान रहो कालीचरण देहाती १२००
 —शौर शर्मा रामगोपाल दिनेश पीतम प्र मू २००
 —सदाबहार गुलाब रामगोपाल परदेसी सभा प्रवृत्ति प्र ३००
 —सदुपदेश-सुधा सनायका विष्णुराम सुमनाकर माधव सद्गुणी बालक भट्ट, कृष्णदत्त बाल हितैषी ०७५
 —सद्गुणों की सच्ची सर्पति ब्रह्मड १००
 —सद्गोपुत्रकी मून दत्त एन मोतीलाल १८००
 —सद्वाणी माईजी श्री श्री ध्यानदमयी १००
 —सनातन धर्मोद्धार दुबे, नवलक्ष्मणराम ४ भा मोतीलाल २०००
 —भजनमाला भूपेंदरकुमार देहाती २५०
 —समति प्रकरण दिवाकर सिद्धसेन मोतीलाल ६००
 —सपने महक उठे प्रगीत सप्रह त्पारी, रामावतार भास्काराम ४००
 —सप्तक घोष भरविंद श्रीप्रवृत्ति १५०
 —सप्तशती जाति निर्णय धर्मा, छोटेबास हिंदू धर्म. भा १, भा २ ८२५
 —सप्तारविम सावित्रीदेवी विद्याचल १००
 —सप्तवर्ष धर्मा महादेवी लोकभारती ६००
 —सप्तशती मीमांसा कल्याण मं १७५
 —रहस्य कल्याण म ३५०
 —सफर और सपने दशरथराज प्रभात प्र
 —के साथी सुनीता कमलवीर प्र २५०
 —सफल जीवन बघौतिया, रामजीलाल सुरारी ०६६
 —सफलता का रहस्य महाशक्ति २५०
 —सफेद गुलाब श्रीमाताजी श्रीशरविंद २५०
 —सब कुछ चतुर्वेदी, सुदर्लाल 'भरुणेश लोकराज १००
 —चलता है बक्बर, सुदर्शन नवगुण प्र २५०
 —ये निराला चौखवा धीनानाय 'शरण' नवगुण प्रयागार ०७५
 —हैं समान, सब हैं महान चौखवा, नवाबसह इस्टर मुनि १५०
 —सम्बो सरलण कौसिल भाक साइटिफिक एंड इन्स्ट्रियल रिचर्च नौसिल ०५०
 —सम्पत्ता की बहानी डूरेंट, विल कि महल भा १ १०००
 —भा २ ८००
 —समकालीन दार्शनिक समस्याए सत्य, महादेव, सभा, भा भा दर्शन १३००
 —भारतीय दर्शन सच्चिदानन्द मूर्ति के मोतीलाल १२००
 —समसोता धर्मा, श्रीराम 'राज' सूर्य प्र ५००
 —समूहन विकीयमिति मनुहार ए धार भा भवन ५००
 —समदर्शी भाचार्य हरिश्चन्द्र सुखलालजी राज प्राच्यविद्या

समन्वय की गया चतुर्वेदी, जगदीशचन्द्र नवचेतना

६००

समन्वित शिक्षा क्रम की स्थापना ज्ञानपीठ ६२५

समयातीत काता नवहिंद ३००

समरागण-सूत्रधार वास्तु शास्त्रीय भवन निवेश मुकुल, द्विजेंद्र-
नाथ धनु महारचद

समवायी पाठ रचना पारासर रामकृष्ण समग्र नई

०२५

समस्त समस्याओं का एक ही हल झलड १००

समस्यानिकों के सप्तर में सोनी जगदीशचन्द्र केंद्रीय हि

२६०

समस्या और समाधान दिनकर कृष्ण ब्र ४००

समाज अध्ययन की रूपरेखा राय, हरिहरप्रसाद भा भवन

३००

—और अथराथ सरल अध्ययन गोवल मूलचद राजहस
प्र म ६२५

—और राज्य भारतीय विचार मित्तल सुरेंद्र हिंदु
एकेएमी

—और संस्कृति उपाध्याय अमरमुनि समति ३२५

—की अभिनव रचना झलड १००

—के समोसे रामावतार सिंह सिंसीरिया आनंद पु वा

—दर्शन व्यास रामनारायण तुलसी

—दर्शन सिंहा रामेश्वरप्रसाद भा भवन २२५

—दर्शन की रूपरेखा मैकेंजी जे एस राजकमल ७००

—मनोविज्ञान ज्ञानपीठ ४५०

—बादी वर्मा मिथ व्यामचरण नवभारती ४००

—विज्ञान मित्रात और प्रयोग राजाराम शास्त्री सशो स
प्र विभाग

समाजशास्त्र मुशाफान मोतौलाल ५००

—की प्रकृति एवं आधार तोमर रामबिहारीसिंह

श्रीराम मेहरा १०००

—की रूपरेखा मुकुर्जी प्रार एन स २ प्रकाश बुक
३५०

—के मूलत्व तोमर रामबिहारीसिंह २ भा

श्रीराम मेहरा १००० (प्र)

—के मूल मित्रात सरल अध्ययन गोवल मूलचद

भा १ राजहस प्र म ३५०

—के मूनापार तोमर रामबिहारीसिंह मानकचद

—न सिद्धांत तोमर, रामबिहारीसिंह श्रीराम मेहरा
१०००

—के सिद्धांत सरल अध्ययन गोवल मूलचद

राजहस प्र म ६२५

— सरल अध्ययन आनंदप्रसाद २ भा राजहस प्र म.
३०५ (प्र)

— सरल अध्ययन पुष्पराज राजहस प्र म. ५२५

समाजशास्त्रीय नियम तोमर रामबिहारीसिंह राजीव, मे

३५०

—निबंध भायूर, वंशनाथ शर्मा बुक. ४५०

समाज सेवा का क्षेत्र समुनापसिंह हि समि भा १

८५०, भा २ ६००

समाधि बाजपेयी विद्याभास्कर प्रगति प्र ३००

समीकरण सिद्धांत सिंहा, राम, धनु केंद्रीय हि ३३५

समीक्षा पीर मूल्यावन शर्मा हरिचरण चिन्मय १०००

समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्ति

दखन, प्रतापनारायण २ भा विवेक २५०० (प्र)

—के मान शंख शर्मा राजेंद्र श्री भा भारती

—तत्त्व प्रोमप्रकाश शास्त्री हि सा स ३००

समीक्षात्मक निबंध गुप्त सुरेशचंद्र शर्मा बुक १२५०

समीक्षालोक दीक्षित भगीरथ समुद्रथ २०००

—शास्त्र चतुर्वेदी, सीताराम चौखवा २१००

समुद्र विज्ञान भूगोल ३००

समुच्चत राष्ट्र मिथ बेदारनाथ 'प्रभात' वि पब्लि १५०

समुद्र गुप्त टेकचंद्र प्रतिभा प्र १००

सम्बोधन सजीवन व्यास कृष्णानंद 'बेमास' बेमास १००

संघात के भासू वीरभानुसिंह 'प्रताप' नवयुग प्रकाश
४००

—गुहादित्य मुकुल, रामधनलाल प्रवीर ५००

सरकारी मठी और कुजात गांधीवादी लोहिया, राममनोहर
नवहिंद ०५०

सरदाम कुरेंदी, जमीला परिमल २७५

सर जगदीशचन्द्र बसु त्रिपाठी तारा प्रत्युष २००

सरजा शिवाजी देव गोपालचंद्र भा सा म २००

सरदार भगतसिंह न्यादरीसिंह 'बैनेन' देहाती १२५

—भगतसिंह आहृषण 'सरल जन कल्याण

सरल प्रकृगणित रस्तोगी फकीरचंद्र सि महल २३८

—प्रकृगणित सरोन, प्रार प्रार एल राजीव मे

३००

—निबंध और रचना शर्मा, प्रोमप्रकाश हि भा म

१७५

—प्रयोगात्मक मनोविज्ञान अग्रवाल, प्रार एस लक्ष्मी ना

६५०

—प्रायोगिक भौतिकी सुदर्शनप्रसादसिंह ** भा भवन

३७५

—प्रायोगिक रसायन शर्मा चंद्रगोवर भा भवन २००

—सायन्य देहाती ३००

—भाषा विज्ञान गौतम मनमोहन सगो स ३ हि सा स.

८००

—महाभारत देहाती ३००

—राजनीति तथा फ्रेंच ब्रिटेन और अमेरिका की सामन

प्रणालियां रयागी, महावीरसिंह राजीव मे ६००

—राजनीति शास्त्र रयागी, महावीरसिंह २ भा राजीव

मे ३५० से ६५०

—रामायण सहर सुल्तानपुरी भा सा मं २५०

—रामायण देहाती ३००

—सौकर्याए हस्ताशयण स्वामी कृपानाथ सरस्वती

विवेक १५०

- सरल ध्वजहारायुर्वेद और विषविज्ञान गुप्त, युगलकिशोर. चौखवा
- शिक्षण विधियां भारद्वाज, दिनेशचंद्र विनोद ५००
- विज्ञान भनोविज्ञान मायूर, एम एस विनोद ५००
- संस्कृत व्याकरण शुक्ल, स्वामिबिहारी 'तरुण'. सा नि, का २००
- सामान्य विज्ञान शर्मा चंद्रशेखर भा भवन ५००
- हिंदी टोपा, विद्या हेमकुण्ड भा १ १००, भा २-३ १५० (प्र), भा ४ १२५, भा ५ १४०, भा ६ १६०
- हिंदी भगवत किशोर नेशनल. भा १ ०६५, भा २ ०५०
- सर सो बी रामन निपाठी, जगदीशनारायण प्रत्युष २००
- सर्दारी के बीच कमलेस्वर हिंद पा (पा) १००
- सरोज कुशावाहा, गीतारानी चौधरी
- सलवार चली, सलवार चली व्यास, गोपालप्रसाद सुवोध पा
- सर्विधि धापदुद्धार वटुकभैरव स्तोत्र कल्याण म ०७५
- सर्विधि काली कपूरस्तव कल्याण म १००
- सवेरा, सधर्म, गर्जन उपाध्याय, भगवतसरण भा ज्ञानपीठ ७००
- समुद्राल की धरती. मिश्र, सूर्यनारायण 'सरस' ज्ञान-सूर्य सहकार प्रादोलन क्यो ? गौरीशंकर भारतीय कि महल ५००
- सहकारिता. नेहरू, जवाहरलाल सस्ता २००
- सहकारिता, क्या, क्यों, कैसे ? सरस्वतीदेवी पु स, वा १२५
- सहकारी भंडार क्यों व कैसे ? गौरीशंकर भारतीय कि महल ५००
- सह चिंतन समूहस्य सर्वना ५००
- सहज और शुभ मार्कंडेय धारा एव नया सा प्र ५००
- साधना द्विवेदी, इजारीप्रसाद मध्यप्रदेश शासन ३५०
- सहायक पुस्तक प्रौढ साक्षरता के निष्ठाको के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक
- सही रास्ता साहू, केतविम बारनो प्रभात बुक २२५
- सहीदरा भतीक मंगला
- सहायि की बेटी मिश्र, नरेश तरुणियों २२५
- सांख्ययोग (गीता का द्वितीय अध्याय) प्रसन्नानंद सरस्वती, स्वामी सरमाहिल्य ५००
- सांख्ययोगदर्शन का योगोच्चार जोशी, हृदयिकर. चौखवा १५००
- सांख्ययन तन कल्याण म ३००
- सांख्यिकी सिद्धांत एवं व्यवहार सरल अध्ययन यादव, डी. एम १११११ प्र म ६२५
- सागीत समरसिंह राठीर न्यादरसिंह बेचैन देहाती ५५०
- केशव निहालदे ना मुस्तान. न्यादरसिंह बेचैन. देहाती ५५०

- सागीत गोपीचंद्र तर्ज बालकराम न्यादरसिंह बेचैन देहाती. ५५०
- डोला मारू तर्ज बालकराम न्यादरसिंह बेचैन देहाती ५५०
- सूत्रमल तर्ज बालकराम न्यादरसिंह बेचैन देहाती ५५०
- भगत प्रह्लाद न्यादरसिंह बेचैन देहाती ५५०
- मारू का भाव न्यादरसिंह बेचैन देहाती ५५०
- राजा भतुहरि न्यादरसिंह बेचैन देहाती ५५०
- रूपसत तर्ज बालकराम न्यादरसिंह बेचैन देहाती ५५०
- शकुंतला न्यादरसिंह बेचैन देहाती ५५०
- सीता दे तर्ज बालकराम न्यादरसिंह बेचैन देहाती ५५०
- सरवर नीर न्यादरसिंह बेचैन देहाती ५५०
- हरिश्चंद्र न्यादरसिंह बेचैन देहाती ५५०
- साव को भाव शोकत यानवी शोक पा (पा) २००
- साम की बपती वाजपेयी, निर्मला भ्रामं बुक
- की बेला नदा, गुलशन नखयुग प्र ५००
- के स्वर शैलबाला हि श्रकादमी २००
- सकारे व्यास, भेषासाल विद्यापत्त १२५
- साप्रतिरी श्रीवास्तव, कीरेंद्र वि प्र कु
- सातो के स्वर यतींद्रनाथ 'राही' प्रतिभा परि
- सांस्कृतिक परिदृश्य मे भारतीय जीवन चतुर्वेदी, सीताराम *** भा प्र म., त १०००
- साकेत की टीका विश्वभर 'मानव' लोकभारती १२५०
- सागर, सहर्ष और मनुष्य भट्ट, उदयशंकर धारमाराम ५००
- '६० के बाद की कहानियां विजयमोहन सिंह' नया लेखक प्र ७००
- सात एकाकी शर्मा, कन्हैयालाल कृष्ण व ३००
- सात प्रतिनिधि एकाकी लक्ष्मीनारायणलाल, सपा बोरा ३५०
- सात समुद्र मटियाजी, शैलेश कि महल.
- साधक का सवाद कल्याण म ३७५
- साधन-स्य शिवोत्पत्तिका, ब्रह्मचारी विज्ञान म १००
- सकेत विद्युत्तीर्थ, स्वामी स. २ विज्ञान म ०५०
- सपदा रावल, नारायणदत्त विज्ञान म २००
- साधना कुलश्रेष्ठ, सरोजिनी राज्यश्री २००
- के स्वर मिश्र, सूर्यनारायण 'सरस' ज्ञान-सूर्य साधारण एव प्राकृतिक भूगोल वर्मा, ने एन ५००
- जबलपुर प्र म २५०
- साधुन उद्योग. सहेलवाल, गणपनलाल देहाती २५०
- सामयिक सूत्र ज्ञानमुनि मोतीलाल १५०
- सामवेद. स्वाध्याय सूत्रम धरर २००, स्थल धरर. ३००
- गुटका हरिश्चंद्र विद्यालकार देहाती ५००
- सहिवा स्वाध्याय १५००

- सामाजिक अध्ययन श्रीवसुदेव, पूरनचन्द्र*** जवत्तपुर प्र गृ. ५ ००
- कल्याण श्री सुरसा सरल अध्ययन धानदप्रकाश राज-हस प्र म ४५०
- मनोविज्ञान शकलकर, व वि विश्वविद्यालय १००
- मनोविज्ञान परिचय तोमर, रामविहारीसिंह श्रीराम मेहरा १०००
- मानव विज्ञान प्रिचर्ड, ई ई इवाइन्स राजकमल ६००
- मानव शास्त्र एव अन्य जाति कल्याण सरल अध्ययन गोयल, मूलचन्द्र राजहस प्र म ६२५
- मानव शास्त्र सरल अध्ययन गोयल, मूलचन्द्र राजहस प्र म ५००
- विद्यन श्री अरराथ सरल अध्ययन गोयल, मूलचन्द्र राजहस प्र म ६२५
- विकारधारामो का इतिहास सरल अध्ययन गोयल, मूलचन्द्र राजहस प्र म ५००
- विषय दर्शन ५ भा भूगोल २६२
- व्यवस्था तोमर, रामविहारीसिंह श्रीराम मेहरा १०००
- सर्वेक्षण एवम सोज सरल अध्ययन गोयल, मूलचन्द्र राजहस प्र म ४००
- सर्वेक्षण सरल अध्ययन गोयल, मूलचन्द्र राजहस प्र म ५००
- सामान्य ज्ञान भूगोल २५०
- भाषा विज्ञान सवसेना, बाबुराम हि सा सम्मे ७००
- भौतिकी जेन सुदर्शनलाल राजीव, मे २७५
- मनोविज्ञान भटनागर, सुरेश राजीव मे ५५०
- विज्ञान सिन्हा देवेंद्रप्रसाद भा भवन ४५०
- मनोविज्ञान सरल अध्ययन जयवल्लभ सिंह कमल प्र ३००
- मनोविज्ञान सरल अध्ययन सवसेना, के के राजहस प्र म ३७५
- रसायन ठाकुर भा भवन १०५०
- रसायन रसायनी, पद्मसिंह राजीव, मे २७५
- रसायनिक गणना ठाकुर भा भवन ३५०
- रोगो की रोकथाम चौध, त्रियकुमार चौखवा ३५०
- विज्ञान श्रीमाली नदकिशोर विद्या भवन, उ ०७५
- विज्ञान एव गणित, निगम, एस पी *** जवत्तपुर प्र गृ भा १.४५०, भा २ ३५०
- विज्ञान शिक्षण शर्मा, रमेयचन्द्र कुमार सज ३२५
- व्याकरण श्री रचना शर्मा, बैंकट चिन्मय २००
- सामुदायिक विकास श्री वचायती राज नेहरू, जवाहरलाल सरसा २५०
- विकास एव कृषि प्रसार रूपनाथसिंह नद व
- विकास योजना बिन्देवरी सिंह साधना म २२५
- छात्राधिकारी दुर्गाशंकरप्रसादसिंह नाथ नव सा म १००
- सोशियली भारतीय प्रोफेसर गिशा सप्त भा प्रोड ० ३५
- सारथ्यक पाठ्ये कपिल साय ३७५

- सारनाथ दिव्यं धर्मरक्षित, मिथु. महाबोधि ० ३७
- वारणासी धर्मरक्षित, मिथु महाबोधि १५०
- सायं सौंदर्य-लहरी कल्याण म ३.५०
- सार्वजनिक प्रयोजनाय देवेंद्रप्रसादसिंह भा भवन १०००
- सावन झालो मे शर्मा, यादव 'चन्द्र सूर्य प्र म. ३००
- की धूप नीरव स्वास्थ्य सरिता १६०
- की बेला रघुवशदयाल 'सावत नवयुग प्रयागार ३७५
- साली साहिबा की सादी वर्मा मनोहर कृष्णा म ३५०
- साहस श्री पराक्रम की कहानिया चौहान, मनहर शर्मा बुक २००
- के पुतले रामवल्लु बेनीपुरी ३ भा बेनीपुरी. २०० (प्र) साहसपूर्ण पात्रायें भूगोल १००
- साहारा पर एक दृष्टि भूगोल ०५०
- साहित्य श्री उपयोगिता रामचन्द्र 'प्रदीप' चिन्मय १५०
- का उत्कण्ठ पाठ्य, रघुनाथारायण विजय पु म ६००
- का मनोवैज्ञानिक अध्ययन उपाध्याय, देवराज एस चाद ६००
- का मूल्यांकन वर्सकोल्ड, डब्लू बी विश्वविद्यालय ३००
- का विश्लेषण वासुदेवनन्दप्रसाद भा भवन ६००
- का साथी द्विवेदी, हजारीप्रसाद राष्ट्र प्रचा समि १५०
- की प्राथमिक प्रवृत्तिया मिश्र, जगन्नाथप्रसाद श्रधमाता ३००
- की मान्यतायें वर्मा, भगवतीचरण हिंदु एकेडमी ४५०
- कुछ विचार ज्ञानवती ज्ञानालोक
- के मान श्री मूल्य राज सा प्रका ४५०
- के विश्लेषण वासुदेव भा भवन
- के साथी कैलास कृष्ण लोकरेतना २००
- चितन वर्मा, रामकुमार कि महल ६.५०
- दर्शन जानकीवल्लभ शास्त्री जयधिव २००
- निष्प मिश्र भगीरथ विश्वविद्यालय ७००
- परिचय शर्मा, यदनमोहन राष्ट्र प्रचा समि
- प्रवेश एक समीक्षा शाशनद सिंह कमन प्र २००
- रसायन (स्वतंत्र) दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह 'नाथ' नव सा म १००
- सायन के प्रमुख पक्ष त्रिपाठी, राममूर्ति वाणी विज्ञान
- समय त्रिलोकीनाथ 'प्रभो' भा प्र मंदिर ३००
- समीक्षा केसरीदुमार मोतीलाल ३००
- सरोवर बगालीसिंह हि सा स २५०
- सहृदय द्विवेदी हजारीप्रसाद नैशेय ५००
- साधना श्री सपथे राय, रणवीर भा सा म ५००
- साधना की गृष्टभूमि मा, बुदिनाथ 'करव' परि स २ ज्ञानपीठ ६५०
- साधिकायें. कैलास कृष्ण लोकरेतना २२५
- साहित्यालोचन रामगोपाल परदेवी प्रगति प्र १०००
- साहित्यालोचन विक्रमगुमार शशीर प्र ३००
- सिद्धा मिश्र भगोच प्र २५०
- साहित्यिक निबंध श्रधमात, जनश्याम * श्रूव

साहित्यिक निबन्ध गुप्त, वृषपतिचन्द्र समी स ३ अशोक प्र ८००

- निबन्ध गुप्त, शास्त्रिस्वरूप समी स ४ अशोक प्र
- निबन्ध चतुर्वेदी, भिरिबर शर्मा मोतीलाल २५०
- निबन्ध बमद्रे ब्रह्मचारी शास्त्री मोतीलाल ४००
- निबन्ध लक्ष्मीनारायण सुवासि राजकमन ३५०
- निबन्ध वाजपेयी, नन्दपुरारे लोकचेतना
- निबन्ध शर्मा, मनमोहनलाल जगन्नाथ कृष्णा व १२६५
- निबन्ध शर्मा, राजनाथ समी स ८ विनोद ८००
- निबन्ध नये आपाम जोशी, जीवनप्रकाश नवयुग प्र ५००

साहित्य और समुद्र वाली, मुद्रयान प्रिटकाप्ट ५००
 सिगाजी की बाया गाराडे रमेगचंद्र नेशनल ४००
 सिहूर की लात्र वर्मा, लक्ष्मीदेवी 'चक्रिका' मंगला
 सिक्की भाषा, लिपि और साहित्य जेतकापो, मोतीलाल
 श्रीमती राज जोतावाणी ४ एल ६४ लाजपत नगर, नई
 दिल्ली १४ २००

सिधु की केटो पाडेय, वीरेंद्र प्रनूप सा ४५०
 सिद्दह्त विजय एवनकुमार कल्याणमल १२५
 सिद्दनाद दीक्षिक लखतुया साकेत १२१
 सिंहल दीप गोविन्दराव, सेठ मा विरव १५०
 सिन्धवर नाथ सिद्दीकी, सलमा मा ज्ञानपीठ
 निकता कण पाडे, सी डी, अणु विख्यातल २५०
 सिखों के गुरु झा, कमलनारायण 'कमनेदा हि सा स
 सिगरेट बीडी कैंस छोडे नरदनाथ सुदीप पा (पा) १००
 सिपाल सु ल कितिमा भिणु महाबोधि ०५०
 सितार बादन श्रीवास्तव, सतीशचन्द्र भा १ समीत स प्र
 २००

—सुधा निगम, विक्रमादित्यसिंह हि भवन ५२५
 सितारों की पाठशाला श्रीमप्रकाश 'आदित्य सूर्य प्र २५०
 —सी सैर कृष्णचंद्र एकडे १५०
 सिद्ध मृत्युञ्जय योग पाठक, केदारनाथ स २ स्यामसुन्दर
 १००

सिद्धात कौमुदी अर्थप्रकाशिका पाडेय, राधाधरमण मोतीलाल
 —कौमुदी प्रयोग सूची जितेंद्रियाचार्य जगदीशचन्द्र ४ भा
 मोतीलाल ६१०
 —कौमुदी प्रदोनरी सुवल, रामगोविन्द २ भा मोतीलाल
 १००

—कौमुदी सध्याम्या विषय मोतीलाल
 —सिरोमणि, जोशी, केदारदत्त ३ भा मोतीलाल ४१००
 सिद्धाय का नृ ल्याम श्रीवास्तव, गणेशप्रसाद नवयुग प्रया-
 गार २१०

सिनेमा मशीन धापरेटर रत्नप्रकाश 'सीन' देहाती १२००
 सिने समीत बहार सुरेश श्रीकृष्ण देहाती ४५०
 —स्टाम एनकम गुप्त, श्रीकृष्ण देहाती ४१०
 सिधु विद्वाननाथ अथवाल, रामगोविन्द 'मनोर उचित प्र
 २५०

सिधारासमरपण गुप्त नगेंद्र, मंगा नं २, नेगनय ७५०
 —गुप्त का साहित्य गुप्त, परमनाथ नवयुग धयागार ५००

सिर का ददं महाशक्ति १५०
 सीता की मा रामदत्त बेनीपुरी बेनीपुरी १५०
 —बनवास शर्मा, जगदीश देहाती १२५
 सीताराम चौपाई समयसुन्दर साहू
 सीता स्वयंवर शर्मा, जगदीश देहाती १२५
 —हरण शर्मा, जगदीश देहाती १२५
 सीमा शर्मा, विमला प्रमत्त ३००
 सीमाए चौहान, मनहर उमेस १२००
 सीमा की और 'ऋषिनारायण पावन' नारायण प्र ५००
 — बरुं और फूल कश्मीरीलाल जाकिर विद्यनन्द १७५
 सीवन कला विद्यार्थी मोहनलाल कि घर, जो २५०
 सुन्दर दात और सनकी देख-रेख गुप्त, सुरेन्द्राथ साकेत.
 २५०

सुन्दरव श्याकपंक कंसे बने तुवे सुरेशचन्द्र देहाती
 सुन्दरी बसु मनोज हिंद पा (पा) १००
 सुकुवि कुजबिहारी वाजपेयी स्मृतिप्र स त्रिपाठी, रामरत्न सपा
 साहित्यपावन १०००
 —समीक्षा शर्मा, श्रावदनारायण भा भवन ४००
 सुल शास्त्रिमण गृहस्थ अखड १००
 सुख गृहिणी शर्मा हनुमानप्रसाद 'वैद्य' महाशक्ति २५०
 —जीवन महाशक्ति २५०
 —राजकुमार और प्रम्य कहानिया वाइल्ड, आरकर विष्या
 चल १००

सुखदलानी कथा जैन, हीरालाल, सपा भा ज्ञानपीठ
 सुाम नद्य त्रिपाठी, त्रियुगोनारायण रामप्रसाद १३७
 सुत निपात धर्मरत्न, भिणु महाबोधि ४५०
 सुदामा चरित अश्विनेश्वरप्रसाद, टीका भा भवन १२५
 सुधा नाथर, टी एन गोपीनाथ नवभारती ३५०

सिधु भजनावलि तुकडोनी महाराज श्रीगुहदेव ०६०
 सुधि के दाण गुप्त, विद्या हरबोबराम २००
 सुधिया सैप रह गर्वो रमशचन्द्र 'सजल दिवाकर प्र १००
 —की रिमभिम अथवाल, कैलाशचन्द्र भालोक प्र, मु ३००
 सुनहले शैवाल वास्यायन, सच्चिदानन्द हीरानन्द 'अनेय'
 प्रसार १२००

सुनो कहानी उदयन चौखवा १५०
 —अनभेजय रवाचार्य, भाद्र नेशनल ३००
 —भाई साधो परसाई, हरिसंकर भा १ दूनिदसैल बुक
 ३२५

सुवह की इन्जार विमलराय नवयुग प्र ३००
 —मेरी है धीराम सिंह 'सलम अन्नना २००
 सुबहृष्य भारती अण्णस्वामी कि महल
 सुरदा और सधय चतुर्वेदी मंगलदररण, सपा विनोद
 १५०

सुरतिपा ना बिसरे श्रीमा, रतिबिहारी 'निर्भौक' जमचंद-
 पुर मोरपुरी १५०
 सुराना इदोण गाइड सपतलाल ०२५
 —उर्जन गाइड सपतलाल ०१०
 —नाथ डोल निर्देशिका स ८ सपतलाल ०१०

सुराना नाप तौल प्रवेशिका स ६ सपतलाल
 —नाप तौल सारणी स २ सपतलाल १००
 —भोपाल गाइड सपतलाल ०१०
 —मध्यप्रदेश डापरैक्री सपतलाल ५००
 सुजन सिंह इटर बलास में दुबै, रामउजागर साकेत १००
 मुलपते विड भादानी हरीश वातायन ६००
 मुस्तान और निहालदे बिरला लक्ष्मीनिवास नेशनल ५००
 सुवर्ण रेखा जीवी शिवकुमार नेशनल ३००
 सुबीरा दुग्गल, कर्तारसिंह राजपाव २५०
 सुपमा पाडेय हृदयनारायण हृदयेश हृदय म १७५
 सुमंतुलित परिवार अशोक १००
 सुहागिनी मोहन राकेस हिंदू पा १००
 सूत्रिया एव सुभाषित विवेकानंद स्वामी श्रीरामकृष्ण (पा)
 १००
 सूक्ति सचयन जैनेंद्रकुमार पूर्वोदय ३००
 सूते पेड सन्ध पत्त नदा, गुलशन अशोक पा (पा) २००
 सूधीचेच विज्ञान द्विवेदी, राजकुमार सद्यो स ३ चौखवा
 २५०
 सूत्रद्वयम राहुल साहृत्पायन महाबोधि ६००
 सुना आचल विखरे मोती दुसाच विजेंद्र कुमार सज ४००
 सूनी वाच्य सग्रह चतुर्वेदी, परचुराम सद्यो स ४ हि सा
 सन्धे ६००
 सूर का शृंगार वर्णन तिवारी, रसाशकर धनुसधान २०००
 —की साहित्य साधना मिथ्य भवतस्वरूप शिवलाल
 १०००
 सूरज नया, पुरानी घरती इयामनदन क्रिओर रा वेनीप्रसाद
 सूरजप्रकाश करणोदानजी ३ भा राज प्राच्यविद्या
 सूरतें और सीरतें कपिल आचार्य वेनीपुरी २२५
 सरदास सारस्वत, शिवशंकर अशोक प्र २५०
 —और उनका धर्मगीत प्रचंडिया महेंद्रनागर कमल प्र
 —और उनका धर्मगीत शर्मा, श्रीनिवास अशोक प्र ७००
 —का काव्य वैभव शर्मा मूचीराम 'सोम', प्रथम १२५०
 —धर्मगीत सार वाजपेयी, पुरुषोत्तम हि प्र, वा
 ४५००
 सूर पदावली चतुर्वेदी, बरसानेलाल, सपा सा सगम, म
 —वालकृष्ण टंडन, प्रेमनारायण, सपा हि सा भ १५०
 सूरसागर वाजपेयी, नददुलारे, सपा २ भा स ४ ना प्र
 सभा १२५० (प्र)
 सूर साहित्य की भूमिका भटनागर, रामरतन सद्यो स २
 रा वेनीमाधव ५००
 —साहित्य विमर्श दशरथराज प्रभात प्र ५००
 —सुधा टंडन, प्रेमनारायण, सपा हि सा म ११०
 सूर्य ना रक्त चौहान, मनहर उमेश ६००
 —संदिग्ध चिन्तना धवतरि ०७५
 —रेन और सुनाह महेंद्रनाथ एमके ३००
 सूर्यनगर भारद्वाज शांतिलाल 'सोम' चित्रमुद्र प्र ५००
 सूर्येई स्तूत्र नागर्षिक शास्त्र २ भा गुप्त, बुद्धविहारीलाल
 रामप्रसाद-३५०

सैकेंडी स्कूल बीजगणित रे, मनोहर रामप्रसाद ४००
 सेस्त की विचित्रताए लक्ष्मीनारायण हिंदू पा (पा)
 १००
 सेठ गोविंददास व्यक्तित्व एव साहित्य शुक्ल, विजयकुमार''
 सा भवन, इ १२५०
 सेतुबध भा १ मिथ्य, उपनारायण ज्ञानोदय ५००
 सेना की गौरव गाथा शर्मा, भोमप्रकाश इन्टर ग्रुप १२५
 सेनागी तिवारी, रामानंद 'भारतीनंदन भा मंदिर ५००
 सेनापति और उनका काव्य मिथ्य, दुर्गाशंकर नवयुग प्र पा-
 गार ३५०
 —पृथ्वी मित्र चतुर्वेदी, सोताराम पु स, वा १५०
 सेमर के फूल पाठक, बच्चन 'सलिल' जमशेदपुर भोजपुरी
 ०८०
 सैतान-मुअम धमोरा, सवाईसिंह सपा सध सवित ४००
 —सुजस धमोरा, सवाईसिंह, सपा सध शक्ति
 सैद्धांतिक एव भारतीय कृषि रसायन शास्त्र श्रीवास्तव,
 अनंतकुमार कि महल ७५०
 सैय मानचित्र-दर्पण तिवारी, विश्वनाथ अशोक प्र म
 १५०
 सैर सपाटा चंद्रपालसिंह 'मयक', नवयुग प्र पागार ०७५
 सोबायण चिमनजी राज प्राच्यविद्या
 सोना या झाजदी कृष्णकुमार 'नूतन कुमार सज १५०
 सोने का झरना आरसीप्रसाद सिंह वारामडल १७५
 सोनो निपजै रेत मे वर्मा, गजानन कि घर, जो ४००
 सोमनाथ चतुरसेन, आचार्य हिंदू पा (पा) २००
 सोमेश्वरव्रत मानसोल्लास, मिथ्य, शिवशेखर चौखवा
 सोपे खड्गूर जागे गुप्त, टेकचंद्र प्रतिभा प्र २००
 सोरठ विजेता धूमकेतु बोरा ६००
 सोवियत रूस पिता के पत्रों में जैन, जगदीशचंद्र नेशनल
 ५००
 सोहिनी मिश्रा, उपादेवी नेवल ४००
 सोदयें सोमासा काट, इमैनुअल नि महूत्र ७५०
 —लहरी शंकराचार्य सद्यो स २ विज्ञान म ५००
 —शास्त्र और रस सिद्धांत गुप्त, गणपतिचंद्र भारतेंदु भवन
 ६५०
 सोक चिकित्सा महाशक्ति ०५०
 सोरों का सत शर्मा, रामकृष्ण, आर्य बुक २००
 स्कूल अक्षरगणित दत्त भा भवन ३००
 —उपासिति रामशरणप्रसाद भा भवन
 —बीजगणित मजूमदार, ए और भा भवन ५००
 स्टांच और उनका व्यवसाय टंडन सतप्रसाद हि समि
 ७५०
 स्टीम इंजन की पहानी ईश्वर प्रैडिक नेगल ३५०
 —इन्जीनियर्स गाइड बपुर, एच सी देहाती १२००
 —इन्जीनियर्स हैंडबुक बपुर, एच सी देहाती २०२५
 —नोबोगोइड रत्ता हरिचंद्र धारामराम १५००
 स्टैटिस्टिक तवा नारी परीक्षा जोगी, जनहवीप्रसाद चौखवा
 ०७५

- स्त्री रोप विज्ञान द्विवेदी, रामनाथ चौखवा ३५०
 स्थल मुद्र कला तथा उत्तरी अफ्रीका का सग्राम टडन, बी
 प्रार के प्रकाश बुक ७५०
 स्थानीय शासन मिश्र, मृत्युञ्जयप्रसाद भा भवन १०००
 स्थिति विज्ञान गुप्ता, पूरनमन राजहंस प्र म १५०
 स्नेह के भ्रातृ पाठक, बच्चन 'सलिल' जयशिव १५०
 —के बंधन जितेंद्रचंद्र भारतीय नवयुग प्रकाश ३५०
 स्पेन भूगोल १००
 —की लोककथायें सिवाती कि महल
 स्पे पेंटिंग कालीचरण देहाती १२००
 स्फुलिंग महेंद्र प्रताप मानव प्र ४००
 स्मरियों का स्वयं बाली, सुदर्शन प्रिंटर्स ३००
 स्माल स्केल इंडस्ट्रीज गुप्ता, कालीचरण देहाती १२००
 स्मृतियों की छाँह में देवदत्त शास्त्री प्र प्रतिष्ठान ४००
 स्याह सर्वोद्वेग विपाठी, धर्मनिय झावर प्र ३००
 स्वच्छन्दतावाद एवं छायावाद का मुलतत्त्वक अध्ययन शिव
 करण सिंह नारायण १३००
 स्वतंत्र और प्रतिनिधि शासन जैन, पी सी हि समि ११००
 स्वतंत्रता का अर्थ तिकारी, रामानंद 'भारतीयनदन' भा
 मंदिर ४००
 —का परिणाम ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २००
 —की बलिबेदी जगन्नाथप्रसाद मिलिंद सा प्र म, स्वा २००
 —के सेनानी श्रीवास्तव, हरिमोहनलाल हि प्रचा पु (पा)
 १००
 —पूर्व हिंदी के सचर्य का इतिहास रामगोपाल हि सा सम्मे
 —सग्राम के विस्मृत पृष्ठ मुकुंद सिंह ग्रथ नि दि ३००
 स्वतंत्र भारत की सदाचार संहिता भट्टाचार्य, कृष्णपद मार्ग
 दर्शक ४००
 —भारत के सूरमा कौशल रामस्वरूप कमल प्र, अ ४००
 —राष्ट्रों के सवध सुशीलचंद्र सिंह तायी प्र १५००
 —समाज की शिक्षण पद्धति जवली, बी के हि सा म
 १०००
 स्वप्नदोष और वीर्य सतीवन पाडेय, धमरचंद्र धवतरि २००
 —कैने रोके 'गुमान', आचार्य भाग्योदय ३००
 स्वप्नमयी विष्णु प्रभाकर हिंद पा (पा) १००
 स्वप्नविद्ध मिश्र, धम्मनाथ अभिज्ञान ३००
 स्वप्न पाकार वैद्य, हरिचरण भा सा सदन ४००
 —गुदरी द्विवेदी, रामवचन 'भरविद' राजराजेश्वरी पुस्त
 वासय, कचहरी रोड गया ८५०
 स्वप्नों की मोद वाजपेयी, भगवतीप्रसाद भा प्र कु ६००
 स्वयम्भवा वयोपाध्याय, माणिक सुबोध पा (पा) १००
 स्वराज्य दान मुद्दत भा सा सदन ७५०
 —मू धागे शर्मा भगवतीलाल वि घर, जो १००
 स्वयं म विप्लव मिश्र, लक्ष्मीनारायण हि प्रचा पु ३००
 स्वयं-कमल धुवल, कमल सा बेंद्र, दि ३५०
 —बाला बाजपेयी, प्रोमप्रकाश मंत्र ३५०
 स्वयं कैसे रहें शर्मा दामोदर मन्मथ १००
 —भारत केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो केंद्रीय स्वास्थ्य.

- स्वस्थ रहने के सरल उपाय शर्मा, लक्ष्मीनारायण हिंद पा,
 (पा) १००
 स्वातंत्र्यवीर सावरकर शक्ति और तत्त्वज्ञान सावरकर,
 वीर विनायक दामोदर पृथ्वीराज प्र १५०
 स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास वर्मा, कालि रामचंद्र १०००
 —हिंदी उपन्यास, सन् १९४७-१९६२ चौहान, रामगोपाल
 सिंह विनोद ३००
 —हिंदी काव्य सन १९४७-१९६२ चौहान, रामगोपालसिंह
 विनोद ३००
 स्वाधीनता के पथ पर गुरुदत्त भा सा सदन ७५०
 —के सेनानी ध्रुववाल, श्रीकृष्ण कृष्ण ३००
 स्वाभाविक भोजन चौधरी, गुगलकिंदोर कल्याणमल १००
 स्वामी चट्टोपाध्याय शरत्चंद्र हिंद पा (पा) १००
 —विवेकानंद राय ब्रह्मदेव राजीव इ १५०
 स्वास्थ्य एवं प्राणायाम शकटाचंद, स्वामी भाग्योदय ३००
 —और भोजन तनसुखी, व्यास कि घर, जो १००
 —और सद्दत्त गुप्त, धर्मदेव स २ श्यामसुंदर २००
 —विज्ञान और सांख्यिक आरोग्य धाणेकर, भास्कर गोविंद
 चौखवा ७५०
 —शिक्षा पाठावली धाणेकर, भास्कर, गोविंद चौखवा
 ३५०
 स्वाहा द्विवेदी, रामवचन 'भरविद' सुलभ ३००
 स्वित्जरलैंड का संविधान सरल अध्ययन कमल प्र

ह

- हस्त भूमतराय, सपा सजंता ६५०
 हस्ते निर्भर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर नेशनल ३५०
 —रोते प्रामु माटिया, प्रोमप्रकाश 'धवल' राजपूत धनिल
 प्र म २००
 —हस्ते कैसे जिये? मार्टिन, स्वेट सुबोध पा (पा) १००
 —रोना पाडे, वगप्रताद पु स, वा २००
 हसाने वाली लोककथाएँ श्रीवास्तव, हरिमोहनलाल आत्मा-
 राम १५०
 हस्तिजे जरा श्रीवास्तव पी एन कि घर, जो भा १
 २२५, भा २ १००
 हसी की कहानिया राव, मोहिनी एमके १००
 हडोती लोकगीत भट्ट चटोपेतर कृष्णा २०००
 हृदयारबद हमले से निहंते धकाव राजवशी भानदुमार
 इटर यूनि १५०
 हृदयारो की कहानी कृष्णादेवी इन्टर यूनि १५०
 हनुमान उपासना रामकृष्णदास रसिक देहाती ४५०
 —जीवन चरित्र सुलरामदास देहाती ४५०
 हम इनकी सतान हैं रामवचन वेनीपुरी २ भा वेनीपुरी २००
 (प्र)
 —और समान वैमल, वानकृष्णदास भा २ रामप्रसाद १००

- हम कैसे बिये बपूर, श्यामचन्द्र विद्या प्र म.
 —जाग उठे खामानीसिंह 'धनगर नवीनतम २५०
 —बदल तो दुनिया बदले प्रसङ्ग १००
 —भारत से क्या सीखें मैक्समूलर आदर्श हि १०००
 —सब एक हैं बर्मा गंगोहर प्रभात पत्रिका १२५
 हमारा घर कृष्णचन्द राजपाल २००
 —देश भूगोल १००
 —देश मोतीलाल २००
 —नेफा हमारा लड़ाई का कमलनारायण 'कमलेश' हि सा स ७७
 —संवैधानिक इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन आनंद, पी एल नेशनल
 —संसार भूगोल २५०
 हमारी चिड़िया सुरेवासिंह स ५ नेशनल ७००
 —दुनिया भूगोल ०५०
 —पृथ्वी ब्रजल बालकृष्णदास रामप्रसाद ३२५
 —पृथ्वी व्यास, श्रीकांत, धनु शिक्षा भा २५०
 —युग-सिद्धिणि प्रोफेसर प्रसङ्ग १००
 —लोक क्याए चतुर्वेदी, शिवसहाय सस्ता २५०
 हमारे कवि और लेखक गोड राजेंद्रसिंह स ३ कैलास व २२५
 —कवि हमारे बच्चे हनुमानदास 'चकोर नवयुग वधागार १००
 —चौधये सिंहल महावीर राज सा शका २००
 —जानवर सुरेवासिंह नेशनल ३००
 —नाट्यकार श्वेतहृदय रामप्रसाद
 —पय प्रदशक अग्रवाल, भारतभूषण राधाकृष्ण ४५०
 —पव और लोहार हरिहर सिंह सन्म्या ८००
 —प्रेरणा स्त्रोत राधा, रणवीर एत चाद ३००
 —बहादुर जवान रतूडी वीरेंद्रमोहन उमेश
 —बहादुर हवाकाज रतूडी वीरेंद्रमोहन उमेश
 —महान् जलदासिचारी प्रसङ्ग १००
 —लेखक गोड, राजेंद्रसिंह सशो स ५ सा भवन, इ ६००
 —सगीतक प्रकाशनारायण कला प्र, इ ३००
 —सत हमारी एकता चुक्कन, धमरनाथ विद्या प्र म २५०
 —संस्कार मूत्र लक्ष्मीराम शास्त्री सस्ता ३००
 —साधक हमारी सिद्धिया चुक्कन, धमरनाथ विद्या प्र म २५०
 —साहित्यकार कृष्णनारायणपाल गा भवन इ ३००
 हमें जीने दो मदन, धाचार्य प्रोमुक्ता १५०
 हरदीन व्यास कृष्णानंद 'वेधाम बघात २००
 हरं पाली तलवार त्रिवेदी, चन्द्रभूषण रमई काकां सवैत ०७५
 हरयाणा का इतिहास भगवानदेव धाचार्य हरयाणा १६००
 हर पीता भिचारी, गोपीनाथ नवयुग वधागार २२५
 हस्तलिखित धर्मा नितिनबिलाचन, सया स १. दि राष्ट्र ३२५

- हर्ष मुकजी, प्रार के मोतीलाल
 हलचल वीरदेव 'वीर' भा भवन १५०
 हलधरदास कृत सुदामा चरित्र तिवारी, सिमाराम भा भवन ५००
 हन्फी मूण्डप्रतापसिंह जदवेदपुर भोगपुरी १००
 हवाई जहाज के आविष्कारक व्यास, श्रीकांत, धनु राजनात १५०
 हुवेली हाथानं, नैथिनयल राजपाल ५००
 हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का सक्षिप्त विवरण सन् १६००-१६५५ ई० तक नागरी प्रचारणी सभा. ना प्र सपा ६००
 हस्त सामुद्रिक ज्योतिष न्यादरसिंह 'वेचन' देहाती ८२५
 —सामुद्रिक शास्त्र न्यादरसिंह 'वेचन' देहाती ४००
 हार्ड स्कूल व्यापारिता चरनसिंह मुरारी २२५
 —स्कूल भौतिकी मुक्ता, प्रो पी मुरारी २२५
 —स्कूल रसायन मुक्ता, प्रो पी मुरारी २५०
 —स्कूल स्मृति चित्रण मेहरोत्रा, पी सी 'राजीव, मे ०७५
 हाजी पीर का दर्रा राजकुमार हि प्रचा पु २००
 हाडोती कहावतें पाठक, नायलाल हाडोती २०००
 हाथी का शिकार चौहान, मनहर उमेश २००
 —के दात धर्मतराय सजना २५०
 हायर सेकेंड्री प्रकाशित धर्मा, हरस्वरूप स ३ रामप्रसाद ३००
 —सेकेंड्री धनियार्थ गणित धर्मा हरस्वरूप स ३ रामप्रसाद ४००
 —सेकेंड्री धर्मशास्त्र जैन, नवीनचन्द्र रामप्रसाद ६२५
 —सेकेंड्री नागरिक शास्त्र इकबालनारायण शिवलाल ७००
 —सेकेंड्री नागरिक शास्त्र धर्मा, एम पी स ३ रामप्रसाद भा. १. ३००, भा. २ ५००
 —सेकेंड्री बीजगणित धर्मा, हरस्वरूप स. ३ रामप्रसाद भा १ ३५०, भा २ २५०
 —सेकेंड्री भूगोल चतुर्भुज, मामोरिया शिवलाल ७००
 —सेकेंड्री भूगोल मिश्र, प्रकाशनारायण भा १ स ३ रामप्रसाद ४००
 —सेकेंड्री वाणिज्य धर्मशास्त्र सेठ, एम एल शिवलाल ६००
 हारजीत का भेद मानदकुमार सस्ता २००
 हासी के वाय्वे सिद्धांत भादी, देसराजसिंह कला प्र, दि हास्य बचि-सम्मेलन व्यास, गोपालप्रसाद, सया मुबोध पा (पा) १००
 —पी प्रवृत्तियां चतुर्वेदी बरसानेनाथ राज्यधी ४५०
 —बत्तीसी बपूर, बन्दैयापाल राजकमन ४५०
 —विनोद विद्यार्थी, जगदीना गोविंदराम
 —व्याकरण, व्यास, कृष्णानंद 'वेधाम' वेधाम (पा) १००

- हिंद-चीन वेदप्रचारसिंह हिंदु पृ ११००
 हिंदी प्रथमीया शब्द कोय नैन, छगनलाल पूर्वव्योति ६००
 —आंदोलन बर्मा लक्ष्मीकांत, सया हि सा सम्मे
 —आलोचना के आधार स्तम्भ, सुक्ल, रामचंद्र राधाकृष्ण
 —मानुसुखन प्रानंद प्रपाली (संसाधक एव कुंजी)
 देशपांडे नरहर गंगाधर सो प्रतिभा साने, ३२३ नारायण
 पेठ, पुना-२७ ७५०
 —इंगलिश ग्रामर रत्नप्रकाश 'शील' देहाती ३००
 —इंगलिश बोलचाल रत्नप्रकाश 'शील' देहाती ३००
 —इंगलिश लेटर राइटिंग रत्नप्रकाश 'शील' देहाती ३००
 —उद्भव, विकास और रूप बाहरी, हरदेव कि महल
 ७५०
 —उपन्यास श्रीवास्तव, शिवनारायण नद व्र १०००
 —उपन्यास उद्भव और विकास सिनहा, सुरेश भ्रशोक
 प्र. २०००
 —उपन्यास और वयार्थवाद त्रिभुवनसिंह सयो स ४
 हि प्रचा पृ ६००
 —उपन्यास कला टडन, प्रतापनारायण हि समि ६५०
 —उपन्यास का विकास और नैतिकता सुक्ल, सुखदेव
 भ्रनुसंधान १५००
 —उपन्यास . पृष्ठभूमि और परम्परा बदरीदास प्रथम
 २०००
 —उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास सिनहा,
 लक्ष्मीकांत भ्रनुसंधान एव प्रथमभारती २०००
 —उपन्यास 'सिद्धांत और समीक्षा शर्मा मक्खनलाल
 प्रभात प्र १२००
 —उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन शर्मा, बहानारा
 यण 'विकल' नवयुग प्रकाश ४२५
 —उद् 'स्वादेश्य भ्रप्रवाल घनस्याम भ्रपूर्व
 —एकाकी महेंद्र, रामचरण सरस्व पृ ४५०
 —एकान्ती की शिल्पविधि का विकास सिद्धनाथकुमार
 प्रथम २०००
 —और धार्यसमान शर्मा, मृपेंदेव धार्यसा १००
 —और उसकी उपनामाओं का स्वरूप अदाप्रसाद 'सुमन'
 हि सा सम्मे १०००
 —और गांधी कालिकाप्रसादसिंह लता प्र १५०
 —और गुजराती नाट्य साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन
 उपाध्याय, रणधीर नैद्यमल २०००
 —और तेलुगु के मध्यकालीन राम साहित्यों का तुलनात्मक
 भ्रनुसंधान सूननारायण मूर्ति, चावल हि सा भ
 १५००
 —व्या साहित्य और उनके विचार पर पाठकों की रचि
 का प्रभाव राय, गोपांत प्रथम, प २५००
 —कवि कौमुदी चतुर्वेदी, गौरीशंकर काशी पु
 —कविता में राष्ट्रीय भावना. गुप्त, विशाखाय मा मा म.
 १६००
 —कवियंत्रियों के प्रेमगीत क्षेमचंद्र 'सुमन'. हिंद पा (पा)
 १०००

- हिंदी कवियों की कहानिया जैन, श्रीचंद्र कल्याणमल १५०
 —कहानों की रचना प्रजिया श्रीवास्तव, परमानंद. प्रथम
 १२५०
 —कहानी, विधान एव विकास पाडेय, रामजी राष्ट्रल
 पुस्तकालय
 —का आलोचनात्मक इतिहास मिश्र, रामचंद्र मोतीलाल
 ६००
 —का काल सूत्र देवदत्त शास्त्री कि महल
 —का विकास बाहरी, हरदेव कि महल
 —काव्य और भरविद दर्शन चौहान, प्रतापसिंह युगवाणी
 प्र १५००
 —काव्य की निर्गुण धारा में भक्ति युवल, घ्यामसुंदर
 काशी हिंदू ८००
 —काव्य, पिछला दशक शर्मा, गोविंद 'रजनीक' मंगल
 —काव्य मज्जा पाडेय, रामशंकर चौखवा ३००
 —काव्य में नियतिवाद, सबूत १०५० हि से २००० तक
 शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश' कि महल १५००
 —काव्य में प्रतीकवाद का विकास, १६००-१६४० वीरेंद्र
 सिंह हि सा परि.
 —काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत चौधरी, सच्चिदानंद भ्रनु-
 संधान १८००
 —की छायावादी कविता का कला विधान बलबीरसिंह
 'रत्न' नैशनल १२५०
 —की प्रयोगशील कविता और उसके प्रेरणास्रोत (१९४३-
 १९६०) नागर, श्रीराम सरदार ८००
 —की लोकप्रिय हास्य कविताए. रॉबिन शां पुष्प हिंद
 पा (पा) १००
 —की समझमाए शर्मा, कामेश्वर, नापल्टी
 —कुलांगव कल्याण म ७५०
 —कृष्ण-भक्ति काव्य पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव युवल,
 विश्वनाथ भा प्र गदिर १२००
 —के प्राचलिक उपन्यास वाजपेयी प्रकाश नद स ५००
 —के प्राचि मुद्रित प्रथ कृष्णाचार्य, सया भा ज्ञानपीठ
 —के प्राचुनिक कवि तिवारी, रामप्यारे हि सा स
 ३००
 —के प्राचुनिक कवि रवींद्र भ्रमर भा सा म १२५०
 —के कवि और लेखक चौरसिया, केशरीप्रसाद अयोक्
 प्र म
 —के कहानीकार केसरीनुनार मोतीलाल २३५
 —के दस सर्वश्रेष्ठ कथात्मक प्रयोग गुरु, भरविद, सया
 रणजीत
 —के प्रतिनिधि कवि तिवारी, रामप्यारे हि सा स
 ६५०
 —के प्रतिनिधि निबंधकारों का साहित्यिक परिचय दीपित,
 दयाशंकर राकेश पु म १००
 —के प्राचीन कवि तिवारी, रामप्यारे हि सा स ३००
 —के प्राचीन प्रतिनिधि कवि मरसेना, द्वारिकाप्रसाद
 विनोद. १०००

- हिंदी के रीतिकालीन प्रसकार ग्रंथों पर संस्कृत का प्रभाव
जैन कुन्दलाल सा नि ४ १६००
- के साथ दक्षिणी भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण
दक्षिण भा ३००
- के स्वच्छतावादी उपन्यास जोहरी कमलकुमारी ग्रंथम
२०००
- के स्वीकृत प्रबंध कृष्णाचार्य सदा आर्वावत् २०००
- कोलावली निणय कल्याण म ३२५
- पद्य सिंहा अमरनाथ भा भवन २५०
- पद्य का विकास गौतम प्रमप्रकाश अनुसंधान १६००
- पद्य कुमुमाकर जैन जिनेंद्रकुमार कमल प्र १५०
- पद्य मजरी धागरा विश्व २५०
- पद्य साहित्य जोशी जगदीशचंद्र चि मय १०००
- ज्ञान प्रभाकर श्रीकृष्ण सरल जबलपुर प्र मू १७५
- तथा मराठी उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, १९००
१९१० ई० गुप्त शांतिस्वरूप भा सा म १५००
- तथा मराठी कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन
केलकर २ स अमर २०००
- दशरूपक धनजय त्रिगुणायत गोविंद सशो स सा
नि, का ८०० ?
- यु इगलिया सधदेय नारायण ज्ञानपीठ ६००
- नाटक पर पारवात्य प्रभाव मिश्र विश्वनाथ लोकभारती
१६००
- निबंध मिश्र शिवकुमार सशो स ६ नारायण बुक एव
प्रवीर ५००
- निबंध का विकास शर्मा ओंकारनाथ अनुसंधान १६००
- निबंधादेश रामशंकर शास्त्री चौखवा २२५
- पद संग्रह कासलीवाल, कस्तूरचंद जल प्र क्षत्र तथा जैन
सा ३००
- पद्य कुमुमाकर जैन जिनेंद्रकुमार कमल प्र १५०
- पद्य पुण्याजलि धागरा विश्व २५०
- पर्यायों का भाषागत अध्ययन कपूर बदरीनाथ हि सा
सम्म
- प्रत्ययशास्त्री गणनायसेन चौखवा भा १ १०००, भा
२ १५००
- प्रबोध मेहरोत्रा दलदेवप्रसाद श्री धर्ममोडा ५५०
- भक्ति-साहित्य म लोच तत्त्व रवींद्र अमर भा सा म
१२५०
- भाषा धलोल घोर वनमान अवाप्रसाद सुमन विनोद
६००
- भाषा आंदोलन गोविंददास सठ हि सा सम्म
- भाषा घोर निरि का ऐतिहासिक विकास त्रिपाठी सत्य
नारायण विश्वविद्यालय ५००
- भाषा का इतिहास मिश्र रमेश प्रजात धर्मोद प्र
३५०
- भाषा का उद्भव घोर विमल जयाल गुणानंद विनो-
- भाषा की धातुनिक समग्रता तथा ध्वन्य निबंध शर्मा,
छत्तामसिंह अरुण' चि'मय ७५०

- हिंदी भाषा शिक्षण योर्षेद्वीत, भार्द सशो स ४ विनोद
६००
- भाषा शिक्षण मजूषा तारकेश्वरप्रसाद सिंह भा भवन
३५०
- शुद्धभूत शाकर भाष्य हनुमानदास स्वामी व्या भा १
चौखवा १२००
- मसयालम कोश परि स दक्षिण भा ५५०
- मुहावरा कोश तिवारी भोलानाथ सदा सशो स २
कि महल
- मे प्रवृत्त संस्कृत शब्दों में अर्थ परिवर्तन पाल, केशवराज
प्राची २००
- मे रसैंग प्रयोग एव अर्थ निबंध पाठय रामदीन अभिज्ञान
३००
- वार्थिकी नर्मद, नया भा सा म स १ ६५०, स २
१०००, स ३ १०००
- विश्वकोश भा २५, ८ ना प्र सभा २५०० (प्र),
विशेष स ३०००
- वैज्ञानिक घोर तकनीकी प्रकाशन निर्देशिका १९६६
कौंसिल ५५०
- ध्वन्य विनोद व्यास, गोपालप्रसाद सदा भा सा म
८००
- व्याकरण की रूपरेखा दीमशित्त ज म राजकमल
१०००
- व्याकरण तथा रचना शर्मा प्रमिला कुमार सठ ४८०
- व्याकरण व अर्पणित विरागी स ३ रामप्रसाद
२००
- शब्दशास्त्र १० भा मे ना प्र सभा भा १ १२००,
भा २ १००० भा ३ १२००
- शास्त्रानंद तरंगिणी कल्याण म २७५
- सायण कला पाठय वसिष्ठदेव प्रवीर १२५
- सभास रचना का अध्ययन जैन, रमेशचंद विनोद १०००
- साहित्य द्विवेदी हजारीप्रसाद अक्षरचंद ७५०
- साहित्य अनुशीलन मुञ्ज रामेश्वर अचन जबलपुर प्र
मू ४००
- साहित्य एक धातुनिक परिदृश्य वास्त्यायन, गच्छदानंद
हीरानंद 'अर्थय राधाकृष्ण
- साहित्य एक भूल्यानन ठाकुर विविनविहागी सदा
वैशाली प्र
- साहित्य एक सर्वेक्षण धानी योगराम बुक हाइव ८००
- साहित्य घोर बिहार सहाय गिबर्जन स २ वि राष्ट्र
८००
- साहित्य का इतिहास द्विवेदी, हजारीप्रसाद सदा राज-
कमल
- साहित्य का इतिहास राय मिहांगन मिदना प्र दण प्र
न ५००
- साहित्य का इतिहास श्रीवास्तव जगदीशप्रसाद
प म इ १२५०
- साहित्य का इतिहास श्रीवास्तव दयानंद धर्मिताम क

- हिंदी साहित्य का इतिहास सुरेशचरण राजीव, मे १.००
 —साहित्य का इतिहास दिग्दर्शक. भद्र, सोमनाथ 'आदर्श'.
 श्रीनस. १२५०
 —साहित्य का प्रारम्भिक युग पांडेय, राजविशोर. नवहृद
 १.००
 —साहित्य का बृहत् इतिहास भा १, २, ६, १३, १६ ना
 प्र समा. २५०० (प्र)
 —साहित्य का विकास. शर्मा, वामुदेव सूर्य प्र ५००
 —साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास त्रिपाठी, राजकिशोर
 ब्रह्मण प्र १५००
 —साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास. गुप्त, गणपतिचन्द्र भारतेंदु
 भवन १५००, छी-लक्षम स. २२५०
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास रमेशचन्द्र मुरारी ०७५
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास शुक्ल, विजयकुमार जल-
 पुर प्र. गु ०७७
 —साहित्य का सरल इतिहास गौड़ अर एन गजहंस प्र
 म २२५
 —साहित्य : कुछ विचार दीक्षित, त्रिलोकीनारायण नवयुग
 प्रकाशक १०००
 —साहित्य के इतिहास की रूप-रेखा तिवारी प्रार सौ
 जलपुर प्र गु १००
 —साहित्य के इतिहास पर चूने हुए प्रश्न और उनके उत्तर
 शुक्ल, विजयकुमार जलपुर प्र गु ०७५
 —साहित्य कौशल वर्मा, धीरेन्द्र... ज्ञानभंडल. भा १ २५००,
 भा. २ २०००
 —साहित्य पर बोद्ध धर्म का प्रभाव मानविका, विद्यावती
 हि प्रका पु २०००
 —साहित्य पर विषय प्रमरणात् ज्ञानालोक. २५०
 —साहित्य : पिछला दशक विश्वास, सभा. सूर्य प्र म
 ७००
 —साहित्य में वृष्ण कुनयेष्ट, सरोजिनी राज्यश्री १२५०
 —साहित्य युग और धारा कृष्णनारायणप्रसाद 'भाग्य'.
 भा भवन ६५०
 —साहित्य युग और प्रवृत्तियां शर्मा, शिवकुमार. ससो एव
 परि स. २ शर्मा प्र ६००
 —साहित्य : विभाग तथा परसाई, हरिश्चकर... जल-
 पुर प्र गु १५०
 —साहित्य संपद भा १ एशिया पत्रिका ६५०
 —साहित्य शरीर. शर्मा, चक्रधर, सभा चौखन्ना २०५
 —साहित्य : सर्वज्ञ और समीक्षा अमानन्दप्रसाद सिंह
 हि सा. स ७००
 —सेवी सप्ताह टाइम, प्रेमनारायण छ. २ हि सा भ २०००
 हिंदुओं की घोषी कल्याण म ३००
 —के वन धीरे ल्योहार रामकृष्णदास रत्नक देहावी. ४५०
 —के वन पर्व धीरे ल्योहार. त्रिपाठी, रामप्रताप शास्त्री.
 लोचनवती ७००
 हिंदुत्व सावरकर, बीर विनायक दामोदर राजधानी. ३५०
 —ना भाङ्गान राष्ट्रधर्म १००

- हिंदुत्वान की भावो. मिथ, श्यामसुंदर. साकेत. १००
 —हमारा धर्मपाल शास्त्री. राजपाल १५०
 हिंदु धीरे मुसलमान लोहिया, राममनोहर नवहृद. ०७५
 —देव परिवार का विकास संपूर्णनंद मित्र
 —धर्म ए चलत उपाध्याय, श्रविकादत्त भोवीलाल. ३००
 —नीतिशास्त्र मल्लिक, जगदीशनारायण भा भवन. ३००
 —संस्कार पांडेय, राजवती ससो स २. चौखन्ना.
 १६००
 —संस्कृति के मूल तत्त्व श्यामप्रकाश. रवींद्र प्र. स्वा. १.५०
 हिलोपदेश पंडित, नारायण हिंदु पा (पा) १.००
 हिलोपदेश सत्यकाम शास्त्री देहावी. २५०
 हिमगिरि-विहार रूना सुधानु चतुर्वेदी तपोवनजी महाराज
 स्वामी वामुदेव
 हिम विद्ध गुप्त, जगदीश भा ज्ञानपीठ. ३००
 हिमाचल की लोक भाषा. ध्यानसिंह कुमार मन्ज. ३००
 —के लोक-गीत मिट्टे, हरिकृष्ण निदेशक, लोक-
 गणक विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-४ ३००
 हिमानल जीवनप्रकाश 'जीवन' चमनलाल. २१०
 हिमालय तिवारी, रामानंद 'भारतीनंदन' मा. भविर. ५.००
 —आवाज देता है वृत्तधर, रवींद्र विन्मय १.२५
 —का योगी व्यासदेव योग नि ६००
 —का सदेश प्रमिहोत्री. दिवाकर साकेत. १.००
 —के आचल में घटना, तरन तारन नवयुग प्रकाशक ५.५०
 —खतरे में जनार्दन शंजय. चौवरी.
 —गज रत्ना है चंद्रशेखर नायर, एन. श्रीनिकेतन. १.७५
 —ना भुङ्गी कवच चतुरी काच हि. परि. व. १.००
 —ने पुकारा है, लीला. देहावी. १५०
 —पर लाल छाया. शाताकुमार. भा सा. सदन. १२.००
 हिये तथा उपाय मूलचंद्र 'प्राणेश'. स्वास्थ्य सरिता. १००
 हिरोसिमा के फूल. मारिस, एदिता राजकमल
 ३.५०
 हीन के गुण तथा उपयोग. कोचका, हरनारायण. देहावी. ३.००
 हीरे मोता अथवाल, रामप्रकाश भा सा. प्र. २००
 हुमायू शीवास्तव, हरिश्चकर श्रीराम मेहरा. १५००
 हुदय भा नंदकिशोर. देवधु २००
 —की ओर दुर्गाप्रकाशदास 'सह' 'नाथ'. नव सा. म. २.५०
 —के वचन जम्भ, हेनरी राजपाल. ७००
 हेमिन्दे. उपेन्द्रनाथ 'प्रदक' नीलाभ. १.२५
 हेड बुक प्राक विविध कन्दुनयन रामभवतार 'वीर'. देहावी.
 ३४५०
 हैजा (विषुविका). जोषी, जनहोत्रप्रसाद. चौखन्ना. ०.७५
 हैनिमेत नातिक द्विजिब्र हैनिमेत, महारामा एम एल.
 बुक प्र १ ३००
 हैमलेट. प्रमनराम, शनु संज्ञा ६००
 होटल का कमाटा. वाञ्छेयी, भगवतीप्रसाद भा प्र नि. ३.५०
 होमियोपैथिक में इजेसन वर्णवाल, एम. एल. एम. एल. बुक
 —पारिवारिक चिकित्सा दर्पण शैक्षित, राजेश देहावी. ६००
 द्विर्तम उपेन्द्रनाथ 'प्रदक' नीलाभ १२५